

॥ अथ सूत्रावलोकनप्रकारः प्रारभ्यते ॥

पृष्ठाङ्काः

सूत्राणि

(अ)

- ३ अथाज्ञे ब्रह्मजिज्ञासा ।।१।१।१।
 १८ आनन्दमयोऽम्यासात् ।।१।१।२।
 २१ अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ।।१।१।१९।
 २४ अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् ।।१।१।२०।
 २५ आकाशस्तल्लिङ्गात् ।।१।१।२२।
 २६ अतएव प्राणः ।।१।१।२३।
 ३२ अनुपपत्तैस्तु न शरीरः ।।१।२।३।
 अर्भकौकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न
 निनाद्यत्वादेवं व्योमवच्च ।।१।२।७।
 ३५ अत्ता चराचरग्रहणात् ।।१।२।९।
 ३८ अन्तर उपपत्तेः ।।१।२।१३।
 ३९ अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ।।१।२।१७।
 ४० अन्तर्याम्यधिवैवादिपु तद्धर्मव्यपदेशात् ।।२।१।१८।
 ४२ अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ।।१।२।२१।
 ४५ अतएव न देवताभूतम् ।।१।२।२७।
 ४६ अभिव्यक्तेरित्याश्रमरथ्यः ।।१।२।२९।
 " अस्तुम्होर्वादिः ।।१।२।३०।
 " आमनन्ति चैनमस्मिन् ।।१।२।३२।
 ५३ अक्षरमन्वराण्णतधृतेः ।।१।३।१०।
 ५४ अन्यभावव्यावृत्तेश्च ।।१।३।१२।
 ५९ अन्यार्थश्च परामर्शः ।।१।३।२०।
 ५९ अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम् ।।१।३।२१।

पृष्ठाङ्काः

सूत्राणि

- ६० अनुकृतेस्तस्य च ।।१।३।२२।
 ६० अपि च स्मर्यते ।।१।३।२३।
 ६३ अतएव च नित्यत्वम् ।।१।३।२९।
 ६८ आकाशोऽर्थान्तरत्वादिद्वयपदेशात् ।।१।३।४१।
 ७२ आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीर-
 रूपकविन्यस्तगृहीतेर्दर्शयति च ।।१।४।१।
 ८१ अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्या-
 मपि चैवमेके ।।१।४।१८।
 ८२ अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ।।१।४।२२।
 ८४ अभिधानोपदेशात् ।।१।४।२४।
 ८४ आत्मकृतेः परिणामात् ।।१।४।२६।
 ८९ अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगति-
 म्याम् ।।२।१।५।
 ९० असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रपरत्वात् ।।२।१।७।
 ९० अपीतो तद्भ्रमसंगादसमंजसम् ।।२।१।८।
 ९४ असद्व्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मांतरेण वा-
 च्यदेशात् ।।२।१।१७।
 ९५ अधिकं तु भेदनिर्देशात् ।।२।१।२२।
 ९६ अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ।।२।१।२३।
 ९७ आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि ।।२।१।२८।
 १०४ अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत् ।।२।२।५।
 १०५ अम्युगमेऽपि अर्थाभावात् ।।२।२।६।

पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि	पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि
१०५	अद्वित्वानुपपत्तेश्च । २।२।२।	१४६	अणवश्च । २।४।७।
१०६	अन्यथाऽनुमितौ च ज्ञाशक्तिवियोगात् । । २।२।२।	१४७	अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि दर्शयति । २।४।११।
१०९	अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षम् । २।२।१७।	१४७	अणुश्च । २।४।१३।
१११	अमति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यया । २।२।२१।	१५५	अभ्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न माक्तत्वात् । ३।१।४।
११२	आकाशे चाऽविशेषात् । २।२।२४।	१५६	अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्र- तीतिः । ३।१।६।
११३	अनुस्यूतेश्च । २।२।२५।	१५८	आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात् । ३।१।१०।
११७	अन्यावस्थितेश्चोदयनित्यत्वादविशेषः । २।२।२६।	१५८	अनिष्टादिकारिणामपि श्रुतम् । ३।१।२२।
११८	अविष्टानानुपपत्तेश्च । २।२।२९।	१५९	अपि च सप्त । ३।१।१५।
११८	अन्तवत्वमसर्वज्ञता वा । २।२।४१।	१६२	अन्याधिष्ठिते पूर्ववदभिलाषात् । ३।१।२४
१२२	अस्ति तु । २।३।२।	१६३	अशुद्धमिति चेन्न शब्दान् । ३।१।२५।
१२४	अमम्बवस्तु सतोऽनुपपत्तेः । २।३।९।	१६८	अनः प्रबोधोऽस्मात् । ३।२।८।
१२५	आषः । २।३।११।	१७१	अपि चैवमेके । ३।२।१३।
१२७	अनन्ता विज्ञानमनमी क्रमेण तद्विज्ञादि- नि चेन्नाविशेषात् । २।३।१५।	१७१	अल्पवदेव हि तत्प्रधानत्वात् । ३।२।१४।
१३०	अविरोधश्चन्द्रनवन् । २।३।२३।	१७१	आह च तन्मात्रम् । ३।२।१६।
१३०	अकल्पितैर्दोष्यादिति चेन्नाभ्युपगमात् । हृदि हि । २।३।२४।	१७२	अतएव चोपमासूर्यकादिवत् । ३।२।१८
१३९	अंशो नानात्र्यदेशादन्यथा चापि दा सदाशक्तिनवादित्वमधीयते एके । २ । ३ । ४३ ।	१७३	अभ्युवदग्रहणात्तु न तथात्वम् । ३।२।२९।
१३९	अपि च मन्यते । २।३।४५।	१७५	अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाम्याम् । ३।२।२४।
१४१	अनुज्ञानगिहारी देहमन्माऽपोतिरादि- वत् । २।३।४८।	१७५	अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः । ३।२।३७।
१४१	अमन्नेषाम्भित्तर । २।३।४९।	१८६	अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात् । ३।३।६।
१४१	अमाम एव च । २।३।५०।	१८८	आतन्द्रादय प्रधानम् । ३।३।११।
१४२	अट्टानियमान् । २।३।५१।	१८८	आप्यानाय प्रयोजनमाभावात् । ३।३।१४।
१४२	अभिपन्त्यनिर्वापि र्थम् । २।३।५२।	१८९	आप्यनच्छाद्य । ३।३।१५।

पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि	पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि
१८९	आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् ।३।३।१६	२२४	अतस्त्वितरज्यायो लिङ्गाच्च ।३।४।३९।
१८९	अन्वयादिति चेतस्यादवधारणात् ।३।३।१७।	२२७	आत्विज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै हि, परि- क्रियते ।३।४।४९।
१९६	अनियमः सर्वेषामविरोधः शब्दानुमा- नाम्याम् ।३।३।३१।	२२८	अनाविष्कुर्वन्नन्वयात् ।३।४।५०।
१९७	अक्षराधियां त्वन्नरोधः सामान्यतद्वावा- म्यामौष्मदवत्तदुक्तम् ।३।३।३३।	२३१	आवृत्तिरसकृदुपदेशात् ।४।१।१।
१९९	अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनः ।३।३।३५।	२३१	आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति । ।४।१।३।
१९९	अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेलोपदेशा- न्तरवत् ।३।३।३६।	२३२	आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः ।४।१।६।
२०२	आदरादलोपः ।३।३।४०।	२३३	आसीनः सम्भवात् ।४।१।७।
२०४	अतिदेशाच्च ।३।३।४६।	२३३	अचलत्वं चापेक्ष्य ।४।१।९।
२०५	अनुबन्धादिभ्यः प्रदान्तरपृथक्त्ववद्दृष्टश्च तदुक्तम् ।३।३।५०।	२३४	आप्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम् ।४।१।१२।
२०७	अङ्गाववद्वास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम् ।३।३।५५।	२३६	अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदब्धेः ४।१।१५।
२०९	अङ्गेषु यथाश्रयभावः ।३।३।६१।	२३६	अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दर्श- नात् ।४।१।१६।
२१३	आचारदर्शनात् ।३।४।३।	२३६	अतोऽन्याऽपि ह्येकेषामुभयोः ।४।१।१७।
२१४	अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्यैवन्तद्दर्श- नात् ।३।४।८।	२३९	अतएव च सर्वाण्यनु ।४।२।२।
२१५	असार्वात्रिकी ।३।४।१०।	२४३	अस्यैव चोपपत्तेरेप ऊन्मा ।४।२।११।
२१६	अध्ययनमात्रवतः ।३।४।१२।	२४५	अविभागो वचनात् ।४।२।१६।
२१८	अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः ।३।४।१९।	२४७	अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ।४।२।२०।
२२०	अतएव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ।३।४।२५।	२४९	अधिरादिना तत्प्रथिते ।४।३।१।
२२२	अत्राधाच्च ।३।४।२९।	२५१	अतिवाहिकास्तलिङ्गात् ।४।३।४।
२२२	अपि च स्मर्यते ।३।४।३०।	२५४	अप्रतीकालम्बनान्नयति इति बादरायण उभयया दोषात्तत्रानुश्रुत् ।४।३।१५।
२२३	अनभिमतं च दर्शयति ।३।४।३५।	२५७	आत्मप्रकरणात् ।४।४।३।
२२४	अन्तरा चापि तु तद्दृष्टेः ।३।४।३६।	२५७	अविभागेन दृष्टत्वात् ।४।४।४।
२२४	अपि च स्मर्यते ।३।४।३७।	२५९	अत एवचानन्याधिपतिः ।४।४।९।
		२५९	अमावं बादरिराह ह्येवम् ।४।४।१०।
		२६३	अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् ।४।४।२२।

पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि	पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि
	(इ)		
१२	ईक्षतेर्नाशब्दम् ।१।१।१५।	१३५	उपादानात् ।२।३।३५।
५५	ईक्षतिर्कर्मव्यपदेशात्सः ।१।३।१३।	१३६	उपलब्धिवदनियमः ।२।३।३७।
५७	इतरपरामर्शात्स इति चेन्नासम्भवात् ।१।३।१८।	१७६	उमयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत् ।३।२।२७।
८८	इतरेषां चानुपलब्धेः ।२।१।२।	१७८	उपपत्तेश्च ।३।२।३५।
९५	इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तः ।२।१।२१।	१८५	उपसंहारोऽर्थाभेदात् विधिशेषवत् समाने च ।३।३।५।
११०	इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्र- निमित्तत्वात् ।२।२।१९।	१९६	उपपन्नस्तद्वक्षणाद्योपलब्धेर्लोकवत् ।३।३।३०।
११८	इतरे त्वर्थसामान्यात् ।३।३।१३।	२०२	उपस्थितेतस्तद्वचनात् ।३।३।४१।
१९८	इयदामननात् ।३।३।३४।	२१७	उपमर्दं च ।३।४।१६।
२३५	इतरस्याप्येकमश्लेषः पाते तु ।४।१।१४।	२१७	उर्ध्वरेतस्यु च शब्दे हि ।३।४।१७।
	(उ)	२२६	उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत्तदुक्तम् ।३।४।४२।
२७	उपदेशेभेदात्तिति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरो- धात् ।४।१।२७।	२५१	उमयव्यामोहात्तत्सिद्धेः ।४।३।५।
५९	उत्तराद्येदाविर्भूतस्वरूपस्तु ।१।३।१९।		(ए)
८२	उत्क्रमिष्यतः एवंभावादिष्वौट्टोमिः ।१।४।२१।	८५	एतेन सर्वं व्याख्याता व्याख्याताः ।१।४।२८।
९६	उपसंहारदर्शनात्तिति चेत् क्षीरवद्धि ।२।२।२४।	८८	एतेन योगः प्रत्युक्तः ।२।१।३।
१०१	उपपद्यते चाप्युपपद्यते च ।२।१।३६।	९२	एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ।२।१।१२।
१०७	उमययापि न कर्माऽनस्तदभावः ।२।२।१२।	११६	एवं चात्माऽक्तात्स्वर्गम् ।२।२।३४।
१०९	उमयथा च दोषान् ।२।२।१६।	१३४	एतेन मातरिश्वा व्याख्यात ।२।३।८।
१११	उत्तरोत्पादे च पूर्वनिषेधान् ।२।२।२०।	२०६	एक आत्मनः शरीरे भावात् ।३।३।५३।
११२	उमयथा च दोषान् ।२।२।२३।	२२९	एवं शुक्तिफलानियमश्च तदवस्थावधृते- स्तदवस्थ्यावधृतेः ।३।४।५२।
११३	उदामीनानामपि भेदं मिद्धिः ।२।२।२७।	२५८	एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावादविरोधं वाद- रायणः ।४।४।७।
११९	उत्पत्यमम्भवान् ।२।२।४२।		(ऋ)
१२९	उत्क्रान्तिगत्याग्नीनाम् ।२।३।१९।	२९	एहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिषण्णे तद्दर्शनात् ।३।३।५१।

पृष्ठाङ्काः

सूत्राणि

(क)

२० कामाच्च नानुमानापेक्षा ।१।१।१८।

३३ कर्मकर्तृव्यपदेशाच्च ।१।२।४।

६८ कम्पनात् ।१।३।३८।

७६ कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिबद्धविरोधः

।१।४।१०।

७९ कारणात् च काकाशादिषु यथा व्यपदि-
ष्टोक्तेः ।१।४।१४।

९७ कृत्स्नप्रसक्तिर्निरवयवत्वशब्दकोषो वा
।२।१।२६।

११८ करणवच्चैत्र भोगादिभ्यः ।२।२।४०।

१३४ कर्तो शास्त्रार्थवत्वात् ।२।३।३३।

१३८ कृतप्रयत्नापेक्षास्तु विहितप्रातपिद्धा वैय-
र्थ्यादिभ्यः ।२।३।४२।

१५७ कृतात्ययेऽनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां य-
थेतमनेवं च ।३।१।८।

१९० कार्याख्यानादपूर्वम् ।३।३।१८।

२०१ कामादीतरत्र चायतनादिभ्यः ।३।३।२९।

२०८ काम्यास्तु यथाकामं समुचीयेरन्नवा पू-
र्वहेत्वाभावात् ।३।३।६०।

२२६ कामकारेण चैके ।३।४।१९।

२२८ कृत्स्नभावात्तु गृहिणोपसंहारः
।३।४।४८।

२९२ कार्यं वादरिस्य गत्युपपत्तेः ।४।३।७।

२९३ कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभि-
धानात् ।४।३।१०।

(ग)

१२ गौणश्रेणात्मशब्दात् ।१।१।६।

१५ गतिसामान्यात् ।१।१।१०।

पृष्ठाङ्काः

सूत्राणि

३६ गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात्

।१।३।११।

५६ गतिशब्दाभ्यां तथाहि दृष्टं लिङ्गं च

।१।३।१५।

१२२ गौण्यसम्भवात् ।२।३।३।

१३१ गुणाद्वा लोके ।२।३।२९।

१४४ गौण्यसम्भवात् ।२।४।२।

१९९ गतेरर्थवत्त्वमुभयथाऽन्यथा हि विरोधः

।३।३।२५।

२०९ गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ।३।३।६४।

(च)

७५ चमसवद्विशेषात् ।१।४।८।

१२८ चरानव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्व्यपदेशो
भाक्तस्तद्भावभावित्वात् ।२।३।१६।

१४७ चक्षुरादिवत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः
।२।४।१०।

१५७ चरणादिति चेतोयलक्षणाथेति कार्णाजि-
निः ।३।१।९।

२९८ चित्ति तन्मात्रेण तद्वात्मकत्वादित्यौडु-
लोमिः ।४।४।६।

(छ)

२७ छन्दोभिधानादेति चैत्र तथा चेतोऽर्षण-
निगदात्तथाहि दर्शनम् ।१।१।२९।

१९९ छन्दत उभयाविरोधात् ।३।३।२८।

(ज)

६ जन्माद्यस्य यतः ।१।१।२।

२७ ज्योतिश्चरणाभिधानात् ।१।१।२४।

२९ जीवमुत्स्यप्राणलिङ्गादेति चेतोपासनत्रै-
विध्यादाश्रितत्वादिह तयोगात्
।१।१।३०।

पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि	पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि
६४	ज्योतिषि भावाच्च ।१।३।३२।	१२९	तेजोऽतस्तथाह्याह ।२।३।१०।
६८	ज्योतिर्दर्शनात् ।१।३।४०।	१२६	तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्सः । २।३।१३।
७६	ज्योतिरुपक्रमानु तथाहि ह्यधीयते एके ।१।४।९।	१३१	तथा च दर्शयति ।२।३।२७।
७८	ज्योतिर्पैकेपामसत्यने ।१।४।१३।	१३२	तद्गुणसारत्वात् तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् । २।३।२९।
८१	जगद्वाचित्वात् ।१।४।१६।	१४४	तथा प्राणः ।२।४।१।
८१	जीवमुस्यप्राणलिङ्गात्नेति चेत्तद्व्याख्या- तम् । १।४।१७।	१४४	तत्प्राक्श्रुतेश्च ।२।४।३।
१४८	ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात् ।२।४।१४।	१४४	तत्पूर्वकत्वद्वाचः ।२।४।४।
२६२	जगद्व्यापारवर्जप्रकरणादासन्निहितत्वा च्च । ४।४।१७।	१४९	तस्य च नित्यत्वात् ।२।४।१६।
	(त)	१४९	त इन्द्रियाणि तद्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठान् । २।४।१७।
२९०	तडितोऽधिवरुणः सम्बन्धात् ।४।३।३।	१५३	तदन्तरन्तप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाम्याम् ।३।१।१।
२४९	तदोमोप्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो वि- द्यासामऽर्थ्यात्तच्छेषगत्यनुसृतियोगाच्च हर्दीनुगृहीतः शताधिक्याः ।४।२।१७।	१५४	अत्मकत्वानु भूयस्त्वात् ।३।१।२।
२६०	तन्वभावे सन्व्यवदुपद्यते ।४।४।१३ ६ तज्जु समन्वयात् । १।१।४।	१५९	तत्रापि तद्व्यापारादविरोधः ।३।१।१६।
१४	तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् ।१।१।७।	१६१	तृतीयशब्दाविरोधः संशोकस्य । ३।१।२१।
१९	तद्वेतुल्यपदेशाच्च ।१।१।१४।	१६१	तत्सामाख्यापतिरूपपत्तेः ।३।१।२२।
६२	तदुपर्यपि आदरायणः सम्भवान् । ।१।३।२६।	१६७	तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च ३।२।७।
६७	तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्ते ।१।३।३७।	१७४	तद्व्यक्तमाह हि ।३।२।२३।
७३	तदधीनत्वादर्थवत् ।१।४।३४।	१७८	तथाऽन्यप्रतिषेधान् ।३।२।३६।
७४	प्रयागामेव वैकुण्ठन्यायः प्रथमः । ।१।४।६।	२०२	तद्विधारणनियमन्तदृष्टेः पृथक् वा प्र- नियन्तः फलम् । ३।३।४२।
९१	नर्तप्रतिष्ठानादप्यन्यथाऽनुमेयमिति चे- देवमप्यविमोक्षप्रमद्गः ।२।१।१०।	२१३	तच्छ्रुतेः ।३।४।४।
९२	तद्व्यन्यासमारम्भशब्दादिभ्यः । २।१।१४।	२१४	तद्वतो विधानान् ।३।४।६।
		२१५	तुल्यं तु दर्शनम् ।३।४।९।
		२२०	तथा वैकुण्ठन्यतोपवन्यान् ।३।४।२४।
		२२९	तद्व्यन्यासं तु नात्राद्यो निर्भरपरि नि- यमात्तद्व्यापत्तेभ्यः ।३।४।४०।

पृष्ठाङ्काः सूत्राणि
 २३६ तदधिगम उत्तरपूर्वाद्योरश्लेषतो गशा-
 त्तद्व्यपदेशात् । ४।१।२।।
 २४० तन्मनः प्राणे उत्तरात् । ४।२।३।
 २४२ तदापीतेः संसारव्यपदेशात् । ४।२।८।
 २४४ तानि परे तथाह्याह । ४।२।१९।

(३)

४९ द्युम्वाद्यायतनं वशब्दात् । १।३।१।
 ५५ दहर उत्तरेभ्यः । १।३।१४।
 ९० दृश्यते तु । २।१।६।
 ९६ देवादिवदपि लोके । २।१।२९।
 १६१ दर्शनाच्च । ३।१।२०।
 १६७ देहयोगाद्वासोऽपि । ३।२।६।
 १७२ दर्शयति चाथोऽपि स्मर्यते । ३।२।१७।
 १७३ दर्शनाच्च । ३।२।२१।
 १८५ दर्शयति च । ३।३।४।
 १९१ दर्शयति च । ३।३।२२।
 २०४ दर्शनाच्च । ३।३।४८।
 २१० दर्शनाच्च । ३।३।६६।
 २५४ दर्शनाच्च । ४।३।१३।
 २६० द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः ।
 ४।४।१२।
 २६३ दर्शयितश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने । ४।४।२०।

(घ)

५२ धर्मोपपत्तेश्च । १।३।९।
 ५६ धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः । १।
 ३।१६।
 १८० धर्मं जैमिनिरत एव । ३।२।४०।
 २३३ ध्यानाच्च । ४।१।८।

पृष्ठाङ्काः

सूत्राणि

(न)

२० नेतरोनुपपत्तेः । १।१।१६।
 २८ न वक्षुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसा-
 म्बन्धभूमा ह्यस्मिन् । १।१।२९-
 ४१ न च स्मार्तमतद्धर्माभिलाषात् ।
 १।२।१९।
 ५० नानुमानमतच्छब्दात् । १।३।३।
 ७८ न सद्स्योपसङ्गहादपि नानाभावादति-
 रेकाच्च । १।४।११।
 ८८ न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात् ।
 २।१।४।
 ९१ नतु दृष्टान्तभावात् । २।१।९।
 ९९ न प्रयोजनवत्वात् । २।१।३२।
 १०० न कर्माधिमागादिति चेन्नाऽनादित्वात् ।
 २।१।३५।
 १०८ नित्यमेव च भावात् । २।२।१४।
 ११३ नास्ततोऽदृष्टत्वात् । २।२।२६।
 ११४ नाऽभाव उपलब्धेः । २।२।२८।
 ११४ न भावोऽनुपलब्धेः । २।२।३०।
 ११६ नैकस्मिन्नसम्भवात् । २।२।३३।
 ११७ न च पर्यायोदप्यविरोधो विकारादिभ्यः ।
 २।२।३५।
 ११९ न च कर्तुः करणम् । २।२।४३।
 १२२ न वियदश्रुतेः । २।३।१।
 १२८ नात्माश्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताम्यः । २।३।१७।
 १२९ नाणुरतच्छ्रुतेरिति चेन्नैतराधिकारात् ।
 २।३।२१।
 १३४ नित्योपलब्ध्वनुपलब्ध्विप्रसङ्गोऽन्यतरनि-
 यमो वाऽन्यथा । २।३।३२।

पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि	पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि
१४६	न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् । २।४।९।	९७	सिद्धेश्च । १।३।१७।
१६०	न तृतीये तयोपलब्धेः । ३।१।१८।	९८	पत्यादिशब्देभ्यः । १।३।४३।
१६२	नातिचिरेण विशेषात् । ३।१।२३।	९९	प्राणादयो वाक्यशेषात् । १।४।१२।
१६६	निर्मातारं तथा चैके पुत्रादयश्च । ३।२।१२।	८२	प्रतिज्ञासिद्धौ लिङ्गमाश्मरथ्यः । १।४।२०।
१७०	न स्थानतोऽपि परस्वोभयलिङ्गं सर्वत्र हि । ३।२।११।	८३	प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाप्रदानानुपरोधात् । १।४।२३।
१८६	न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत् । ३।३।७।	९४	पटवच्च । २।१।१९।
१९१	न वा विशेषात् । ३।३।२१।	१०४	प्रवृत्तेश्च । २।२।२।
२०९	न सामान्यादप्युपलब्धेर्भृत्पुत्राहि लो- कापत्तिः । ३।३।९।	१०४	पयोभ्युवच्चेत्त्राऽपि । २।२।३।
२०८	नानाशब्दादिभेदात् । ३।३।९८	१०९	पुरुषाश्मवदिति चेत्तयापि । २।२।७।
२१०	न वा तत्सहमानाश्रुतेः । ३।३।६९।	११२	प्रतिसङ्ख्याऽप्रतिसङ्ख्यानिरोधाप्राप्तिर- विच्छेदात् । २।२।२२।
२१४	नियमाच्च । ३।४।७।	११७	पत्युरसामञ्जस्यात् । २।२।३७।
२१६	नाविशेषात् । ३।४।१३।	१२३	प्रतिज्ञाऽहानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः । २।३।६।
२२९	न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयो- गात् । ३।४।४१।	१२९	पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः । २।३।१२।
२३२	न प्रतीकेन हि सः । ४।२।४।	१३३	पुंस्त्वादिवत्त्वस्य सतोऽभिन्नव्यक्तियोगात् । २।३।३१।
२४१	नैकस्मिन् दर्शयतो हि । ४।१।६।	१३७	परात्तु त च्छ्रुतेः । २।३।४१।
२४२	नोपमर्दनातः । ४।२।१०।	१४०	प्रकाशादिवन्नैवं परः । २।३।४६।
२४७	निशि नेति चेन्न सम्बन्धम्य यावद्देहमा- त्रित्वाद्दर्शयति । ४।२।१९।	१४२	प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात् । २।३।६३।
२९४	नच कार्यं प्रतिपत्यभिमन्थिः । ४।३।१४।	१४९	पद्यवृत्तिर्नोवन् व्यपदिश्यते । २।४।१२।
	(प)	१४८	प्राणवक्त्रा शब्दात् । २।४।१९।
२८	प्राणमन्यानुगमात् । १।१।२८	१९४	प्राणगतेश्च । ३।१।३।
२९	प्रवरणाच्च । १।२।१०।	१९९	प्रथमेऽश्रुदिति चेन्न ता एव क्षुपपत्तेः । ३।१।९।
९०	प्राणवृष । १।३।४।	१६७	पराभिध्यानात्तु निरोहितं ततो ह्यस्य व- न्यविवर्षये । ३।२।९।
९०	प्रवरणाच्च । १।३।६।	१७१	प्रकाशावर्चाविवर्षयान् । ३।३।१६।

पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि	पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि
१७४	प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधयति ततो व- वीति च भूयः । १३।२।२२।	२६२	प्रत्यक्षोपदेशादितिषेन्नाधिकारिकमण्डल- स्थोक्तेः । १४।४।१८।
१७५	प्रकाशादिवचावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात् । १३।२।२५।	(फ)	उपपत्तेः । १३।२।३८
१७६	प्रकाशाश्रयवद्भेदस्तवात् । १३।२।२८।	(व)	
१७६	पूर्ववद्वा । १३।२।२९।	१७८	वृद्धयर्थे पादवत् । १३।२।३३।
१७६	प्रतिषेधश्च । १३।२।३०।	२६२	ब्रह्महृष्टिरुत्कर्षात् । १४।१।५।
१७७	परमतः सेवमानसम्बन्धमेदव्यपदेशोभ्यः । १३।२।३१।	२९७	ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिन्य । १४।४।९।
१८०	पूर्वं तु बादरायणो हेतुत्वव्यपदेशात् । ३।२।४।१।	(भ)	
१८८	प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरुपचयापचयौ हि भेदे । १३।३।१२।	२०	भेदव्यपदेशाच्च । १।१।१७।
१९२	पुरुषविद्यायामिव चेतरेपामनाम्नानात् । १।३।२।४।	२४	भेदव्यपदेशाच्चान्यः । १।१।२।१।
२०३	प्रदानवदेव तदुक्तम् । १।३।४।३।	२७	भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चैवम् । । १।१।२६।
२०३	पूर्वविकल्पः प्रकरणात्स्यात् क्रियामानस- वत् । १।३।४।५।	५०	भेदव्यपदेशात् । १।३।५।
२०६	परेण च शब्दस्य तावद्विध्वं भूयस्त्वान् त्वनुबन्धः । १।३।५।२।	५१	भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात् । १।३।८।
२१२	पुरुषार्थोतः शब्दादिति बादरायणः । १।४।१।	६४	भावं तु बादरायणोऽस्ति हि । १।३।३३।
२१८	परामर्शं जैमिनिरचोदनाय वदति हि । १।४।१।८।	९२	भोक्त्रापत्तोरविभागश्चेत्स्याल्लोकवत् । २।१।१३।
२१९	पारिहृत्वार्या इति चेन्न विशेषित्वात् । ३।४।२।३।	९३	भावाच्चोपलब्धेः । २।१।१५।
२४३	प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात् । ४।२।१२।	१४९	भेदश्रुतेः । २।४।१८।
२६१	प्रदीपवदावेशस्तथा हि दर्शयति । ४।४।१५।	१५६	माकं वानात्मवित्वात्तथाहि दर्शयति । ३।१।७।
		१७०	भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वयवचनात् । ३।२।१२।
		१८४	भेदादिति चेन्नैकस्यामपि । ३।३।२।
		२०७	भूयः कतुवज्ज्यायस्त्वं तथाहि दर्शयति । ३।३।५।७।
		२१९	भावशब्दाच्च । ३।४।२।२।
		२३७	भोगेन त्वतरे क्षपयित्वा सम्पद्यते । ४।१।१५।

पृष्ठाङ्काः

सूत्राणि

- २४० भूतेषु तच्छ्रुतेः । ४।२।१।
 २६० भावं जैमिनिर्विकल्पामननात् । ४।४।१।१।
 २६१ भावं जाग्रतवत् । ४।४।१।४।
 २६३ भोगमात्रमाम्यलिङ्गाच्च । ४।४।२।१।

(म)

- २० मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते । १।१।१।१।
 ४९ मुक्तोपसृष्टव्यपदेशाच्च । १।३।२।
 ६४ मन्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जैमिनिः
 .. । १।३।३।१।

- ७१ महद्वच । १।४।७।
 १०६ महदीर्विवद्वा इत्स्वपरिमण्डलाभ्याम्
 । १।२।१।१।
 १३९ मन्त्रवर्णाच्च । २।३।४।४।
 १९० मांमादिभौषं यथाशब्दमितरयोश्च
 । १।४।२।१।

- १६६ मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरू-
 पत्वान् । १।२।३।
 १६९ मुग्धेऽर्द्धसम्पत्तिः परिशेषात् । ३।२।१।०।
 २०७ मन्त्रादिवद्वाऽविरोधः । ३।३।१६।
 २२९ मौनवदितरोपामप्युपदेशान् । ३।४।४९।
 २५७ मुक्तः प्रतिज्ञानात् । ४।४।२।

(य)

- ८५ योनिश्च हि गीयते । १।४।२।७।
 ९४ युक्तेः शब्दान्तराद्य । २।१।१।८।
 ९५ यथा च प्राणादि । २।१।२।०।
 १२४ यावद्विकारं तु विभागो लोक्वत्
 । २।३।७।
 १३३ यावदात्ममाविश्याच्च न दोषमदर्शनात्
 । २।३।३।०।
 १३७ यथा च तसोमपत्त्या । २।३।४।०।

पृष्ठाङ्काः

सूत्राणि

- १६३ योनेः शरीरे । ३।१।२।७।
 १९६ यावदधिकारमवस्थितिरधिकारिकाणाम्
 । ३।३।३।२।
 २३४ यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात् । ४।१।१।१।
 २३७ यदेवं विद्ययेति हि । ४।१।१।८।
 २४७ योगिनः प्रति च म्मर्यते स्मार्ते चैते
 । ४।२।२।१।

(र)

- ४३ रूपोपन्यासाच्च । १।२।२।३।
 १०३ रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम् । २।२।१।१।
 १०८ रूपादिमत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्
 । १।२।१।१।
 १६३ रेत सिग्योऽगोऽथ । ३।१।२।६।
 २४६ रश्म्यनुसारी । ४।२।१।८।

(ल)

- ९९ लोक्वत् लीलाकैवल्यम् । २।१।३।३।
 २०३ लिङ्गभूयस्त्वात्तद्विवलीयन्प्रति
 । १।३।४।४।
 २३१ लिङ्गाच्च । ४।१।२।

(व)

- १९ विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्
 । १।१।१।३।
 ३२ विवक्षितगुणोपपत्तेश्च । १।२।२।२।
 ३७ विशेषणाच्च । १।२।१।२।
 ४३ विशेषणमद्वयपदेशाम्यां च नेनती
 । १।२।२।२।
 ४४ वैधानरः माधारणशब्दविशेषात्
 । १।२।२।४।
 ६२ विरोधः कर्मणीति चेन्नानेनप्रतिपत्तेर्द-
 र्शनात् । १।३।२।७।

पृष्ठाङ्काः

सूत्राणि

७४ वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्

११४१५।

८२ वाक्यान्वयात् ।११४१९।

९८ विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम् ।२।११३१।

९९ वैषम्यनैर्घृष्येन सापेक्षत्वात्तथाहि दर्शयति ।२।११३४।

१०४ व्यतिरेकान्नवस्थितश्चानपेक्षत्वात्

१।२।१४।

१०६ विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम् ।२।२।१०।

११४ वैषम्याच्च न स्वप्नादिवत् ।२।२।२९।

११९ विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः

१।२।४४।

११९ विप्रतिषेधाच्च ।२।२।४५।

१२७ विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च

१।२।१४।

१३१ व्यतिरेको गन्धवत् ।२।३।२६।

१३५ विहारोपदेशात् ।२।३।३४।

१३५ व्यपदेशाच्च प्रक्रियायां न चेन्निर्देशविपर्ययः ।२।३।३६।

१५० वैलक्षण्याच्च ।२।४।१९।

१५१ वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः ।२।४।२२।

१५९ विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्

१।३।१७।

१७३ वृद्धिहासपाक्त्वमन्तर्भावात्पुण्यसामञ्जसादेकम् ।३।२।२०।

१८७ व्याप्तेश्च समञ्जसम् ।३।३।९।

१९२ वेद्याचर्धभेदात् ।३।३।२५।

२०० व्यतिहारो विशिषन्ति हीतवत्

१।३।३७।

२०४ विद्यैव तु निर्धारणात् ।३।३।४७।

पृष्ठाङ्काः

सूत्राणि

२०६ व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वात्तत्पलब्धिवत्

१।३।५४।

२०८ विकल्पो विशेषफलत्वात् ।३।३।९२।

२१६ विभागः शतवत् ।३।४।११।

२१८ विधिर्वा धारणवत् ।३।४।२०।

२२३ विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि ।३।४।३२।

२२४ विशेषानुग्रहश्च ।३।४।३८।

२२६ बहिस्तूभयथाऽपि स्मृतेराचाराच्च

१।४।४३।

२३९ वाङ्मनसि दर्शनाच्च शब्दाच्च ।४।२।१।

२४९ वायुमब्दादविशेषविशेषाम्याम् ।४।३।२।

२५१ वैद्युतेनैव ततस्तच्छ्रुतेः ।४।३।६।

२५२ विशेषितत्वाच्च ।४।३।८।

२५५ विशेषं च दर्शयति ।४।३।१६।

२६२ विकारावर्ति च तथाहि स्थितिमाह

४।४।९९।

(श)

१ शास्त्रयोनित्वात् ।१।१।१।

१६ श्रुतत्वाच्च ।१।१।११।

२६ शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् ।

१।१।३०।

३३ शब्दविशेषात् ।१।२।५।

३९ श्रुतोपनिषत्कगत्वभिधानाच्च ।१।२।१६।

४१ शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैवमधीयते ।

१।२।२०।

४४ शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानात्नेति चेन्न

तथा दृष्टिरुपदेशादसम्भवात्पुरुषमपि चै-

नमधीयते ।१।२।२६।

६१ शब्दादेव प्रमितः ।१।३।२४।

पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि
६३	शब्द इति चेन्नातः प्रमत्तात्प्रत्यक्षानुमानाम्याम् ।१।३।२८।
६९	शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदा द्रवणात्सूच्यते हि ।१।३।३४।
६७	श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्स्मृतेश्च । १।३।३८।
९७	श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् ।१।१।२७।
१२३	शब्दाच्च ।२।३।४।
१३६	शक्तिविपर्ययात् ।२।३।३८।
१४६	श्रेष्ठश्च ।२।४।२।
१७९	श्रुतत्वाच्च ।३।२।३९।
२०४	श्रुत्यादिवलीयस्त्वाच्च नवावः ।३।३।४९।
२०९	शिष्टश्च ।३।३।६२।
२१३	शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः ।३।४।२।
२२१	शमदमाद्युपेतः स्यात्तयापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया तेषामवश्यमुपेयत्वात् । ३।४।२७।
२२३	शब्दश्चास्याकामकारे ।३।४।३१।
२२७	श्रुतेश्च ।३।४।४६।

(स)

१९	साप्ययान् ।१।१।९।
३२	सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशान् ।१।२।१।
३३	स्मृतेश्च ।१।२।६।
३४	सम्भोगप्रसिरितिनेत्रवैशेष्यान् ।१।२।८।
३८	स्यानादिष्यपदेशाच्च ।१।२।१४।
२८	सुप्तविशिष्टाभिधानादेव च ।१।२।१९।
४४	स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति ।१।२।२९।
४६	साक्षात्प्रतिषेधं जैमिनिः ।१।२।२८।

पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि
४६	सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथाहि दर्शयति ।१।२।३१।
९०	स्वित्यदुनाम्यां च ।१।३।७।
९३	सा च प्रशासनात् ।१।३।११।
६३	समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात्स्मृतेश्च ।१।३।३०।
६६	संस्कारपरामर्शात्तदमाद्यभिज्ञापाच्च ।१।३।३६।
६९	सुपुस्युत्कान्त्योर्भेदेन ।१।३।४२।
७३	सूत्रं तु तदहत्त्वात् ।१।४।२।
७९	समाकर्षात् ।१।४।१९।
८४	साक्षाच्चोभयाज्ञानात् ।१।४।२९।
८७	स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गात् ।२।१।१।
९१	स्वपक्षदोषाच्च ।२।१।१०।
९३	सत्त्वाच्चावरस्य ।२।१।१६।
९८	स्वपक्षदोषाच्च ।२।१।२९।
९८	सर्वोपेता च तदर्शनात् ।२।१।३०।
१०१	सर्वधर्मोपपत्तेश्च ।२।१।३७।
१०८	समवायाम्बुपगमाच्च साम्यादनुवस्थितेः ।२।२।१३।
१०९	समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ।२।२।१९।
११६	सर्वथाऽनुपपत्तेश्च ।२।२।३२।
११७	सम्बन्धानुपपत्तेश्च ।२।२।३८।
१२३	स्याथैकस्य ब्रह्मशब्दवत् ।२।३।९।
१२९	स्वात्मना चोत्तरयोः ।२।३।२०।
१३०	स्वशब्दोन्मानाम्यां च ।२।३।२२।
१३६	समाप्यभावाच्च ।२।३।३९।
१४०	मरानि च ।२।३।४७।

पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि
१४९	सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च ।२।४।१।
१५०	संज्ञामूर्तिकृत्सिस्तु त्रिवृतकुर्वत उपदेशात् । २।४।२०।
१५८	सुकृतदुष्कृते एवेति वादरिः ।३।१।१।१।
१५८	संयमने त्वनुभूयतेरोपामारोहावरोहौ त- द्वतिदर्शनात् । ३।१।१।३।
१५९	स्मरन्ति च ।३।१।१।४।
१६०	स्मर्यतेऽपि च लोके ।३।१।१।५।
१६९	सन्ध्ये सृष्टिराह हि ।३।२।१।
१६६	सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विद- ३।२।४।
१६८	सं एव कर्मानुस्यूतिशब्दविधिम्यः । ३।२।९।
१७७	सामान्यास्तु ।३।२।३२।
१७८	न्यानविशेषात्प्रकाशादिवत् ।३।२।३४।
१८३	सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात् । ३।३।१।
१८४	स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधि- काराच्च सववच्च तन्नियमः । ३।३।३।
१८७	संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ।३।३।८।
१८७	सर्वमिदादन्यत्रेमे ।३।३।१०।
१९०	समाने एवं चापेदात् ।३।३।१५।
१९१	सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ।३।३।२०।
१९२	सम्भृतिद्युन्यासिश्चात् ।३।३।२३।
१९४	सान्प्रराये तर्तज्याभावात्तयाख्ये । ३।३।२७।
२००	सैव हि सत्यादयः ।३।३।३८।
२०९	समाहारान् ।३।३।६३।

पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि
२१३	समन्वयारम्भणात् ।३।४।९।
२१६	स्तुतयेऽनुमतिर्वा ।३।४।१४।
२१९	स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात् । ३।४।२१।
२२०	सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत् । ३।४।२६।
२२१	सर्वालानुमतिश्च प्राणाल्यये तददर्शनात् । ३।४।२७।
२२२	सहकारित्वेन च ।३।४।३३।
२२३	सर्वधापि त एवोभयलिङ्गात् ।३।४।३४।
२२६	स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः ।३।४।४४।
२२७	सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत् । ३।४।४७।
२३३	स्मरन्ति च ।४।१।१०।
२४०	सोऽध्यक्षे तदुपगमादिम्यः ।४।२।४।
२४१	समाना चास्त्युपरुमादमृतत्वं चापोह । ४।२।७।
२४२	सूक्ष्मं परिमाणतश्च तयोपलब्धेः । ४।२।९।
२४३	स्पष्टो हेकेपाम् ।४।२।१३।
२४४	स्मर्यते च ।४।२।१४।
२५२	सामीप्यास्तु तदव्यपदेशः ।४।३।९।
२५३	स्यूतेश्च ।४।३।११।
२५६	सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात् ।४।४।१।
२५९	सद्गत्यादेव तु तच्छ्रुतेः ।४।४।८।
२६१	स्वाप्यसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाधिष्कृतं हि ।४।४।१६।

पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि	पृष्ठाङ्काः	सूत्राणि
	(ह)		(क्ष)
१४	हेयत्वावचनाच्च ।१।१।८।	६६	क्षत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्र चैत्ररथे लिङ्गात् ।
६१	हृद्यपेक्षा तु मनुष्याधिकारत्वात् ।		।२।३।९।
	१।३।२९।	११९	क्षणिकत्वाच्च ।२।२।३१।
१४६	हस्तादयस्ते स्थितेऽतो नैवम् ।२।४।६।		(ङ)
१९३	हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्कुशा छन्दः	७३	ज्ञेयत्वावचनाच्च १।१।४।४।
	स्तुत्युपगानवत्तदुक्तम् ।३।३।२६।	१२८	ज्ञोऽत एव ।२।३।१८।

इति सूत्रावलोकनप्रकारः समाप्तः ।

श्रीगणेशाय नमः ।

॥ अथ वेदांतसूत्रम् ॥

भावार्थप्रकाशिकाभापाटीकासहितम् ।

दोहा—त्र्युत्तरपर्यं सव वेदका, जिसमें कहें महान् ॥

हरकर पुनः विरोधको, सोई कीन विधान ॥ १ ॥

जिसे अर्थ पुनि कहे हैं, साधन बहुत प्रकार ॥

दोप्रकार फलरूप जो, बहुविध ताहि छुहार ॥ २ ॥

इस ग्रंथके चार अध्याय हैं. तहां प्रथम अध्यायमें सर्व वेदोंका ब्रह्मविषे तात्पर्य सिद्ध किया है, दूसरेमें सर्व वादियोंकी शंकाको दूर करके, सर्व वेदोंका ब्रह्ममेंही तात्पर्य सिद्ध किया है. तीसरेमें साधनोंका विचार है. चतुर्थमें दो प्रकारके फलका विचार है, तिन चारों अध्यायोंके चार चार पाद हैं.

दोहा—द्विविध लिंग हैं जाहिके, ध्येय ज्ञेय पुन जोय ॥

तिस परमात्मा देवको, बंद जोर कर दौय ॥ ३ ॥

तहां प्रथम अध्यायके प्रथम पादमें स्पष्टलिंगयुक्त वाक्यनका विचार है दूसरे पादमें अस्पष्टलिंगयुक्त वाक्यनका विचार है. ते वाक्य उपास्य ब्रह्मके बोधक हैं. तीसरेमें ज्ञेय ब्रह्मबोधक अस्पष्टलिंगयुक्त जे वाक्य तिनका विचार है. चतुर्थमें संदेहवान् जे पद तिनकरके युक्त जे वाक्य तिनका विचार है. तहां प्रथम पादके एक अधिक तीस सूत्र हैं. अल्प जिनके अक्षर होवें तथा अर्थ बहुत होवे तिनको सूत्र कहे हैं, सो सूत्र दो प्रकारके होवें हैं. एक अधिकरणरूप होवे हैं एक गुणरूप होवे हैं. इस प्रथम पादमें एकादश अधिकरणरूप सूत्र हैं बीस गुणरूप हैं. तथाहि

सूत्रसंख्या ।	अधिकरण ।	गुण	प्रसंग.
१	अ०	+	ब्रह्ममीमांसाविधान.
२	अ०	+	ब्रह्मलक्षणविचार.
३	अ०	+	सर्वज्ञतामें प्रमाण.

सूत्रसंख्या ।	अधिकरण ।	गुण	प्रसंग.
४	अ०	+	समन्वयविचार.
५	अ०	+	सांख्यमतखंडन.
६	+	गु०	सां०
७	+	गु०	सां०
८	+	गु०	सां०
९	+	गु०	सां०
१०	+	गु०	सां०
११	+	गु०	सां०
१२	अ०	+	पुच्छवाक्यविचार.
१३	+	गु०	पु०
१४	+	गु०	पु०
१५	+	गु०	पु०
१६	+	गु०	पु०
१७	+	गु०	पु०
१८	+	गु०	पु०
१९	+	गु०	पु० सूर्य.
२०	अ०	+	नेत्रगतपुरुषविचार.
२१	+	गु०	ने०
२२	अ०	+	आकाशशब्दवि०
२३	अ०	+	प्राणशब्दवि०
२४	अ०	+	ज्योतिःशब्दवि०
२५	+	गु०	ब्रह्मछंदनिषेध.
२६	+	गु०	गायत्रीब्रह्मग्रहण.
२७	+	गु०	ज्योतिर्ब्रह्मग्रहण.
२८	अ०	+	प्राणशब्दविचार.
२९	+	गु०	प्रा०
३०	+	गु०	प्रा०
३१	०	गु०	प्रा०
३१	३१	२०	

दोहा—जिसमें विषय पुनि संशय, पूर्वपक्ष तिमि गान ॥

उत्तर तथा प्रयोजन, अधीकरण तिस जान ॥ १ ॥

अर्थ—जिस सूत्रमें विषय १, संशय २, पूर्वपक्ष ३, उत्तरपक्ष ४, प्रयोजन ५, यह पंच कहे जायं सो अधिकरणरूप सूत्र कहलाता है. तिससे भिन्न जो सूत्र सो गुणरूप कहलाता है. जिसमें संदेह होवे सो विषय कहलाता है. इस ग्रंथमें सूत्रका अक्षरार्थ मात्र लिखेंगे, तिस अर्थके उपयोगी अर्थात् सूत्रोंका अक्षरार्थ जित्नामें स्पष्ट होवे उतने विषयवाक्यादिकोंको लिखेंगे. सर्व अधिकरणसूत्रोंके विषय संशय आदि पूर्वोक्त पांचोंको नहीं लिखेंगे. और तिनको क्रमसँभी नहीं लिखेंगे ।

अब ०—इस लोकके भोगोंसे और परलोकके भोगोंसे जे विरक्त हैं और मोक्षके लिये इच्छावाले हैं तिन अधिकारी पुरुषोंके लिये परमकृपालु मुनि व्यास भगवानने सर्ववेदांतोंका साररूप यह वेदांतशास्त्र किया है, तहां यह प्रथम सूत्र है ।

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १ ॥

अथ । अतः । ब्रह्मजिज्ञासा ।

यह सूत्रके पदच्छेद हैं. ब्रह्मजिज्ञासा इस पदमें 'ब्रह्म, ज्ञा, सन्' यह तीन पद हैं. चतुष्टयसाधनप्राप्तिके अनंतर अथ पदका अर्थ है. अतः यह पद हेतुका वाचक है. ब्रह्मपद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पूर्ण चेतनका वाचक है. ज्ञा यह पद ज्ञानमात्रका वाचक है. ज्ञा पदमें अजहत् लक्षणा मानके विवरणमतानुसारी जन ज्ञा पदको अभेदज्ञानका वाचक मानें हैं. सा यह पद इच्छाका वाचक है. सापदके विचारमें जहत् लक्षणा मानें हैं. सा पदके आगे विवरणानुसारी कर्तव्य पदका अध्याहार करें हैं. कर्तव्यपदसे नियमविधिका अंगीकार करें हैं. और आचार्य श्रीवाचस्पतिमतानुसारी कर्तव्यपदका अध्याहार नहीं करें हैं और विधिभी नहीं मानें हैं.

सूत्रवाक्यार्थ आगे होवेगा । बृहदारण्यकके चतुर्थ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मणमें ।

“न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति ।

आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति ॥”

यह कहकर आगे यह वाक्य है ।

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः”

इति ॥ यह सूत्रका विषयवाक्य है. श्रुत्यर्थ—हे मैत्रेय ! आत्मा दर्शनके

योग्य है, श्रवणके योग्य है, मननके योग्य है, चिंतनके योग्य है. इति ॥ इस वचनमें आत्माके साक्षात्कारार्थ ज्ञानका साधन करके श्रवणका विधान किया है. सर्व उपनिषद्वाक्यनका अद्वितीय ब्रह्ममें जो तात्पर्यनिश्चयअनुकूल युक्तिविचार सो श्रवण कहलाता है. सो युक्तिविचाररूप वेदांतशास्त्र आरंभ करने योग्य है वा नहीं यह सूत्रमें संदेह है. सर्वजगा पूर्णपक्ष और सिद्धांतपक्षकी युक्ति ये दो संशयमें बीज होवे है. तहां यह पूर्णपक्ष है. कि जिसमें संदेह होवे सो विषय कहिये है, ब्रह्ममें संदेह नहीं "सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म" जा वाक्यमें ब्रह्मरूपसं ब्रह्म प्रसिद्ध है. और अहं जा प्रतीतिसं जीर्णरूपकरके ब्रह्म प्रसिद्ध है, याते ब्रह्मको निश्चित होनेसं ताको विषय कहिना संभवे नहीं. और ब्रह्मज्ञान प्राप्त होनेपरभी मुक्ति होनेनहीं अर्थात् ज्ञान होनेपर भी संसार बना रहे है याते शास्त्रका कुछ प्रयोजन भी प्रतीत होता नहीं, याते शास्त्रका आरंभ करनेयोग्य नहीं. इस पूर्णपक्षमें यह सिद्धांत है कि अहं अहं जा प्रतीतिसं भेद भान होवेहै, और "तत्त्वमसि" जा वाक्यसं अभेद भान होवेहै, याते संशय संभवेहै. और प्रारब्धके भोगसं संसारकी प्रतीति संभवेहै याते ज्ञान होनेपर अज्ञानकी निवृत्ति तथा आनंदप्राप्तिरूप प्रयोजनभी संभवैहै. याते शास्त्रका आरंभ करनाही योग्य है. इति ॥ उक्त श्रोतव्य श्रुतिके अनुसार सूत्रका यह वाक्यार्थ सिद्ध हुआ कि चतुष्टयसाधनज्ञान अधिकारीको कर्मफल अनित्य होनेसं ब्रह्मज्ञानार्थ विचार कर्तव्य है. इति ॥ ज्ञानको मोक्षकी साधनता और वेदातका विचार्यत्व सिद्ध होवेहै. तिसके अंगीकार कियेसं सूत्रका यह अर्थ सिद्ध हुआ कि कर्मफल अनित्य होनेसं अधिकारीको मोक्षसाधनरूप ब्रह्मज्ञानार्थ वेदांतविचार कर्तव्य है इति ॥ और मिश्र वाचस्पतिके मतमें कर्मफल अनित्य होनेसं चतुष्टयसाधनोंके अनंतर ब्रह्मज्ञानकी इच्छा होवेहै. ज्ञान विचारसाध्य है, याते विचारकर्तव्यता सिद्ध होवेहै. इति ॥ इन वेदांतविचारको अंगीकार नहीं करे तिनके मतमें अपरसाधनसाध्य मुक्ति सूत्रका फल है. सिद्धांतमें विचारके संभवेसं ब्रह्मज्ञानसाध्य मुक्ति सूत्रका फल है. वा ग्रंथका आरंभ और अनारंभ सिद्धांत और पूर्णपक्षका फल है. ॥ १ ॥

अव०-प्रथमसूत्रमें ब्रह्ममीमांसाका विधान किया है. सो मीमांसा लक्षण-विचार, प्रमाणविचार, समन्वयविचार, अपिरोधविचार, साधनविचार, व फल-विचारके भेदसं अनेकप्रकारकी है तहा ब्रह्ममी प्राधान्यता होनेसं प्रथम ब्रह्मका उल्लेख करेंहै ।

जन्माद्यस्य यतः ॥ २ ॥

जन्म । आदि । अस्य । यतः । इति । प० ।

इस सूत्रमें तत् पदका अध्याहार करके इसका यह अर्थ होता है कि इस प्रपंचका जन्म, पालन, भंग, जिससें होवेहै सो ब्रह्म है. इति ॥

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति
यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् जिज्ञासस्व तत् ब्रह्म”

यह श्रुति सूत्रका विषयवाक्य है ।

अर्थ—जिस वस्तुसे यह सर्वभूत उपजें हैं, जिसमें स्थित हैं, जिसमें मृत होकर प्रवेश करें हैं, तिसकी तुम जिज्ञासा करो. सोई ब्रह्म है. इति ॥ इस श्रुतिमें जे जन्मादिक कहे हैं ते ब्रह्मके लक्षण हैं. वा नहीं यह तहां संशय है । जन्मादिक प्रपंचके धर्म हैं ब्रह्मसें तिनका संबंध नहीं, यांते जन्मादिक ब्रह्मका लक्षण नहीं यह पूर्वपक्ष है । तहां यह सिद्धांत है कि जे जन्मादिक कहे हैं ते ब्रह्मके तटस्थलक्षण हैं. व सत्यादिक स्वरूपलक्षण हैं, यांते उक्त दोष संभवे नहीं. जो प्रथम अधिकरणका फल है सोई इस अधिकरणका फल है. जहां कर्ममें लक्षण प्राप्त होवे तहां प्रयोजन नहीं कहा जाय. “ब्रह्मजिज्ञासा” इस वाक्यमें कर्ममें पष्ठी है यांते प्रथम सूत्रका जो प्रयोजन है सोई इसका प्रयोजन है. इति ॥२॥

अव०—पूर्व ब्रह्मको जगतका कारण कथन किया है सो कारणता सर्वज्ञता विना संभवे नहीं यांते ब्रह्ममें सर्वज्ञता सिद्ध होवे है. तिस अर्थात् सिद्ध सर्वज्ञताको पर हेतुसें सिद्ध करें हैं ।

शास्त्रयोनित्वात् ॥ ३ ॥

शास्त्रयोनित्वात् इति । प० ।

अर्थ—शास्त्रपद वेदका वाचक है योनि नाम कारणका है वेदका जो योनि होवे सो कहिये वेदयोनि, अर्थात् वेदका ईश्वर कर्ता है, तो वेदका कर्ता होनेसे भी ब्रह्म सर्वज्ञ है. बृहदारण्यकोपनिषदि “ एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेवैतत् यद्दग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वीगिरस इतिहासः पुराणं श्लोको व्याख्यानान्यनुमानानि प्रमाणभूतानि ” यह श्रुति सूत्रका विषयवाक्य है. श्रुत्यर्थ—यह नित्यसिद्ध जो ब्रह्म उसके निःश्वाससे उत्पन्न ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आंगिरस, इतिहास, पुराण, श्लोक, व्याख्यान अनुमान, ये

प्रमाणभूत हैं. इति ॥ ब्रह्म वेदका कर्ता है वा नहीं यह तहां फिरभी संशय है। “वाचा विरूपनित्यया” इस श्रुतिमें वेदको नित्य सुना है. यांते ब्रह्म वेदका कर्ता नहीं, विरूपनाम हे देव! नित्य जो घाणी ताकर स्तुतिकी प्रेरणा कर. यह श्रुतिका अक्षरार्थ है. इति ॥ तहां यह सिद्धांत है। “तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतऋचः सामानि यजिरे” इस श्रुतिमें यज्ञपदसे ब्रह्मका ग्रहण है, तासे वेदकी उत्पत्ति कही है. यांसे ब्रह्म वेदका कर्ता है। जो उक्त श्रुति वेदको नित्य कहे है सो अर्थवादरूप है, चासे वेद नित्य सिद्ध होवे नहीं. इति । सूत्रका दूसरा यह अर्थ है कि शास्त्रनाम वेदयोनि नाम प्रमाण होवे जिसमें सो शास्त्रयोनि कहलाता है। “औपनिपदं पुरुषं पृच्छामि” इस श्रुतिमें ब्रह्म उपनिपदकरके वेद्य प्रतीत होवे है। और “न अवेदवित् मनुते तं बृहंतं” इस श्रुतिमें स्पष्ट ही अपरप्रमाणविषयत्वका ब्रह्ममें निषेध भान होवे है. यांते अनुमानप्रमाणसिद्ध ब्रह्म नहीं, किंतु वेदप्रमाणसिद्ध है. अनुमानअनुकूल तर्कमात्र है. इति ॥ सर्वज्ञतासिद्धि उक्त सूत्रमें सिद्धांतका फल है और सर्वज्ञताकी असिद्धि पूर्वपक्षका फल है. इति ॥३॥

अव०—उपनिपदोंमें अधिकारीकी प्रवृत्ति होनी यह सिद्धांतमें उत्तर अधिकरणका फल है. अप्रवृत्ति पूर्वपक्षका फल है. सर्व वेदांत कर्मकर्तादिकोंका बोधक है. वा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्मका बोधक है. यह तहां संदेह है. कि ब्रह्म तो ग्रहण त्यागके योग्य नहीं. और नित्यसिद्ध है. तांका बोधक वेदांतको मानेंगे तो निष्प्रयोजनत्व और सापेक्षत्व रूप दोष प्राप्त होवेगा, यांते उक्त दोषके निषेधार्थ वेदांतको कर्मकर्ताका बोधक और देवताद्वारा कर्मका बोधक मानना चाहिये. इस पूर्वपक्षमें भगवान् सूत्रकार स्वसिद्धांत करें हैं—

तत्तु समन्वयात् ॥ ४ ॥

तत् । तु । समन्वयात् । इति । प० ।

अर्थ—तु पद पूर्वपक्षनिषेधार्थक है. सम्यक् जो होवे अन्वय सो कहिये समन्वय अर्थात् सर्व वेदांतका ब्रह्ममें तात्पर्य है. यांते तत् नाम ब्रह्म सर्व वेदांतकरके प्रतिपाद्य है. कर्मकर्तादिक प्रतिपाद्य नहीं. रज्जुमर्पकी नाई स्वरूपके ज्ञानमें अनर्थकी निवृत्ति अनुभवसिद्ध है. और ब्रह्म रूपादिकसे रहित है. वेदांतविना अपर प्रमाणका विषय नहीं. अपर प्रमाणका विषय होवे तो वेदांत-वचनको सापेक्षतारूप दोष होवे, ब्रह्म अपर प्रमाणका विषय नहीं यांते निष्प्रयोजनता और सापेक्षतारूप दोषकल्पना अमंगत है. यांते पदलिंगनसे सर्व

वेदांतका ब्रह्ममेंही तात्पर्य है—तथाहि—“सदेव सौम्येदमग्र आसीत्”
 “एकमेवाद्वितीयं” यह छांदोग्यके षष्ठ प्रपाठकमें कहा है “आत्मा वा
 इदमेक एवाग्र आसीत्” यह ऐतरेयके आरंभमें कहा है “तदेतद् ब्रह्म
 अपूर्वमनपरमनंतरमबाह्यं अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इत्यनुशासनं”
 यह बृहदारण्यकके चतुर्थ अध्याय पंचम ब्राह्मणमें कहा है—“ब्रह्मैव इदं
 अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं
 च प्रसृतं ब्रह्मैव इयं विश्वं इदं चरिष्ठं” यह द्वितीयमुंडकसमाप्तिमें कहा
 है। श्रुत्यर्थ—

हे सौम्य ! हे प्रियदर्शन जो ! यह प्रगट जगत् है सो उत्पत्तिसैं पूर्व सत्यस्वरूप
 जो इनका कारण तत्स्वरूप था। एक नाम सत्यसैं भिन्न अपर कार्य रंचक नहीं
 था, जैसे मृत्तिकासैं निमित्तकारण कुलाल भिन्न है तैसे सत्यसैं कोई भिन्न होवे-
 गा, इस शंकाके निपेधार्थ अद्वितीय कहा है, इति । आत्मा नाम व्यापकका है
 इति । जो यह चराचर है, सो ब्रह्मरूप है, सो ब्रह्म अपूर्व है, पूर्व कारण नहीं
 होवे जिसका तांको अपूर्व कहें हैं, अर्थात् अकार्यरूप है, अपरनाम कार्यके वा-
 स्ते जो न होवे सो अनपर कहियेहैं अर्थात् अकारणरूप है, अनंतर पदसैं
 एक रसका ग्रहण है, बाह्य नाम अनात्माका है, सो नहीं होवे जिसके सो अ-
 बाह्य अंगीकृत है, अर्थात् अद्वितीयका ग्रहण है, अयंपद अपरोक्षताबोधक है,
 यह अपरोक्ष आत्मा ब्रह्मस्वरूप है, जो सर्वका अनुभव करे सो सर्वानुभू कहि-
 ये । पुरस्तात् नाम अज्ञानकालमें अज्ञानीको अब्रह्मकी नाई भान होताथा,
 सो यह सर्व अमृत नाम ब्रह्मस्वरूप है, इति ॥ जे कर्मकर्तादिद्वारा वेदांतको
 कर्मबोधक मानेहैं, पूर्व तांका मत खंडन करके आगे जे उपासनाबोधक वेदां-
 तको मानके उपासनासैं मुक्ति मानें हैं तिनका मत खंडन करें हैं “तत् तु स-
 मन्वयात्” इति ॥ ब्रह्ममें सर्वका समन्वय है यांते तत् ब्रह्म साक्षात् वेदांत-
 करके प्रतिपाद्य है, इति ॥ मोक्ष उपासनाकरके साध्य नहीं, तथाहि—उपासनामें
 अनेक प्रकारकी न्यूनाधिक्यता है, यांते मोक्षमेंभी न्यूनाधिक्यता होवेगी, और
 अनित्यता सिद्ध होवेगी, कर्मके फलभोगकालमें शरीर अवश्य चाहिये तिस वि-
 नाभोग होवे नहीं, यांते मोक्षकालमें शरीर अवश्य सिद्ध होवेगा, किंच “अश-
 रीरं वा वसंतं न प्रियाप्रिये स्पृशतः” यह छांदोग्यमें कहा है “अश-
 रीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा
 धीरो न शोचति” यह कठकी द्वितीया यद्गीमें कहा है “असं-

गो हि अयं पुरुषः” यह जनकप्रति बृहदारण्यकके पष्ठम अध्यायके द्वितीय ब्राह्मणमें कहा है. उक्त वचनमें स्वाभाविक शरीररहित आत्मा भान होवे है यांते धर्मजन्य शरीररहित कहे तौ संभवे नहीं. श्रुत्यर्थ—आत्मा शरीररहित है तांको सुख दुःख स्पर्श नहीं करें है. मोक्ष तुम्हारे मतमें धर्मका फल है. सो प्रिय शब्दका अर्थ है. श्रुतिमें तांका निषेध किया है. यांते तांके मानेसे श्रुतिकथित निषेध असंगत होयेगा. इति ॥ वास्तवसें स्थूलशरीरसें आत्मा रहित है. अनित्य शरीरमें अवस्थित नाम नित्य है. तिस महान् त्रिभु आत्माको जानके धीर पुरुष शोक नहीं करे है. इति ॥ एक मूर्त पदार्थ—दूसरे मूर्त पदार्थसे संबंधवान होये है. आत्मा परिपूर्ण है. मूर्त पदार्थ नहीं, यांते मूर्तरूप स्थूल सूक्ष्म किसी पदार्थसेंभी संबंधवान नहीं, यांते आत्मा अकर्ता है. इति ॥ स्वाभाविक अशरीर मोक्षरूप ब्रह्मविषे सुखदुःखस्पर्शके अभावको यह श्रुति दिसाये है, “अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यात्रास्मात्कृताऽकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पठ्यसि तद्वद् इति ।” यह श्रुति कठकी द्वितीया बह्नीमें है । अर्थ-धर्मसें, और धर्मफल मुक्तसें, अधर्मसें और अधर्मफल दुःखसें, कृत नाम कार्यसें अकृत नाम कारणसें, भूत नाम अतीतसें, भव्य नाम भारीसें, वर्तमानसें, अन्यत्र नाम अन्यत् है, अर्थात् इन सर्वसें स्पर्शरहित है. इसप्रकारके जिस स्वरूपको तुम देखें है, तिसको हमारे प्रति कहो. यह यमराजके प्रति नचिकेताका वचन है. इति । किंच जो मोक्षको कर्मनका फल मानेंगे तौ यथा स्वर्गादि अधिकारीको ग्रहण योग्य नहीं तथा मोक्षभी उपादेय नहीं सिद्ध होवेगी और उत्तर श्रुतिपत्रोंका बाध होयेगा “स योह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति” । यह वाक्य तृतीय मुंडकमें है । “भिद्यते हृदयग्रंथिः छिद्यंते सर्वसंज्ञयाः । क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परायरे” यह द्वितीयमुंडकवाक्य है । “आनंदं ब्रह्मणो विद्यान् न विभेति कृत्नश्चन” यह तैत्तिरीयके नममें अनुवाकमें कहा है । “यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः। तत्र को मोहः कः शोकः एकमनुपपत्तः” यह ईशावास्यमें कहा है. “तत् हैतत् पश्यन् ऋषिर्वाग्मदेवः प्रति पेदे अहं मनुरमयं सृषंश्च” यह आरण्यकमें कहा है. श्रुतिअर्थ—जो ब्रह्मको स्वस्वरूप जाने है सो ब्रह्मस्वरूप होये है. पर जे हिरण्यगर्भादिक ते है अवर जिनमे सो परायर कहिये अर्थात् परमात्माका ग्रहण है. तिम परमात्माके साक्षात्कार कियेमें हम आत्मनेप्ताके हृदयकी ग्रंथि अर्थात् चित् जड ग्रंथि निवृत्त होये है. और सर्वमंशय विनाश होये है. और जिन कर्मोंका फल

नहीं भोगा ते कर्म विनाश होंवें हैं. इति ॥ ब्रह्मके स्वरूपानंदको जानता हुआ किसीसेभी भयको प्राप्त होता नहीं. इति ॥ जिस अवस्थामें आत्मवेत्ताको सर्वभूत आत्मस्वरूपही होवे हैं तिस आत्मामे वा तत्कालमें एकत्वनाम अभेददर्शी पुरुषके शोकमोहादि संसारका अभाव होवे है. इति तत्पदका लक्ष्य जो ब्रह्म प्रत्यक् रूपसे स्थित सो अहं अस्मि इस प्रकार देखता हुआ ऋषि वामदेव इस दर्शनसे अविद्यानाशद्वारा परब्रह्मको प्रतिपेदे नाम प्राप्त हुआ है. तिस दर्शनमें स्थित हुये मैं मनु हों मैं सूर्य हों इत्यादि मंत्र कहे हैं. इति ॥ उक्त सर्व वचन ब्रह्मकालमेंही मोक्षको कहे हैं और कर्मोंका फल कालांतरमें होवे है. इति ॥ किंच “त्वं हि नः पिता यो अस्माकं अविद्यायाः परं पारं तारयसि” यह प्रश्नके पष्ठम प्रश्नमें कहा है. “सोहं भगवो मंत्रवित् एवास्मि न आत्मवित् श्रुतं हि एव मे भगवद्दृशेभ्यः तरति शोकमात्मवित् सोहं भगवः शोचामि तं मा भगवान् शोकस्य पारं तारयतु” यह छांदोग्यके सप्तम प्रपाठकके आरंभमें कहकर समाप्तिमें यह कहा है “तस्मै मृदितकपायाय तमसः परं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारः” यह उक्त वचन ब्रह्मविद्याको अविद्यानिवृत्तिद्वारा मोक्षकारणता दिखावें हैं. अविद्यानिवृत्ति ज्ञानविना होवे नहीं याते मुक्ति उपासनाकरके साध्य नहीं। श्रुतिअर्थ—भारद्वाजादि षट् ऋषि पिप्पलाद गुरुको बंदना करके कहे हैं कि हमारे पिता हो विद्याकरके अजर अमर ब्रह्मरूप देहके जनक हों याते अविद्यारूप समुद्रसे परं नाम अपुनरावृत्तिरूप पारमें विद्यारूप नावसे हमको प्राप्त करो इति ॥ श्रीनारदजीने सनत्कुमारसे कहा है. कि हे भगवन् ! मैंने सर्वविद्या पढ़ी हैं सो मैं मंत्रवेत्ताही हों आत्मवेत्ता नहीं हों मैंने तुमारे तुल्य जे महात्मा हैं तिनसे सुना है कि आत्मवेत्ता शोकको तरे है. सो मैं अनात्मवेत्ता होनेसे शोक करता हूं याते शोकवान् मुझको शोक सागरसे पार करो. इस प्रकार नारदकरके प्रेरित सनत्कुमारने शुद्ध चित्तवान् नारदजीको अविद्यासे पर परमात्मतत्त्वका उपदेश किया है. इति ॥ यद्यपि ब्रह्म वेद इत्यादिक वाक्यनका कर्म प्रतीत होवे है याते ब्रह्मको विधेय मानना चाहिये. तथापि ब्रह्म प्रयत्नसाध्य नहीं याते विधेय नहीं और ब्रह्मको कर्म कहना भी संभवे नहीं क्योंकि ब्रह्म ज्ञानरूप क्रियाका कर्म है वा उपासनारूप क्रियाका कर्म है इन दोनोंही पक्षोंका श्रुति निषेध करे है ! याते दोनोंही संभवे नहीं. तथाहि—“अन्यदेव तत् विदितात् अथो अविदितादधि” ॥ यह केनके प्रथम खंडमें कहा है. इसमें ज्ञानरूप क्रियाके कर्मत्वका निषेध किया है और तहांही । “यद्वाचा अन-

भ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते”
 इस वाक्यमें उपासना क्रियाके कर्मत्वका निषेध किया है. तत् नाम ब्रह्म विदि-
 त जो कार्य व अविदित जो कारण तिन दोनोंसँ अन्यत है. जो ज्ञानका विषय
 होवे सो विदित कहिये अथो यह पद और अधि यह पद निश्चयवाचक है. इति
 जो वाणीकरके नहीं कहा जाय वाणी जिसकर कहे है तिसको तं ब्रह्मजान ये
 उपाधिविशिष्ट देवतादिक उपास्य हैं, तिनको तं ब्रह्म नहीं जान. इति ॥ और
 उत्तरवचनसे भी ब्रह्मको कर्म कहिना असंगत है। “यस्यामतं तस्य मतं
 मतं यस्य न वेद सः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञानमविज्ञानतां” ।
 यह केनके द्वितीय खंडका वाक्य है “येन इदं सर्वं विजानाति तं केन विजा-
 नीयाम् विज्ञातरं अरे केन विजानीयाम्” यह वाक्य चतुर्थ अध्यायके च-
 तुर्थ ब्राह्मणमें बृहदारण्यकमें कहा है. उक्त वाक्यनमें भी ब्रह्मको ज्ञानका अधिषय
 कथन किया है. श्रुतिअर्थ—ब्रह्म अधिषय है. ऐसा जिसको निश्चय है तिसको ब्रह्म
 सम्यक् ज्ञात है और जिसको ब्रह्म ज्ञानका विषय है ऐसा निश्चय है तिसको
 ब्रह्म अज्ञात है. इस अर्थका अर्थ श्रुतिमें अनुवाद है. इति ॥ अरे मै-
 त्रेय ! जिस वस्तुकरके इस चराचरको जाने हैं तिसको किसकरके जानें
 विज्ञाताको किसकर जानें. इति ॥ किंच मोक्ष स्वरूपसे अनादि है. याते
 विषेय क्रियाकरके उत्पाद्य नहीं. गीतामें अविकार्य कहा है याते मोक्ष
 विकार्य नहीं, नित्य प्राप्त है याते आप्य नहीं. निर्गुणस्वरूप है याते संस्कार्य-
 रूप नहीं । निर्गुणनिर्दोषतामें यह वचन प्रमाण है। “एको देवः सर्वभूतेषु
 गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः सा-
 क्षी चेता केवलो निर्गुणश्च” यह श्वेताश्वतरके षष्ठ अध्यायमें कहा है.
 “म पर्यगात् शुक्रं अकायं अग्रणं अन्ताविरं शुद्धं अपापविद्धं” यह
 ईशावास्यमें कहा है । श्रुतिअर्थ—शियादित्रय मूर्ति नहीं किन्तु एक है, जड़ नहीं
 किन्तु प्रकाशस्वरूप है. सर्वभूतनमें मायाकरके गूढ. नाम छिपाहुया है. याते प्र-
 तीत नहीं होता. मयमें व्यापक है. तटस्थ नहीं किन्तु सर्वके अनंतर आत्मास्वरूप
 है. सर्वभूतनमें स्थित है तांभी क्रियाका फला नहीं. किन्तु कर्मका साक्षी है,
 सर्वभूतनका अधिगाम नाम अधिष्ठान है. सर्वकर्तारूप जीवनकाभी साक्षी है.
 चेता नाम चेतनस्वरूप है. ज्ञानादि गुणोंमें रहित है. केवल नाम हृदयमें रहित
 है. इति ॥ सो आत्मा पर्यगात् नाम व्यापक है. शुक्र नाम दीप्तिमान् है. अ-
 काय नाम छिगन्तरीरसे रहित है. अग्रण नाम छिद्ररहित है. अन्ताविर नाम

नाडियोंसे रहित है. अत्रण अस्त्राविर इन दो विशेषणोंसे स्थूलशरीरसे रहित कथन किया है. शुद्ध नाम रागादि गुणोंसे रहित है. अपापविद्ध नाम धर्माधर्मसे रहित है. इति ॥ पूर्व श्रुतिमें संस्कार्यरूप मोक्षका निषेध किया है. याते कर्तव्य विधिका अंगरूप करके ब्रह्मका उपदेश संभवे नहीं. इति ॥ ब्रह्म और आत्माके अभेदविषयक जो ज्ञान तांको स्वतंत्र मोक्षकी कारणता श्रुति देखावे है. याते विधिकी अपेक्षा नहीं. तथाहि “आत्मानं चेत् विजानीयाद्यमस्मीति पूरुषः ॥ किमिच्छन् कस्य कमाय शरीरमनुसंज्वरेत्” यह वाक्य बृहदारण्यकके षष्ठ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मणमें है.

अर्थ—यह परमात्मा अहं अस्मि इस प्रकार अपरोक्षरूपसे जो कोई जाने तौ अपनेसे भिन्न किस फलकी इच्छा कर्ता हुआ किसकी कामनाके अर्थ शरीरको तपावे. इति ॥ यद्यपि शरीरकालमें अशरीरत्वका अभाव है, याते मोक्षको धर्मजन्य कहिना संभवे है. तथापि सशरीरत्व मिथ्या है. याते स्वाभाविक अशरीरत्व है. याते मोक्ष धर्मजन्य नहीं. तथाहि श्रुति “तवथा अहिनिल्वर्धनी बल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीत एवमेव इदं शरीरं शेते अथ अयं अशरीरो मृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एवेति” यह बृहदारण्यकके षष्ठ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मणमें जनकके प्रति याज्ञवल्क्यका वचन है। सचधुरचधुरिव सकर्णोऽकर्ण इव सप्राणोऽप्राण इव” यह अपर जगामी कहा है.

“सवागवागिव समना अमना इव”

अर्थ—जीवन्मुक्त पुरुष देहको जानेहै. तौभी पूर्ववत् तिसका संसार रहे नहीं. इस अर्थमें श्रुति दृष्टांत कहे है. यथा सर्पकी केंचली विलमें प्रत्यस्ता नाम फेंकी हुई मृता नाम पूर्ववत् आत्मरूपसे नहीं ग्रहण करी हुई पड़ी रहेहै. तैसे आत्मवेत्ताका शरीर पूर्ववत् आत्मरूपसे नहीं ग्रहण किया हुआ स्थित रहै है. केंचलीके समान शरीरको कहकर सर्पतुल्यता आत्मवेत्तामें श्रुति दिखावे है. यथा उतारी त्वचाको अहं ऐसे सर्प नहीं माने है. अथ नाम तथा जीवन्मुक्तभी देहको मैं यह हूं ऐसे मानता नहीं, याते आत्मवेत्ता अशरीर कहलाता है. देहके अभिमानसे मृत्यु होवेहै. ज्ञानीको देहाभिमान नहीं याते अमृतरूप है. जीववत् चेष्टा करेहै याते ज्ञा-

नीको प्राण कहा है. अर्थात् साक्षी है. सो ब्रह्मरूप है. तेजः नाम ज्योतिः-स्वरूप है. इस श्रुतिमें स्थूलदेहको मिथ्या दिखाया है. इति । वास्तवसें चक्षुरहित हैं, तौभी बाधित नेत्रादि अनुवृत्तिसें नेत्रवान् प्रतीत होयें. इस प्रकार आगे जाना चाहिये. इस श्रुतिमें लिंगदेहको मिथ्या दिखाया है. याते सर्व वेदांतका साक्षात् ब्रह्ममें तात्पर्य है. विधिद्वारा नहीं सिद्ध हुआ ॥ ४ ॥

अव०—पूर्व चार सूत्रोंकरके ब्रह्मको सर्वज्ञ सर्वशक्तियान् जगत्कारण वेदांत-प्रतिपाद्य कथन किया है. सो ब्रह्म चेतन है वा अचेतन है, यह तहां संदेह है. तहां यह सांख्यका पूर्वपक्ष है कि ब्रह्म तो कूटस्थ है याते ज्ञान और क्रियाशक्तियान् ब्रह्म नहीं याते सो जगतका कारण नहीं. और प्रधान त्रिगुणरूप है. त्रिगुणरूप होनेसें तामें ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति संभवे है. याते प्रधान जगतका कारण है. सो प्रधान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् है. तिसका सर्व वेदांत अनुवाद करें हैं. इस मतका भगवान् सूत्रकार खंडन करें हैं.

ईक्षतेर्नाशब्दम् ॥ ५ ॥

ईक्षतेः । न । अशब्दम् । इति ॥ प० ॥

अर्थ—सांख्यपरिकल्पितं प्रधानं जगत्कारणं न संभवति । अशब्दत्वात् । अर्थात् अवेदप्रामाणिकत्वात् । अवेदप्रामाणिकमें हेतु कहें हैं । सांख्यपरिकल्पितं प्रधानं अवेदप्रामाणिकं भवति । ईक्षतेः अर्थात् ईक्षितृत्वध्वणात् इति । “तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय” यह छांदोग्यश्रुति ईक्षितृत्वमें प्रमाण है. ईक्षितृत्व इच्छा वा ज्ञानविशेष है. प्रधान जड़ है जड़में इच्छादि संभवे नहीं याते प्रधान वेदप्रामाणिक नहीं, वेदप्रमाणविना ताको जगतका कारण कहिना संभवे नहीं. इति । प्रधान उपासना इस अधिकरणके पूर्वपक्षमें फल है. और ब्रह्मात्माअभेदज्ञान सिद्धांतमें फल है. इति ॥ ५ ॥

अव०—ननु इच्छामात्रसें ब्रह्मको जगतका कारण मानें तौ प्रधानमेंभी कारणता संभवे. तथाहि “तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षंत”—या श्रुतिमें अचेतनरूप जल तेजमें इच्छा मुनी है याते जड़ प्रधानमें गौण इच्छा मानके प्रधानको कारण मानना संभवे, इस शंकाका सूत्रकार समाधान करें हैं ।

गौणश्चेन्नात्मशब्दात् ॥ ६ ॥

गौणः । चेत् । न । आत्मशब्दात् ॥ इति प० ॥

अर्थ—चेत् नाम जो प्रधानमें गौण इच्छा मानें तौ संभवे नहीं. तथाहि

छांदोग्यके षष्ठ प्रपाठकमें यह श्वेतकेतुप्रति उद्दालकका वचन है “तदैक्ष-
त बहु स्यां प्रजायेय” “तत्तेजोऽसृजत” “तत्तेज ऐक्षत बहुस्यां प्रजा-
येय “तदपोऽसृजत” “ता आप ऐक्षन्त बह्वयः स्याम प्रजायेमहि ता
अन्नं असृजंत” यह दूसरे खंडमें कहकर आगे तृतीय खंडमें यह कहा है
“सा इयं देवता ऐक्षत हंताऽहं इमाः तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्म-
नाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” इति ॥

अर्थ—‘तदैक्षत’जा श्रुतिसँ पूर्व “सदेव सौम्येदमग्र आसीत्” यह वाक्य
है. इसमें जो-शब्द पदका वाच्य है सो ‘तदैक्षत’ या श्रुतिमें तत्पदसँ ग्रहण है.
तिसमें मैं एकसँ अनेकरूप होऊं यह इच्छा हुई तिससे तेजको रचा तिस तेजमें
इच्छा हुई कि मैं एकसे अनेकरूप होऊं, तासे जलको रचा, तिसमें इच्छा हुई
कि मैं एकसँ अनेक रूप होऊं, तब जलसे अन्नको रचा. इति । तिस देवताकी
इच्छा करके अब अर्थात् महाभूतउत्पत्तिअनंतर हम तीनों देवता अनेन नाम
पूर्वसृष्टिअनुभूत प्राणद्युतिहेतुसँ जीवेनात्मना नाम तत्पूर्वसँ प्रवेश करके
देवतावोंकी उत्पत्तिके अनंतर नामरूपको प्रगट करूँ इति ॥ इस श्रुतिमें
आत्मा शब्द सुना है. जो पूर्वभूतत्रयकी उत्पत्तिसँ प्रधानका ग्रहण होवे तो
जीवेनात्मना प्रविश्य यह कथन असंगत होवेगा, आत्मा शब्द स्वरूपका वाचक है ॥
चेतन जीव अचेतन प्रधानका आत्मा नहीं और ब्रह्ममें जीववाचक आत्मा-
शब्दका प्रयोग संभवे है. और अंतमें “स य एपोऽणिमैतदात्म्यं इदं सर्वं
तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो” या वाक्यमें श्वेतकेतु जीवका
आत्मासँ तादात्म्य उपदेश किया है याते चेतनसे चेतनके अमेदकी शंका
रंचक नहीं । श्रुतिअर्थ—जो सत्य वस्तु है सो यह अणिमा नाम
अणु है. एतत् नाम यह चेतन होवे आत्मा जिसका सो ऐतदात्म्य कहिये
अर्थात् जगतका ग्रहण है. इस सर्व चराचरका आत्मा चेतनही है. सो आत्मा
सत्य है. अर्थात् परमार्थस्वरूप है. सो सर्वका आत्मा है. हे श्वेतकेतु । तुमभी
संसारी नहीं हो किंतु सोई सत्यपदका वाच्य ब्रह्म तुम ही. इति ॥ उक्त श्रुतिमें
आत्मा शब्दका ग्रहण किया है. याते तेज जलकी नाई प्रधानमें गौण इच्छा
संभवे नहीं. पूर्व जिस श्रुतिमें जलतेजविषे इच्छा कही है तहां तेज जलउप-
हित परमात्मामें इच्छा अंगीकृत है. मुख्य तेजजलमें इच्छा माननेसँ चेतनसँ
सर्वसृष्टिकथन असंगत होवेगा. इति ॥ ६ ॥

अच०—ननु यद्यपि आत्माशब्द मुख्यवृत्तिसँ प्रधानका वाचक नहीं तथापि गौणवृत्तिसँ प्रधानका वाचक माननेसे हानि नहीं. इस शंकामें कहें हैं.

तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् ॥ ७ ॥

तत्निष्ठस्य । मोक्षोपदेशात् ॥ इति ॥ प० ॥

अर्थ—तत्त्वमसि वाक्यसँ चेतन श्वेतकेतुको ब्रह्मनिष्ठताका उपदेश करके यह उपदेश किया है। “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षये अथ संपत्स्ये” तस्य जो अचेतनको सत् शब्दका वाच्य मानें तो तत्त्वमसि वाक्यका यह तात्पर्य सिद्ध होवेगा. हे श्वेतकेतो ! तँ चेतन अचेतनस्वरूप है इति । इसको सुनके अहं अचेतनोस्मि याविध चिंतन कर्ता हुआ मोक्षसे पतित होता और अनर्थको प्राप्त होता है. याते शास्त्र उन्मत्तप्रलापमात्र सिद्ध होता है सो अनिष्ट है. याते आत्मा शब्द चेतनका वाचक है जड प्रधानका वाचक नहीं । श्रुतिअर्थ आत्मवेत्ताको तहां पर्यंतही चिर है. अर्थात् देहादि अनुवृत्ति है. जहांतक प्रारब्ध कर्म शेष है, अथ नाम प्रारब्धक्षयअनंतर संपत्स्येनामे संपत्स्यते अर्थात् विदेहमुक्त होवें हैं. इति ॥ ७ ॥

अच०—ननु स्थूलारुंधतीन्यायसँ प्रधानके उपदेशद्वारा आत्माका उपदेश मानना चाहिये. इस शंकाका उत्तर कहें हैं.

हेयत्वावचनाच्च ॥ ८ ॥

॥ प० हेयत्वावचनात् । च । इति ॥ प० ॥

अर्थ—स्थूलारुंधतीन्यायसे उपदेश तौ देने किंच अनात्मा प्रधानको सत्पदका वाच्य मानके जो आत्मा है सो तँ है. याविध उपदेश करके तिस उपदेशके श्रवणसँ अनात्मवेत्ता होकर तिस अनात्मा प्रधानमें निष्ठावान नहीं होवे. यह मानके मुख्य आत्माके उपदेशकी इच्छासे शास्त्र प्रधानको हेयत्वकरके कहिता प्रधानका निषेधक वचन कोई प्रतीत होवे नहीं याते प्रधानके उपदेशद्वाराभी आत्माका उपदेश संभवे नहीं और एक्के विज्ञानसँ सर्वके विज्ञानकी प्रतिज्ञाका विरोध होवेगा. तथाहि “उत्तमादेशमप्राक्षो येनाऽश्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतं अविज्ञातं विज्ञातं । कथं नु भगवः स आदेशो भवति इति । यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाच्यारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यं इति” इस वाक्यमें

एकके विज्ञानसँ सर्वके विज्ञानकी प्रतिज्ञा करी है. प्रधानके ज्ञानसँ सर्वविकारों-काव सुनाकताका ज्ञान संभवे नहीं। श्रुतिअर्थ—हे श्वेतकेतो! जा वस्तुके शास्त्रसँ श्रवणकियेसँ न भी सुना जाय, जिसको तर्कसँ मनन कियेसँ जो नहीं मनन किया सो मनन होवे, जिसके जानेसँ जो नहीं जाना सो जाना जाय, सो उत्तमां-देश नाम शास्त्र गम्यवस्तुका उपदेश अप्राक्षः नाम पूछाया. यह पिताके वाक्यका अर्थ है। हे भगवन्! एक वस्तुके सुनेसँ सर्वके श्रवणका उपदेश कैसे होवेहै अपरके ज्ञानसँ अपरका ज्ञान होवे नहीं यह श्वेतकेतुके वचनका अर्थ है। पिताका उत्तर—हे सौम्य! यथा, एक मृत्तिकापिंडके ज्ञानसँ मृत्तिकाके सर्व विकार अर्थात् कार्-व ज्ञात होवेहै यद्यपि मृत्तिकापिंडका ज्ञान हुयेभी तत्कार्यका ज्ञान होना संभवे नहीं तथापि जो विकार है अर्थात् कार्य है सो वाचारंभण है अर्थात् वाक्यावलंबन मात्र है वास्तवमें वाणीसँ भिन्न नहीं नामधेयं यह तहां हेतु है नामधेय कहिये नाममात्र है अर्थात् अर्थसँ रहित है. यद्यपि घटका मृत्तिकासँ अभेद मानेसँ घटनाश हुये मृत्तिकाविनाश होना चाहिये तथापि घट मृत्तिकासँ भिन्न नहीं किंतु तासँ अभिन्न है. और मृत्तिका घटसँ भिन्न है यांते दोष नहीं, उक्त अर्थही श्रुतिमें मृत्तिका इत्येव सत्यं” या वाक्यसँ कहा है. इति ॥ ८ ॥

अव०—सदेव इस वाक्यमें जो सत्पद है ताका वाच्य प्रधान नहीं यह पुनः सूत्रसँ सिद्ध करेंहैं।

स्वाप्ययात् ॥ ९ ॥

स्वाअप्ययात् । इति ॥ ५० ॥

अर्थ—स्व नाम अत्तामें अप्ययात् नाम लय सुना है सो लयस्थान आत्मा सत्पदका वाच्य है, जो प्रधानको सत्पदका वाच्य मानें तौ चेतन अचेत-नमें लय होवेहै. जाविध विरोध सिद्ध होवेगा। ‘तत्र स्वमपीतो भवति’ यह श्रुति आत्तामें लयको दिखावे है। अर्थ—तत्र नाम सुषुप्तिकालमें स्व नाम आत्तामें अपीतो नाम लय होवेहै. यह श्रुतिका अर्थ है। यांते सत्पदका वाच्य चेतनही जगत्का कारण है. इति ॥ ९ ॥

गतिसामान्यात् ॥ १० ॥

गतिसामान्यात् ॥ इति । ५० ॥

अर्थ—सर्व वेदांतमें चेतनविषे कारणत्वप्रतीति तुल्य होवेहै कहें चेतन का-

रण कहूँ अचेतन कारण जाविध विरोध प्रतीत होवे नहीं, किंतु सर्व वेदांतमें चेतनही कारण प्रतीत होवेहै. तथाहि—“एतस्मात् आत्मन आकाशः संभूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नं अन्नाद्देतः रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः” यह तैत्तिरीयकी ब्रह्मानंदवल्लीमें लिखा है. “आत्मन एष प्राणो जायते” यह प्रश्नके द्वितीय प्रश्नमें कहा है. इति । आत्मापदसँ चेतनका ग्रहण है प्राणपद हिरण्यगर्भका वाचक है. इति ॥ १० ॥

किंच ।

श्रुतत्वाच्च ॥ ११ ॥

श्रुतत्वात् च । इति । ५० ॥

अर्थ—अपर श्रुतिमें भी सर्वज्ञ ईश्वरको कारण सुना है तथाहि—“येनावृतं नित्यामिदं हि सर्वज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः । न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम् । स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः” इति । यह श्वेताश्वतरके षष्ठम अध्यायमें कहा है । श्रुतिअर्थ—सर्वज्ञ है, कालका भी काल है, गुणवान् है. जिसकरके यह सर्व आवृत है, जो सर्वको जानेहै. तिसका इस लोकमें कोई पति नहीं और ईशिता भी कोई नहीं, ताका लिंग भी नहीं, सो सर्वज्ञ सर्वका कारण है. और करण ये इंद्रियां तिनका अधिपति नाम स्वामीभी जो जीव तिसका भी अधिपति नाम परम ईश्वर है, इसका कोई जनिता नहीं, अधिप नाम हिरण्यगर्भका भी प्रेरक है. तांका प्रेरक कोई नहीं. इति ॥ उक्त वाक्यनसँ भी ब्रह्मही जगतका कारण निश्चित है. प्रधान वा अपर कोई अचेतन कारण नहीं. इति सिद्धम् ॥ ११ ॥

अव०—ननु पूर्व चार सूत्रोंकरके सर्वज्ञ सर्वशक्तियान् ब्रह्म प्रतिपादन किया है उत्तरसूत्रोंसँ क्या प्रतिपाद्य है. या शंकासँ कहेंहै कि निर्विशेष ब्रह्मका स्वरूपसँ तो उपदेश संभवे नहीं किंतु किंचित् उपाधिवहितरूपसँ उपदेश संभवे है. तहां किस वाक्यमें उपाधि अपेक्षित है. किस वाक्यमें नहीं अपेक्षित जाविध अभिलाषा हुयेंसँ तिन वाक्यनके विचारार्थ उत्तरसूत्रसंदर्भ है. सविशेषरूपसँ और निर्विशेषरूपसँ ब्रह्म दो प्रकारका सुना है. तथाहि “यत्र हि तैत्तमिव भवति तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतरं शृणोति तदितर इतरं अभिवदति तदितर इतरं मनुते

तदितर इतरं विजानाति” यह सविशेष वाक्य कहकर आगे यह निर्विशेष कहा है। “यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं जिघ्रेत् तत्केन कं पश्येत् तत्केन कं शृणुयात् तत्केन कं अभिचदेत् तत्केन कं मन्यीत तत्केन कं विजानीयात् येन इदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् विज्ञा-
 तारं अरे केन विजानीयात्” इति ॥ यह निर्विशेष वाक्य है. यह प्रसंग बृहदारण्यकके चतुर्थाध्याय चतुर्थ ब्राह्मणमें है. छांदोग्यमें भी कहा है। “यो वै भूमा तत् सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं भूमा त्वेव वि-
 जिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति” यह कह कर आगे यह कहा है. “यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा । अथ यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अ-
 न्यत् विजानाति तदल्पं यो वै भूमा तदमृतं अथ यदल्पं तन्मर्त्यं स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठत इति स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नि इति” इस उक्त वाक्यमें भी निर्विशेष और सविशेष उभय वाक्य प्रतीत होवे हैं. उक्त प्रसंग छांदोग्यके सप्तम प्रपाठक चतुर्विंश खंडमें सनत्कुमारका नारदप्रति उपदेश है. श्वेताश्वतरके षष्ठ अध्यायमें भी कहा है. “निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवयं निरञ्जनम् । अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलः ॥ यदा च-
 र्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ॥ तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति” इति ॥ इसमें भी निर्विशेष वाक्य प्रतीत होवे है. “स एष नेति नेति आत्मा अगृह्यो न हि गृह्यते अशीर्यो न हि शीर्यते असङ्गो न हि सज्जते” यह बृहदारण्यकके षष्ठ प्र० द्वितीय ब्राह्मणमें जनकप्रति याज्ञवल्क्यवचन है. यह भी निर्विशेष वाक्य है. श्रुतिअर्थ-
 जिस अविद्याअवस्थामें भी तुच्छ द्वैत सत्यकी नाई भान होवे है. तिस अव-
 स्थामें इतर नाम संसारी इतर नाम आपनेसैं भिन्न वस्तुको देखे है. जो विद्या अवस्थामें इस आत्मवेत्ताको सर्व कर्तादिक आत्मासैं भिन्न असत्य भान होवे हैं ता अवस्थामें किसकारणकरके किस विषयको कौन कर्ता देखे. जिस कर इस सर्वको जाने है तिसको किसकरके जाने. अरे भैत्रेयी ! विज्ञाताको किस-
 करके जाने. इति ॥ नारदप्रति सनत्कुमार कहे हैं. जो भूमा है सो सुख है. अल्पमें सुख नहीं. भूमाही जाननेयोग्य है. नारदवचन-हे भगवन् ! भू-
 माको कहो. सनत्कुमारवचन-जिस अवस्थामें आपनेसैं भिन्न वस्तुको देखे सुने जाने नहीं सो भूमा है. जिस अवस्थामें अपरको देखे सुने जाने हैं, सो अल्प है अर्थात् परिच्छिन्न है. जो भूमा है सो अमृतस्वरूप है. जो अल्प है सो विनाशी है. हे भगवन् ! सो भूमा किसमें स्थित है. हे नारद ! सो यदि प्रतिष्ठाकी इच्छा करे तो स्वमहिमामें अर्थात् स्वस्वरूपमें स्थित है. वा यदि

नहीं इच्छा करे तो नहीं. इति ॥ दृष्टिआदि अगोचर निरतिशय महत्वयुक्त जो परमात्मा सो भूमा अंगीकृत है. इति ॥ जो निरंश है, क्रियारहित है, जो परिणामरहित है, निरवद्य नाम रागादिकोंसे रहित है, धर्मादिकोंसे रहित है, निरंजन नाम जड़संबंधसे रहित है. अमृतस्वरूप है. संसारसागरका सेतु है. अर्थात् बुद्धिवृत्तिमें स्थित हुआ साधन है. काष्ठदाहहुये यथा अग्नि शांत होवे है तथा सो वृत्तिज्ञान नाश होवेहै. उक्त विशेषणवान् तिस देवको जाने बिना दुःखका नाश तो होवेगा. जो चर्मवत् आकाशको पुरुष बटोर लेवेंगे. इति ॥ सो यह आत्मा 'नेति नेति' इस निषेधकी अधिधि है. अर्थात् सर्व निषेधका अधिष्ठान है. इसप्रकारसें जहां सगुणवाक्यविचार है तहां उपासनः अंगीकार है, जहां गुण सुने भी गुण अंगीकार नहीं सो वाक्य ज्ञेय ब्रह्मका बोधक है. इसप्रकारके निर्णयार्थ उत्तरसूत्रोंका संदर्भ है. आनंदमयरूपसें जीवकी उपासना पूर्वपक्षमें उत्तरसूत्रका फल है. सिद्धांतमें निर्गुण ब्रह्मकी प्रमिति फल है तैत्तिरीयके द्वितीयाध्यायमें यह वाक्य है. "तस्मात् वा एतस्मात् अन्नरसमयात् अन्योऽतर आत्मा प्राणमयः । तस्मात् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योऽतर आत्मा मनोमयः । तस्मात् वा एतस्मात् मनोमयात् अन्योऽतर आत्मा विज्ञानमयः । तस्मात् वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्योऽतर आत्मा आनन्दमयः । तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोदः उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" इति ॥ श्रुतिअर्थ—तस्मात् नाम मेरेसें एतस्मात् नाम ब्राह्मणसें विज्ञानमयसें अन्य नाम अपर अंतर नाम सूक्ष्म आनंदमय आत्मा है. प्रियवृत्ति शिर है, मोदवृत्ति दक्षिण पक्ष है, प्रमोदवृत्ति उत्तर पक्ष है, आनंद आत्मा नाम शरीरमध्यभाग है, ब्रह्म पुच्छ है, प्रतिष्ठा नाम आसरा है. इति ॥ उक्त वाक्यमें यह संदेह है. कि आनंदमयपदसें सत्चित् आनंदरूप ब्रह्मका ग्रहण है वा अन्नमयादिविकारवान् जीवका ग्रहण है. इति ॥ तहां यह पूर्वपक्ष है कि अन्नमयादिक पदोंमें मयद् विकारार्थमें है और प्रिय मो दप्रमोदादि अत्रयव तांके कहेंहैं यांते आनंदमय जीव है. ब्रह्म नहीं. इति ॥ उक्त पूर्वपक्षका समाधान करेंहैं.

आनन्दमयोऽभ्यासात् ॥ १२ ॥

आनन्दमयः । अभ्यासात् ॥ इति प० ॥

अर्थ—आनंदमय शब्दका अनेक श्रुतिनमें ब्रह्मविषे अभ्यास सुना है, यांते तहां आनंदमयपदमें परमात्माका ग्रहण है. जीव अंगीकृत नहीं है. तथाहि "रमो वै सः रमं हि ण्वार्यं लब्ध्वा आनन्दी भवति । को हि ण्य

अन्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष हि एव आनन्दयति” । यह तैत्तिरीयकी ब्रह्मानन्दवल्लीमें कहा है. तहांही आगे पुनः कहा है:—“सा एषा आनन्दस्य मीमांसा भवति । एतं आनन्दमेयमात्मानं उपसंक्रामति । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन इति ॥ आनन्दो ब्रह्म इति व्यजानात्” ॥ यह भृगुवल्लीमें कहा है. इति ॥ उक्त वाक्यनमें आनन्दमयका बहु अभ्यास सुना है. यद्यपि उक्त वचननमें आनन्दपदका अभ्यास है. आनन्दमय पदका नहीं तथापि ॥ ‘वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत’ इस वाक्यमें यथा ज्योतिष्पदसँ ज्योतिष्टोमका ग्रहण है. तैसे आनन्दपदसँ आनन्दमयका ग्रहण है. श्रुतिअर्थ—रसनाम सार अर्थात् आनन्दका नाम है. जो पूर्वकारण कहा है सो आनन्दरूप है. उक्त रसको पायके ही जीव आनन्दवान् होवेहै. जो यह आकाश अर्थात् ब्रह्म आनन्दरूप नहीं होवे अर्थात् प्रेरक नहीं होवे तौ कौन अन्यात् नाम जीवे. और कौन प्राण्यात् नाम प्राणचेष्टा करे. यह ब्रह्मानन्दही सर्वको आनन्दवान् करेहै. यह ब्रह्मानन्दकी मीमांसा नाम विचार है. सो पुरुषमें है. जो आदित्यमें है सो एक है. इसप्रकार जो जानेहै, सो अन्नमय आत्मासँ लेकर आनन्दमय आत्मातक सर्वको उपसंक्रामति नाम इनमें आत्मबुद्धिको छोड़देताहै. ब्रह्मानन्दको विद्वान् नाम जानताहुआ किसीसँ भयको प्राप्त होता नहीं. अतः ब्रह्मको आनन्दस्वरूप जाने. इति ॥ उक्त आनन्दमयपदके अभ्याससँ आनन्दमय परमात्मा है. जीव नहीं. इति ॥ १२ ॥

विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात् ॥ १३ ॥

विकारशब्दात् । न । इति । चेत् । न । प्राचुर्यात् ॥ इति प० ॥

अर्थ—ननु मयद् प्रत्ययका विकारार्थमें विधान है यातें आनन्दमय ब्रह्म नहीं आनन्दका जो होवे विकार सो आनन्दमय अंगीकार है. ब्रह्मको आनन्दका विकार कहिना संभवे नहीं, इति चेत् नाम यह शंका करें तौ संभवे नहीं. तथाहि प्रसंगमें मयद्का प्राचुर्यअर्थमें विधान है. विकारमें विधान नहीं, यातें उक्त शंका संभवे नहीं. इति ॥ १३ ॥

तद्देतुव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥

तद्देतुव्यपदेशात् । च ॥ इति प० ॥

अर्थ—‘आनन्दं हि एव लब्ध्वा आनन्दी भवति’ इस श्रुतिमें ब्रह्मको

आनंदका हेतु कहा है, जो दूसरेको आनंद करे सो प्रचुरआनंद अंगीकृत है, याते मयद् प्राचुर्यार्थक है, विकारार्थक नहीं, इति ॥ १४ ॥

अर्थ०—आनंदमय परमात्मा है इसमें अपर हेतु कहे हैं.

मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १५ ॥

मान्त्रवर्णिकं । एव । च । गीयते । इति प० ।

अर्थ—तैत्तिरीय ब्रह्मानंदवल्लीके आरंभमें यह मंत्र है। “ब्रह्मविदाप्नोति परम् । सत्त्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुह्यांयां ह्रमे व्योमन् । सोऽश्रुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चित्” इति । उक्त मंत्रमें जो ज्ञेयकरके कथन किया है ब्रह्म सो मान्त्रवर्णिक अंगीकृत है, सोई ब्रह्म “अन्योऽतर आत्मा आनन्दमयः गीयते” इस ब्राह्मणमें गीयते नाम कहा है. मंत्र और ब्राह्मणका एकही अर्थ होवेहै, याते आनंदमय परमात्मा है जीव नहीं, इति ॥ १५ ॥

नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १६ ॥

न । इतरः । अनुपपत्तेः । इति प० ।

अर्थ—‘सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय इति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा इदं सर्वं असृजत । यदिदं किंच । तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रावि-
शात् । तदनु प्राविश्य सच्च लब्धाभवत्’ यह तैत्तिरीयकी ब्रह्मानंदवल्लीगत वाक्य है । इस उक्त वाक्यमें सृष्टिकी कारणता सुनी है, आनंदमयसं जीव अंगीकार कियेसं जीवमें उक्त कारणता नहीं वनेगी; अतएव ‘अनुपपत्तेः’ नाम कारणता नहीं वननेसं ही ईश्वरसं इतर जो जीव सो आनंदमय नहीं, इति १६

भेदव्यपदेशाच्च ॥ १७ ॥

भेदव्यपदेशात् । च । इति प० ।

अर्थ—‘रसं हि’ जा श्रुतिमें आनंदमयको लभनेयोग्य कहा है, जीवको लभनेवाला कहा है, याते जीवका आनंदमयसं भेद कथन करणसं आनंदमय जीव नहीं, इति ॥ १७ ॥

कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १८ ॥

कामात् । च । न । अनुमानापेक्षा । इति प० ॥

अर्थ—आनंदमयके प्रसंगमें 'सोऽकामयत' यह कामना सुनी है, यातें अनुमानगम्य जो प्रधान सो भी आनंदमय अंगीकार नहीं. इति ॥ १८ ॥

अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १९ ॥

अस्मिन् । अस्य । च । तद्योगं । शास्ति । इति । प० ॥

अर्थ—अस्मिन् नाम आनंदमय आत्मामें प्रबुद्धजीवकी तत्तद्योगनाम तत्स्वरूपमुक्तिको शास्त्र, कहे है। तथाहि “यदा हि एव एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सः अभयं गतो भवति। यदा हि एवैष एतस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति” यह ब्रह्मानंदवल्लीके सप्तम अनुवाकमें कहा है. इसका यह अर्थ है कि अदृश्य अनात्म्य अनिरुक्त अनिलयन यह चार पद ब्रह्मके बोधक हैं, स्थूलदृश्यसँ तादात्म्यरहितको अदृश्यपदसँ ग्रहण किया है, आत्मापदसँ इंद्रियोंका ग्रहण है, तिनसँ तादात्म्यरहितका अनात्म्यपदसँ अंगीकार है, निरुक्तपदसँ सूक्ष्मभूतनका ग्रहण है, तिनसँ तादात्म्यरहितका अनिरुक्तपदसँ ग्रहण है, सर्वके लयस्थानका नाम निलयन है तासँ रहितका नाम अनिलयन है. इस अदृश्य अनात्म्य अनिरुक्त अनिलयन स्वरूप ब्रह्मविषे अभेदज्ञानकालमें अभयप्रतिष्ठाको आत्मवेत्ता प्राप्त होवेहै. तदनंतर अभयको प्राप्त होवेहै. यदा इस आनंदमय ब्रह्ममें उदर नाम अल्पभी अंतर नाम भेदको देखे है तदा तिसको भय होवेहै. इति ॥ उक्तविधसँ आनंदमय पद जीव वा प्रधानका वाचक नहीं, यातें आनंदमय तहां परमात्मा अंगीकृत है. इति सिद्धम् । यह एकदेशीका मत है । भगवान् भाष्यकारका यह सिद्धांत है कि एकदेशीके मतमें यह दोष है, जैसे पूर्व उक्त श्रुतिवचननमें आनंदपद है आनंदमय पद नहीं यातें एकदेशीको आनंदपदकी आनंदमयमें लक्षणा माननी होवेगी. और मयदको प्राचुर्यार्थके अंगीकार कियेसँ ब्रह्ममें लय दुःखप्रसंग सिद्ध हुयेसँ आनंदमयपदकी अल्पत्व निवृत्तिमें लक्षणा मानके ताको ब्रह्मवादी मानना होवेगा, और “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” जा वाक्यमें जो ब्रह्मपद ताकी अवयवमें लक्षणा माननी, होवेगी. और मुखका त्याग और प्रायः पाठका त्याग इतने दोष एकदेशीके मतमें हैं. और स्वमतमें “ब्रह्म पुच्छं” जा वाक्यमें जो पुच्छपद ताका जो अवयवप्रायः पाठ ताका त्याग मात्र दोष है । “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” इस वाक्यमें आनंदमयका अवयवरूप ब्रह्म है वा स्वप्रधान ब्रह्मका

ग्रहण है, यह तहां संशय है, एकदेशीके मतमें प्रयोजन कहाथा सोई भाष्यकारके मतमें अंगीकार है । पुच्छपद तहां अत्रयवका वाचक है, यह पूर्वपक्षमें अंगीकार है । सिद्धांतमें 'आनन्दमयोभ्यासात्' इस सूत्रका यह अर्थ है कि आनन्दमयपदसँ 'ब्रह्म पुच्छं' इस वाक्यमें जो ब्रह्मपद सो अंगीकार है, तिस ब्रह्मपदका श्रुतिमें बहु अभ्यास सुना है, याते ब्रह्मपद स्वप्रधान ब्रह्मवाचक है, "असन्नेव स भवति असद् ब्रह्मेति चेत् वेद अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद सन्तमेनं ततो विदुः" यह ब्रह्मानन्दवल्लीमें वाक्य है, इसमें ब्रह्मपदका अभ्यास सुना है, याते ब्रह्मपद स्वप्रधान ब्रह्मबोधक है, अत्रयवैबोधक नहीं, ब्रह्म असत् है, इसप्रकार जो जाने है सो आप असत् होवेहै अर्थात् अपुरु पार्थसंग्रही होवेहै, ब्रह्म है इसप्रकार जो जाने है ताको सत्स्वरूप जाने हैं, अर्थात् तिस अस्तित्वज्ञानसँ सो ब्रह्मवेत्ता अपर पुरुषोंको जाननेयोग्य होवेहै, इति । यह श्रुतिअक्षरार्थ है, इति ॥

'विकारशब्दात् न इति चेत् न प्राचुर्यात्' इसका यह अर्थ है, विकारशब्दात् नाम अत्रयत्राचक पुच्छशब्दसँ ब्रह्मपदका सामानाधिकरण्य है अर्थात् उभय पद एक अर्थवाचक हैं, याते ब्रह्मपद स्वप्रधान ब्रह्मका वाचक नहीं इति चेत् नाम उक्त शंका करे तो संभवे नहीं, तथाहि—सूत्रमें जो प्राचुर्यपद है सो अत्रयवत्राय प्रयोग है आनन्दवाहुल्यतावाचक नहीं, याते ब्रह्मपद अत्रयवत्रायचक नहीं, अत्रयत्राय पाठसँ ही अत्रयवसिद्धि संभवे है याते ब्रह्मपद अत्रयत्रायचक नहीं किंतु ब्रह्मपुच्छकी नाई पुच्छ है, अर्थात् सर्वका अधिष्ठान है, प्रतिष्ठानाम आधार है, यह अर्थ अंगीकार है, इति । "तत्हेतुच्यपदेशात् च" इस सूत्रका यह अर्थ है कि तत्नाम ब्रह्मको सर्वका कारण कथन किया है याते भी पुच्छपद आधारका लक्षक है, इति ॥ "मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते" इसका यह अर्थ है कि जो मंत्रमें ब्रह्म कहा है सोई ब्राह्मणमें कहा है याते पुच्छवाक्यमें ब्रह्मही अंगीकार है, इति ॥ "न इतरः अनुपपत्तेः" इसका अर्थ—पुच्छवाक्यमें ब्रह्मही कथन किया है, इतर नाम जीव नहीं कहा, जो ब्रह्मको अत्रयव मानें तो अत्रयवभी आनन्दमयको कहा चाहिये, तिसके अंगीकार कियेसे उत्तरवाक्य 'अनुपपत्तेः' नाम नहीं बनेगा, याते ब्रह्मपदसँ स्वप्रधान ब्रह्मका ग्रहण है, पुच्छ अत्रयवका ग्रहण नहीं, इति ॥ 'भेदच्यपदेशात् च' इस सूत्रका अर्थ—यह आनन्दमय जीव प्रतिविधित ब्रह्मानन्दको पायके आनन्द होवेहै, नात्रिभ भेदके कथनसँ पुच्छअत्रयवमें ब्रह्मही अंगीकार है, इति ॥

‘कामात् च न अनुमानापेक्षा’ इसका अर्थ—कामपदसें आनन्दका ग्रहण है. सो आनन्द ब्रह्मरूप है, यातें आनन्दमयको भी ब्रह्मत्वकी अपेक्षा होवेगी. अर्थात् आनन्दमयभी ब्रह्म सिद्ध होवेगा. सो अंगीकार नहीं तिसको ब्रह्म अंगीकार कियेसँ विकारार्थक मयङ्का विरोध होवेगा. आनन्दमयशब्दः, ब्रह्मवाचकः, आनन्दशब्दत्वात्, आनन्दो ब्रह्म इति आनन्दशब्दवत् । यह अनुमानका आकार है. इति । ‘अस्मिन् अस्य च तत् योगं शास्ति’ इसका अर्थ—पुच्छवाक्यमें कहा जो ब्रह्म अस्मिन् नाम इस ब्रह्ममें प्रवृद्ध आनन्दमय जीवकी ‘तत् योगं’ नाम तत्स्वरूपप्राप्तिरूप मुक्तिको शास्त्र कहेहै, यातें पुच्छवाक्यमें ब्रह्मस्वप्रधान निर्विशेष ज्ञेय है. इति सिद्धम् ॥ १९ ॥

अव०—उत्तर सूत्रमें सगुणउपासनाका आरंभ करेंहैं। पूर्वपक्षमें और सिद्धांतमें पादसमाप्तिपर्यंत उपासना फल है। छांदोग्यमें तृतीयअनुवाकमें सुना है। “अथ य एषोऽन्तर आदित्ये हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः आप्रणात् सर्वएव सुवर्णः । तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्य उदिति नाम, स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदित उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद।” यह कहकर आगे यह कहा है। “अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते सैव ऋक् तत्साम तत् उक्थं तत् यजुः तत् ब्रह्म तस्य एतस्य तदेव रूपं यत् अमुष्य रूपम्” इति ।

अर्थ—उपासनाका आरंभ अथपदका अर्थ है. जो यह शास्त्रप्रसिद्धिसँ सूर्यमंडलमें पुरुष दिखै है सो ज्योतिःस्वरूप है, श्मश्रु तांके ज्योतिरूप हैं केशभी ज्योतिरूप हैं, नखपर्यंत ज्योतिरूप है, कपिका आस नाम पुच्छभाग तेजस्वी है तत्तुल्य जो पुंडरीक तत्तुल्य इस देवताके नेत्र हैं. तिसका उदिति नाम है सो यह सर्व पापनसँ रहित उदय होवैहै. जो उपासक तांको उक्तविधिसँ जानैहै सोभी सर्वपापनसँ रहित होवैहै. इति ॥ जो यह नेत्रोंमें पुरुष दिसेहै सोई ऋक् है, सोई साम है, सोई उक्थ है, सोई यजु है, सोई ब्रह्म है, इसका सोई रूप है, जो उसका है. इति ॥ उक्त वाक्यमें जो पुरुष कहा है सो विद्याकर्मोंके बलसँ उक्त तेजयुक्त कोई संसारी है वा नित्यसिद्ध परमेश्वर है यह तहां संदेह है । तहां यह पूर्वपक्ष है. कि श्रुतिने जे हिरण्यश्मश्रु आदिक रूप कथन किये हैं ते नित्यसिद्ध परमेश्वरके संभवे नहीं यातें सो पुरुष कोई संसारी है. इति ॥ तहां सूत्रकार स्वसिद्धांत कहेहैं ॥

अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् ॥ २० ॥

अन्तर । तत्तद्धर्मोपदेशात् । इति प० ।

‘अर्थ-नित्यसिद्ध परमेश्वरके सर्व पापराहित्यादि जे धर्म तिन धर्मनका उक्त वाक्यमें उपदेश किया है. यातें जो सूर्यमें और नेत्रोंमें पुरुष सुना है सो परमेश्वर है; संसारी नहीं. उक्त धर्म परमेश्वरमें संभवहैं, संसारीमें संभव नहीं. इति ॥ २० ॥

भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ २१ ॥

भेदव्यपदेशात् । च । अन्यः । इति । प० ।

अर्थ-सूर्यशरीरका अभिमानी जो जीव तासैं परमात्माका भेद कहा है यातें सूर्य और नेत्रोंके अंतर जो पुरुष कहा है सो आदित्यशरीराभिमानी जीवमें अन्य नाम भिन्न है । तथाहि-“य आदित्ये तिष्ठन् आदित्यात् अन्तरो य आदित्यो न चेद् यस्य आदित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयति एष ते आत्मा अन्तर्यामी अमृतः” इत्यादिक श्रुतिनमें आदित्यादिकोंसैं तिनका अन्तर्यामी भिन्न प्रसिद्ध प्रतीत होवेंहैं. श्रुतिअर्थ-जो सूर्यमें स्थित हुआ सूर्यके अंतर है जिसको सूर्य नहीं जाने सूर्य जिसका शरीर है जो सूर्यको अंतर प्रेरणा करेहै. सो तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृतरूप है. इति ॥ यह वाक्य बृहदारण्यकके अष्टम अध्यायमें है. इति ॥ २१ ॥

अथ०-युनः छांदोग्यमें तृतीयप्रपाठकके अष्टमखंडमें यह प्रसंग है. कि शालावत्य ब्राह्मणने जैवलि राजासैं पूंछा था कि सामकी कौन गति है. उसने कहा स्वर है स्वरकी कौन गति है. उसने कहा प्राण है. प्राणकी कौन गति है. उसने कहा अन्न. अन्नकी कौन गति है. उसने कहा जल. जलकी कौन गति है. उसने कहा यह लोक । तब उसने कहा इस लोककी कौन गति है. तिमका उत्तर है “आकाश इति ह उवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशे प्रत्यस्तं यान्ति आकाशो हि एव एभ्यो ज्यायान् आकाशः परायणः” इति ॥

अर्थ-शालावत्यने जब दाल्म्यसे इस लोककी गति पूंछा तब उसने उत्तर नहीं दिया. जैवलि नाम राजाने उत्तर दिया कि, सर्वका गति नाम अधिकरण आकाश है. सर्वभूत आकाशासैं उपजें हैं, आकाशमें लय होवेंहैं. इन सर्वमें

आकाश श्रेष्ठ है. आकाश ही सर्वका स्थान है. इति ॥ उक्त विषयवाक्यमें यह संदेह है कि आकाशशब्दसें भूताकाशका ग्रहण है वा ब्रह्मका ग्रहण है. इति ॥ आकाशसें वायुकी उत्पत्ति कही है यांते आकाशशब्दसें तहां भूताकाशका ग्रहण है. यह पूर्वपक्ष है. तहां यह सूत्रकारका समाधान है ।

आकाशस्तलिङ्गात् ॥ २२ ॥

आकाशः । तत्लिङ्गात् । इति प० ॥

अर्थ—तत् ग्राम ब्रह्मके जे महाभूतरचनादिक लिंग हैं ते उक्तवाक्यमें प्रतीत होवेहैं यातें अकाशपदसें तहां ब्रह्मका अंगीकार है. जहां आकाशसें वायुकी उत्पत्ति कही है तहां आकाशउपहित चेतनसें वायुका जन्म अंगीकृत है, केवल आकाशसें वायुका जन्म मानेसें चेतनकारणबोधक श्रुतिसें विरोध होवेगा, और आकाशसें सर्वभूतनकी उत्पत्तिका कथनभी असंगत होवेगा. इति ॥ २२ ॥

अव०—छांदोग्यमें आकाशवाक्यके अनंतर यह प्रसंग है, कि चाक्रायण नाम कोई कुरुक्षेत्रवासी ऋषि था सो कुरुक्षेत्रमें दुर्भिक्ष हुयेसे अपर देशमें चला गया और जायाकोभी साथ ले गया. एक ग्राममें जाकर रहा, तहां हस्तिवान् हस्तीको कुल्माष खिलाता था और आपभी हस्तीके साथ खाताथा, तिस्सें ऋषिने भिक्षा मांगी. तब उस हस्तिवानने ताको उच्छिष्ट अन्न दिया, फिर हस्तिवान् उच्छिष्ट जल देने लगा तौ ऋषिने नहीं लिया, तब हस्तिवानने कहा कि अन्न तो उच्छिष्ट लिया जल नहीं लेते, तब ऋषिने कहा कि अन्न हमको मिलता नहीं जल जहां तहां बहुत मिलेहै. यह कह अन्न खाकर कुछ शेष रहा सो भार्याको दिया, उसने लेकर धरछोंड़ा. दूसरे दिन उस उच्छिष्ट अन्नको भार्यासें लेकर खाया; खाकर उस ग्राममें यज्ञ होता था तहां चला गया. तहां जाकर प्रस्तोताको कहा कि हे प्रस्तोतः! जा देवताकी तू स्तुति करे है तांको बिना जानेसें हमारे आगे स्तुति करेगा तौ तेरा शिर गिरपड़ेगा. तब यजमानने कहा भगवन्! आप कौन हैं? तब उसने कहा कि मैं चाक्रायण उपस्ति हूँ । अर्थात् जितना धन और ब्राह्मणोंको दियाथा उतना धन उनको देकर यज्ञकर्त्ता किया. फिर चाक्रायणने प्रस्तोताको कहा कि जिस देवताकी स्तुति करे है. उस देवताको जानेहै. प्रस्तोताने भीत होकर पूंछा सो देवता कौन है? तब चाक्रायणने यह वाक्य उपदेश किया । “प्राण इति होवाच सर्वाणि

ह वा इमानि भूतानि प्राणादेव अभिसंविशन्ति प्राणं अभ्युज्जिहते सा एषा देवता” इति ॥ अर्थ—जा देवताकी तुम स्तुति करते हो। सो प्राण है. इसीसें सर्वभूत अभ्युज्जिहते नाम उपजेंहें. इसीमें लय होवेंहें. सो यह देवता है इति ॥ “प्राणस्य प्राणः” इत्यादिक वाक्यनमें प्राणशब्द ब्रह्मका वाचक प्रतीत होवेंहें और प्राणपद वायुका वाचक है यह प्रसिद्ध है. यातें प्राणशब्दसें उक्तवाक्यमें ब्रह्मको ग्रहण किया चाहिये वा वायुको ग्रहण किया चाहिये यह विषयवाक्यमें संशय संभवे है. प्रसिद्धिके बलसें प्राणपद-करके वायुको पूर्वपक्षमें ग्रहण कियेपर यह उत्तरका सूत्र है.

अतएव प्राणः ॥ २३ ॥

अतः । एव । प्राणः । इति प० ॥

अर्थ—अतः नाम उत्पत्तिआदिक लिंगनसें प्राणशब्दकरके चाक्रायणने ब्रह्मका उपदेश किया है. वायुका नहीं, वायुसें सर्वभूतनकी उत्पत्ति आदिक संभवे नहीं, यातें ब्रह्ममें चाक्रायणका तात्पर्य है. इति ॥ २३ ॥

अब०—छांदोग्यके तृतीय प्रपाठकमें यह वाक्य है। “गायत्री वा इदं सर्वभूतं यदिदं किंच वाग् वै गायत्री वाग् वा इदं सर्वम्” इस वाक्यमें गायत्रीको सर्वरूप कहकर आगे भूत १ पृथिवी २ शरीर ३ हृदय ४ यह गायत्रीके चार पाद कहेंहें. आगे यह वाक्य है। “तत्त्वानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि” इति ॥ इनसें आगे प्राणादि पंचवायुको स्वर्गलोकके द्वारपाल कह कर यह कहा है। “अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः । तत् यत् इदं अन्तः पुरुषे ज्योतिः तस्य एषा दृष्टिः” इति ॥

अर्थ—यह सर्व चराचर भूत गायत्री छंदस्वरूप हैं, वाक्य गायत्री है. यह सर्वभूत वाक्यरूप हैं. जितने चतुष्पद हैं उतना विभूतिविस्तार है. तावत् इसकी महिमा है. इससें पुरुष उत्तम है। सर्वभूत इसका एक पाद हैं. तीनपाद दिवि नाम स्वप्रकाश आत्मामें स्थित हैं। अथ नाम गायत्रीउपाधिक ब्रह्म उपासनासें अनंतर जो अतः नाम स्वर्गलोकके ऊपर दिव नाम प्रकाशमान है सोई पुरुषके अंतर ज्योति है. इति ॥ इस ज्योतिवाक्यमें ज्योतिपदसें सूर्यादिक ज्योतिका ग्रहण है. वा ब्रह्मका ग्रहण है. यह संदेह है. पूर्वपक्षमें लोक-प्रसिद्धिमें और स्वर्गके ऊपर है जा मर्यादा श्रवणसें भौतिक ज्योतिके अंगी-कार कियेसें यह समाधान है.

ज्योतिश्चरणाभिधानात् ॥ २४ ॥

ज्योतिश्चरणाभिधानात् । इति । ५० ।

अर्थ-‘पादोऽस्य’ जा उक्तवाक्यमें चरणविधान किये हैं, यातें ज्योतिपदसँ उत्तरवाक्यमें ब्रह्म अंगीकृत है. भौतिक तेजका अंगीकार नहीं. इति ॥ २४ ॥

छन्दोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽर्पणनि-

गदात्तथाहि दर्शनम् ॥ २५ ॥

छन्दोभिधानात् । न । इति । चेत । न । तथा । चेतोऽर्पणनिगदात् ।
तथाहि । दर्शनम् । इति ५० ॥

अर्थ-ननु पूर्ववाक्यके आरंभमें गायत्री छंदको उपास्य करके विधान किया है. यातें उत्तरवाक्यमें ज्योतिपदसँ ब्रह्मका ग्रहण संभवे नहीं यह शंका करें तौ समाधान श्रवण करके तथा नामछंदद्वारा गायत्रीगत ब्रह्ममें चित्तके अर्पणनाम समाधानका आरंभवाक्यमें ‘निगदात्’ नाम विधान किया है, यातें शंका संभवे नहीं ‘तथाहि दर्शन’ नाम अपर श्रुतिमेंभी उपाधिद्वारा उपासना देखी है यातें आरंभवाक्यमें गायत्रीपदसँ ब्रह्मका अंगीकार है छंद ग्रहण नहीं. इति ॥ २५ ॥

भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चैवम् ॥ २६ ॥

भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेः । च । एवम् । इति ५० ।

अर्थ-भूत, पृथिवी, शरीर, हृदय यह ४ चार पाद गायत्रीके कहे हैं, इनका जो व्यपदेश है सो ब्रह्मविषे ‘उपपत्तेः’ नाम संभवेहै यातें आरंभवाक्यमें एव नाम ब्रह्मही अंगीकृत है. छंदका ग्रहण नहीं है, यातें जो ब्रह्म गायत्रीवाक्यमें कहा है सोई ज्योतिवाक्यमें अंगीकृत है. इति ॥ २६ ॥

उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात् ॥ २७ ॥

उपदेशभेदात् । न । इति । चेत । न । उभयस्मिन् । अपि ।

अविरोधात् । इति ५० ॥

अर्थ-ननु ‘पादोऽस्य’ इस वाक्यमें स्वर्गको आधार कहा है ‘यदतः

परं' इस वाक्यमें स्वर्गको अवधि करके कहा है यातें उक्त उपदेशके भेदसँ ज्योतिषवाक्यमें गायत्रीउपाधिक ब्रह्मको मानना संभवे नहीं या शंकाका यह उत्तर है. कि उभयस्मिन् नाम उभय वाक्यनमें ब्रह्मप्रत्यभिज्ञा होवेहै. यातें ब्रह्मप्रत्यभिज्ञाका अविरोध होनेसँ ज्योतिषपद ब्रह्मका वाचक है. भौतिक तेजका वाचक नहीं. इति ॥ २७ ॥

अव०—कौपीतिके ब्राह्मणमें गाथा है कि कोई प्रतर्दन राजा था सो किसी कालमें इंद्रके गृहमें गयाथा ताको इंद्रने कहा वर मांग. प्रतर्दनने कहा जो मनुष्यको अतिहित हो सो कहो, तदा इंद्रने यह उपदेश किया । “प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मां आयुष्मतं उपास्व” इति । यावत् प्राण रहेहै तावत् आयु होवेहै याते वाक्यमें आयुरूप कहो है. इस वाक्यमें प्राणशब्द इंद्रका वाचक है. वा वायुका वाचक है वा जीवका वाचक है वा परमात्माका वाचक है यह संशय है. और प्राणशब्द प्रसिद्धवायुका वाचक है यातें प्राणपदसँ वायुका ग्रहण है यह पूर्वपक्ष है, तहां सूत्रकार स्वसिद्धांत कहेहैं ।

प्राणस्तथानुगमात् ॥ २८ ॥

प्राणः । तथा । अनुगमात् । इति प० ॥

अर्थ—यथा अपर अनेक श्रुतिनमें प्राणशब्द ब्रह्मबोधक है तथा उक्तवाक्यमें भी अनुगमात् नाम प्राणपद ब्रह्मबोधक प्रतीत होवेहै यातें इंद्रके वाक्यमें प्राणपदमें ब्रह्मका उपदेश है. वायुका नहीं. तथाहि इंद्रवाक्यका विचार कियेसँ प्रतीत होवेहै कि राजाने कहाया जो अतिहित है सो कहो, सो प्राणवायुको अतिहित कहना संभवे नहीं और अंतमें कहा है कि जो अधिकारी हमको ब्रह्मरूपसँ अनुभव करेहै ताकी मोक्षमें कोई प्रतिबंध करे नहीं. यातें भी प्राणपद तहां ब्रह्मबोधक है. वायुबोधक नहीं. इति ॥ २८ ॥

**न वक्रुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्धभूमा
ह्यस्मिन् ॥ २९ ॥**

न । वक्रुः । आत्मोपदेशात् । इति । चेत् । अध्यात्मासम्बन्धभूमा ।
हि । अस्मिन् । इति । प० ॥

अर्थ—वाक्यवक्ता जो इंद्र तिसने स्व आत्माका उपदेश किया है; यातें प्रा-

णपदसँ ब्रह्मका ग्रहण संभवे नहीं. इस शंकाका आधे सूत्रसँ उत्तर कहैहँ. कौपीतकिमें जिस अध्यायमें यह गाथा है तहां अध्यात्मसंबंध नाम परमात्मा-संबंधकी भूमा नाम बाहुल्यतासँ लाभ होवेहै. यातँ इंद्रवाक्यमें प्राणसँ ब्रह्मका उपदेश है. वक्ता आत्माका उपदेश नहीं. इति ॥ २९ ॥

अवत०—ननु वक्ता इंद्रने आत्माका उपदेश कैसे किया है या शंकाका उत्तर सूत्रकार कहैहँ ।

शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् ॥ ३० ॥

शास्त्रदृष्ट्या । तु । उपदेशः । वामदेववत् । इति । प० ॥

अर्थ—हमको तू जान यह जो इंद्रका उपदेश है सो शास्त्रदृष्टिसँ है यह जानना चाहिये. यथा वामदेवने शास्त्रदृष्टिसँ कहा है कि मैं मन हों । मैं सूर्य हों, इति । तथा इंद्रनेभी शास्त्रदृष्टिसँ कहा है. इति ॥ ३० ॥

जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रैविध्या-
दाश्रितत्वादिह तद्योगात् ॥ ३१ ॥

जीवमुख्यप्राणलिङ्गात् । न । इति । चेत । न । उपासात्रैविध्यात् ।
आश्रितत्वात् । इह । तद्योगात् । इति प० ॥

अर्थ०—ननु पूर्व जो कहा है कि वक्ता आत्माका उपदेश नहीं सो सत्य है. तथापि सो वाक्य ब्रह्मबोधकभी नहीं किंतु जीवलिंगसँ और मुख्यप्राणके लिङ्गसँ जीवका और मुख्य प्राणका बोधक है. हमको जान जा इंद्रकथनमें वाक्यविशिष्ट जीव प्रतीत होवेहै. प्राणोंसँ शरीरचेष्टा करैहै. सो प्राणक लिङ्ग है, यातँ तहां जीववाक्य मुख्यप्राणवाक्य ब्रह्मवाक्य जाविध वाक्यभेदमें वाक्यत्रयका ग्रहण है, केवल ब्रह्मवाक्य अंगीकार नहीं. इति ॥ इस शंकाका यह उत्तर श्रवण करके इंद्रके उपदेशमें जो त्रय वाक्य मानेंगे तो उपासा नाम उपासना भी त्रयप्रकारकी सिद्ध होवेगी. सो इष्ट नहीं, यातँ इंद्रके वाक्यका उ-
म्यक् विचार कियेसँ ब्रह्मबोधक एकवाक्य सिद्ध होय है. वाक्यभेद मानना असंगत है. और अपर वाक्यनमेंभी ब्रह्मलिङ्गके वक्त्रमें प्राणशब्दकी वृत्तिके ब्रह्ममें 'आश्रितत्वात्' नाम अंगीकार किया है, यातँ इह नाम इंद्रवा-
क्यमेंभी तत्त्वनाम अतिहितादिक ब्रह्मके लिङ्ग कहे हैं किन्तु लिङ्गकं योग नाम

संबंधसे ब्रह्मकाही इंद्रवाक्यमें उपदेश है. जीवका वा मुख्यप्राणका उपदेश नहीं। “न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ॥ इतरेण तु जीवति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ” इत्यादिक वाक्यनमें प्राणके व्यापारको ईश्वराधीन कथन किया है यातें सो वाक्य ब्रह्मका बोधक है. प्राणबोधक नहीं. उक्त श्रुति कठकी पंचमी वल्लीमें है. इति ॥ ३१ ॥

इति सूत्रमावप्रकाशिकामापाटीकायां प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥

अथ द्वितीयपादप्रारम्भः

इस पादके दो अधिक तीस सूत्र हैं, तिनमें सप्त अधिकरण हैं पचीस गुणरूप हैं. तथाहि:—

सूत्रसंख्या ।	अधिकरण ।	गुण	प्रसंग.
१	अ०	+	मनोमयउपास्यविचार.
२	+	गु०	मनो०
३	+	गु०	मनो०
४	+	गु०	मनो०
५	+	गु०	मनो०
६	+	गु०	मनो०
७	+	गु०	मनो०
८	+	गु०	मनो०
९	अ०	+	अन्ताविचार.
१०	+	गु०	अ०
११	अ०	+	गुह्यप्रविष्टविचार.
१२	+	गु०	गु०
१३	अ०	+	नेत्रगतका विचार.
१४	+	गु०	ने०
१५	+	गु०	ने०
१६	+	गु०	ने०
१७	+	गु०	ने०
१८	अ०	+	अन्तर्यामिविचार.

१९	+	गु०	अ०
२०	+	गु०	अ०
२१	अ०	+	अद्वयत्वादिगुणवान्वि०
२२	+	गु०	अ०
२३	+	गु०	अ०
२४	अ०	+	वैश्वानरविचार.
२५	•+	गु०	वै०
२६	+	गु०	वै०
२७	+	गु०	वै०
२८	+	गु०	वै०
२९	+	गु०	वैश्वानरस्थानविचार.
३०	+	गु०	वै०
३१	+	गु०	वै०
३२	+	गु०	वै० इति
<u>३२</u>	<u>७</u>	<u>२५</u>	

अवतरणिका—जिन वाक्यनमें ब्रह्मके स्पष्ट लिंग प्रतीत होवें ते वाक्य सर्वज्ञ सर्वशक्तिवान् जगत्कारण ब्रह्मके बोधक हैं यह अर्थ प्रथम पादमें कहा है और जिन वाक्यनमें ब्रह्मके अस्पष्ट लिंग हैं तिन वाक्यनको दूसरे तीसरे पादकरके ब्रह्मबोधक सिद्ध करें हैं तहांभी इस पादमें उपास्यबोधक वाक्यनका विचार है. तीसरे पादमें ज्ञेयबोधक वाक्यनका सूत्रकार विचार करेंगे ।

छांदोग्यके तृतीय प्रपाठकमें यह वाक्य है। 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्' इति शान्त 'उपासीत' "मनोमयः प्राणशरीरो भास्वरूपः सत्यसंकल्पः आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः एष य आत्मान्तर्हृदय एतत् ब्रह्म एतमितः प्रेत्य अभिसंभवितासीति" इति ।

अर्थ—यह चराचर जगत् ब्रह्मस्वरूप है यामें संदेह नहीं. तहां हेतु कहे हैं. तज्जलानिति । तज्ज । तल्ल । तदन । जाविध श्रुतिपदच्छेद है. तासैं जो उपजे सो तज्ज कहिये हैं. तासैं जो लय होवे सो तल्ल कहिये हैं तासैं जो चेष्टा करे सो तदन कहिये हैं. अर्थात् तज्ज तल्ल तदन जा त्रै पदनसैं सं-

१ मनःप्रायः. २ आकाश इव आत्मा यस्य. ३ जगत् सर्वं कर्म अस्य इति. ४ सर्वे गंगा अस्या.

सार उत्पत्ति लय पालनका ग्रहण है. ते त्रय ब्रह्मसँ होवैहँ यातँ सर्वजगत् स्वकारण ब्रह्मरूप है. सर्वको ब्रह्मरूप होनेसँ द्वेषादिकोंसँ रहित शांत हुआ उपासना करे. किसकी उपासना करे जा अभिलाषासँ कहा है 'मनोमयः प्राणशरीरः' इत्यादि. एष नाम उक्तविशेषणवान् हमारा आत्मा हृदयके अंतर है यही ब्रह्म है इसको यह शरीर छोड़के हम प्राप्त होंवेंगे. इति । इस उक्त वाक्यमें मनोमयत्वादिगुणवान् उपास्य जीव है वा परमात्मा है यह संदेह है। 'दिव्यो हि अमूर्तः पुरुषः सयाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः' जा द्वितीय मुंडकमें ब्रह्मको मनआदिकोंसँ रहित कथन किया है यातँ पूर्ववाक्यमें जीव उपास्य कहा है जा पूर्वपक्षका सूत्रकार भगवान् समाधान करैहँ ।

सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् ॥ १ ॥

सर्वत्र । प्रसिद्धोपदेशात् । इति ॥ ५० ॥

अर्थ—सर्वत्र नाम सर्व वेदांतवचननमें जगत्कारणत्वरूपसँ प्रसिद्ध जो ब्रह्म तिसका ही 'सर्वं खलु इदं ब्रह्म' इत्यादिक वाक्यनमें उपदेश है यातँ मनोमयत्वसँ जीवका उपदेश नहीं अरु ब्रह्म सर्वस्वरूप है यातँ तिन मनोमयत्वादि गुण ताँमें संभवेहँ. अतएव विरोध नहीं. इति ॥ १ ॥ किंच ।

विवक्षितगुणोपपत्तेश्च ॥ २ ॥

विवक्षितगुणोपपत्तेः । च । इति ॥ ५० ॥

अर्थ—उपासनामें विवक्षित नाम अंगीकार जे भारूपत्व सत्यसंकल्पत्वादि गुण ते ब्रह्मविषेही उपपत्तेः नाम संभवेहँ. जीवमें नहीं । और 'त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वचसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः' जा श्वेताश्वतरके तृतीय अध्यायमें जीवधर्म ब्रह्मविषे दितायेहँ यातँ मनोमयत्वादिगुणवान् उपास्य ब्रह्म अंगीकार है जीव नहीं. इति ॥ २ ॥

अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३ ॥

अनुपपत्तेः । तु । न । शारीरः । इति । ५० ॥

अर्थ—सत्यसंकल्पादि गुण जीवमें अनुपपत्तेः नाम संभवे नहीं यातँ मनो-

मयत्वादिगुणवान् ब्रह्मका तहां अंगीकार है. शारीर नाम जीवका अंगीकार नहीं इति ॥ ३ ॥ किंच ।

कर्मकर्तृव्यपदेशाच्च ॥ ४ ॥

कर्मकर्तृव्यपदेशात् । च । इति । प० ॥

अर्थ-पूर्वसूत्रसँ । “न शारीरः” । इतना पाठ इस सूत्रमें मिलायके सूत्रका यह अर्थ है । ‘एतं इतः प्रेत्य अभिसंभविता अस्मि’ जा उक्त श्रुतिमें ‘एतं’ जापदसँ मनोमयत्वादिगुणवान् उपास्यको कर्म किया है ‘अभिसंभवितास्मि’ जा वाक्यमें उपासकको कर्ता कहा है. एक जीवको कर्म और कर्ता कहिना संभवे नहीं, यांते कर्मकर्ताभेदकथनसँ भी मनोमयत्वादिगुणवान् जीव उपास्य नहीं किंतु ब्रह्म है. इति ॥ ४ ॥ किंच ।

शब्दविशेषात् ॥ ५ ॥

शब्दविशेषात् । इति । प० ॥

“अन्तरआत्मनि पुरुषो हिरण्यमयः” जा श्रुतिमें सप्तम्यंत आत्मपदसँ जीवका ग्रहण है. प्रथमांत पुरुषपदसँ परमात्माका ग्रहण है. तैसे मनोमयत्वादिगुणविशिष्ट परमात्माके विधायक प्रथमांत मनोमयादिपद हैं, यांते तहां परमात्माका अंगीकार है. जीवका नहीं. इति ॥ ५ ॥

अव०-ननु तुम्हारे मतमें जीवब्रह्मका अभेद है यांते कर्मकर्ताभेदकथन असंगत है; जा शंकाका उत्तर कहेंहै ।

स्मृतेश्च ॥ ६ ॥

स्मृतेः । च । इति । प० ॥

अर्थ-“ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति” जा स्मृतिमें जीवका ईश्वरसँ कल्पित भेद कहा है; यांते कर्मकर्ताभेदव्यपदेश संभवे है. इति ॥६॥

अर्भकौकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च ॥ ७ ॥

अर्भकौकस्त्वात् । तद्व्यपदेशात् । च । न । इति । चेत् । न ।

निचाय्यत्वात् । एवं । व्योमवत् । च । इति प० ॥

अर्थ—ननु अर्भकपद अल्पवाची ओकस्पद स्थानवाचक है. अल्प स्थान होवे जिसका सो अर्भकौकस् कहियेहें, अर्थात् अल्प जो हृदयस्थान तामें हृदयपरिमाणवान् परमात्माको उपास्य कहिना संभवे नहीं. और “अणीयान्” इत्यादि वाक्यमें तत्त्व्यपदेशात् नाम उपास्यको सूक्ष्म कहा है यांते आराग्रमात्र जीव उपास्य है परमात्मा नहीं; जा शंकाका आधे सूत्रसँ समाधान करेहै. कि अल्पस्थानत्व—सूक्ष्मत्वादिगुणविशिष्ट परमात्मा ही पूर्ववाक्यमें निचाय्य नाम उपास्यकरके विधान किया है. यथा सर्वलोकाधीश परमात्मा श्रीरामचंद्रको अयोध्याधीश कहेहें और यथा शालग्राममें विष्णुबुद्धि कही है तथा उपासनार्थ अल्पस्थानमें परमात्माको उपास्य कहिना संभवेहै, और यथा आकाश सर्वगत है तथापि सूचीआदिक छेदसँ अल्पस्थान और सूक्ष्म कहिये हें तथा व्यापक ब्रह्मको कहिनाभी संभवेहै. यांते तहां ब्रह्म उपास्य है जीव नहीं. इति ॥ ७ ॥

सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात् ॥ ८ ॥

सम्भोगप्राप्तिः । इति । चेत् । न । वैशेष्यात् । इति प० ॥

अर्थ—ननु परमात्माको आकाशवत् व्यापक मानेसँ जीवकी नाई सुखदुःखका अनुभवरूप जो भोग तांकी प्राप्ति ईश्वरकी भी होनी चाहिये; जा शंका करे तौ विशेषतारूप हेतुसँ संभवे नहीं. क्योंकि जीव तो धर्माधर्मका कर्ता है, जो कर्ता होवेहै सो भोक्ता होवेहै; यांते धर्माधर्मके फलरूप सुखदुःखका अनुभवरूप भोग जीवको संभवेहै. परमात्मा जीवसँ विलक्षण है; यांते जीवसँ परमात्मामें अत्यंत विशेषताहै. यांते पूर्ववाक्यमें परमात्मा उपास्य है जीव नहीं. इति। ८। पूर्व अधिकरणमें पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष उभयमें उपासना फल है. आगेके अधिकरणमें पूर्वपक्षमें उपासनाफल है. सिद्धांतमें ब्रह्मबोध फल है. ॥ ८ ॥

अव०—कठकी द्वितीयावलीमें यह वाक्य है। “न जायते त्रियते वा विपश्चित् नायं कृतश्चिन्न यभूय कश्चित् । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ हन्ता चेत् मन्यते हन्तुः हतश्चेत् मन्यते हतम् । उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते ॥ अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् । तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रमादान्महिमानमात्मनः ॥ न अज्ञान्तमानसो धापि प्रज्ञानेर्ननमाप्नुयात् ॥ यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनं । मृत्युः यम्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र सः” इति. इस अंतके मंत्रमें यह कहा है:-

कि जातिसँ प्रसिद्ध जे ब्राह्मण क्षत्रिय ते उभय जा परमात्माके अन्नकी नाई ओदन हँ और मृत्यु जांका उपसेचन है अर्थात् ओदनके ऊपर शाक है; तांको कौन जानेहै? सो जाने है जो प्रज्ञानसाधनवान है. इति ॥ इस उक्तवाक्यमें कोई अत्ता अर्थात् सर्वका भक्षक प्रतीत होवेहै सो जीव है वा अग्नि है वा परमात्मा है, यह तहां संदेह है. पूर्वपक्षमें अग्निआदिकका अंगीकार कियेसँ यह सूत्रकारका सिद्धांत है ।

अत्ता चराचरग्रहणात् ॥ ९ ॥

अत्ता । चराचरग्रहणात् । इति प० ॥

अर्थ—श्रुतिमें ब्राह्मण क्षत्रिय सर्वचराचरका उपलक्षण है तिस सर्व स्थावरजंगमका भक्षक सुना है; यातें तहां अत्ता नाम भक्षक जो कहा है सो परमेश्वर कहा है जीवादिक नहीं. परमेश्वरविना अपरको सर्वभक्षकत्व संभवे नहीं. इति ॥ ९ ॥ किंच ।

प्रकरणाच्च ॥ १० ॥

प्रकरणात् । च । इति प० ॥

अर्थ—‘न जायते’ यह पूर्वप्रकरण परमात्माका है; यातें सर्वअत्ता परमात्मा है जीवादि नहीं. इति ॥ कठश्रुतिवचनोंका यह अक्षरार्थ है ‘न जायते’ इनसँ पूर्व आँकारउपाधिक आत्माका स्वरूप कहे है. ‘न जायते’ इसकरके उपाधिरहित आत्माका स्वरूप कहे हैं. अनित्यवस्तु अनेक विकारवान् होवे है. तांमें उत्पत्ति, नाश यह आदिअंतके विकार हैं तांका आत्मामें ‘न जायते म्रियते वा विपश्चित्’ यह वाक्य निषेध करे है. विपश्चित् नाम मेधावी अर्थात् अलुप्तचैतन्यस्वभाव आत्मा जन्में औ मरे नहीं; किंच अयं आत्मा कुतश्चित् नाम किसी कारणसँ न बभूव नाम उपजा नहीं और आत्मामें कश्चित् नाम कोईभी उपजा नहीं; यातें आत्मा अज और नित्य है ‘शाश्वत्’ नाम अपक्षयरहित है. यातें पुराण है अर्थात् वृद्धिरहित है. जन्मादिक धर्म देहके हैं आत्माके नहीं; यातें शरीरके ह्यन्यमाने नाम विनाश हुये न ह्यन्यते नाम आत्माका विनाश होवे नहीं. जो उक्तस्वरूप आत्माको देहमात्रमें आत्मदृष्टिवान् हंता मारनेका चिंतन करे और अपर कोई मृत हुये मानेते उभेही स्वआत्माको जाने नहीं. आत्मा विकाररहित है. याते किसीको मारे नहीं और किसीसँ मरे नहीं. आत्माको इस प्रकार जाने. आत्मा अणुसँ अणु है

महानसँ महान् है सर्व जीवोंके हृदयमें स्थित है, तांको अक्रतु नाम अकाम अर्थात् विषयअभिलाषारहित देखे हैं याते धातु नाम इन्द्रियोंके प्रसादसँ आत्माकी महिमा नाम उक्त विकाररहित स्वरूपको अकाम पुरुष देखे हैं तातें अनंतर शोकरहित होवे हैं. अशांत मनवान् तांको देखे नहीं किंतु ब्रह्मज्ञानसँ इस आत्माको प्राप्त होवे है, जिस आत्माके ब्राह्मण और क्षत्रिय ओदन हैं. मृत्यु जांका उपसेचन है अर्थात् शाक है, सो आत्मा यत्र नाम जा स्वमहिमामें वर्त्तें है; तत्स्वरूप आत्माको इत्था नाम इत्थं अर्थात् पूर्वउक्तसाधनवान् अधिकारीकी नाई कः नाम साधनरहित कौन वेद नाम जाने है अर्थात् साधनरहित कोई नहीं जाने है. इति ॥ १० ॥

अव०—उक्त श्रुतिके आगे कठवल्लीमें यह श्रुति है। “ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्द्धे । छायातपौ ब्रह्मचिदो चदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः” इति। इसका यह अर्थ है कि प्रामृ प्राप्य गंत गंतव्यके विवेचनके अर्थ इनमें दो आत्मा अंगीकार किये हैं सुकृत् नाम कर्मनका ऋतं नाम अवश्य भोक्तव्य जो फल तांको पीतेहुये लोक नाम देहमें जो बुद्धिरूप गुफा तांमें प्रवेशवान् है, यद्यपि फलभोक्ता एक है तथापि तत्संबंधसँ उभे भोक्ता कहे हैं. पर जो ब्रह्म तांका जो अर्ध नाम स्थान सो परार्थ कहिये हैं अर्थात् हृदयका नाम है, तिस परम नाम उत्तम हृदयमें जो आकाशरूप गुफा तांमें प्रविष्टौ नाम ते उभे प्रवेश कर स्थित हैं छायातपौ नाम ते उभे यथा छाया धूप परस्पर विरोधी हैं तथा कर्ता अकर्तारूपसँ परस्पर विरोधी हैं उक्त विधिसें तिनको ब्रह्मवेत्ता कहे हैं. और पंचाग्नि-उपासक कहे हैं, जे अग्नि स्थापन करें तिनको त्रिणाचिकेता कहे हैं तेभी तिनको उक्त विधिसें कहे हैं. इति । उक्त वाक्यमें दो भोक्ता कहे हैं ते बुद्धि और जीव हैं वा जीव और परमात्मा हैं यह तहां संदेह है। परमात्माको भोक्ता कहिना और तांका गुफामें प्रवेश कहिना संभवे नहीं, याते जीव और बुद्धिका तहां ग्रहण है. जा शंकाका उत्तर कहे हैं.

गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तद्दर्शनात् ॥ ११ ॥

गुहां । प्रविष्टो । आत्मानो । हि । तद्दर्शनात् । इति प० ॥

अर्थ—आत्मानो नाम जीव और परमात्मा उभेही आत्माशब्दके वाच्य हैं याते गुफामें प्रवेशवान् जीव और परमात्मा है जीव और बुद्धि नहीं. उभे कर्मफलभोक्ता मुने हैं तांमें एक आत्मा है यातें दूसराभी आत्मा मानना

चाहिये तद्दर्शनात् नाम यह अर्थ लोकमें देखा है । यथा “अस्य गोः द्वि-
तीयः अन्वेष्टव्यः” जा कथन कियेसँ दूसरी गौही अन्वेष्टव्य है.
मनुष्य अन्वेष्टव्य नहीं. तथा प्रसंगमेंभी चेतनत्व सामान्यसँ जीव परमात्मा
उभैका ग्रहण है. इति ॥ ११ ॥ किंच—

विशेषणाच्च ॥ १२ ॥

विशेषणात् । च । इति प० ॥

अर्थ—तृतीयं मुंडकके आरंभमें यह वाक्य है । “द्वा सुपर्णा सयुजा स-
खाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अन-
श्नन् अन्योऽभिचाकशीति । समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया
शोचति मुह्यमानः । जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशं अस्य महिमानमिति
वीतशोकः” इति ॥ अर्थ—दो पक्षी आपसमें सखा एक वृक्षमें स्थित है तिनमें
एक फलको खाता है दूसरा नहीं खाता हुआ प्रकाशे है । समानवृक्षमें नि-
मग्न जो जीव सो अविद्याकरके मोहको प्राप्त हुआ निरंतर शोक करे है
यदा ध्यानयोग्य विवरूप ईश्वरको स्वआत्माकरके जाने है तदा परमा-
त्माके स्वरूपको प्राप्त होवे है और वीतशोक होवे है । इस मुंडकवचनमें
परमात्माका मंतव्य विशेषण भान होवेहै और जीवका मंतुविशेषण भान हो-
वेहै. परमात्माका गंतव्य विशेषण भान होवेहै. जीवका गंतुविशेषण भान हो-
वेहै. यातँ कठवाक्यमें गुहाविपे प्रवेशवान जीव और परमात्मा है बुद्धि और
जीव नहीं. इति ॥ १२ ॥

अब०—छांदोग्यके चतुर्थ प्रपाठकमें यह कहा है कि कोई उपकोशल ब्रा-
ह्मण सत्यकाम ब्राह्मणका शिष्य था, सो सत्यकाम उसको अग्नियीकी सेवामें
छोड़कर देशांतरमें चलागया. तांकी सेवासँ अग्नियीने प्रसन्न होकर यह उपदेश
किया । “प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति” आगे यह उपकोशलका प्रश्न
है । “सहोवाच विजानामि अहं यत् प्राणो ब्रह्म कं च तु खं च न
विजानामि इति” आगे यह अग्नियीने उत्तर कहा है । “ते होषुः यदा-
व कं तदेव खं यदेव खं तदेव कं इति । प्राणं च ह् अस्मै तदाकाशं
चोषुः इति” इनके आगे और उपदेश किया है अंतमें यह कहा है । “तेह
ऊषुः उपकोशल एषा सोम्य ते अस्मत्विद्या आत्मविद्या च आचा-

र्यस्तु ते गतिं वक्ता इति” इनका यह तात्पर्य है कि हे उपकोशल ! प्राण ब्रह्म है कं ब्रह्म है खं ब्रह्म है. इति ॥ उपकोशलने कहा जो प्राण ब्रह्म है सो मैं जानता हूं कं और खंको नहीं जानता हूं. इति । अग्नियोंने कहा जो कं है सोई खं है जो खं है सोई कं है । प्राणको और आकाशको उपकोशल प्रति कहा इति । अंतमें अग्नियोंने कहा कि हे सोम्य ! उपकोशल ! तुमको अस्मत्-विद्या और आत्मविद्या कही है और आचार्य तुम्हारे प्रति गतिको कहेगा इति । जब आचार्य आया तब उसने यह उपदेश किया है कि । “य एषो-ऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति हो वाच एतत् अमृतं अभयं एतत् ब्रह्म इति” अर्थ—जो यह पुरुष नेत्रोंमें शास्त्रदृष्टिसँ दिसे है यह आत्मा है. यह अमृत अभयरूप है; यही ब्रह्म है. इस विषयवाक्यमें जो है सो परमात्मा है वा प्रतिविवादिक हैं. दृश्यते कथनसँ नेत्रस्थानवान् प्रतीत होवेहै व्यापकका नेत्रस्थान कहिना संभवे नहीं यह पूर्वपक्ष है; इसका सूत्र-कार समाधान करेंहै ।

अन्तर उपपत्तेः ॥ १३ ॥

अन्तरे । उपपत्तेः । इति प० ॥

अर्थ—उक्तवाक्यमें आत्मत्व अमृतत्व अभयत्वादिक जे गुण कहे हैं. ते परमात्मामें ही उपपत्तेः नाम संभवेहै अपर में नहीं यातें नेत्रोंके अन्तर्गत जो पुरुष कहा है सो परमात्मा है जीव नहीं इति । पूर्वपक्षमें उक्त अधिकरणका प्रतिविद्युपासना फल है सिद्धांतमें ब्रह्मउपासना फल है. इति ॥ १३ ॥

स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥

स्थानादिव्यपदेशात् । च । इति । प० ॥

अर्थ—“यश्चक्षुषि तिष्ठन् चक्षुषोऽन्तरो यं चक्षुर्न वेद यस्य चक्षुः शरीरं यः चक्षुः अन्तरो यमयति एष त आत्मा अन्तर्यामी अमृतः” इत्यादिक वाक्यनसँ बृहदारण्यकके षष्ठम अध्यायमें नेत्रादि स्थान परमेश्वरके प्रसिद्ध प्रतीत होवेहै. आदिपदसँ हिरण्यमश्रु आदिका ग्रहणहै. तिससँ रूपवत्त्व भी उपासनाके अर्थ प्रतीत होवेहै; यातें परमात्माके अल्प स्थानादिकोंका कथन करणसँ नेत्रोंमें उपास्य पुरुष परमात्मा है. जीव नहीं. ॥ १४ ॥ किंच—

सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥ १५ ॥

सुखविशिष्टाभिधानात् । एव । च । इति प० ॥

अर्थ—प्रथम अग्नियोंने उपदेश किया तो उपकोशलने कहा कं खंको हम

नहीं जानेहैं; पुनः अग्निर्वाग्ने कंखंका अभेदकरके उपदेश किया. कंपद् विषय-जन्य सुखका वाचक है खंपद् आकाशका वाचक है. यांते परस्पर भेदके प्राप्त हुयेसे कंखंके अभेदका उपदेश किया है । यातें सुखविशिष्टके अभिधानसैंभी नेत्रोंमें उपास्य परमात्मा ही अंगीकृत है, जीवादिकनहीं. इति॥ १५ ॥ किंच ।

श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ॥ १६ ॥

श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानात् । च । इति प० ॥

अर्थ—श्रुत नाम श्रवण किया होवे ब्रह्मविद्या जिसने सो श्रुतोपनिषत्क कहियेहैं. ताकी जो गति नाम अग्निमार्ग तिस मार्गका तहां विधान किया है यातें नेत्रोंमें जांका उपदेश किया है सो परमात्मा है प्रतिविवादिक नहीं. जो मार्ग ब्रह्मउपासकका कहा है सोई मार्ग नेत्रगत उपासकका कहा है. इति तात्पर्यम् ॥ १६ ॥ किंच ।

अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ॥ १७ ॥

अनवस्थितेः । असम्भवात् । च । न । इतरः । इति । प० ॥

अर्थ—नेत्रोंमें जो उपास्य पुरुष कहा है सो इतर नाम छायापुरुष नहीं. जो तांको छायारूप मानेंगे तौ नेत्रोंमें छायाका संपादक जो विवरूप पुरुष तिस उपासक पुरुषका अनवस्थान होवेगा; उपासकको उपास्यरूप माना है यांते उपासकका अभाव सिद्ध होवेगा. वा प्राज्ञका सुषुप्तिमें अनवस्थान नाम अविद्यमानता सिद्ध होवेगी इति तात्पर्य. और अमृतत्वादि गुण छायामें संभवेभी नहीं यातें भी नेत्रोंमें उपास्य पुरुष परमात्मा है. इति सिद्धम् ॥ १७ ॥

अव०—बृहदारण्यकके पंचम अध्यायमें यह वाक्य हैं । “य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति । तं अन्तर्यामिणं ब्रूहि इति । यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयति एष ते आत्मा अन्तर्यामी अमृतः । यो अप्सु । यो अग्नौ । यो अन्तरिक्षे । यो वायौ । यो दिवि । य आदित्ये । यो दिक्षु । यश्चन्द्रतारके । य आकाशे । यस्तमसि । यस्तेजसि । यः सर्वेषु । यः प्राणे । यो वाचि । यश्चक्षुषि । यः श्रोत्रे । यो मनसि । यस्त्वष्टि । यो विज्ञाने । यो रेतसि तिष्ठन् रेतसोऽन्तरो यं रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरं यो रेतोऽन्तरो यमयति

एष ते आत्मा अन्तर्यामी अमृतः । अदृष्टो द्रष्टा अश्रुतः श्रोता अमन्तो मन्ता अविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता एष त आत्मा अन्तर्यामी अमृतः । अतोऽन्यदार्तं ततो ह उद्दालक आरुणिः उपराम इति”

अर्थ—उद्दालकने याज्ञवल्क्यसँ पूछा था कि इसलोक परलोकमें जो सर्व भूतनको अंतर स्थित होय प्रेरणा करेहै सो कहो. याज्ञवल्क्यने कहा जो पृथिवीमें स्थितहुआ पृथिवीके अंतर है जांको पृथिवी नहीं जानेहै जांका पृथिवी शरीर है जो पृथिवीके अंतर प्रेरणा करे है सो तुम्हारा आत्मा है सो अंतर्यामी है सो अमृत है. इसी प्रकार बलादिकोंमेंभी रेतपर्यंत जानना चाहिये. जो रेत-सको अंतर प्रेरे है सो तुम्हारा आत्मा है अमृतरूप है सोई द्रष्टा है श्रोता है मन्ता है विज्ञाता है, ताँसँ अन्य कोई द्रष्टा नहीं श्रोता नही मन्ता नही विज्ञाता नहीं यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृतरूप है, इससँ अन्यत् आर्त है. यह सुनकर उद्दालक उपराम हुये. इति । तहांही आगे विदग्धके प्रश्नमें यह वाक्य है । “पृथिवी एव यस्य आयतनं अग्निर्लोकः मनो ज्योतिः यो वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्य आत्मनः परायणं स वै वेदिता स्यात् इति”

अर्थ—पृथिवी आयतन नाम जाका शरीर है अग्नि जांके लोक नाम नेत्र है मन ज्योति है तिस पुरुषको जो जाने है सो वेदिता अर्थात् पण्डित होनेहै. इति । तहां यह संदेह है कि उक्त वाक्यमें जो अंतर्यामी कहा है सो कोई देवता है वा कोई योगी है वा परमात्मा है इति । तहां यह पूर्वपक्ष है. विदग्धप्रश्नमें शरीर श्रवण हुआ है यातँ देवता वा योगी अंतर्यामी नहीं इस पूर्वपक्षमें यह सूत्रकारका उत्तर है ।

अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् ॥ १८ ॥

अन्तर्याम्यधिदेवादिषु । तद्धर्मव्यपदेशात् इति ५० ॥

अर्थ—पूर्वविषयवाक्यमें तत् नाम परमात्माके जे धर्म ते व्यपदेश नाम कथन कियेहै यातँ अंतर्यामी अधिदेवादिक वाक्यनमें सुना जो अंतर्यामी सो परमात्मा है योगी वा देवता नहीं. सर्वअंतर्यामित्य अमृतत्व आत्मत्वादि जे धर्म ते परमात्माके ही असाधारण धर्म है अपरके नहीं. यद्यपि शरीरविना प्रेरकता

संभवे नहीं तथापि नियम्य शरीरसँ ही तांको नियंतृत्व संभवेहै. यातँ परमात्माही अंतर्यामी है अपर कोई नहीं. इति ॥ १८ ॥

अचतरणिका—प्रधान अंतर्यामी नहीं यह कहे हैं।

न च स्मार्तमतद्धर्माभिलापात् ॥ १९ ॥

न । च । स्मार्तम् । अतद्धर्माभिलापात् । इति प० ॥

अर्थ—तत्पदसँ प्रधानका ग्रहण है नहीं जो होवे तत् सो अतत् कहिये हैं अर्थात् परमात्माका ग्रहण है तिसके जे धर्म द्रष्टादिक तिन धर्मनको अभिलाप नाम कथन किया है यातँ स्मार्त नाम सांख्यसृष्टतिकल्पित जो प्रधान सो अंतर्यामी शब्दका वाच्य नहीं. इति ॥ १९ ॥

अव०—योगी भी नहीं यह कहेंहैं।

शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॥ २० ॥

शारीरः । च । उभये । अपि । हि । भेदेन । एनं । अधीयते । इति प० ॥

अर्थ—योगीमी अंतर्यामी नहीं यह निषेध पूर्वले सूत्रसँ नकारको लेकर है, तहाँ हेतु कहे हैं कि उभये नाम उभय शाखामँ एनं नाम परमात्माको भेदेन नाम भिन्न करके अधीयते नाम शाखावान् ब्राह्मण कहेंहैं। एक तो। “यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानमन्तरो यमयति” यह वाक्य पूर्व कह दिया है। दूसरा यह है। “यश्चात्मनि तिष्ठन् आत्मानमन्तरो यमयति इति” उभयवाक्यनमँ नियम्यनियंतरूपसँ जीवपरमात्माका भेद कथन किया है; यातँ अंतर्यामी अधिदेवादिवाक्यनमँ अंतर्यामी परमात्माही कहा है जीवादिक नहीं. इति ॥ २० ॥

अव०—मुंडकके आरंभमँ यह कहा है कि सर्वदेवनसँ प्रथम विश्वका कर्ता ब्रह्मा हुआ तांका ज्येष्ठ पुत्र अर्षवा था तिस पुत्रके प्रति ब्रह्माने ब्रह्मविद्याका उपदेश किया था, सो विद्या अधर्वाते अंगिराको कही अंगिराने भारद्वाज अर्थात् भरद्वाजगोत्रवान् सत्यवहके प्रति उपदेश किया और भारद्वाजने अंगिराको पर और अपर विद्या दिया. तब शौनक ऋषिने अंगिराको विधिँसँ प्राप्त होकर पूँछा। “कस्मिन् तु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति” अंगिराने कहा कि दो विद्या जाननेयोग्य हैं, एक पर है एक अपर है. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, यह अपर विद्या हैं. आगे यह पर विद्या कही है “अथ परा

यथा तदक्षरं अधिगम्यते यत् तत् अदेश्यं अग्राह्यं अगोत्रं अवर्णम-
चक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यत्
मृतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः” ।

अर्थ—अपरविद्यासँ अनंतर जिस विद्याकरके तिस अक्षरको जानेहँ सो विद्या परा नाम सर्वसँ उत्तम फलवान् है. सो अक्षर वर्णरूप नहीं, ज्ञान और कर्म इंद्रियोंका विषय नहीं, अगोत्र नाम वंशरहित है. अवर्ण नाम जातिसँ रहित है. हस्तपादोंसँ रहित है. नित्य विभु है. सर्वगत नाम सर्वकल्पनाका अधिष्ठान है. जतिसूक्ष्म है. नाशरहित है. जो सर्वभूतनाका योनिं नाम कारण है. जा उक्त स्वरूपको जिस विद्याकरके धीर पुरुष देखें हँ; सो विद्या सर्वसँ उत्तम है. उक्त वाक्यके आगे यह वाक्य है । “यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपमंत्रं च जायते इति” ब्रह्मपदका अर्थ हिरण्यगर्भ है. आगे द्वितीय मुंडकमें यह कहा है कि “दिव्यो हि अमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रो हि अक्षरात् परतः परः । एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी इति” दिव्य नाम स्वयंप्रकाशका है अमूर्त नाम निरवयवका है बाह्य नाम कार्यका है आभ्यन्तर नाम कारणका है तिसका अधिष्ठान होंसँ बाह्याभ्यन्तर कहा है अज नाम कूटस्थका है उत्तरपदसँ शक्तिका ग्रहण है तासँ परे है. इति । उक्त वाक्यके आगे यह वाक्य है । “अग्निर्मुखां चक्षुषीं चंद्रसूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग्बिभृताश्च वेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विश्वं अस्य पद्मां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा इति” विवृताः नाम विस्तारवान् वेद जाकी वाणी है, पृथिवी जाके पाद हँ, उक्त अंगोंवाला जाका शरीर है सो सर्वके अंतर है. सर्वका आत्मा है. इति । प्रथम धुतिमें अदृश्यत्वादि गुण कहे हँ तत्तुणवान् सर्वका कारण प्रधान है वा जीव है वा परमात्मा है यह तहां संशय है. पूर्वपक्षमें प्रधानके गुण अंगीकार कियेसँ यह सिद्धांत है ।

अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥ २१ ॥

अदृश्यत्वादिगुणकः । धर्मोक्तिः । इति प० ॥ २१ ॥

अर्थ—ईश्वरके धर्मनको भूतनके कारणमें कथन किया है यांते अदृश्यत्वादि-
गुणान् भूतनका योनि परमात्मा है प्रधानादिक नहीं । “यः सर्वज्ञः” जा

उक्त श्रुतिमें सर्वज्ञता आदिक भूतनके कारणमें कहे हैं यांते प्रथम वाक्यमें परमात्माका ग्रहण है. प्रधानादिकका नहीं. इति ॥ २१ ॥

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ २२ ॥

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां । च । न । इतरौ । इति । प० ॥

अर्थ—पूर्ववाक्यमें दिव्यत्वादिक विशेषण कहे हैं और शक्तिसँ परमात्माका भेदभी कहा है यांते 'विशेषणोंसँ और भेद कथनसँ अदृश्यत्वादिगुणवान् परमात्माका तहाँ अंगीकार है. ताँसँ इतर जे जीव और प्रधान ते अदृश्यत्वादिगुणवान् नहीं. इति ॥ २२ ॥ किंच ।

रूपोपन्यासाच्च ॥ २३ ॥

रूपोपन्यासात् । च । इति प० ॥

अर्थ—पूर्व 'अग्निर्मूर्च्छा' जा वाक्यमें सर्वकार्यरूप शरीरका उपन्यास किया है. यांते तहाँ भूतनका जो योनि कहा है सो 'परमात्मा है, प्रधानादिक नहीं. इस सूत्रमेंभी निषेध पूर्वले नकारसँ है, इति ॥ २३ ॥

अव०—छांदोग्यमें यह प्रसंग है कि प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इंद्रद्युम्न, जनक, बुडिल, जा पंच ऋषियोंने मिलके विचार किया कि आत्माकौन है? और ब्रह्म कौन है? सो उन्होंने विचारा कि उद्दालक वैश्वानर आत्माकी उपासना करे है तहाँ चले, फिर मिलकर उद्दालकके पास गये. उद्दालकने विचारा कि हमसँ यथावत् नहीं कहा जायगा यांते अपरके पास लेजावें, अतएव उद्दालकने कहा कि कैकेयनाम राजा वैश्वानर आत्माका चिंतन करे है सो चलो उसके पास चले, तब उद्दालकसहित वे ऋषि राजाके पास गये और राजासँ कहा कि जिस वैश्वानरका चिंतन करो हो सो हमको कहो. तब प्रथम राजाने कहा कि तुम सब किस वैश्वानरकी उपासना करो हो तो प्राचीनशालने कहा हम स्वर्गरूप आत्माकी उपासना करे हैं. सत्ययज्ञने कहा आदित्य वैश्वानर है. इंद्रद्युम्नने वायुको कहा. जनकने आकाशको कहा, बुडिलने जलको कहा, उद्दालकने पृथिवीको वैश्वानर कहा, उक्त पट्टककी निंदा कर राजाने यह उपदेश किया कि । "यस्तु एतमेव प्रादेशमात्रं अभिविमानं आत्मानं वैश्वानरं उपासते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नं अत्ति इति" अर्थ—जो उपासक इस प्रादेशमात्र अभिविमान वैश्वानर आत्माकी उपा-

सना करे है सो उपासक सर्वलोकनमें सर्वभूतनमें सर्व आत्मानें अन्नको खावे हैं । सर्व विश्वको जानते हैं यांतें वैश्वानरका नाम अभिविमान है, लोकपदसँ भोगभूमिका ग्रहण है, आत्मापदसँ भोक्ता चेतनका ग्रहण है. इति । आगे यह कहा है कि तिस वैश्वानरका स्वर्ग शिर है चक्षु सूर्य है वायु प्राण है आकाश मध्यभाग है जल वस्ति है पृथिवी पाद है वेदी उर है वहिं लोम है गार्हपत्य हृदय अन्वाहार्य मन है. आहवनीय मुख है. इति । उक्त वाक्यमें यह संदेह है कि वैश्वानरपद जठराग्निका या सामान्य अग्निका या अग्निशरीरवान् देवताका या परमात्माका वाचक है. और वैश्वानरपदसँ तहां किसका ग्रहण है. पूर्वपक्षमें असिद्धिके बलसँ जठरादिग्रहण कियेसँ यह भगवान् सूत्रकारका समाधान है ।

वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात् ॥ २४ ॥

वैश्वानरः । साधारणशब्दविशेषात् । इति ५० ॥

अर्थ—साधारण शब्दमें कुछ विशेष है यातें वैश्वानरशब्दसँ तहां परमात्माका ग्रहण है जठरादिकका ग्रहण नहीं. तथाहि जठर १, सामान्य २, देवता ३, जात्रयमें वैश्वानर शब्द साधारण है अर्थात् जात्रयको वाचक है और आत्मा शब्द जीव परमात्मा उभयमें साधारण है अर्थात् उभयका वाचक है तिन दोनो शब्द-नको साधारण तिनके वाचक हुयेभी परमात्मबोधकत्व विशेष प्रतीत होवेई यातें वैश्वानर परमात्मा है ताको परमात्मा मानेंगे तौ उक्त अंग वनेंगे जो जठराग्नि मानेंगे तौ उक्त अंग नहीं वनेंगे यातें वैश्वानर परमात्माही है. इति ॥ २४ ॥

किंच:-

स्मर्यमाणमनुमानं स्यात् इति ॥ २५ ॥

स्मर्यमाणं । अनुमानं । स्यात् । इति । इति ५० ॥

अर्थ—वैश्वानरपदसँ परमात्माका अंगीकार कियेसँ स्मर्यमाण नाम स्मृति-उक्त जो अनुमान लिंग सो सिद्ध होवेगा, जाका अग्नि मुख है स्वर्ग शिर है आकाश नाभि है भूमि चरण है सूर्य नेत्र है दिशा श्रोत्र है तिसके प्रति वंदना हो इस स्मृतिका पूर्वश्रुति मूल है. यातें स्मृतिमें वैश्वानरकथनसँ तत्सूत्र श्रुतिमें सोई मानना चाहिये. इति ॥ २५ ॥

**शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च । नेति चेन्न तथा दृष्ट्यु-
पदेशादसम्भवात्पुरुषमपि चेतमधीयते ॥ २६ ॥**

शब्दादिम्यः । अन्तः । प्रतिष्ठानात् । न । इति चेत् । न । तथा ।
दृष्ट्युपदेशात् । असम्भवात् । पुरुषं । अपि । च । एनं । अधीयते ।

इति प० ॥

अर्थ०—ननु वैश्वानरशब्द जठराग्निमें रूढ है और गार्हपत्यअग्निको हृदय कहा है इत्यादि अग्निकल्पनाका आदिपदसँ ग्रहण है. किंच अंतःप्रतिष्ठानात् नाम “पुरुषे अन्तः प्रतिष्ठितं वेद” इत्यादिक वाक्यनमें अंतःस्थित सुना है यातँ वैश्वानर परमात्मा नहीं किन्तु जठराग्नि है, जा शंकाका आधे सूत्रसँ स-भाधान करेंहँ. तथा नाम जठराग्निरूपसँ परमात्माकी दृष्टि नाम उपासनाका उपदेश किया है जठराग्निका नहीं. जो जठराग्निकोही मुख्य वैश्वानर मानेंगे तौ सूर्यादिक अंगनका जठराग्निमें असंभव पूर्व कहिदिया है यातँ मुख जठ-राग्नि नहीं और इस वैश्वानरको कोई आचार्य पुरुषशब्दसँ भी कहेहँ यातँ वैश्वानर परमात्मा है जठराग्न्यादिक नहीं. इति ॥ २६ ॥

अतएव न देवताभूतम् ॥ २७ ॥

अतः । एव । न । देवताभूतम् । इति प० ॥

अर्थ—अतः नाम पूर्व कहे जे हेतु तिनसँ देवतास्वरूप और भूतस्वरूप अग्नि वैश्वानर नहीं, भूतस्वरूप जो अग्नि सो वैश्वानरका मुख कहा है; यातँ उसीको वैश्वानर कहिना संभये नहीं. और देवतास्वरूप जो अग्नि सो ईश्वरा-धीन है यातँ ताँके भी सूर्यादिक अंग संभये नहीं; यातँ सर्वरूप जो परमात्मा सो वैश्वानर है, जठराग्न्यादिक नहीं. ॥ २७ ॥

साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ २८ ॥

साक्षात् । अपि । अविरोधं । जैमिनिः । इति प० ॥

अर्थ—पूर्व जठराग्न्युपाधिक ब्रह्म उपास्य सिद्ध किया है वा जठराग्नि-प्रतीक ब्रह्म उपास्य कहा है क्यों कि जैमिनि आचार्य साक्षात् नाम उपाधिक-ल्पनाधिनाही परमात्माकी उपासनाके अंगीकार कियेसँ विरोधका अभाव मानेहँ । वैश्वानरको ब्रह्म सिद्ध हुये वैश्वानरपदको और अग्निपदको जैसे कैसे ब्रह्मका वाचक मानना उचित है. तथाहि विश्व होवे सोई नर सो कहिये विश्व नर अर्थात् सर्वस्वरूप होनेसँ ब्रह्मका नाम विश्वनर है वा ‘विश्वेषां नरः विश्वनरः’ अर्थात् सर्वका कारण होनेसे ब्रह्मका नाम विश्वानर है वा ‘विश्वे नरा

नियम्या अस्य इति विश्वनरः' अर्थात् सर्वका ईश्वर होनेसे ब्रह्मका नाम विश्वनर है. 'विश्वनरः एव वैश्वानरः' इस प्रकार वैश्वानरपद ब्रह्मका वाचक है. सर्वसें जो आगे होवे सो अग्नि कहिये हैं. इति । याते वैश्वानर परमात्मा उपाधिविना उपास्य अंगीकृत है. इति ॥ २८ ॥

अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः ॥ २९ ॥

अभिव्यक्तेः । इति । आश्मरथ्यः । इति प० ॥

यद्यपि वैश्वानरको परमात्मा मानेसें तांको प्रादेशमात्र कहिना संभवे नहीं, तथापि उपासकोंके अनुग्रहार्थ व्यापक परमात्माभी हृदयादिस्थानविषे प्रादेश-परिमाणत्वरूपसें प्रगट होवेहै; याते प्रादेशमात्र कहिना संभवे है यह आश्मरथ्य आचार्य मानै हैं. इति ॥ २९ ॥

अनुस्मृतेर्वादरिः ॥ ३० ॥

अनुस्मृतेः । वादरिः । इति प० ॥

अर्थ—प्रादेशमात्र जो हृदयपद्म तिसमें स्थित जो मन तिसकरके ध्यान करनेसें वैश्वानरको प्रादेशमात्र कहा है, इस प्रकार वादरि आचार्य मानेहैं. यथा प्रस्यपरिमित तंडुल प्रस्य कहियेहैं इति ॥ ३० ॥

सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथाहि दर्शयति ॥ ३१ ॥

सम्पत्तेः । इति । जैमिनिः । तथाहि । दर्शयति । इति प० ॥

अर्थ—शिरसें चिबुकतक प्रादेशमात्रमें वैश्वानरको उपास्य कहा है याते परमेश्वरको प्रादेशमात्रत्व सिद्ध है तिस प्रादेशमात्रकी संपत्ति नाम सिद्धिसें प्रादेशमात्रबोधक श्रुति सफल है. इस प्रकार जैमिनि आचार्य मानेहैं. तथा हि "प्रादेशमत्रमिह देवताः सुविदिता इत्यादि" अपर श्रुतिभी वैश्वानरको प्रादेशमात्रकी प्राप्ति दर्शयति नाम दिखावेहै. इति ॥ ३१ ॥

आमनन्ति चेनमस्मिन् ॥ ३२ ॥

आमनन्ति । च । एनं । अस्मिन् । इति प० ॥

अर्थ—अपर आचार्यभी एनं नाम परमेश्वरको अस्मिन् नाम प्रादेशपरिणाम-स्थानमें मानेहै. याते प्रादेशमात्रबोधक श्रुति सफल है. भ्रूमाणोंकी जो संधि है सो स्वर्गलोककी और ब्रह्मलोककी संधि है जाविघ मानके भू और प्राणोंके म-

ध्यमें वैश्वानरका ध्यान करें। यह अंगीकार किया है। यातें वैश्वानर परमात्मा है।
'इति सिद्धम् ॥ ३२ ॥

इति सूत्रमावार्थप्रकाशिकामापादीकायायां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ॥

अथ तृतीयपादप्रारम्भः ॥

इस पादके तीन अधिक चालीस सूत्र हैं, तिनमें त्रयोदश अधिकरण हैं।
तीस गुणरूप हैं।

तथाहि-

सूत्रसङ्ख्या । अधिकरण ।	गुण	प्रसङ्ग.
१	अ०	+ आयतनविचार.
२	+	गु० आ०
३	+	गु० आ०
४	+	गु० आ०
५	+	गु० आ०
६	+	गु० आ०
७	+	गु० आ०
८	अ०	+ भूमाविचार.
९	+	गु० भू०
१०	अ०	+ अक्षरविचार.
११	+	गु० अ०
१२	+	गु० अ०
१३	अ०	+ ध्यायतन्त्रविचार.
१४	अ०	+ दहरविचार.
१५	+	गु० द०
१६	+	गु० द०
१७	+	गु० द०
१८	+	गु० द०
१९	+	गु० द०
२०	+	गु० द०

२१	+	गु०	द०
२२	अ०	+	तेजोविचार
२३	+	गु०	जे०
२४	अ०	+	अङ्गुष्ठमात्रविचार.
२५	+	गु०	अ०
२६	अ०	+	देवताविद्याअधिका०
२७	+	गु०	दे०
२८	+	गु०	दे०
२९	+	गु०	दे०
३०	+	गु०	दे०
३१	+	गु०	दे०
३२	+	गु०	दे०
३३	+	गु०	दे०
३४	अ०	+	शूद्रविद्याअधिकारविचार.
३५	+	गु०	शू०
३६	+	गु०	शू०
३७	+	गु०	शू०
३८	+	गु०	शू०
३९	अ०	+	प्राणविचार.
४०	अ०	+	ज्योतिर्विचार.
४१	अ०	+	आकाशविचार.
४२	अ०	+	वाक्यसमूहविचार.
४३	+	गु०	वा०

अब०-पूर्वले पादमें त्रयलोकस्वरूप वैश्वानर परमात्मा है यह अर्थ कहा है तांको त्रयलोकस्वरूप मानेसँ तांका आसरा अपर कोई होवेगा जा शंकासँ भगवान् सूत्रकार उत्तरसूत्रका आरंभ करे हैं:-तहां पूर्वपक्षमें प्रधानादिकोंकी उपासना फल है, सिद्धांतमें ब्रह्मज्ञान फल है, अधर्षण उपनिषद् द्वितीयमुंडकमें सुना है, कि-“प्रणवो घनुः शरो हि. आत्मा ब्रह्म तद्दृश्यमुच्यते । अग्रमत्तेन वेद्ध्यं शरवत् तन्मयो भवेत् ॥ यस्मिन्

: पृथिवी चान्तरिक्षं ओतं मनः सह प्राणेश्च सर्वैः । तमेवैकं
य आत्मानं अन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्य एष सेतुः इति ”

-ओंकार धनुष है आत्मा शर है ब्रह्म लक्ष्य है सो अप्रमत्तकरके वेधने योग्य है; सो वेधकरके शरकी नाई लक्ष्यरूप होवे । जामें स्वर्ग पृथिवी अंतरिक्ष यह ओ नाम कल्पित हैं और मनसहित सर्व इंद्रियांभी कल्पित हैं तिस एक आत्माको तुम अधिकारी जानो. अपर वाचाका त्याग करो. यह अमृतका सेतु है अर्थात् कार्यसहित अविद्याकी निवृत्तिरूप अमृतका सेतु नाम साधन है. इति । उक्तवाक्यमें ओतकथनसँ कोई आयतन प्रतीत होवैहै; सो प्रधान है वा जीव है वा ब्रह्म है यह तहां संदेह है. पूर्वपक्षमें प्रधानादि अंगीकार कियेसँ यह सिद्धांत है ।

द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् ॥ १ ॥

द्युभ्वाद्यायतनं । स्वशब्दात् । इति प० ॥

अर्थ—तहां विषयवाक्यमें आत्माशब्द सुना है सो आत्माशब्द स्वनाम ब्रह्मका वाचक है, यातें स्वर्ग भू आदिकोंका आयतन नाम आसरा ब्रह्म है; प्रधानादिक नहीं. इति ॥ १ ॥ किंच ।

मुक्तोपसृप्यव्यपदेशाच्च ॥ २ ॥

मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् । च । इति प० ॥

अर्थ—मुक्तपुरुषको जो उपसृप्य नाम प्राप्तियोग्य सो उत्तरवाक्यमें कहा है; यातें सर्वका आयतन ब्रह्म है अपर नहीं. इति । तथाहि पूर्वश्रुतिके आगे मुंडकमें यह वाक्य है । “भिद्यते हृदयग्रंथिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ॥ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इति ॥ यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपात् विमुक्तः परात्परं पुरुषं उपैति दिव्यं इति”

अर्थ—हृदयग्रंथिपदसँ मिथ्यापदसँ मिथ्या ज्ञान रागद्वेषादिका ग्रहण है । यथा सर्व नदीस्व नाम रूपको त्यागकर समुद्रको प्राप्त होयके समुद्ररूप होकर स्थित होवे हैं तथा आत्मवेत्ताभी अविद्यासँ रहितहुआ अविद्यासँ परे जो परिपूर्ण अखंड एक रस ब्रह्म तिसको स्वस्वरूपकरके प्राप्त होवे है. इति । इस उक्त श्रुतिमें मुक्तको प्राप्य ब्रह्म कहा है यातें पूर्ववाक्यमें जो आयतन कहा है सो ब्रह्म है अपर नहीं. इति ॥ २ ॥ किंचः—

नानुमानमतच्छब्दात् ॥ ३ ॥

न । अनुमानं । अतत्शब्दात् । इति प० ॥

अर्थ—अनुमानपदसँ अनुमानगम्य प्रधानका ग्रहण है, तांका बोधक जो शब्द सो तत्शब्द अंगीकार है, नहीं जो होवे प्रधानबोधक शब्द सो अतत्शब्द अंगीकार है; अर्थात् प्रधानबोधक शब्द कोई सुना नहीं यातँ प्रधान द्युभू आदिकोंका आसरा नहीं. इति ॥ ३ ॥ किंच ।

प्राणभृच्च ॥ ४ ॥

प्राणभृत् । च । इति प० ॥

अर्थ—प्राणभृत् नाम प्राणधारी जो जीव सोभी आयतन नहीं, यद्यपि प्रथम विषयवाक्यमें आत्मशब्द सुना है सो जीववाचक है, तथापि जीवको सर्वज्ञता और सर्वका आयतनत्व संभवे नहीं; यातँ आत्मापद तहां जीवका वाचक नहीं. यह निषेध पूर्वले सूत्रसँ नकारको ग्रहण करके है. ॥ ४ ॥ किंच:—

भेदव्यपदेशात् ॥ ५ ॥

भेदाव्यपदेशात् । इति प० ॥

अर्थ—तू अधिकारी तिस एकको जान, जा कथनसँ तहां ज्ञाता ज्ञेयरूपसँ भेद कथन किया है; यातँ भी प्राणधारी जीव आयतन नहीं, किंतु ज्ञेय ब्रह्म आयतन है. इति ॥ ५ ॥

प्रकरणाच्च ॥ ६ ॥

प्रकरणात् । च । इति प० ॥

अर्थ—किसके जानेसँ यह सर्व जाना जाय है यह प्रथम मुंडकके आरंभमें कहा है; सो जीवके ज्ञानसँ सर्वका ज्ञान संभवे नहीं यातँ प्रकरणसँभी प्राणधारी आयतन नहीं है. इति ॥ ६ ॥ किंच:—

स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७ ॥

स्थित्यदनाभ्यां च । इति प० ॥

अर्थ—मुंडकके आरंभमें तीसरी यह वाक्य है ॥ “वा सुवर्णासयुजा सन्नाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वादृत्ति अनश-

न्नयो अभिचाकशीति इति” इस श्रुतिमें जीवको भोक्ता कहा है, ईश्वरको अभोक्ता कहा है; यातें स्थिति नाम भोगविना यज्ञमें ईश्वरको स्थित होनेसें और अदन नाम जीवको भोक्ता होनेसें प्राणधारी जीव आयतन नहीं. इति ॥ ७ ॥

अव०—छांदोग्यके सप्तमप्रपाठके आरंभमें यह प्रसंग है कि नारदने सनत्कुमारको कहा कि हे भगवन् ! अध्ययन करावो. सनत्कुमारने कहा जो तुम जानते हो सो कहो तांसें आगे हम कहेंगे. नारदने कहा कि हे भगवन् ! मैं ऋग्वेदादिविद्या जानता हूं, सो मैं मंत्र वेत्ताही हूं आत्मवेत्ता नहीं. और हमने सुना है “तरति शोकमात्मवित्” हे भगवन् ! सो मैं शोकको प्राप्त हों ! हमको शोकसे पार करो. सनत्कुमारने कहा कि ये जे ऋगादिकविद्या तुमने अध्ययन किया है सो यह नाम है. नामही ब्रह्म है. तांकी उपासना करो नारदने कहा नामसें भी कोई बड़ा है ? सनत्कुमारने कहा वाक्य नामसें उत्तम हूं. इसप्रकार वाक्यके आगे मन मनके आगे संकल्प तांसें आगे चित्त तांसें ध्यान तांसें विज्ञान तांसें बल तांसें अन्न तांसें जल तांसें तेज तांसें आकाश तांसें स्मर तांसें आशा तांसें आगे प्राणको ब्रह्मरूपकरके उपास्य विधान किया है। “प्राणो वा आशया भूयान् यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एतस्मिन् सर्वे समर्पितं इति” इससें आगे नारदके प्रश्न विनाहीं सनत्कुमारने सत्यका उपदेश किया, सत्यमें जिज्ञासा हुई तौ विज्ञानको कहा विज्ञानमें जिज्ञासा हुई तौ मतिको कहा, मतिमें अभिलाषा हुई तौ श्रद्धाका उपदेश किया, तांमें जिज्ञासा हुई तौ निष्ठाका उपदेश किया, निष्ठामें जिज्ञासा हुयेसें कृति उपदेश किया. कृतिमें जिज्ञासा हुई तौ सुखका उपदेश किया. सुखमें जिज्ञासा हुयेसें आगे यह उपदेश किया है. “यो वै भूमा तत् सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं भूमा तु एव विजिज्ञासितव्यः इति” नारदने कहा हे भगवन् ! भूमाको आप कहो तव सनत्कुमारने यह उपदेश किया । “यत्र न अन्यत्पश्यति न अन्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा इति” सर्वव्यवहाररहित पूर्ण वस्तुका नाम भूमा है, इति । सो प्राण है वा परमात्मा है यह उक्त वाक्यमें संदेह है. भूमासें पूर्व प्राणोंका उपदेश है यातें प्राणोंका उपदेश है यह पूर्वपक्ष है, तहां यह सूत्रकारका उत्तर है.

भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात् ॥ ८ ॥

भूमा सम्प्रसादात् । अध्युपदेशात् । इति ५० ॥

अर्थ-सम्यक् सुखी होवे जीव जामें सो संप्रसाद कहिये हैं, अर्थात् सुषुप्तिका नाम है, ता अवस्थामें प्राणचेष्टा बनी रहेहै यातें संप्रसादपदसैं सूत्रमें प्राणोंका अंगीकार है, तासैं अधि नाम आगे श्रुतिमें भूमाका उपदेश किया है; यातें भूमाशब्दसैं तहां परमात्मा अंगीकार है प्राण अंगीकार नहीं. प्राणउपदेशसैं शोकनिवृत्ति संभवे नहीं, इत्यादिक हेतु प्राणोंके निषेधमें अंगीकार हैं. इति ॥ ८ ॥

धर्मोपपत्तेश्च ॥ ९ ॥

धर्मोपपत्तेः । च । इति प० ॥

अर्थ-‘जा अवस्थामें अपरको देखे सुने जाने नहीं’ इत्यादिक कहे जे धर्म ते परमात्मामें उपपत्तेः नाम संभवे हैं अपरमें नहीं; यातें परमात्माही भूमा ज्ञेय है प्राण नहीं. इति ॥ ९ ॥

बृहदारण्यक पंचम अध्याय अष्टम ब्राह्मणमें यह प्रसंग है कि गार्गीने याज्ञवल्क्यसैं पूछाथा कि जो स्वर्गके ऊपर है जो पृथिवीके नीचे है स्वर्ग पृथिवी जिसके अंतर हैं और जे भूत भावी वर्तमान हैं ते सर्व किसमें ओतप्रोत हैं? याज्ञवल्क्यने कहा आकाशमें ओतप्रोत हैं. गार्गीने कहा आकाश किसमें ओतप्रोत है? तब याज्ञवल्क्यने यह उपदेश किया । “सहोवाचैतद्वैतदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति । अस्थूलं अनण्वद्द्रव्यं अदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवायु अनाकाशं असङ्गमरसमगन्धमचक्षुष्कं अश्रोत्रमवागमनोऽस्तेजस्कं अपाणिमुखममौत्रं अनन्तरयाहं न तदश्नाति किंचन न तदश्नाति कश्चन । एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः । यो वा एतदक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कूपणोऽथ य एतदक्षरं गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः । तदा एतदक्षरं गार्गी अदृष्टं द्रष्टुं अश्रुतं श्रोतुं अमृतं मन्तुं अविज्ञातं विज्ञातुं नान्यत् अतोऽस्ति द्रष्टुं नान्यत् अतोऽस्ति श्रोतुं नान्यत् अतोऽस्ति मन्तुं नान्यत् अतोऽस्ति विज्ञातुं एतस्मिन् नु खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च इति”

श्रुतिअर्थ-हे गार्गी! जो तुमने पूछा है कि आकाश किसमें ओत प्रोत है इति । सो यह अक्षर है यह ब्राह्मण कहेंहें अर्थात् नाशरहित अक्षरको

ब्रह्मवेत्ता कहें हैं. सो अक्षर कौन है ? जिसको ब्राह्मण कहें हैं जा शंकासं कहें हैं सो अक्षर स्थूल अणु इह स्व दीर्घ नहीं. अर्थात् चतुःपरिमाणधर्मवान् द्रव्यसँ भिन्न है. लोहित, स्नेह, छाया, तम, वायु, आकाश, रूप नहीं; असंग है. रस गंध नेत्र श्रोत्र वाक् मन तेज प्राण मुख, मात्ररूप नहीं. मात्रपदसँ मान मेयका निषेध अंगीकार है. सो अंतर नहीं बाह्य नहीं सो किसीको भक्षण नहीं करे हैं तांको कोई भक्षण नहीं करे हैं. हे गार्गी ! इस अक्षरकी प्रशासनामँ सूर्य चंद्रमा स्थित हुये. देशकालके नियमसँ वर्ते हैं और स्वर्गपृथिवीआदिक जिसकी आज्ञामँ स्थित हैं जो इस अक्षरको नहीं जानके गमन करे है सो भ्रूषण है. जो जानके गमन करे है सो ब्राह्मण है. हे गार्गी ! सो अक्षर अदृष्ट है अर्थात् अविषय होनेसँ अपरकरके अदृष्ट है और स्वयं सर्वका द्रष्टृ है अर्थात् द्रष्टा है तथा अपरकरके अश्रुत है स्वयं सर्वका श्रोता है. मनका अविषय होनेसँ अपरकरके अमंता है आप मंता है. बुद्धिका अविषय होनेसँ अविज्ञात है आप विज्ञानरूप होनेसँ विज्ञाता है. इस अक्षरसँ दर्शनक्रियाका कर्ता अपर नहीं तिस अक्षरमँ हे गार्गी ! आकाश ओतप्रोत है इति । यह श्रुतिका अर्थ है.

उक्त ब्राह्मणमँ अक्षर पदसँ अक्षर वर्णरूप अंगीकृत है वा ब्रह्म अंगीकृत है यह संदेह है. अक्षर पद वर्णोंका वाचक प्रसिद्ध है यातें वर्णोंका ग्रहण है, यह पूर्वपक्ष है. 'न क्षरति इति अक्षरं' जा योगवृत्तिको मानके सूत्रकारका यह समाधान है ।

अक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥ १० ॥

अक्षरं । अम्बरान्तधृतेः । इति । प० ॥

अर्थ—भूमिसँ लेकर अंबर नाम आकाश अंत नाम पर्यंत सर्व कार्यको ब्रह्म धृतेः नाम धारण करे है यातें अक्षरपदसँ तहां ब्रह्मका अंगीकार है अक्षर नहीं. उक्त प्रसंगमँ सर्वका धारक ब्रह्म प्रसिद्ध प्रतीत होवे है यातें अक्षर ब्रह्मही है. इति ॥ १० ॥

सा च प्रशासनात् ॥ ११ ॥

सा । च । प्रशासनात् । इति प० ।

अर्थ—पूर्ववाक्यमँ कहा है कि हे गार्गी ! अक्षरकी प्रशासनामँ धारण किये हुये सूर्यचंद्रादिक स्थित हैं. इति । प्रशासन नाम आज्ञाका है आज्ञा चेतनका धर्म है अचेतनका नहीं यातें सो नामधारणा परमेश्वरका धर्म है अपर अचेतन धर्म नहीं, यातें अक्षर तहां ब्रह्म अंगीकृत है प्रधानादिक नहीं. इति ॥ ११ ॥

किंच ।

अन्यभावव्यावृत्तेश्च ॥ १२ ॥

अन्यभावव्यावृत्तेः । च । इति प० ॥

अर्थ—अन्य जे प्रधानादिक तिनके जे भाव नाम धर्म ते अन्यभावपदसँ अंगीकृत हैं, तिन धर्मनसँ जे व्यावृत्त नाम भिन्न धर्म ते उक्त श्रुतिमें सुनेहँ यातँ अक्षरपदका वाच्य परमात्मा है तिसकाही प्रशासना कर्म है । “अदृष्टं द्रष्टुं अश्रुतं श्रोतुं” इत्यादिक धर्म सूत्रके व्यावृत्तिपदसँ ग्रहण है और अ-पर द्रष्टाका तहां निषेध किया है यातँ अक्षर ब्रह्मही ज्ञेय है. पूर्वले अधिकर-णका पूर्वपक्षमें ओंकारकी उपासना फल है सिद्धांतमें ब्रह्मबोध फल है. इति ॥ १२ ॥

अव०—अथर्वणकी प्रश्नउपनिषद्के पंचम प्रश्नमें पिप्पलाद गुरुसँ सत्यका-मने पूछा था कि हे भगवन् ! मनुष्यनमें जो मरणपर्यंत ओंकारका ध्यान करेहँ सो उपासक तिस ओंकारसँ किस लोकका जय करे है. पिप्पलादने यह उपदेश किया कि जो एकमात्र ओंकारका ध्यान करे है तांको ऋक् मनुष्यलोकमें प्राप्त करें है, द्विमात्र ओंकारका ध्यान करे ताँ सो यजुद्धारा सोमलोकमें जावे है. तहांसँ तांकी पुनरावृत्ति होवे है. यह कहकर आगे यह उपदेश किया है कि “यः पुनरे-तत् त्रिमात्रेणैव ओं इति एतेनैव अक्षरेण परपुरुषं अभिध्यायीत स तेजसि सूर्यं सम्पन्नः । यथा पादोदरः त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात् जीव-घनात् परात् परं पुरिषाय पुरुषं ईक्षते इति”

अर्थ०—जो उपासक त्रिमात्र ओंकार अक्षरकरके परपुरुषका ध्यान करे है सो तेजरूप सूर्यमें प्राप्त होकर यथा सर्प त्वचासँ रहित होवेहँ तथा सो पापनसँ रहित होवे है. तांको साम ब्रह्मलोकमें प्राप्त करे है. सो उपासक जीवघन नाम ब्रह्मलोकमें परे जो परमात्मा पुरुष तिसको माक्षात्कार करे है. सर्वजीवोंका अभिमानी शिरष्यगर्भ तांका ब्रह्मलोक आधार है यातँ ब्रह्मलोकका नाम जी-वघन है, मरे शरीरोंमें जो रहे सो पुरिषाय कहिये है. इति । उक्त वाक्यमें ओंकार-में जो ध्यान करणेयोग्य कहा है सो परब्रह्म है वा अपरब्रह्म है यह तहां गंदह है. पूर्वपक्षमें अपर ध्यातव्य अंगीकार कियेसँ यह भगवन् सूत्रकारने गिटांत किया है.

ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्सः ॥ १३ ॥

ईक्षतिकर्मव्यपदेशात् । सः । इति प० ॥

अर्थ—पूर्ववाक्यमें ईक्षति पदका अर्थ जो ज्ञान तांका कर्म पुरुषको कहा है यांते सः नाम ध्यानयोग्य तहां परब्रह्म अंगीकृत है. अपर नहीं. इति । पूर्वपक्षमें कार्य ब्रह्मउपासना फल है, सिद्धांतमें परब्रह्मउपासना फल है. इति ॥ १३ ॥

अव०—उत्तर अधिकरणका आकाशादिउपासना पूर्वपक्षमें फल है. सिद्धांतमें तत्तद्वारा ब्रह्मबोध फल है. छांदोग्यके अष्टम प्रपाठके आरंभमें यह श्रुति है । “अथ यदिदं अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मिन् अन्तराकाशः तस्मिन् अन्तराकाशः तस्मिन् यदन्तः तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यं इति । तं चेत् ब्रूयुः यदिदं अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मिन् अन्तराकाशः किं तदत्र विद्यते यत् अन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यं इति । स ब्रूयात् यावान् वा अयमाकाशः तावान् एपोऽन्तर्हृदय आकाश उभे अस्मिन् द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते इति. ”

अर्थ—यह जो ब्रह्मपुर नाम शरीर इसमें दहर नाम सूक्ष्म हृदयरूप कमल है, तिसके अंतर सूक्ष्म आकाश है सो जिज्ञासाके योग्य है. जो गुरुको शिष्य कहे कि प्रथम तो हृदय सूक्ष्म है तामें जो आकाश सो भी सूक्ष्म है सो क्या वस्तु है जांकी जिज्ञासा करे. तो गुरु उनसे यह कहे कि जेता यह आकाश है उतनाही हृदयके अंतर आकाश है तामें स्वर्ग और पृथिवी स्थित हैं. इति । इससे आगे यह कहा है । “एष आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इति” उक्त वाक्यमें जो हृदयके अंतर सूक्ष्म आकाश कहा है सो भूताकाश है वा ब्रह्म है यह तहां संदेह है. प्रसिद्धिसँ आकाशपदको भूताकाशका वाचक पूर्वपक्षमें अंगीकार कियेसँ यह सिद्धांतसूत्र है ।

दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥

दहरः । उत्तरेभ्यः । इति प० ॥

अर्थ—उत्तर नाम आगे जे हेतु कहे हैं तिनसे दहराकाशशब्दसे तहां पर-

मात्मा उपास्य है भूताकाश नहीं. दहराकाशको सुनकर जो शिष्योंका प्रश्न तांके उत्तरमें उपमान उपमेय भाव सुना है, और तिसको सर्वका आश्रय कहा है और अजर अमरादिक तांके विशेषण कहेहैं वे धर्म भूताकाशमें संभवे नहीं यातें उक्त अनेक हेतुनसँ दहराकाश परमात्मा है भूताकाश नहीं. इति ॥१४॥

गतिशब्दाभ्यां तथाहि दृष्टं लिङ्गं च ॥ १५ ॥

गतिशब्दाभ्यां । तथाहि । दृष्टं । लिङ्गं । च । इति प० ॥

अर्थ—दहरवाक्यके आगे द्वितीयखंडमें यह कहा है। “यथापि हिरण्यरूप-निधिं निहितं अक्षेत्रज्ञा । उपरि उपरि संचरन्तो न विन्देयुः एवमेव इमाः सर्वाः प्रजाः अहर अहर गच्छन्त्यहताः एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति अन्तेन हि प्रत्युदाः इति” श्रुतिअर्थ—यथा भूमिमें गाड़ाहुया जो धन तिस धनस्थानको जे नहीं जानेहैं ते तिसके ऊपर तो फिरते रहेहैं परंतु तिसको जानें नहीं, तथा यह सर्वप्रजा दिन दिनमें ब्रह्मविषे गमन करे हें परंतु अज्ञान-करके आच्छादित हुये संते इस ब्रह्मलोकको नहीं जानेंहैं. इति ॥ इस वाक्यमें परमात्माका बोधक जो ब्रह्मलोक शब्द और जीवनका जो दिनदिनमें ब्रह्ममें गमन अर्थात् लय ते दोनो सूत्रके शब्द और गतिसँ ग्रहण हें. गतिपदसँ लय ग्रहण है शब्द शब्दसँ ब्रह्मलोक यह शब्द ग्रहण है. तिन दोनोसँ दहराकाश ब्रह्म निश्चय होवे है । तथाहि—दृष्टं नाम दिनदिनमें जो जीवोंका लय सो अपर श्रुतिमें देखा है । ‘सत्ता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति’ यह श्रुति लय कहे है. ब्रह्मलोकमें दिनदिनमें गमन संभवे नहीं, यातें ब्रह्मलोकपदमें ‘ब्रह्मणः लोकः ब्रह्मलोकः’ यह समास संभवे नहीं. किंतु ‘ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः’ यह कर्मधारय समास अंगीकृत हैं. इस अभेदसमासमें दिनदिनमें जो गमन सो लिंग नाम प्रमाण है. सो अभेद अर्थको प्रगट करे है. इति ॥ १५ ॥ किंचः—

धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः ॥ १६ ॥

धृतेः । च । महिम्नः । अस्य । अस्मिन् । उपलब्धेः । इति प० ॥

अर्थ—उक्त लयबोधक वाक्यके आगे यह कहा है । “य आत्मा स सेतु-विश्रुतिरेषां लोकानां इति” इनमें सर्वका धृतेः नाम धारकत्व सुना है; यातें धारकत्व हेतुमेंभी दहराकाश परमात्माही है. यह जो धारणरूप महिमा

सो परमात्मामें अपर श्रुतिकरके उपलब्धेः नाम प्रतीत होवेहै। “एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिः एष भूतपालः एष सेतुः इति” यह आत्मा वर्णाश्रमके असंकरका सेतु नाम हेतुहै। विधृति नाम धारक है। इति श्रुतितात्पर्यम् ॥१६॥
किंचः—

प्रसिद्धेश्च ॥ १७ ॥

प्रसिद्धेः । च । इति प०॥

अर्थ—दहराकाश शब्दभी परमात्मामें ही प्रसिद्ध है भूताकाशमें नहीं। पूर्व ओ उपमान उपमेय भाव कहा है सो प्रसिद्धिमें कारण है। इति ॥ १७ ॥

इतरात्स इति चेन्नासम्भवात् ॥ १८ ॥

त् । सः । इति । चेत् । न । असम्भवात् । इति प०॥

दहरवाक्यके आगे यह वाक्य है “अथ य एष सम्प्रसादोऽ-
ारात्समुत्थाय परं ज्योतिरूपपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते

त्मा इति होवाच एतदमृतमभयमेतत् ब्रह्म तस्य ह वा एतस्य

अणो नाम सत्यमिति इति” इस वाक्यमें इतर नाम जीवका परामर्श है; यार्ते सः नाम जीवही दहराकाश है, परमात्मा नहीं; यह शंका करें तौ जीवमें आकाशउपमा अपहतपाप्मत्वादिक धर्मोंके असंभवसँ असंगत है। इति ।

श्रुतिअर्थ—परं नाम उत्कृष्ट ज्योतिः नाम प्रकाशस्वरूप जो आदित्य ताको उपसंपद्य नाम प्राप्त होकर अर्थात् आदित्यउपलक्षित देवयानमार्गको प्राप्त होकर स्वेन नाम स्वउपासनाका फलरूप जो सूर्य तत्विशिष्टरूपसँ अभिनिष्पद्यते अर्थात् ब्रह्मलोकको प्राप्त होवेहै सो उत्तम पुरुष है। इति ॥ १८ ॥

अव०—शास्त्रउपदेशसँ स्वसंवेद्यताको आपादन करके आगे सप्तम खंडमें यह ब्रह्माका वाक्य है। “य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाश्च लोकान् आमोति सर्वाश्च कामान् यः तं आत्मानं अनुविद्य विजानाति इति ह प्रजापतिः उवाच इति” इस वाक्यको सुनके इंद्र और विरोचन प्रजापतिके समीप गये। तिन्होंने तहां द्वात्रिंशत् वर्ष ब्रह्मचर्य किया। ब्रह्माने कहा किसीकी इच्छावान् स्थित हो ते वोले आपके वाक्यको सुनके आत्माकी इच्छासँ स्थित हें। तब तिनको ब्र-

हाने यह उपदेश किया “य एपोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मा इति होवाच एतत् अमृतमभयं एतत् ब्रह्म इति” इस वाक्यको सुनके वे छायाको आत्मा निश्चय कर चलेगये. विरोचन तो नहीं फिर कर गया और इंद्र उक्त आत्मामें दोष मानके पुनः ब्रह्माजीके पास गया. ब्रह्माजीने कहा द्वात्रिंशत् वर्ष तप कर. जब तप कर चुका तब यह उपदेश किया ॥ “य एष स्वप्ने महीयमानश्चरति एष आत्मा इति होवाच एतदमृतमभयं एतद् ब्रह्म इति” इसमें भी इंद्रने दोष कहे, तब ब्रह्माने कहा कि द्वात्रिंशत् वर्ष तप कर, जब तप करचुके तब यह उपदेश किया “तद्यच्च एतत् सुप्तः समस्तः सम्प्रपन्नः स्वप्नं न विजानाति एष आत्मा इति होवाच एतदमृतमभयं एतत् ब्रह्म इति” इसमें भी इंद्रने दोष कहे. तब ब्रह्माजीने कहा पांच वर्ष ब्रह्मचर्य कर. जब एकशत वर्ष ब्रह्मचर्य हुआ तब यह उपदेश किया “अशरीरं वा च सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ अशरीरो वायुः अभ्रं विद्युत् स्तनयिषुः अशरीराणि । एतानि तद्यथा एतानि अमुष्मादाकाशात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यन्ते । एवमेव एष सम्प्रसादोऽस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते सः उत्तमः पुरुषः इति” अशरीर जो वायु अर्थात् अविद्यमान शिरकरादिवान् जो शरीर तत्वान् जो वायु और अभ्र विद्युत् स्तनयित्नु यह उक्त विधिसँ शरीररहित हुये वर्षादि प्रयोजनसिद्धिके अर्थ स्वर्गलोकसंबंधी आकाशसँ उठके सूर्यसंबंधी अभितापको प्राप्त होकर तिस तापसँ भिन्न भिन्न भावको प्राप्त हुये स्वस्वरूपसँ स्थित होवे हैं. अर्थात् वायु परंत ज्योति लता गर्जित अशनिरूपसँ स्थित होवे हैं. इति । “स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्य परं ज्योतिरुपसम्पद्यते” जाविध श्रुतिमें संबन्ध अंगीकृत हैं ॥ अविद्याका कार्य जो अहंकारादि अनर्थ तासँ तदात्म अभिमानसँ जो मग्न असत्के समान तांका तासँ जो विवेक सो समुत्थाय पदका अर्थ हैं. परं जा पदसँ ब्रह्मरूप ज्योतिकी प्राप्तिके योग्य कहा है. अहं ब्रह्मास्मि जाविध श्रुतिरूप साक्षात्कार अभिनिष्पद्यते जा पदसे अंगीकृत है. उपमग्नपद्य जापदसँ ब्रह्मसाक्षात्कार कर केवलानंदब्रह्मरूपसँ अत्रस्थान अंगीकृत है. इति ॥ इम उक्त ब्रह्माके वाक्यमें जो सम्प्रसाद पद सो जीवका याचक है. याते पूर्ण दहरानाश जीव अंगीकार किया चाहिये यह शंका मानके समाधान करे हैं. ।

उत्तराच्चेदाविर्भूतस्वरूपस्तु ॥ १९ ॥

उत्तरात् । चेत् । आविर्भूतस्वरूपः । तु । इति प० ॥

अर्थ—उत्तरात् नाम नेत्राभिमानी स्वप्नाभिमानी सुषुप्त्यभिमानी जीवका संप्रसाद शब्दसँ ब्रह्माने उपदेश किया है, यातँ दहराकाश जीव है. परमात्मा नहीं, यह शंका करे तौ सत्य है. तथापि तहां जो सम्प्रसादपदसँ जीव कहा है सो जीवत्वरूपसँ जीव अंगीकार नहीं किंतु आविर्भूत नाम पापादिकोंसँ रहित जो जीवका स्वरूप सो संप्रसादपदसँ ब्रह्माके वाक्यमें अंगीकृत है. सो पापादिकोंसँ रहित जो स्वरूप सो ब्रह्मस्वरूप है सोई जीवका वास्तवस्वरूप है. जीवत्व वास्तवस्वरूप नहीं यातँ दहराकाश परमात्मा है जीव नहीं. इति ॥१९॥

अन्यार्थश्च परामर्शः ॥ २० ॥

अन्यार्थः । च । परामर्शः । इति प० ॥

अर्थ—ब्रह्माके वाक्यमें जो जीवका परामर्श है सो जीवार्थ नहीं किंतु अंतमें जो ज्योति कहा है तिस परमात्माके अर्थ परामर्श है, तहां जीवको प्राप्त होने-योग्य परमात्मा है यह उपदेश किया है, सो उपदेश जीवके परामर्शविना संभवे नहीं यातँ संप्रसादपदसँ जीवका परामर्श है. इति ॥ २० ॥

अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम् ॥ २१ ॥

अल्पश्रुतेः । इति चेत् ॥ तत् । उक्तम् । इति प० ॥

अर्थ—आकाशको श्रुतिमें अल्प श्रुतेः नाम सुना है यातँ सो परमात्मा नहीं यह शंका करे तौ इसका समाधान 'अर्भक०' जा सूत्रमें उक्तं नाम कह दिया है, तहां दहराकाश परमात्मा उपास्य हैं जीव नहीं. इति सिद्धम् ॥ २१ ॥

अव०—द्वितीय मुंडकमें यह वाक्य है । "न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र-तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनु भाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं पिभाति" इति । अर्थ—यथा घटादिकोंमें सूर्यआलोकादिक भासकत्वरूपसँ भासमान हैं तथा तत्र नाम ब्रह्ममें भासक-त्वरूपसँ सूर्यादिक भासमान नहीं, और अल्प अग्नि किस हेतुसँ प्रकाशेगी. यथा सूर्यादिकोंकरके प्रकाश्य घटादिक सूर्यादिकोंके प्रकाशक नहीं तैसे ब्रह्मकरके प्रकाश्य सूर्यादिकभी ब्रह्मके प्रकाशक नहीं. ननु गुरुके गमन कियेसँ जो शि-

प्यका पाछे गमन है सो स्वनिष्ठ गमनकृत है तथा 'तमेव भान्तं अनु भाति सर्वं' जा वाक्यमें तिसके भानपाछे जो भान कहा है सो सूर्यादिकोंका जो स्वनिष्ठ भान तिसकरके ही संभवे है, जा शंकाका तस्य जा वाक्यसँ समाधान करे हैं, यथा अयःपिंडकी दाहक्रिया सो अग्निनिष्ठ है तथा सूर्यादिकोंका भान ब्रह्मनिष्ठ है भिन्न नहीं, इति ॥ २१ ॥

अव०—इस उक्त वाक्यमें जो सर्वका भासक कहा है सो तेजविशेष है वा ब्रह्म है जा संदेह हुये लोकमें तेजको प्रकाशकता प्रसिद्ध है यातें तेजविशेष है जा पूर्वपक्षमें यह सूत्रकारका सिद्धांत है ॥

अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥

अनुकृतेः । तस्य । च । इति प० ॥

अर्थ—'अनुभाति सर्वम्' जा वाक्यमें स्वयंप्रकाशरूपसँ भासमान चेतनके पीछे सर्व सूर्यादि भासमान होवे हैं यह कहा है, सो सूत्रगत अनुकृतिपदका अर्थ है; यातें 'तं भान्तं' जा वाक्यमें परमात्माका अंगीकार है तेजका नहीं, और तस्य नाम 'तस्य भासा' जा वाक्यमेंभी चेतननिष्ठ सर्वभासकत्व कहा है तेजको सर्वका भासक कहिना संभवे नहीं यातें उक्त विषयवाक्यमें सर्वका जो प्रकाशक कहा है सो ब्रह्म है तेज नहीं, इति ॥ २२ ॥

अपि च स्मर्यते ॥ २३ ॥

अपि । च । स्मर्यते । इति प० ॥

अर्थ—'न तत् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः' यह गीतामेंभी उक्त अर्थही भगवान्ने स्मरण किया है; यातें अपरकरके अप्रकाश्य सर्वका प्रकाशक तहां परमेश्वरही ज्ञेय है तेज नहीं, इति । तेजकी उपासना पूर्वपक्षमें फल है, सिद्धांतमें निर्विशेष ब्रह्मज्ञान फल है, इति ॥ २३ ॥

अव०—उत्तरसूत्रका पूर्वपक्षमें भेदसिद्धि फल है सिद्धांतमें अमेद फल है । कठकी चतुर्य वादीमें यह वाक्य है । मनसा एव इदं आसत्त्वं नेह नानास्ति किञ्चन । मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति । अद्भुष्टमात्र-

१ इह नाम प्रथमं अमुनायभी नाना नही है जो भविष्यवात इह नाम अनात्मप प्रथमं स्मरन् नाना देवं है सो मरन्ती एषा प्राय होवे है । अद्भुष्टमात्र हृदयगत अतः करणउपासक देहमें स्थित है, जो बाल्यवस्था ईशिता है ताँकी जो जन्मे है ओ इतानंतर भासाँको शुभ करने ही इच्छा नहीं करे है ॥

पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते इति” । अंगुष्ठमात्र पुरुष देहके मध्य हृदयरूप पद्ममें स्थित है. यह उक्तवाक्यमें कहा है. तहां अंगुष्ठमात्रवाक्य जीवका बोधक है वा ब्रह्मबोधक है जा संदेह हुयेसैं अंगुष्ठमात्र परिमाण ब्रह्मका तो संभवे नहीं यातें उक्तवाक्य जीवबोधक है जा पूर्वपक्ष हुयेसे यह सिद्धांत है ।

शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥

शब्दात् । एव । प्रमितः । इति प० ॥

अर्थ—शब्दात् नाम उक्तवाक्यमें ईशान शब्द है तासैं प्रत्यक् अभिन्न परमात्मा अंगुष्ठवाक्यकरके प्रतिपाद्य है यह अर्थ प्रमितः नाम निश्चित है. यद्यपि अंगुष्ठपरिमाण जीवका लिंग है तथापि जहां श्रुतिका लिंगसैं विरोध होवे तहां श्रुति बलवान् होवे है. प्रसंगमें ईशान यह श्रुति है अंगुष्ठमात्र यह जीवका लिंग है. यातें ईशान यह बलवान् है त्वंपदका वाच्य जो जीव तांका अनुवाद करके ब्रह्मात्माको अभेदका बोधक अंगुष्ठवाक्य है. इति तात्पर्य ॥ २४ ॥

अव०—वास्तवसैं जीवका स्वरूप व्यापक माना है यातें तांको अंगुष्ठमात्रत्व कैसे है जा शंकासैं कहे हैं.

हृद्यपेक्षा तु मनुष्याधिकारत्वात् ॥ २५ ॥

हृदि । अपेक्षा । तु । मनुष्याधिकारत्वात् । इति प० ॥

अर्थ—तु पद शंकानिपेधार्थक है. वास्तवसैं व्यापक जो परमात्मा सो जीवरूपको प्राप्त है यातें अंगुष्ठपरिमाण जो हृदय तत् अपेक्षा नाम तत् अवच्छिन्नरूपसैं तांको अंगुष्ठमात्र कहिना संभवे है. यद्यपि गजादिक शरीरोंमें हृदयके अंगुष्ठपरिमाणका नियम संभवे नहीं यातें जीवका अंगुष्ठमात्र नियम कैसे होवेगा, तथापि शास्त्रमें मनुष्यका अधिकार है गजादिकोंका नहीं. मनुष्यनका हृदय अंगुष्ठमात्र है यातें हृदयकी दृष्टिसैं जीवको अंगुष्ठमात्र कहिना संभवे है. इति ॥ २५ ॥

अव०—बृहदारण्यकके चतुर्थ ब्राह्मणमें यह वाक्य है “ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानं एव अवेत् अहं ब्रह्मास्मि इति तस्मात्तत् सर्वमभ-

१. तत् । ब्रह्म । आत्मानं नित्यद्रुह्य । अवेत् विदितवत् ॥ तदग्र एतत् आत्मानं परमं प्रतिपेदे प्रतिपन्नवान् ॥ ५ ॥

वत् तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत् स एव तदभवत् तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणां तद्धैतत्पश्यन् ऋषिर्वाग्देवः प्रतिषेदे अहं मनुरभवत् सूर्यश्चेति तत् इदं अपि एतर्हि य एवं वेद अहं ब्रह्मास्मि इति स इदं सर्वं भवति। तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशत आत्मा हि एषां स भवति इति” उक्त वाक्यमें कहा है कि देवनके मध्यमें मनुष्यनके मध्यमें ऋषिनके मध्यमें जिसने ब्रह्मको जाना है सो तत् रूप हुआ है। इति। तहां यह संदेह है कि देवनका ब्रह्मविद्यामें अधिकार है वा नहीं। इति। पूर्वशास्त्रमें मनुष्यनका अधिकार माना है यातें देवनका विद्यामें अधिकार नहीं यह पूर्वपक्ष है; तहां यह भगवान् सूत्रकारका सिद्धांत है।

तदुपर्यपि वादरायणः सम्भवादिति ॥ २६ ॥

तदुपरि । अपि । वादरायणः । सम्भवात् । इति प० ॥

अर्थ—तत् नाम मनुष्यनके उपरि नाम ऊपर जे देवता तिनका भी ब्रह्म-विद्यामें अधिकार है यह वादरायण आचार्य माने हैं, आत्मा अर्थत्व साम-प्य्यादिक अधिकारके कारण है ते देवनमें भी हैं यातें देवनका विद्यामें अधि-कार संभवे है। इति ॥ २६ ॥

विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात् ॥ २७ ॥

विरोधः । कर्मणि । इति । चेत् । न । अनेकप्र-

तिपत्तेः । दर्शनात् । इति प० ॥

अर्थ—ननु विग्रह विना विद्यामें अधिकार संभवे नहीं, यातें देवनका वि-ग्रह माना चाहिये तांके अंगीकार कियेसँ यथा कर्मकर्ता कर्मोंके समीप हुआ कर्मोंपर उपकारक होवे है तथा देवतानको भी कर्मके समीप होकर कर्मोंमें उप-कारक हुआ चाहिये मो उपकारकत्व एकशरीरका एककालमें अनेक कर्मनवि-पे संभवे नहीं यातें देवनको विग्रहवान् मानेसँ कर्मनमें उक्तविधिसँ विरोध सिद्ध होवेगा। इति चेत् नाम यदि यह शंका करे तो अनेक प्रतिपत्तिके दर्शनसँ संभवे नहीं। एक देवताको अनेक शरीरकी प्रतिपत्तिनाम प्राप्ति एककालमें दर्श-नात् नाम श्रुतिमें देखी है यातें उक्त दोष संभवे नहीं। इति ॥ अथवा यथा एक महारमाको अनेक जीव एककालमें वंदना करे हैं तथा एक देवताके अर्थ अनेक जीव एक कालमें अनेक कर्म करे हैं यातें देवतानके उपकारकत्वमें रंचक विरोध नहीं। इति ॥ २७ ॥

शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ॥ २८ ॥
 शब्दे । इति । चेत् । न । अतः । प्रभवात् । प्रत्यक्षानु-
 मानाभ्याम् । इति प० ॥

अर्थ—ननु यद्यपि कर्मनमै विरोध नहीं तथापि शब्द नाम वेदमें विरोध है, वैदिक शब्द नित्य हैं देवताविग्रह अनित्य हैं यांते शब्दका अर्थसँ जो नित्य-संबंध ताके असंभवसँ शब्दमें विरोध होवेगा जा शंकाका यह समाधान है कि दे-वतानिष्ठ नित्य जो आकृति तांका वाचक वैदिक शब्द है. अतः नाम नित्य-आकृतिवाचक वेदसँ देवादिप्रपंचका प्रभव नाम उत्पत्ति सुनी है सो प्रत्यक्ष नाम श्रुतिसँ अनुमान नाम स्मृतिसँ उक्त अर्थही निश्चित है; यातँ वैदिकशब्दोंको नित्य आकृतिका वाचक होनेसँ शब्दमें भी विरोध नहीं. इति ॥ २८ ॥

अत एव च नित्यत्वम् ॥ २९ ॥

अतः । एव । च । नित्यत्वम् । इति । प० ॥

अर्थ—नित्य जो आकृति सो शब्दका अर्थ है, अतः नाम तिस नित्य आकृ-तिरूप शब्दार्थसँ वेदानिष्ठ भी नित्यत्व सिद्ध होवे हैं. तथाहि—अनुमानं वेदः अवांतरप्रलयावस्थायी जगत्हेतुत्वात् ईश्वरवत्ः इति ॥ २९ ॥

समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो
 दर्शनात्स्मृतेश्च ॥ ३० ॥

समाननामरूपत्वात् । च । आवृत्तौ । अपि । अ-

विरोधः । दर्शनात् । स्मृतेः । च । इति प० ॥

अर्थ—ननु नित्य आकृति पदार्थ अंगीकार किये भी प्रलयमें सर्वआकृतिक व्यक्तिके नाश हुयेसँ पुनः सोई आकृतिक व्यक्ति उपजेहै जा अर्थका साधक प्रमाण कोई नहीं यातँ नित्यानित्य संबंध विरोध दूर होवे नहीं जा शंकाका उत्तर कहेंहैं कि उत्पत्ति और प्रलयकी आवृत्ति हुये भी शब्दमें विरोध नहीं. प्रलय और उत्पत्तिमें समान नाम रूप होवेहैं प्रलयमें जगतका निरन्वय नाश होवे ताँ जगत विलक्षण होवे निरन्वय नाश होवे नहीं किंतु अन्वय नाश होवेहैं अर्थात् संस्काररूपसँ अ-विद्यामें जगत स्थित रहेहै. यथा अनुभवमें भावनारूप संस्कार रहेहैं यथा मृत्तिका-में घटके संस्कार रहे हैं यथा सुप्तिसँ सर्वके संस्कार रहेहैं तथा प्रलयमें सर्वके संस्कार रहेहैं यातँ उत्पत्तिप्रलयमें समान नाम रूप होवे है । “अस्मिन्प्राण

एकधा भवति तदा एनं वाक् सर्वैर्नामभिः सहाऽप्येति चक्षुः सर्वैः रूपैः सहाऽप्येति श्रोत्रं सर्वैः शब्दैः सहाऽप्येति मनः सर्वैर्ध्यानैः सहाऽप्येति स यदा प्रबुध्यते । यथाऽग्नेर्ज्वलतः सर्वा दिशो विस्फुल्लिङ्गा विप्रतिष्ठेरन् एवमेव एतस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणा यथा विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः” यह श्रुति दिन दिनमें उत्पत्ति प्रलय कहे है, इनमें यथा समान नाम रूप होवें तथा पूर्वकल्पप्रपंचके समानही नाम रूप उत्तर प्रपंचका होवें। यातें पूर्वआकृतिक व्यक्तिके अंगीकारसँ शब्दमें रंचक विरोध नहीं। श्रुतिमें प्राणपद परमात्माका वाचक है, एकधापदसँ अभेदग्रहण है, सर्वाप्राणपदसँ वाक्यादिकका ग्रहण है। देवपद अग्नि आदिकोंका वाचक है, लोकपद विषयवाचक हैं। इति ॥ स्मृतैः नाम “सूर्याचंद्रमसौ घाता यथा पूर्वमकल्पयत” जा स्मृतिसँभी समानही नामरूप निश्चित हैं। इति ॥ ३० ॥

मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जेमिनिः ॥ ३१ ॥

मध्वादिषु । असम्भवात् । अनधिकारं । जेमिनिः । इति प० ॥

अर्थ—“असौ वा आदित्यो देवमधु” जा श्रुतिमें सूर्यको देवमधु कहा है अर्थात् देवको मधुरूपसँ सूर्यकी उपासनाका प्रधान किया है, तहां सूर्यको देवनाम मानके एकही सूर्यको उपास्य उपासक और प्राप्य प्रापक कहिना संभवे नहीं, यातें यथा मधुआदिक उपासनामें देवनाका अधिकार नहीं, तथा ब्रह्मविद्यामें भी देवनाका अधिकार नहीं। तहां यह अनुमान है । ब्रह्मविद्यामें देवनाका अधिकार नहीं, विद्या होनेसँ मधुआदि विद्यावत्। इति । यह जेमिनि आचार्य माने हैं। इति ॥ ३१ ॥

ज्योतिषि भावाच्च ॥ ३२ ॥

ज्योतिषि । भावात् । च । इति प० ॥

अर्थ—चले जाते जे ज्योतिर्मंडल प्रतीत होवे हैं तिनको लोकमें सूर्यादिक ग्रहोंमें कहे हैं ते मंडल मृत्तिकावत् अचेतन हैं विग्रहमें रहित हैं यातें देवनाका ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं यह। जेमिनि आचार्य माने हैं। इति ॥ ३२ ॥

भावं तु वादरायणोऽस्ति हि ॥ ३३ ॥

भावं । तु । वादरायणः । अस्ति । हि । इति प० ॥

अर्थ—तु पद परंपक्षनिषेधार्थक है, देवनाका ब्रह्मविद्यामें भावं नाम अधि-

कारित्व अस्ति नाम है. यह वादरायणाचार्य मानेहैं. यद्यपि देवताका देवताउपासनामें अधिकार नहीं तथापि निर्गुण ब्रह्मविद्यामें अधिकार है. और सूर्यादिक शब्द केवल ज्योतिर्वाचक नहीं किंतु तत्अभिमानी देवतावाचक हैं. सूर्य पुरुष हुआथा इंद्र मेघ हुआथा इत्यादि गाथासैं सामर्थ्यभी प्रतीत होवेहैं. यातें देवतावोंका विद्यामें अधिकार है. इति ॥ ३३ ॥

अच०—शूद्रजातिका ब्रह्मविद्यामें अधिकार है यह उत्तरसूत्रके पूर्वपक्षमें फल है, सिद्धांतमें अधिकारका अभाव फल है. छांदोग्यके चतुर्थ प्रपाठकमें एक गाथा है कि कोई जानश्रुति राजा था वह बहुगुणोंकरके युक्त था, तिसके गुणोंकरके संतोषित देव ऋषि हंसोंके रूप धारकर ग्रीष्मकालमें मंदरपर सोयेहुये राजाके ऊपरसैं पंक्ति बांध कर आये, तहां आकर पाछेका हंस आगेके हंसको बोला हे भद्राक्ष! इस जानश्रुति राजाके स्वर्गलोकपर्यंत विद्यमान तेजको तैं नहीं देखे है, अर्थात् इसके ऊपरसैं नहीं चला चाहिये. इस वचनको सुनके आगेका हंस बोला कि यह राजा क्या रैकके तुल्य है, यह वाक्य सुनकर राजाने विचारा कि रैक कोई ब्रह्मवेत्ता है तांके समीप जाना चाहिये, जा विचारके तांकी खबर मँगायके तहां गौरथादिक लेजाकर कहा! हे रैक! इनको ग्रहण करके हमको उपदेश करो. इस वचनको सुनके रैकने यह वाक्य कहा कि। “अह हारे त्वा शूद्र! तवैव गोभिरस्तु इति” इसमें अह यह पद कोपयुक्त शब्दचाची है. हे शूद्र हारे त्वा नाम हारयुक्त जो रथ सो गोसहित तुम्हारे लियेही हो. इति। इसमें यह संदेह है कि ब्रह्मविद्यामें शूद्रका अधिकार है वा नहीं. इति। आत्माअर्थी शूद्रभी है यातें देवनका यथा विद्यामें अधिकार है तथा शूद्रकाभी ब्रह्मविद्यामें अधिकार है. और जानश्रुतिको रैकने शूद्रसंबोधन देकर पाछे उपदेश किया है; यातें शूद्रका विद्यामें अधिकार है. इस पूर्वपक्षमें यह उत्तरका सूत्र है।

शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्सूच्यते हि ॥३४॥

शुक् । अस्य । तत्अनादरश्रवणात् । तत् । आद्रवणात् । सूच्यते । हि । इति प० ॥

अर्थ—अस्य नाम इस जानश्रुतिको तत् नाम हंसके अनादरश्रवणसैं जो शुक् नाम शोक उपजाया सो शोक रैकने स्व सर्वज्ञताके प्रगट करनेके लिये किया है तत्शोकके आद्रवणात् नाम शुकूपदसैं सूच्यते नाम सूचन

जानश्रुतिको प्राप्त होनेसे प्रवृत्तिकरके शूद्रपद क्षत्रियवाचक है यांते शूद्रका ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं इति योग ॥ ३४ ॥

किंच ।

क्षत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गात् ॥ ३५ ॥

क्षत्रियत्वगतेः । च । उत्तरत्र । चैत्ररथेन । लिङ्गात् । इति प० ॥

अर्थ-रैक्के उपदेशके आगे प्राणविद्या है उत्तरत्र नाम ता प्राणविद्यामें अभिप्रतारिनाम चैत्ररथ प्रसिद्ध क्षत्रियके साथ सहचार सुभा है. बाहुल्यताकरके सहचार एकजातियानोंका होवे है. लिङ्गात् नाम तिस सहचाररूप लिङ्गसें जानश्रुतिमें क्षत्रियत्व गति नाम अवगति अर्थात् निश्चय होवे है, यांतेभी जानश्रुति मुख्य शूद्र नहीं. तहां प्राणविद्यामें यह कहा है कि शौनक कापेथ और अभिप्रतारि काक्षसेनि यह दोनो भोजनस्थानमें गये तब एक ब्रह्मचारीने उनसें भिक्षा मांगी. इति ॥ तहां शुनकका पुत्र शौनक ब्राह्मण कक्षसेनका पुत्र अभिप्रतारि राजा था । “एतेन वै चित्ररथं कापेया आयाजयन्” जा श्रुतिमें कपि गोत्रवान्को चित्ररथ क्षत्रियका पुरोहित कहा है, यांते कपिगोत्रवान् चित्ररथके पुरोहितसें संयोग होनेकरके अभिप्रतारिमें चैत्ररथत्व सिद्ध होवे है. यद्यपि अभिप्रतारिमें तिसके योगसें चैत्ररथ सिद्ध होवे है क्षत्रियत्व सिद्ध होवे नहीं, तथापि “तस्मात् चैत्ररथिर्नाम एकः क्षत्रपतिरजायत” जा श्रुतिसें क्षत्रियत्व सिद्ध होवे है तस्मात् नाम चित्ररथसें चैत्ररथ नामक एक क्षत्रियोंका पति उपजा. इति ॥ ३५ ॥

संस्कारपरामर्शात्तदभावाभिलापाच्च ॥ ३६ ॥

संस्कारपरामर्शात् । तदभावाभिलापात् । च । इति प० ॥

अर्थ-जा जा स्थानमें विद्याका उपदेश है ता ता स्थानमें उपनयनादि संस्कारोंका परामर्श होवे है यांतेभी शूद्रजातिका विद्यामें अधिकार नहीं । ननु शूद्रकेभी उपनयनादिक कल्पसें हानि नहीं जा शंकासें कहें ह । न शूद्रे पातकं किञ्चित् न च संस्कारमर्हति । शूद्रश्चतुर्थो वर्ण एकजातिः” इत्यादिक यचनोर्भे तत् नाम उपनयनादि संस्कारोंका अभाव अभिलापात् नाम कथन विद्या है यांते संस्कारकल्पना संभवे नहीं । भक्ष्यमभक्ष्यविभागके अभावासें शूद्रमें पातक होवे नहीं. इति ॥ ३६ ॥

तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः ॥ ३७ ॥

तदभावनिर्धारणे । च । प्रवृत्तेः । इति । प० ॥

अर्थ—छांदोग्यके चतुर्थ प्रपाठकमें यह कहा है कि सत्यकाम एक ब्राह्मण था उसने पिताके मरे पीछे मातासँ पूँछा, हम ब्रह्मचर्य करेंगे हमारा गोत्र क्या है ? उसने कहा हमको खबर नहीं, हमारा नाम जवाला है. सत्यकाम तुम्हारा नाम है. सत्यकामने गौतमके पास जाकर कहा हे भगवन् ! आपके पास ब्रह्मचर्य करेंगे. तब गौतमने यह वाक्य कहा कि “किं गोत्रो नु सोम्यासीति इति” गौतमने कहा तुम्हारा गोत्र क्या है ? उसने कहा हमने मातासँ पूँछा था सो उसने कहा यौवनमें बहुव्यवहारमें हमारा चित्त रहिता था इसलिये तुम्हारे पिताको मैं जानती नहीं, जवाला मेरा नाम है, सत्यकाम तुम्हारा नाम है सो मैं सत्यकाम जवाला हूँ. तब गौतमने यह कहा कि “नेतत् अब्राह्मणो विवक्तुमर्हति समिधं सोम्य अहरोपयित्वा नेष्ये न सत्यादगाः इति” गौतमने उसको सत्यभाषणसँ ब्राह्मण निश्चय किया, तब उपनयनादि किये, सो सूत्रका यह अक्षरार्थ है कि सत्यकाममें तत् नाम शूद्रत्वके अभावको निर्धारण नाम निश्चयकरके उपदेशमें गौतमकी प्रवृत्तेः नाम प्रवृत्ति हुईथी यांते शूद्रजातिका विद्यामें अधिकार नहीं. इति ॥ ३७ ॥

श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्स्मृतेश्च ॥ ३८ ॥

श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात् । स्मृतेः । च । इति प० ॥

अर्थ—स्मृतिमें साक्षात् वेदश्रवणका वेदाध्ययनका अनुष्ठानरूप अर्थका शूद्रको निषेध लिखा है यातें भी वेदपूर्वक विद्यामें शूद्रका अधिकार नहीं. इति ॥ ३८ ॥

अव०—कठकी पंचमवल्लीके आरंभमें यह कहा है, “ऊर्ध्वमूलोऽवाक्-शास्त्र एपोऽश्वत्थः सनातनः । तदेव शुकं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तद् नालोति कश्चन ॥ यदिदं किंच जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतं । महद् भयं बज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ भयादस्याऽग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्चायुश्च

१ तत् नाम ब्रह्मको कोईभी जन न अचेति नाम तासँ अन्यत्वको प्राप्त होवे नहीं किन्तु सुप्तिसँ तत् रूपताको जाग्रत्स्वप्नमें तत्सपथको प्राप्त होवे है. जगत्का मूल कोई नहीं या शकसँ यह मन प्रवृत्त होवे है.

मृत्युर्धावति पञ्चमः इति” ॥ उक्त वाक्यमें यह सर्व जगत् प्राणोंको निश्चित हुये चेष्टा करेहै प्राणोंसें उपजे है सो प्राण महान् है तासैं सर्व अग्निआदिक भय करे हैं यातें भयरूप है. भयका कारण होनेसैं वज्ररूप है तिसको जे जानेहैं ते अमृतरूप होवेंहैं. इति ॥ इस वाक्यमें जो प्राण कहा है सो वायु है वा ब्रह्म है यह संदेह है. पूर्वपक्षमें प्रसिद्धिसैं वायु अंगीकार कियेसैं यह उत्तरका सूत्र है ।

कम्पनात् ॥ ३९ ॥

अर्थ—कम्पनात् नाम जगतकी जो जीवनादि चेष्टा तांका प्राण कारण है यातें उक्त वाक्यमें प्राणपद ब्रह्मका बोधक हैं, प्राणवायुका बोधक नहीं “प्राणस्य प्राणः” इत्यादिक अनेक वाक्यनमें प्राणशब्द ब्रह्मका बोधक देखा है और पूर्ववाक्यमें भयहेतु भी सुतरा है यातें ब्रह्म ही तहां अंगीकार है वायु नहीं. इति ॥ ३९ ॥

ज्योतिर्दर्शनात् ॥ ४० ॥

ज्योतिः । दर्शनात् । इति प० ॥

अर्थ—“परं ज्योतिरूपसम्पद्य”जा छांदोग्यवाक्यमें ज्योति कथन किया है सो ज्योति सूर्यादिकोंका तेज है वा ब्रह्म है जा संशयसैं पूर्वपक्षमें तेज अंगीकार कियेसैं यह सिद्धांत है कि आरंभमें ब्रह्म सर्वपापरहित अमृत अजर अभयरूप कथन किया है यातें उक्तधर्मनके दर्शनसैं ज्योति तहां ब्रह्म अंगीकृत है. तेजका अंगीकार नहीं. पूर्वपक्षमें सूर्यउपासना फल है, सिद्धांतमें ब्रह्म-बोध फल है. इति ॥ ४० ॥

अव०—ज्योतिवाक्यके आगे यह वाक्य है। “आकाशो वै नाम नामरूप-योर्निर्बहिता ते यदन्तरा तद् ब्रह्म तदमृतं स आत्मा इति” एक नामपदका प्रसिद्ध अर्थ है. यह आकाशही नामरूपका निर्बहिता है. अर्थात् नामरूप आकाशके अंतर हैं सो ब्रह्म है सो आत्मा है सो अमृत है. इति। इस उक्त वचनमें भूताकाशका ग्रहण है वा परमात्मा अंगीकृत है जा संदेहसैं पूर्वपक्षमें भूताकाश अंगीकार कियेसैं यह सिद्धांतसूत्र है ।

आकाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात् ॥ ४१ ॥

आकाशः । अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात् । इति प० ॥

अर्थ—आकाशको उक्त विषयवाक्यमें नामरूपसैं भिन्न कहा है भूताकाशको नामरूपसैं भिन्न कहिना संभवे नहीं; यातें तहां आकाशशब्दसैं परमात्माका

अंगीकार है भूताकाशका नहीं. पूर्वपक्षमें ब्रह्मउपासनासे क्रममुक्ति फल है. सिद्धांतमें ब्रह्मबोधसे साक्षात्मुक्ति फल है. इति ॥ ४१ ॥

अव०—उत्तरसूत्रका पूर्वपक्षमें कर्मकर्ताकी उपासना फल है सिद्धांतमें प्रत्यक्-ब्रह्म अभेदबोध फल है. बृहदारण्यकके षष्ठ अध्यायके चतुर्थ ब्राह्मणमें यह वाक्य है। “स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य एषोऽन्तर्हृदये आकाशः तस्मिन् शोते। सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः सर्वस्याधिपतिः सन साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान् एष सर्वेश्वरः एष प्रज्ञाधिपतिः एष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानां असम्भेदाय इति” यह वाक्य जीवके बोधक है वा जीवका अनुवाद करके ब्रह्मके बोधक है जा संदेह हुयेसें उक्त वाक्यनमें संसारीबोधक पद है ब्रह्मबोधक पद नहीं, यांते जीवके बोधक है जा पूर्वपक्षमें यह उत्तरका सूत्र है।

सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन ॥ ४२ ॥

सुषुप्त्युत्क्रान्त्योः । भेदेन । इति प० ॥

—सुषुप्तिकालमें और उत्क्रांतिकालमें जीवसें भिन्न कर ईश्वरको उक्त-पै कहा है यांते उक्त वाक्य जीवका अनुवाद नहीं करेंहें किंतु विज्ञान-सिद्धावस्थावान् जीवका अनुवाद करके ब्रह्माभेदके बोधक हैं. इति॥४२॥

पत्यादिशब्देभ्यः ॥ ४३ ॥

पत्यादिशब्देभ्यः । इति प० ॥

अर्थ—उक्तवाक्यमें पतिआदिक पद असंसारिवोधक भान होवेहें यांते असंसारी जीवके उक्तवाक्य बोधक हैं सो जीवका असंसारिस्वरूप परमात्मास्वरूप है यांते उक्तवाक्य परमात्माबोधक हैं. इति ॥ ४३ ॥

इति सूत्रभावनार्थप्रकाशिकाभाषाटीकायां प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थपादप्रारम्भः ॥

इस पादमें अष्टाविंशति सूत्र हैं, तिनमें आठ अधिकरण हैं. विंश गुण हैं.

तथाहि—

संख्या	। अधिकरण ।	गुण	प्रसंग.
१	अ०	+	अव्यक्तका विचार.

२	+	गु०	अ०
३	+	गु०	अ०
४	+	गु०	अ०
५	+	गु०	अ०
६	+	गु०	अ०
७	+	गु०	अ०
८	अ०	+	अजाविचार.
९	+	गु०	अ०
१०	+	गु०	अ०
११	अ०	+	पञ्चजनविचार.
१२	+	गु०	प०
१३	+	गु०	प०
१४	अ०	+	कारणवाक्यविचार.
१५	+	गु०	का०
१६	अ०	+	वेदितव्यविचार.
१७	+	गु०	वे०
१८	+	गु०	वे०
१९	अ०	गु०	द्रष्टव्यविचार.
२०	+	गु०	द्र०
२१	+	गु०	द्र०
२२	+	गु०	द्र०
२३	अ०	+	निमित्तोपादानवि०
२४	+	गु०	नि०
२५	+	गु०	नि०
२६	+	गु०	नि०
२७	+	गु०	नि०
२८	अ०	गु०	सर्वमतनिषेध.
<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	८	२०	इति

अथ०—प्रथमपादसँ सर्व वेदांतका ब्रह्मसँ समन्वय सिद्ध किया है, द्वितीय-पादसँ अस्पष्ट लिङ्गयुक्त जे उपास्य ब्रह्मबोधक वाक्य तिनका विचार किया

है, तृतीयपादमें अस्पष्टालिङ्गयुक्त जे ज्ञेय ब्रह्मबोधक वाक्य तिनका विचार किया है, कहूँ कहूँ वाक्यनमें प्रधानबोधक पद प्रतीत होवे हैं यांते प्रधानको अशब्द कहिना संभवे नहीं, जा शंकासँ तिन पदनको अपर अर्थबोधकताके प्रतिपादनार्थ इस पादका आरंभ है । पूर्व सर्व जगत्का कारण जो ब्रह्म सो सर्व वेदांतकरके प्रतिपाद्य है प्रधान प्रतिपाद्य नहीं जा अर्थ सिद्ध किया है, तहां य ॥ ब्रह्मको अंगीकार किया है तथा प्रधानकोभी जगत्कारण मानके वेदांतव प्रतिपाद्य मानना संभवे है. किसी कल्पमें ब्रह्मको किसी कल्पमें प्रधानको ण मानेसँ हानि नहीं, जा शंकासँ उत्तरसूत्रका आरंभ है. तहां पूर्वपक्ष विषे वेदांतसमन्ययकी असिद्धि फल है. सिद्धांतमें समन्यय नियम-सिद्धि प कठकी तृतीयवल्लीमें यह वाक्य है। “आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथ ॥ बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ इंद्रियाणि ह्यानाहुः। अवपयांस्तेषु गोचरान् । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा । तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ यस्तु विज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः । न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः । स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते ॥ विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः । सोऽध्वनः पारमाप्नोति तत् विष्णोः परमं पदम् ॥ इन्द्रियेभ्यः परा एतर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥ महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ एष सर्वेषु भ्रूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते । दृश्यते त्वग्रपा बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः इति”

अर्थ—आत्मा भोक्ता होनेसँ प्रधान है यांते आत्माको रथका स्वामी जान । शरीर भोगका स्थान है यांते इसको रथ जान । बुद्धि विवेक-अविवेकरूप वृत्तिसँ शरीरद्वारा भोक्ताको सुप्त दुःखमें जोड़े है यांते बुद्धिको सारथि जान । विवेकाविवेकयुक्त मनसँ इंद्रियोंकी विषयोंमें प्रवृत्ति और तहांसँ निवृत्ति हो-वेहै यांते मनको प्रगट नाम वागडोरके समान जान । वश किये हुये इंद्रिय-मुक्तिके मार्गमें प्राप्त करें हैं, अवश्य इंद्रिय अनर्थको प्राप्त करे हैं; यांते इंद्रियोंको अश्वनके समान जान । यथा अश्व मार्गको देखकर चले है तथा इंद्रियरूप

घोड़ेभी विषयोंको देखके चले हैं याते विषयोंको मार्गके समान जान । इंद्रिय मनकरके युक्त आत्माको बुद्धिवान् भोक्ता कहे हैं । जो अयुक्त मनकरके सदा अविज्ञानवान् है तांकी इंद्रियां वशमें नहीं। यथा दुष्ट अश्व सारथिके वश नहीं रहें हैं, जो युक्त मनकरके सदा विज्ञानवान् है तांकी इंद्रिया वशमें हैं, यथा शिक्षित अश्व सारथिके वशमें होवेहैं, जो अमनस्क अशुचि अविज्ञानवान् है सो परपदको नहीं प्राप्त होवेहैं; किंतु संसारको प्राप्त होवेहैं, जो सदा समनस्क है शुचि है विज्ञानवान् है सो तिस पदको प्राप्त होवेहैं जासैं पुनः जन्म नहीं होवेहैं, जो विज्ञानसारथिवान् है मनप्रग्रहवान् है सो संसारमार्गके पारको प्राप्त होवेहैं, सो विष्णुका परमपद है, इति ॥ उक्त वाक्यनसैं अजितेन्द्रियको संसारप्राप्ति कहकर जितेन्द्रिय पुरुषको विष्णुके परपदकी प्राप्ति कही है, सो संसारमार्गसैं परे विष्णुका परपद कौन है ? जा संदेहसैं कहेंहैं, इंद्रियोंसैं अर्थ नाम विषय परेहैं सर्व इंद्रियोंसैं परेहैं श्रुतिसैं विषयोंसैं परे इंद्रिय अंगीकृत हैं; याते मनको इंद्रियोंसैं परे कहा है, निश्चयरूप बुद्धि मनसैं परे है, पूर्व जो रथीकरके आत्मा कहा है सो सर्वका स्वामी भोक्ता बुद्धिसैं परे है सो आत्मा महान् है, तिस महान् आत्मासैं अव्यक्त परे है, अव्यक्तसैं परे पुरुष है, तासैं परे रंचक नहीं सो अघधि है, सोई पर गति है, यह आत्मा सर्वभूतनसैं छपाहुया है, प्रतीत होवे नहीं, सूक्ष्मदर्शी पुरुष सूक्ष्म बुद्धिकरके इसको जानेहैं, इति ॥ उक्त वाक्यमें अव्यक्तपदसैं प्रधानका अंगीकार है वा रथरूप शरीरका अंगीकार है जा तहां संदेह हैं, सांख्यमतमें । महत् । अव्यक्त । पुरुष । जा त्रयपद त्रय तत्वके वाचक मानें हैं; याते अव्यक्तपदसैं तहां प्रधान अंगीकृत है, यह पूर्वपक्ष है, इसका आधे सूत्रसैं अनुवाद करके आधे सूत्रसैं भगवान् सूत्रकार समाधान करेंहैं ।

**अनुमानिकमप्येकेपामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्त-
गृहीतेदर्शयति च ॥ १ ॥**

अनुमानिकं । अपि । एकेपां । इति । चेत् । न । शरीररूपक-
विन्यस्तगृहीतेः । दर्शयति । च । इति प० ॥

अर्थ-एकेपां नाम काठकोंकी शापामें अव्यक्तपदका वाच्य प्रधान है याते आनुमानिक नाम अनुमानसिद्ध जो प्रधान तांको सांख्यमतानुसारी अव्यक्तपदका वाच्य मानेहैं याते प्रधानको अशब्द कहिना संभवे नहीं, इति चेत्

नाम यह शंका करें तौ संभवे नहीं. तथाहि आरंभवाक्यमै शरीरकी रूपकवि-
न्यस्ति नाम रथरूपकल्पनाका ग्रहण किया है यातें अव्यक्तपदसँ शरीर अंगीकृत
है, वा शरीरका रूपकविन्यास कहा है तांका गृहीते: नाम अव्यक्तपदसँ ग्रहण
है, और पूर्व उत्तर विचारसँ शरीरकोही अव्यक्त पदकरके बोधवाक्य द-
र्शयति नाम दिखावेहै, यातें प्रधान अव्यक्तपदका वाच्य नहीं. इति ॥ १ ॥

अव०—ननु शरीर तो व्यक्तपदका वाच्य है याते तांको अव्यक्त पदका
वाच्य कहिना संभवे नहीं. जा शंकासँ कहे हैं ।

सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात् ॥ २ ॥

सूक्ष्मं । तु । तदर्हत्वात् । इति प० ॥

अर्थ—तुपद शंकानिषेधार्थक है, तत् नाम अव्यक्त पदके अर्ह नाम योग्य
सूक्ष्म भूत हैं याते स्थूलशरीरके आरंभक जे सूक्ष्म भूत तिनको अव्यक्तपदसँ
श्रुति कहे है वा तदभिमानी हिरण्यगर्भ अंगीकृत है, यथा 'गोभिः श्रीणीत
मत्सरम्' इस वाक्यमै गोपदसँ गोधिकार जो पयस ताका ग्रहण है, तथा
तहां श्रुतिमै कारणवाचक अव्यक्तपदसँ तत्कार्य शरीरका ग्रहण है । दुग्धकरके
सोमको मिलावे यह वाक्यका अर्थ है. इति ॥ २ ॥

अव०—ननु सिद्धांतमै जे सूक्ष्म भूत माने हैं तेही सांख्यमतमै प्रधान
प्रतीत होवे हैं तासँ भिन्न कोई प्रधान पदार्थ प्रतीत होवे नहीं; याते प्रधान-
कारणवाद सिद्ध होवे है; जा शंकासँ कहेहैं ।

तदधीनत्वादर्थवत् ॥ ३ ॥

तदधीनत्वात् । अर्थवत् । इति प० ॥

अर्थ—प्रधान जो पदार्थ माना है तांको हम तत् नाम ईश्वरके आधीन
मानेहैं यातें प्रधानकारणवाद सिद्ध होवे नहीं. सो ईश्वरभी शक्तिविना
कार्य करणमै समर्थ नहीं किंतु शक्तिको आश्रय करकेही कार्य करे है यातें
अव्यक्तपदका वाच्य अर्थवत् है अनर्थक नहीं. इति ॥ ३ ॥

किंच:—

ज्ञेयत्वावचनाच्च ॥ ४ ॥

ज्ञेयत्वावचनात् । च । इति प० ॥

अर्थ—सांख्यमतमै प्रकृतिपुरुषके विवेकज्ञानसँ मुक्ति मानी है यातें तांके म-

तमं मोक्षार्थं प्रधानं ज्ञेयं सिद्धं होवे है प्रसंगमें कठविषे प्रधानको ज्ञेय कहिनेवाला वाक्य प्रतीत होवे नहीं किंतु प्रसंगमें अव्यक्त पद मात्र सुना है, यातें प्रधानको ज्ञेय कहिनेवाले वचनका अभाव होनेसे भी अव्यक्तपदका वाच्य प्रधान नहीं. इति४

वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात् ॥ ५ ॥

वदति । इति । चेत् । न । प्राज्ञः । हि । प्रकरणात् । इति । प० ॥

अर्थ—कठमें पूर्वोक्त वाक्यके आगे यह वाक्य है। “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत् । अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तं मृत्युमुखात्प्रमुच्यते इति” इसका यह अर्थ है कि सदा जो शब्दादिकोंसे रहित है तिसको निचाय्य नाम जानके मृत्युके मुखसें छूटे है. इति ॥ यह वाक्य प्रधानको वदति नाम ज्ञेय कहे है यातें प्रधानको ज्ञेयकरके कोई वाक्य कहे नहीं यह कथन असंगत है, जा शंकाका यह उत्तर है कि पुरुषसें परे रंचक्र नहीं सोई गति है इत्यादिक वचनोंकरके आत्माका तहां प्रकरण प्रतीत होवे है; यातें उक्तश्रुतिमें निचाय्य नाम ज्ञेयरूपसें प्राज्ञ आत्माका उपदेश है प्रधानका नहीं इति ॥ ५ ॥ किंचः—

त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६ ॥

त्रयाणां । एव । च । एवं । उपन्यासः । प्रश्नः । च । इति । प० ॥

अर्थ—कठमें अग्नि, जीव, परमात्मा जा त्रयका एवं नाम वक्तव्यताकरके उपन्यास नाम ग्रहण है. त्रयविषेही तहां प्रश्न है यातें भी प्रधान अव्यक्त पदका वाच्य नहीं और ज्ञेय नहीं । यह त्रय प्रश्न हैं । “स त्वं अग्निं स्वर्गमध्येऽपि मृत्यो प्रभूहि तं श्रद्धधानाय मह्यम्” यह अग्निविषे प्रश्न है । “लोकादिमग्निं तं उवाच तस्मै” इत्यादि तहां उत्तर है । “या इयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इत्येके नायं अस्ति इति चैके एतत् विद्यां अनुशिष्टः” यह जीवविषे प्रश्न है । “योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्याणुमन्ये अनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतं” यह जीव उत्तर है । “अन्यत्र

१ सो तें यम स्वर्गगायन अग्निको जानेदे, हे मृत्यो । ताको मम भद्रवान् प्रति कही । २ मर्त्यलोकनवा आदि जो अग्नि विराटस्वरूप लोको नचिकेता प्रति कही । ३ मनुष्यके मृत्युहुये देहमे भिन्न आत्मा है यह कोई कहेदे कोई कहे नहीं है यह जो मदेह है तदनिर्घातता उपारम्भ विद्याको तुम्हारे उपदेश करके जानू सो कही ? यह तीव्रता वर कही है । ४ कोई अग्निवावान् शुक्र जीवन्मुक्त हुये शरीरग्रहणार्थं योनिमें प्रवेश कीं दे अयं अपम स्थावरयोनिघो पावे दे कमेंटपाठान् अनुमार ।

धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रस्मात् कृताकृतात् । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च
यत्तत् पश्यसि तत् वद” यह परात्माविषे प्रश्न है, “न जायते त्रियते
वा विपश्चित्” इत्यादि उत्तर हैं. प्रधानविषे उत्तर प्रश्न प्रतीत होवे नहीं;
यातें प्रधान अव्यक्तपदका वाच्य नहीं. इति ॥ ६ ॥

किंच:-

महत्त्वञ्च ॥ ७ ॥

अर्थ-यथा । “वेद अहं एतं पुरुषं महान्तम्” इत्यादि वेदमें सुना जो
महत्पद तिसको सांख्यमतवाले महत्त्वका वाचक नहीं माने हैं, तथा वैदिक
अव्यक्त पदभी प्रधानका वाचक नहीं; किंतु शरीरका बोधक है. इति ॥ ७ ॥

अव०-श्वेताश्वतरके चतुर्थ अध्यायमें यह श्रुति है । “अजामेकां लो-
हितशुक्लकृष्णां चहीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः । अजो ह्येको जुपमा-
णोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः इति” । अर्थ-जन्मर-
हित सत्व रज तम गुणरूप सर्व प्रजा कारण प्रकृति एक है, एक अजन्मा
पुरुष ता प्रकृतिको सेवन करताहुआ सो रहा है. अपर अजन्मा तासैं भो-
गनको भोगकर तांको त्याग देता है. इति ॥ इस वाक्यमें जो अजा पद
है तासैं प्रधान अंगीकृत है वा तेज अप अन्नरूप अर्वांतर प्रकृति अंगीकृत
है यह संदेह है. “न जायते इति अजा” या योगवृत्तिसैं सांख्यमतमें प्रधान
अंगीकार कियेसैं यह सूत्रकारका सिद्धांत है ।

चमसवदविशेषात् ॥ ८ ॥

चमसवत् । अविशेषात् । इति प० ॥

अर्थ-उक्तवाक्यमें कोई असाधारण लिंग प्रधानका प्रतीत होवे नहीं, ‘न
जायते इति अजा’ यह जो योगवृत्तिसैं अजात्वरूप लिंग है तासैं प्रधानभिन्न
पदार्थका ग्रहणभी संभवे है. यथा ‘अर्वाक् बिलः चमस ऊर्ध्वबुध्नः’ इस
वाक्यसैं यह चमस है जाविध निश्चय होवे नहीं नीचे जांका मुख है ऊपर बुध्न
है सो चमसपात्र है. जा योगवृत्तिसैं चमसका इदंताकरके निश्चय होवे नहीं
तथा योगवृत्तिसैं चमसवत् अविशेषात् नाम प्रधानभिन्नका ग्रहणभी तुल्य
होवे है यातें अजापदसैं नियमकरके प्रधानको ग्रहण करना संभवे नहीं. इति ॥ ८ ॥

ज्योतिरुपक्रमात्तु तथा ह्यधीयते एके ॥ ९ ॥

ज्योतिः । उपक्रमात् । तु । तथा । हि । अधीयते । एके । इति प० ॥

अर्थ—ज्योति नाम तेज होवे उपक्रम नाम आरंभमें जिनोंके ते ज्योतिउपक्रम कहिये हैं अर्थात् तेज जल भूतिका ग्रहण है. तिन त्रयका अजापदसँ ग्रहण है. यथा अजामंत्रमें लोहित शुक्ल कृष्ण रूप प्रकृति कही है ॥ एके नाम छांदोग्यवान् तथाहि अधीयते नाम तेजजलअन्नको प्रसंगमें लाकर तेजजल-अन्नका लोहित शुक्ल कृष्णरूप कहेहैं यातँ अजासँ त्रयको ग्रहण करेहैं अथवा अनिर्वचनीय मायाका अजापदसँ ग्रहण है. इति ॥ ९ ॥

अच०—ननु छाग आदिकोंमें यथा अजात्वजात्याधारत्व है तथा तेजजलभूमिमें अजात्वजातिका आधारत्व नहीं. यातँ तेज जल भूमिरूप प्रकृतिमें अजा पद रूढ नहीं और तेजजलभूमि उपजे हैं यातँ योगवृत्तिसँ भी अजापद तिनका वाचक नहीं जा शंकाका उत्तर कहेहैं ।

कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः ॥ १० ॥

कल्पनोपदेशात् । च । मध्वादिवत् । अविरोधः । इति प० ॥

अर्थ—“असौ वा आदित्यो देवमधुः” इस वाक्यमें यथा मधुसँ भिन्न जो आदित्य तांका मधुरूपसँ उपदेश है, आदिपदसँ यथा वाचाकी धेनुरूपसँ उपासना करे जा वाक्यमें धेनुभिन्न जो वाचा तांका धेनुरूपसँ उपदेश है तथा लोकप्रसिद्ध अजामंत्र जो भोगत्याग तत्तुल्यतारूप कल्पनासँ तेजजलभूमिका अजात्व उपदेश संभवेहैं विरोधनहीं. यातँ प्रधान अशब्द है. इति सिद्धम् ॥ १०

अच०—बृहदारण्यकके षष्ठ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मणमें यह प्रसंग है “सहि सर्वस्य कर्ता” यह कहकर आगे यह कहा है “यदेतमनुपश्यति आत्मानं देवमश्रुता । ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ यस्मादर्चाक संवत्सरोऽहोभिः परिचर्तते । तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम् ॥ यस्मिन् पञ्च पञ्चजना आकाशाश्च प्रतिष्ठितः । तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम् । प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुस्त ओग्रस्य ओग्रं मनसो मनो ये विदुः ॥ ते निश्चिक्वुर्वायु पुराणमग्र्यम् ॥ मनसैषानुद्गृष्ट्व्यं नेह नानास्ति किमन । मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नानेय पश्यति ॥ एषाया एषानुद्गृष्ट्व्यं एतदग्रमेयं भुषम् । विरजः पर आकाशात् अज

आत्मा महान् ध्रुवः॥ तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । नानु-
ध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत् इति ” ॥

अर्थ—उक्त प्रसंगमें यह कहा है कि दिनोंकरके वर्ष जाके नीचे बँतेहैं सो देव ज्योतियोंका ज्योति है. जामें पंच पंचजन और एक आकाश स्थित है, तांको हम आत्मा मानेहैं, प्राणके प्राणको चक्षुके चक्षुको श्रोत्रके श्रोत्रको मनके मनको जो जानेहै अर्थात् चेष्टाका प्रदाता है. इसप्रकार जे त्वंपदके लक्ष्यको जानेंहैं ते अलुप्त ब्रह्मको जानेंहैं. उक्तवाक्यमें यह संदेह हैकि “पञ्च पञ्चजना” इतने वाक्यकरके पंचविंशति तत्वको ग्रहण किया चाहिये, वा प्राणादि पंचको ग्रहण किया चाहिये. तहां यह पूर्वपक्ष है कि ‘पञ्च पञ्च जना’ जा वाक्यमें जो प्रथम पंच पद है सो पंचतत्वबोधक है, पंचजनपद पुरुषबोधक है यातें पंचविंशति तत्व सिद्ध होवेहैं. ते तत्व कौन हैं ? जा अभिलाषा हुयेसैं सांख्यस्मृतिमें कहें जे पंच-विंशति तत्व ते उक्तवाक्यमें गृहीत हैं; यातें प्रधान अशब्द नहीं. इति । सर्वश्रु-तिअर्थ । यदा गुरुके मुखसैं भूतभावीके स्वामी प्रकाशरूप आत्माको साक्षात् देखे हैं तदा सर्वके स्वामीसैं आत्माके विशेषकरके गुप्त करणेकी इच्छा नहीं करेहै, भेददर्शाके उक्त इच्छा होवेहै, आत्मदर्शाके नहीं. आत्मवेत्ताको किसीसैं भय नहीं यातें छपनकी तांको इच्छा नहीं, किंच जिस ईशानसैं स्वअवयवरूप दिनरातयुक्त वर्षरूप काल नीचेहैं तांकरके तिसका परिच्छेद नहीं होवे. सो आदित्यादिक ज्योतिपदार्थोंका भी ज्योति है. तिनकी देवता आयु अमृतरूपसैं उपासना करेहैं, किंच जा ब्रह्ममें पंचजन गंधर्वदेवादि पंचही संख्यावान और अव्याकृतरूप आकाश स्थित हैं तिस आत्माको ब्रह्मरूप हम मानेंहैं. आत्माको तासैं भिन्न नहीं जानें हैं, अमृतरूप ब्रह्ममें, किंच तिसके प्रकाशसैं प्राण चेष्टा करेहैं यातें सो प्राणोंका प्राण है, नेत्रोंका नेत्र है श्रोत्रोंका श्रोत्र है, मनका मन है, जे इस प्रकार जानेंहैं ते अग्रिम पुराणब्रह्मको जानेंहैं, सो ब्रह्म शुद्ध मनकर जाननेयोग्य है, तिस दर्शनविषयरूप ब्रह्मविषे नाना रंचक नहीं, जो नानारहितमें नाना आरोप करेहै सो अविद्याकरके मृत्युसैं मृत्युको प्राप्त होवेहै, यातें विज्ञानघन एकरसरूपसैं जाननेयोग्य है, सो ब्रह्म अप्रमेय है नित्य है धर्मा-धर्मादिरूप मलसैं रहित है सर्वसैं पर है अव्याकृतरूप आकाशसैं भी उपजे नहीं और अनाशी है; तिस आत्माको उपदेशसैं और शास्त्रसैं धीमान् ब्राह्मण जानके उपदिष्ट विषयमें प्रज्ञाको बनावे. बहु शब्दोंका चिंतन नहीं करे, बहु-शब्दोंका अभिध्यान ग्लानिथ्रमके देनेवाला है. इति ॥ उक्त पूर्वपक्षका समाधान करेहैं ।

ज्योतिरुपक्रमात्तु तथा ह्यधीयते एके ॥ ९ ॥

ज्योतिः । उपक्रमात् । तु । तथा । हि । अधीयते । एके । इति प० ॥

अर्थ—ज्योति नाम तेज होवे उपक्रम नाम आरंभमें जिनोंके ते ज्योतिउपक्रम कहिये हैं अर्थात् तेज जल भूतिका ग्रहण है, तिन त्रयका अजापदसँ ग्रहण है, यथा अजामंत्रमें लोहित शुक्ल कृष्ण रूप प्रकृति कही है ॥ एके नाम छांदोग्यवान् तथाहि अधीयते नाम तेजजलअन्नको प्रसंगमें लाकर तेजजलअन्नका लोहित शुक्ल कृष्णरूप कहेहैं यातें अजासँ त्रयको ग्रहण करेहैं अथवा अनिर्वचनीय मायाका अजापदसँ ग्रहण है, इति ॥ ९ ॥

अच०—ननु छाग आदिकोंमें यथा अजात्वजात्याधारत्व है तथा तेजजलभूमिमें अजात्वजातिका आधारत्व नहीं, यातें तेज जल भूमिरूप प्रकृतिमें अजा पद रूढ नहीं और तेजजलभूमि उपजे हैं यातें योगवृत्तिसँ भी अजापद तिनका वाचक नहीं जा शंकाका उत्तर कहेहैं ।

कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः ॥ १० ॥

कल्पनोपदेशात् । च । मध्वादिवत् । अविरोधः । इति प० ॥

अर्थ—“असौ वा आदित्यो देवमधुः” इस वाक्यमें यथा मधुसँ भिन्न जो आदित्य तांका मधुरूपसँ उपदेश है, आदिपदसँ यथा वाचाकी धेनुरूपसँ उपासना करे जा वाक्यमें धेनुभिन्न जो वाचा तांका धेनुरूपसँ उपदेश है तथा लोकप्रसिद्ध अजामें जो भोगत्याग तत्तुल्यतारूप कल्पनासँ तेजजलभूमिका अजात्व उपदेश संभवेहै विरोधनहीं, यातें प्रधान अशब्द है, इति सिद्धम् ॥ १०

अच०—बृहदारण्यकके षष्ठ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मणमें यह प्रसंग है “सहि सर्वस्य कर्ता” यह कहकर आगेयह कहा है । “यदैतमनुपश्यति आत्मानं देवमञ्जसा । ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ यस्मादर्चाक् संवत्सरोऽहोभिः परियर्तते । तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम् ॥ यस्मिन् पथ पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । तमेव मन्ये आत्मानं विद्यान् ब्रह्मामृतोऽमृतम् । प्राणस्य प्राणमुत पक्षुपश्चक्षुस्त श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो ये विदुः । ते निचिकयुर्ब्रह्म पुराणमद्रपम् ॥ मनसैवानुब्रष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन । मृत्योः स मृत्युमामोति य इह नानेव पश्यति ॥ गतया गयानुब्रष्टव्यं गतदप्रमेयं ध्रुवम् । विरजः पर आकाशात् अज

आत्मा महान् ध्रुवः॥ तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः। नानु-
ध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत् इति” ॥

अर्थ—उक्त प्रसंगमें यह कहा है कि दिनोंकरके वर्ष जाके नीचे वर्तेंहें सो देव ज्योतियोंका ज्योति है. जामें पंच पंचजन और एक आकाश स्थित है. तांको हम आत्मा मानेंहें, प्राणके प्राणको चक्षुके चक्षुको श्रोत्रके श्रोत्रको मनके मनको जो जानेहै अर्थात् चेष्टाका प्रदाता है. इसप्रकार जे त्वंपदके लक्ष्यको जानेंहें ते अलुप्त ब्रह्मको जानेंहें. उक्तवाक्यमें यह संदेह हैकि “पञ्च पञ्चजना” इतने वाक्यकरके पंचविंशति तत्वको ग्रहण किया चाहिये, वा प्राणादि पंचको ग्रहण किया चाहिये. तहां यह पूर्वपक्ष हैकि ‘पञ्च पञ्च जना’ जा वाक्यमें जो प्रथम पंच पद है सो पंचतत्वबोधक है, पंचजनपद पुरुषबोधक है यातें पंचविंशति तत्व सिद्ध होवेंहें. ते तत्व कौन हैं? जा अभिलाषा हुयेसैं सांख्यस्मृतिमें कहें जे पंच-विंशति तत्व ते उक्तवाक्यमें गृहीत हैं; यातें प्रधान अशब्द नहीं. इति। सर्वश्रु-तिअर्थ। यदा गुरुके मुखसैं भूतभावीके स्वामी प्रकाशरूप आत्माको साक्षात् देखे हैं तदा सर्वके स्वामीसैं आत्माके विशेषकरके गुप्त करणेकी इच्छा नहीं करेहै, भेददर्शाके उक्त इच्छा होवेहै, आत्मदर्शाके नहीं. आत्मवेत्ताको किसीसैं भय नहीं यातें छपनकी तांको इच्छा नहीं, किंच जिस ईशानसैं स्वअवयवरूप दिनरातयुक्त वर्षरूप काल नीचेहै तांकरके तिसका परिच्छेद नहीं होवे. सो आदित्यादिक ज्योतिपदार्थोंका भी ज्योति है. तिनकी देवता आयु अमृतरूपसैं उपासना करेंहें, किंच जा ब्रह्ममें पंचजन गंधर्वदेवादि पंचही संख्यावान और अव्याकृतरूप आकाश स्थित हैं तिस आत्माको ब्रह्मरूप हम मानेंहें. आत्माको तासैं भिन्न नहीं जानें हें, अमृतरूप ब्रह्ममें, किंच तिसके प्रकाशसैं प्राण चेष्टा करेंहें यातें सो प्राणोंका प्राण है, नेत्रोंका नेत्र है श्रोत्रोंका श्रोत्र है, मनका मन है, जे इस प्रकार जानेंहें ते अग्रिम पुराणब्रह्मको जानेंहें, सो ब्रह्म शुद्ध मनकर जाननेयोग्य है, तिस दर्शनविषयरूप ब्रह्मविषे नाना रंचक नहीं, जो नानाराहि-तमें नाना आरोप करेहै सो अविद्याकरके मृत्युसैं मृत्युको प्राप्त होवेहै, यातें विज्ञानघन एकरसरूपसैं जाननेयोग्य हैं, सो ब्रह्म अप्रमेय है नित्य है धर्मा-धर्मादिरूप मलसैं रहित है सर्वसैं पर है अव्याकृतरूप आकाशसैं भी उपजे नहीं और अनाशी है; तिस आत्माको उपदेशसैं और शास्त्रसैं धीमान् ब्राह्मण जानके उपदिष्ट विषयमें प्रज्ञाको बनावे. बहु शब्दोंका चिंतन नहीं करे, बहु-शब्दोंका अभिधान ग्लानिग्रमके देनेवाला है. इति ॥ उक्त पूर्वपक्षका समाधान करेंहें।

न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥ ११ ॥

न । संख्योपसंग्रहात् । अपि । नानाभावात् । अतिरेकात् ।

च । इति प० ॥

अर्थ—उक्त वाक्यसें पंचविंशति संख्याका संग्रह होवे है. तिस पंचविंशति संख्याके संग्रहसें सांख्यस्मृतिकरके प्रसिद्ध पंचविंशति तत्वोंके ग्रहणसें भी प्रधानको अशब्दत्वका निषेध संभवे नहीं । तथाहि पंच पंचत्वमें जो साधारण इतर पंचकसें व्यावृत्त धर्म तांके अभावका नानापदसें ग्रहण है; यातें एक पंचकमें प्राप्त अन्य पंचकसें व्यावृत्त धर्मवत्त्वका नानाभाव नाम अभाव है यातें नानाभाव होनेसें 'पञ्च पञ्चजना'जा वाक्यसें पंच पंचकका ग्रहण संभवे नहीं और पंचविंशतिसंख्यासें अतिरेकात् नाम आत्मा और आकाश अधिक सुनें हैं यातें सप्तविंशति संख्या सिद्ध होवे है, पंचविंशति नहीं. इति ॥ तिस मंत्रका यह अक्षरार्थ है कि पंचजना यह पद पुरुषमें रुदि है यह कोशमें लिखा है. दूसरा पंचपद पंचसंख्याका वाचक है, दोनों पदोंका पंच पुरुष हैं यह अर्थ सिद्ध होवे है । ज्योति प्राण चक्षु श्रोत्र मन यह पंच पुरुषसंबंधी होनेसें पुरुषकरके ग्रहण किये हैं, पंच तो यह एक अविद्यारूप आकाश जामें यह पद स्थित हैं तांको हम आत्मा जाने हैं. इति ॥ ११ ॥

उक्त अर्थको सूत्रकार प्रगट करेहैं ।

प्राणादयो वाक्यशेषात् ॥ १२ ॥

प्राणादयः । वाक्यशेषात् । इति प० ॥

अर्थ—वाक्यशेषात् नाम "प्राणस्य प्राणः" जा वाक्यमें प्राणोंका प्राण कहा है यातें इस वाक्यशेषसें पंचजनवाक्यमें प्राण चक्षु श्रोत्र अन्न मन जा पंचका ग्रहण है. इति ॥ १२ ॥

अथ०—ननु उक्तवाक्यमें अन्न नहीं ग्रहण किया यातें पंचपदसें पंचको ग्रहण करणा संभवे नहीं, जा शंकासें कहेहैं ।

ज्योतिषेकेपामसत्यन्ने ॥ १३ ॥

ज्योतिषा । एकेषां । असति । अन्ने । इति प० ॥

अर्थ—जा शप्तामें अन्नका ग्रहण नहीं किया तहां ज्योतिकरके पंचसंख्या पूर्ण किया चाहिये. इति ॥ १३ ॥

अव०—समन्वय सिद्धि असिद्धि दोनों पक्षनमें उत्तर अधिकरणका फल है। जगत्कारणबोधक वाक्य ब्रह्ममें प्रमाण हैं वा नहीं यह तहां संदेह है। “एतस्मात् आत्मन आकाशः सम्भूतः” जा वाक्यमें प्रथम आकाश कहा है। “तत्तेजोऽसृजत” जामें प्रथम तेज कहा है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि” जामें अक्रमक उत्पत्ति कही है। कहूं सत्सें उत्पत्ति कहूं असत्सें उत्पत्ति कही है, जा उक्तविधिसें परस्पर वाक्यनका विरोध है यांते सर्वका ब्रह्ममें समन्वय कहिना संभवे नहीं, यह पूर्वपक्ष है। तहां यह सूत्रकारका समाधान है।

कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः ॥ १४ ॥

कारणत्वेन । च । आकाशादिषु । यथा । व्यपदिष्टोक्तेः । इति प० ॥

अर्थ—आकाशादिकोंमें यथा एकशाखाविषे ‘सदेव’ जा श्रुतिकरके जैसा स्वरूप ईश्वर कारणकरके व्यपदिष्ट नाम कहा है, तैसा स्वरूपही ईश्वर सत्यं जा अपर वेदांतमें कारण “उक्तेः” नाम कहा है; यांते ब्रह्मकारणत्वमें विरोध नहीं। इति ॥ १४ ॥

समाकर्पात् ॥ १५ ॥

अर्थ—जो प्रथम “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्” यह कहकर आगे। “असत् वा इदं अग्रे आसीत्” यह कहा है इस वाक्यमेंभी पूर्वले सतका आकर्षण है, अर्थात् असत्पदसें नाम रूप व्यक्तिसें रहित ब्रह्म अंगीकार किया है शून्य अंगीकार नहीं। उक्त विधही अपर वाक्यनमें व्यवस्था है; यांते कारणत्वबोधक वाक्यनमें विरोध नहीं। इति ॥ १५ ॥

अव०—कौपीतिकि ब्राह्मणमें बालाकिका अजातशत्रुसें संवाद लिखा है:— बालाकिने अजातशत्रुको कहाकि हम तुम्हारे प्रति ब्रह्मउपदेश करे हैं। तिसने कहा कहे। तिसने उपदेश किया कि जो आदित्यमें पुरुष है तांकी उपासना करे हैं १ जो चंद्रमें पुरुष है तांकी उपासना करे हैं २ जो विद्युत्में है ३ जो सनयित्नुमें है ४ जो वायुमें है ५ जो आकाशमें है ६ जो अग्निमें है ७ जो जलमें है ८ जो आदर्शमें है ९ तिसपुरुषकी उपासना करे हैं, जो छायापुरुष है १० जो प्रतिश्रुत कार्यामें पुरुष है ११ शब्द जामें लय होवे है १२ जांकर मुक्त स्वमाकर विचरे है १३ तिस पुरुषकी उपासना करे हैं जो शारीर पुरुष है १४ जो दक्षिण नेत्रमें पुरुष है १५ जो सव्य नेत्रमें पुरुष हैं, तांकी हम उपासना करे हैं, यह षोडश १६ ब्रह्म बाला-

जगद्वाचित्वात् ॥ १६ ॥

जगत्वाचित्वात् । इति प० ॥

अर्थ—‘क्रियते इति कर्म’ जा व्युत्पत्तिसँ कर्मपद जगतका ‘वाचित्वात्’ नाम वाचक है यातँ अजातशत्रुवाक्यमें जो वेदितव्य कहा है सो परमात्मा है प्राणादिक नहीं, प्राणोंको सर्व उक्त पुरुषनका कर्ता कहिना संभवे नहीं किंतु सर्वका-कर्ता परमात्मा है. इति ॥ १६ ॥

जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्तत् व्याख्यातम् ॥१७॥

जीवमुख्यप्राणलिङ्गात् । न । इति । चेत् । तत् । व्याख्यातम् ।

इति प० ॥

अर्थ—अजातशत्रुके वाक्यमें जीवलिंग और मुख्य प्राणलिंग प्रतीत होवेंहें यातँ उक्तवाक्य ब्रह्मबोधक नहीं यह शंका करे; तौ प्रतर्दनअधिकरणमें तत् व्याख्यातं नाम जीवमुख्यप्राणलिंगको ब्रह्मबोधक सिद्ध किया है. इति ॥१७॥

अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि

चैवमेके ॥ १८ ॥

अन्यार्थं । तु । जैमिनिः । प्रश्नव्याख्यानाभ्यां । अपि । च । एवं ।

एके । इति प० ॥

अर्थ—जैमिनि आचार्य अजातशत्रुवाक्यमें जीवके परामर्शको अन्यार्थ नाम ब्रह्मबोधार्थ मानेहें यातँ सो वाक्य ब्रह्मबोधक है प्राणादिकोंका बोधक नहीं. तहां प्रश्न, व्याख्यान यह दो हेतु हैं. प्रश्न नाम अजातशत्रुका जो अधिकरण, भवन, अपादानमें प्रश्न और व्याख्यान नाम तिन त्रय प्रश्ननका जो उत्तर ताँसँ सर्वका कर्ता परमात्मा वेदितव्य करके कहा है, और एके नाम वाजसनेयि अर्थात् बृहदारण्यकशाखावानभी एवं नाम जीवप्राणोंसँ भिन्न परमात्माको मानेहें. इति ॥ १८ ॥

अव०—बृहदारण्यकके चतुर्थ अध्यायमें यह मंत्रेयीप्रति याज्ञवल्क्यवाक्य है “न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । इति” इस वाक्यपर्यंत पुत्र पशु-

वित्तादि सर्व प्रपंचको आत्मार्थं प्रियं कर्त्तव्यं, यातं अनन्य अर्थत्वरूप निरुपाधि-
प्रियत्व आत्मार्थं सिद्धं कियत्, तिस निरुपाधिप्रियत्वसं आनन्दरूप आत्मार्थो
ज्ञातव्यकर उत्तरवाक्यमें कहा है। "आत्मा चारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयि आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन
मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितं इति" इस वाक्यमें द्रष्टव्यादिरूपसं
जीवका उपदेश है, वा परमात्माका उपदेश है यह तहां संदेह है. आरंभमें
भोक्ता जीवका उपदेश है यातं जीवका द्रष्टव्यरूपसं उपदेश है यह पूर्वपक्ष है,
तहां यह सूत्रकारका सिद्धांत है।

वाक्यान्वयात् ॥ १९ ॥

वाक्यान्वयात् । इति प० ॥

अर्थ—उपक्रमादिकोंसं वाक्य नाम 'आत्मा द्रष्टव्यः' जा वाक्यका ब्र-
ह्ममें अन्वय नाम समन्वय सिद्ध होवेहै यातं उक्त वाक्यमें द्रष्टव्यकरके पर-
मात्माका उपदेश कियत् है जीवका नहीं. मोक्षइच्छावान् मैत्रेयीको जीवका
उपदेश तो वनता जो जीवके ज्ञानसं मोक्ष होती, जीवके ज्ञानसं मोक्ष संभवे
नहीं यातं ताप्रति जीवउपदेश संभवे नहीं. इति ॥ १९ ॥

प्रतिज्ञासिद्धेल्लिङ्गमाश्मरथ्यः ॥ २० ॥

प्रतिज्ञासिद्धेः । लिङ्गम् । आश्मरथ्यः । इति प० ॥

अर्थ—जीव कार्य है ब्रह्म कारण है यातं जीवब्रह्मका भेद अभेद है.
अत्यंत भेद मानेसं एकके विज्ञानकी प्रतिज्ञा संभवे नहीं, तिस प्रतिज्ञाकी सि-
द्धिके अर्थ अभेद अंशको अंगीकार करके वाक्यके आरंभमें भोक्ता जीवका
लिङ्ग है, यह आश्मरथ्य आचार्य माने हैं इति ॥ २० ॥

अव०—जीवको कार्य कहिना और भेदसहित अभेद कहिना संभवे नहीं
यह मानके अपर उत्तर कहेहैं ।

उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौडुलोमिः ॥ २१ ॥

उत्क्रमिष्यतः । एवंभावात् । इति । औडुलोमिः । इति प० ॥

अर्थ—संसारकालमें जीवका ब्रह्मसं अत्यंत भेद है ब्रह्मका आत्मारूपसं
साक्षात्कार ह्येसं कार्यकारणसंघातसं जीव रहित होवेहै । 'उत्क्रमिष्यतः'
नाम संघातरहित जीवका 'एवंभावात्' नाम परमात्मासं अभेद होवेहै यातं

भविष्यत् अभेदको मानके वाक्यके आरंभमें जीवका लिंग है, यह औडुलोमि आचार्य माने हैं. इति ॥ २१ ॥

सूत्रकार स्वसिद्धांत कहेहैं ।

अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ २२ ॥

अवस्थितेः । इति । काशकृत्स्नः । इति प० ॥

अर्थ—अविद्याकल्पित भेदसँ ब्रह्मही जीवरूपसँ स्थित है यातँ जीवका आरंभमें ग्रहण है. इस प्रकार काशकृत्स्न आचार्य मानेहैं, यातँ मैत्रेयीवाक्यका परब्रह्ममें तात्पर्य है. इति ॥ २२ ॥

अव०—‘जन्माद्यस्य यतः’ जा अधिकरणमें ब्रह्मको जगत्का कारण कहा सो आगे तांका विचार करेहैं कि ब्रह्म जगत्का निमित्तमात्र कारण है वा उपादानभी है यह तहां संशय है । ‘बहुस्यां’ इत्यादिक वचनोंकरके सर्ववेदांतमें इच्छापूर्वक कर्ता सुना है, यातँ कुलालवत् ब्रह्म निमित्तमात्र कारण है, जा पूर्वपक्षमें भगवान् सूत्रकारका यह उत्तर है ।

प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् ॥ २३ ॥

प्रकृतिः । च । प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् । इति प० ॥

अर्थ०—प्रकृति नाम उपादानकारण जगत्का ब्रह्म है, चकारसँ निमित्तकारणभी सूत्रकारको ब्रह्मही अंगीकृत है, तहां यह हेतु है । “येनाश्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतं अविज्ञातं विज्ञातं । यथा सोम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यं इति” इस वाक्यमें एकके ज्ञानसँ सर्वके ज्ञानकी प्रतिज्ञा करी है और तहां दृष्टांत कहा है सो प्रतिज्ञा ब्रह्मको उपादान मानेविना नहीं चनेगी, और दृष्टांतभी नहीं चनेगा, निमित्तकारणके ज्ञानसँ सर्वकार्यका ज्ञान होवे नहीं, उपादान उपादेयका अभेद होवेहै यातँ उपादानके ज्ञानसँ सर्वका ज्ञान संभवे है, जो निमित्तको उपादानसँ भिन्न मानेंगे तो उक्त प्रतिज्ञा-दृष्टांत दोनोंही उपरोध नाम पीडित अर्थात् अनर्थक होवेंगे; यातँ प्रतिज्ञा दृष्टांत दोनोंको अनुपरोध नाम अनर्थकत्वनिवृत्त्यर्थ प्रतिज्ञा दृष्टांतअनुसारतासँ ब्रह्मही उपादान है, ब्रह्मही निमित्त कारण है. इति ॥ २३ ॥

किंच ।

अभिध्यानोपदेशाच्च ॥ २४ ॥

अभिध्यानोपदेशात् । च । इति प० ॥

किसी पुस्तकमें “अभिधयोपदेशात्” यहभी पाठ है ।

अर्थ—‘सोऽकामयत’ इस वाक्यमें ध्यानउपदेशसँ ब्रह्म कर्ता प्रतीत होवेहै और ‘बहुस्यां’ जा ध्यानउपदेशसँ ब्रह्म उपादान प्रतीत होवेहै, याँते आत्माही कर्ता और उपादान है. इति ॥ २४ ॥

साक्षाच्चोभयाम्नात् ॥ २५ ॥

साक्षात् । च । उभयाम्नात् । इति प० ॥

अर्थ—“सर्वाणि ह्वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते” इस वाक्यमें आकाशपदसँ ब्रह्मको ग्रहण करके ताँसँ साक्षात् उत्पत्ति प्रलय दोनोंही आम्नात् नाम कहेहैं याँते ब्रह्मही उपादान है, जिस कार्यकी जाँसँ उत्पत्ति प्रलय होवे ता कार्यका सो उपादान होवेहै, यथा घटमृत्तिकादिक हैं. इति ॥ २५ ॥

आत्मकृतेः परिणामात् ॥ २६ ॥

आत्मकृतेः । परिणामात् । इति प० ॥

अर्थ—लोकमें जो प्रयत्नवान् होवे है ताँको कर्ता कहें हैं, यथा कुलालादिक हैं. प्रयत्नका जो विषय होवे सो उपादान देखा है, यथा मृत्तिकादि हैं । “तत् आत्मानं स्वयं अकुरुत्” जा वाक्यमें ब्रह्मकोभी प्रयत्नवान् और प्रयत्नका विषय मुना है, स्वपदसँ प्रयत्नवान् प्रतीत होवेहै और आत्मा पदसँ प्रयत्नवान् प्रतीत होवेहै याँते ब्रह्मही उपादान है ब्रह्मही निमित्त है ! आत्मासंबंधी जो होये कृति नाम प्रयत्न सो आत्मकृति कहिये हैं. यद्यपि आत्मा कर्ता होनेसँ पूर्व सिद्ध है याँते ताँमें प्रयत्नविषयत्व संभवे नहीं, तथापि परिणामसँ संभवैहै. परिणामपदसँ विवर्तका ग्रहण है; जो विवर्तरूप होवेहै सो पूर्वसिद्धभी साध्य होवेहै याँते पूर्वसिद्धभी आत्माको कृतिविषयत्व संभवे है, याँते ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण है. इति ॥ २६ ॥

योनिश्च हि गीयते ॥ २७ ॥

योनिः । च । हि । गीयते । इति प० ॥

अर्थ—“यत् भूतयोनिं प्रपश्यन्ति घीराः” ॥ “कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं” इत्यादिक श्रुतिनमैँ जो कारणवाचक योनिपद ताँसँ योनि नाम कारण गीयते नाम कहा है; यातँ उपादान और निमित्तकारण ब्रह्मही है. इति ॥ २७ ॥

एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥

एतेन । सर्वे । व्याख्याताव्याख्याताः । इति प० ॥

अर्थ—‘ईक्षतेनाशब्दम्’ इस अधिकारणसँ लेकर ‘योनिश्च हि गीयते’ जा सूत्रपर्यंत अशब्दत्वादिक अनेक हेतुसँ प्रधानकारणवादको खंडन किया है एतेन नाम प्रधानकारणवादखंडनसँही व्याख्याता नाम अणुआदिक पक्षभी खंडित हुये जानने चाहिये. यातँ सर्व वेदांतका सर्वज्ञ सर्वशक्तवान् परिपूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्मविपे समन्वय है. और “व्याख्याताव्याख्याताः” इस पदका उच्चारणभी अध्यायकी समाप्तिको द्योतित करता है. इति सिद्धम् ॥२८॥ इति सूत्रभावार्थप्रकाशिकाभाषाटीकायां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ४

अथ द्वितीयाध्यायप्रारम्भः ॥

दोहा—सिमरण तर्क विरोध हर, परमत दुष्ट प्रबोध ।

भूत जीव वपु वचनका, इनमँ हरेँ विरोध ॥ १ ॥

पूर्व अध्यायमँ सर्वज्ञ सर्वशक्तवान् जगत्कारण ब्रह्मविपे सर्ववेदांतका ता-तत्पर्य सिद्ध किया है. इस अध्यायके प्रथमपादमँ सांख्यादि स्मृतिसँ और तांकी तकाँसँ स्वपक्षके विरोधका परिहार करेंहे, दूसरे पादसँ सर्व मतनकी दुष्टता प्रतिपादन करेंगे, तृतीयपादमँ अर्द्धसँ पंचमहाभूतबोधक श्रुतिवचनका जो परस्परविरोध तिसका परिहार करेंगे, अर्द्धसँ जीव नित्यानित्यत्वबोधक श्रुतिवचनोंके विरोधका निषेध करेंगे, चतुर्थ पादमँ लिंगशरीरबोधक वा-क्यनके विरोधका परिहार करेंगे. इतने अधोंके निमित्त इस अध्यायका आरंभ

हैं। तहां प्रथमपादमें सप्त अधिक तीस ३७ सूत्र हैं। तहां अधिकरण त्रयोदश हैं १३ गुण २४ हैं। तथाहि

सूत्रसंख्या । अधिकरण । गुण ।

१	अ०	+
२	+	गु०
३	अ०	+
४	अ०	+
५	+	गु०
६	+	गु०
७	+	गु०
८	+	गु०
९	+	गु०
१०	+	गु०
११	+	गु०
१२	अ०	+
१३	अ०	+
१४	अ०	+
१५	+	गु०
१६	+	गु०
१७	+	गु०
१८	+	गु०
१९	+	गु०
२०	+	गु०
२१	अ०	+
२२	+	गु०
२३	+	गु०
२४	अ०	+
२५	+	गु०
२६	अ०	+
२७	+	गु०

प्रसङ्ग.

साङ्ख्यस्मृति अप्रमाणिक है.

सा०

योगस्मृति अप्रमाणिक है

ब्रह्मकारणखण्डनपूर्वपक्ष.

पू०

चेतनकारणसिद्धान्त.

चे०

पूर्वपक्ष.

सिद्धान्त.

सांख्यमततुल्यदोष.

सि०तर्कखण्डन.

परमाणुवादखण्डन.

भोक्तादिव्यवस्था.

कार्यकारणअभेदविधान.

का०

का०

का०

का०

का०

का०

पूर्वपक्ष.

सिद्धान्त.

सि०

ब्रह्मकारणसिद्धि.

त्र०

पूर्वपक्ष.

पूर्वपक्षखण्डन.

२८	+	गु०	सिद्धान्त.
२९	+	गु०	साङ्ख्यमतदोष.
३०	अ०	+	ब्रह्मकारणणिद्धि.
३१	+	गु०	पूर्वपक्ष.
३२	अ०	+	सि०
३३	+	गु०	सि०
३४	अ०	+	वैपम्यादिदोषनिषेध.
३५	+	गु०	संसारअनादि.
३६	+	गु०	सं०
३७	अ०	+	कारणत्वादिसिद्धि.
<hr/>		<hr/>	
	१३	२४	

इस पादका यह प्रथम सूत्र है ।

स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मृत्य- नवकाशदोषप्रसङ्गात् ॥ १ ॥

स्मृत्यनवकाशादोषप्रसङ्गः । इति । चेत् । न । अन्य-
स्मृत्यनवकाशादोषप्रसङ्गात् । इति प० ॥

अर्थ—पूर्व अध्यायमें जो ब्रह्मविषे सर्व वेदांतका तात्पर्य कहा है तिसका सांख्यादिस्मृतिसँ विरोध है वा नहीं यह इस अधिकरणमें संदेह है । तहां यह पूर्वपक्ष है कि कपिलादि ऋषि सर्वज्ञ हुये हैं “ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानै-
र्बिभर्ति जायमानश्च पश्येत्” यह श्वेताश्वतर श्रुति कपिलमुनिके अप्रतिहत ज्ञानको दिखावे है, यातें तत्प्रचित सांख्यस्मृति प्रामाणिक है, ब्रह्मको कारण अंगीकार कियेसँ महान् कपिलकृत प्रधानकारणवादबोधक स्मृतिको अन-
वकाशरूप दोषकी प्रसंग नाम प्राप्ति होवेगी, अनवकाश नाम प्रधानबोधक श्रुतिके अभावसँ स्मृतिभी प्रधानबोधक नहीं सिद्ध होवेगी, यातें तत् अर्थका अभाव सिद्ध होवेगा. इति ॥ इसका अर्थसूत्रसँ समाधान करेंहैं. यथा ब्रह्मको कारण मानेसँ प्रधानको कारणबोधक स्मृतिमें दोष है तथा प्रधानको कारण अंगीकार कियेसे अन्य स्मृतिको अनवकाशरूप दोषकी प्राप्ति होवेगी । ‘अहं

सर्वस्य प्रभवः प्रलयस्तथा' इत्यादिक स्मृतिनमें चेतनको कारण स्मरण किया है यातें प्रधानको कारण माननेसे उक्तस्मृतिनमें दोष प्राप्त होवेगा, यातें परस्पर दोनों स्मृतिनका विरोध हुयेसे जो स्मृति श्रुतिसे अविरुद्ध है सो प्रामाणिक है जो विरुद्ध है सो अप्रामाणिक है. सांख्यस्मृतिका मूल श्रुतिसे मिटे नहीं यातें सो अप्रामाणिक है, यातें समन्वयका तासें विरोध नहीं. और श्वेताश्वतर श्रुति वाक्य अपर कपिलका बोधक है, सांख्यस्मृतिकर्ता कपिलका बोधक नहीं. इति ॥१॥

उत्तरहेतुसेंभी सांख्यस्मृतिमें अनवकाशही है यह सूत्रकार कहे हैं. ॥

इतरेषां चानुपलब्धेः ॥ २ ॥

इतरेषां । च । अनुपलब्धेः । इति प० ॥

अर्थ—सांख्यस्मृतिमें प्रसिद्ध जे इतर नाम प्रधानसें भिन्न महत्त्व आदिक पदार्थ तिनकी लोकमें और वेदमें अनुपलब्धि नाम प्रतीति होवे नहीं, यातें भी सांख्यस्मृति अप्रामाणिक है. इति ॥ २ ॥

एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ ३ ॥

एतेन । योगः । प्रत्युक्तः । इति प० ॥

अर्थ—योगमें ईश्वर अंगीकार है सांख्यमें नहीं इतना योगमें सांख्यसें विशेष है, अपर प्रधानादि सर्व प्रक्रिया दोनों मतनमें तुल्य हैं, यातें एतेन नाम कपिलमतके खंडनसें पतंजलिका योगमार्गभी प्रत्युक्तः नाम असंगत कहदिया जाना चाहिये. जो अंश योगमें श्रुतिअनुसारी है सो प्रामाणिक है अपर सांख्यतुल्य अप्रामाणिक है. इति तात्पर्यम् ॥ ३ ॥

आगे युक्तिविरोध परिहार करेहैं ।

न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात् ॥ ४ ॥

न । विलक्षणत्वात् । अस्य । तथात्वं । च । शब्दात् । इति प० ॥

अर्थ—'आकाशादिकं न चेतनकार्यं द्रव्यत्वात् घटवत्' इस तर्कसें समन्वयका विरोध है वा नहीं जा संदेहसें पूर्वपक्षमें यह सूत्रका अर्थ है । 'अस्य' नाम जगत्को चेतनसें विलक्षण होनेसें चेतन जगत्का कारण नहीं चेतन ब्रह्म शुद्ध है जगत् अचेतन अशुद्ध है इत्यादि विलक्षणता है. जो जैसे विलक्षण होवेहै सो तांका कार्य होवे नहीं यथा तंतुसें विलक्षण घट तंतुका कार्य नहीं, ब्रह्मकी जगतसें त-

थात्व नाम विलक्षणता शब्दात् नाम श्रुतिसँ निश्चित है. तथाहि 'विज्ञानं चा-
विज्ञानं चाभवत्' इत्यादिक श्रुतिसँ विलक्षणता निश्चित है, यातँ ब्रह्म जग-
त्का कारण नहीं. इति ॥ इस अध्यायमें समन्वयविरोधपूर्वपक्षका फल है,
अविरोध सिद्धांतका फल है. इति ॥ ४ ॥ सिद्धांत-ननु बृहदाण्यरकश्रुति
'ते हि इमे प्राणा अहं श्रेयसे विवदमाना मृद्ब्रवीत् ता आपोऽद्युवन्'
इत्यादि श्रुतिसँ जगतकोभी चेतन सुना है यातँ चेतनको कारण कहिना
संभवेहै. जा शंकासँ पूर्वपक्षी कहेहैं ।

• अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम् ॥ ५ ॥

अभिमानिव्यपदेशः । तु । विशेषानुगतिभ्यां । इति ५० ॥

अर्थ-उक्त शंकानिपेध तु पदका अर्थ है, उक्त श्रुतिसँ जगतमें चेतनताका
अंगीकार नहीं किंतु अभिमानी नाम नेत्रादिकोंके अभिमानी जे देवता तहां
व्यपदेश नाम कथन है, इंद्रिय मृत्तिकादिमात्र ग्रहण नहीं. विशेष और अनु-
गति यह दो तहां हेतु हैं. "अथातो निःश्रेयंसादानं एता ह वै देवता
अहं श्रेयसे विवदमाना अस्मात् शरीरात् उचक्रमुः तदा प्राणात्
शुष्कं दारुभूतं शिष्ये" जा कौपीतकिश्रुतिमें इंद्रियोंको देवता शब्दसे
ग्रहण किया है सो देवतापद सूत्रोक्त विशेषपदसँ ग्रहण कियाहै। श्रुतिअर्थ। उक्त
उपासना अनंतरका वाचक अथपद है, अपरफल इच्छानिमित्त अतःपदका
अर्थ है, निश्रेयस जो मोक्षविशेष तद्गुणविशिष्ट प्राणोंका आदान नाम
ग्रहण करेंहैं. देवताशब्दके वाच्य जे वाक्यादिक ते सर्वही 'अहं श्रेयसे' नाम
अहंवादसँ आत्माकी जो अधिकता तत्त्वार्थ विवाद करते हुये प्रजापतिको
प्राप्त होकर कहां हमारे में श्रेष्ठ कौन है ? प्रजापतिने कहा जिसके निकलनेसँ
शरीर शयसमान होवे सो उत्तम है. सर्व इंद्रियनसँ शरीर शयसमान नहीं
हुया, और प्राणके निकलनेसँ अमंगलरूप शिष्ये नाम शयनकर्ता भया इति ।
और "अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत् । वायुः प्राणो भूत्वा नासिके
प्राविशत् । आदित्यः चक्षुर्भूत्वा आक्षिणी प्राविशत् । दिशः श्रोत्रं
भूत्वा कर्णो प्राविशत्" जा श्रुतिमें देवनकी प्रवेशरूप अनुगति सुना है,
यातँ विशेष अनुगति जा दोनो हेतुसँ जगत् चेतनरूप नहीं, किंतु विलक्षण है यातँ
ब्रह्म जगत्का कारण नहीं । उक्त श्रुति ऐतरेयके द्वितीय खंडमें है. इति ॥५॥

सिद्धान्तसूत्र ।

दृश्यते तु ॥ ६ ॥

दृश्यते । तु । इति प० ॥

अर्थ—पूर्वपक्षका निषेध तु पदका अर्थ है, चेतन पुरुषसँ तासँ विलक्षण नखलोमादि उपजे हैं और अचेतनगोमयादिकोंसँ तासँ विलक्षण वृश्चिकादि उपजेहैं, यातँ चेतनसँ विलक्षण जगत्का ब्रह्म उपादान नहीं यह कल्पना असंगत है. जो कार्यकारणको अत्यंत तुल्य अंगीकार करें तौ तिनका कार्यकारणभाव नहीं बनेगा, यातँ किसी अंशमें तुल्यता कही चाहिये सो जगत्स्फुरणतादि रूपसँ विद्यमान हैं. जा उक्त विधिसँ दृश्यते नाम लोकमें विलक्षणोंका कार्यकारणभाव देखा है, यातँ शंका असंगत है. इति ॥ ६ ॥

असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रपरत्वात् ॥ ७ ॥

असत् । इति । चेत् । न । प्रतिषेधमात्रपरत्वात् । इति प० ॥

अर्थ—नामादिकोंसँ रहित चेतनको नामादिवान् जगत्का कारण अंगीकार कियेसँ उत्पत्तिसँ पूर्व जगत् असत् सिद्ध होवेगा, इति चेत् नाम यह शंका करें तौ संभवे नहीं. तथाहि असत् होवेगा यह जो प्रतिनिषेध नाम जगत्का निषेध है सो निषेधमात्र है; ताका निषेध्य कोई भान होवे नहीं. कार्यकी सत्ता कारणसँ भिन्न रंचक नहीं, किंतु कारण ब्रह्महीं जगत्कार है, यातँ ब्रह्मरूप जगत् उत्पत्तिसँ पूर्व सत्यस्वरूप था असत् नहीं, यातँ निषेध संभवे नहीं. इति ॥ ७ ॥

पूर्वपक्ष ।

अपीतौ तद्वत्प्रसङ्गादसमञ्जसम् ॥ ८ ॥

अपीतौ । तद्वत् । प्रसङ्गात् । असमञ्जसम् । इति प० ॥

अर्थ—यथा शाकादिकोंमें लीनहुआ हिंगु स्वगंधादिक धर्मनसँ शाकादिकोंको दूषित करेहैं तथा अपीतौ नाम प्रलयकालमें जड़तादिक धर्मवान् जगत् ब्रह्ममें लीन होकर स्वधर्मनसँ ब्रह्मको दूषित करेगा, यातँ तद्वत् नाम कार्यवत् कारणरूप ब्रह्ममेंभी जड़तादिक धर्म प्राप्त होवेंगे, ते तुमको इष्ट नहीं, यातँ चेतन ब्रह्म जगत्का उपादान है यह असमञ्जस नाम असमीचीन है. इति ॥ ८ ॥

न तु दृष्टान्तभावात् ॥ ९ ॥

न । तु । दृष्टान्तभावात् । इति प० ॥

अर्थ—यथा घटादि कार्य मृत्तिकादि कारणमें लीन हो मृत्तिकादिकों स्वधर्मनसँ दोषवान् करे नहीं. और यथा स्वप्न जाग्रत् स्वधर्मनसँ कारणरूप आत्माको दोषवान् करे नहीं तथा उत्पत्तिआदिक धर्मवान् जगत् स्वधर्म जडतादिकोंसँ कारणको दोषवान् करे नहीं. 'दृष्टान्तभावात्' नाम उक्त दृष्टान्तवत् इस अर्थमें अनेक दृष्टान्त विद्यमान हैं, यातें पूर्व जो असमञ्जस कथन किया था सो न तु नाम असंगत है. इति ॥ ९ ॥

स्वपक्षदोषाच्च ॥ १० ॥

स्वपक्षदोषात् । च । इति प० ॥

अर्थ—जगत् व ब्रह्म परस्पर विलक्षण हैं यातें तिनका कार्यकारणभाव संभवे नहीं. उत्पत्तिसँ पूर्व जगत् असत् सिद्ध होवेगा, इत्यादिक जे दोष सादृश्यनै कल्पना किये थे ते दोष स्वनाम सांख्यपक्षमेंभी तुल्यही हैं, शब्दादिकोंसँ रहित जो प्रधान तासँ शब्दादिवान्ही विलक्षण जगत्की उत्पत्ति मानेसँ तुल्यता प्रसिद्धही है. इति । १० ॥

तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यवि-
मोक्षप्रसङ्गः ॥ ११ ॥

तर्काप्रतिष्ठानात् । अपि । अन्यथा । अनुमेयं । इति । चेत् । एवं ।

अपि । अविमोक्षप्रसङ्गः । इति प० ।

अर्थ—केवल तर्क अप्रतिष्ठित नाम अपर तर्कसँ बाधित होवेहै यातें समन्वय-का तर्कसँ विरोध नहीं. यह । 'तर्काप्रतिष्ठानादपि' इतने सूत्रभागका अर्थ है. 'अन्यथानुमेयं इति चेत्' इतना भाग आगे पूर्वपक्ष है. इसका यह अर्थ है. ननु यद्यपि तर्कपर तर्क किये तर्क अप्रतिष्ठित होवेहै तथापि अन्यथा नाम प्रतिष्ठित जो तर्क तासँ समन्वयविरोध अनुमेय है. अर्थात् ताकर विरोध जाना जाय है. इति । इसका यह समाधान है, एवं अपि नाम ब्रह्माभिन्न पदाद्योमै तर्कको प्रति-

छित्त हुयेभी लिंगादिकोंसे रहित ब्रह्मविषे वेदविरोधी तर्क अप्रतिष्ठित है, जो वेदविरोधी तर्क अंगीकार करेंगे तौ 'अधिभोक्षप्रसङ्गः' नाम तर्ककर्ताकी संसारसे मोक्ष नहीं होवेगी, यातें वेदविरोधी तर्कको अप्रामाणिक होनेसे तासैं समन्वयका विरोध नहीं. इति ॥ ११ ॥

एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ १२ ॥

एतेन । शिष्टापरिग्रहाः । अपि । व्याख्याताः ॥ इति प ० ॥

अर्थ—ब्रह्म न जगत उपादानं । विभुत्वात् । व्योमवत् । इस वैशेषिक अनुमानसे ब्रह्मकारणबोधक समन्वयका विरोध है वा नहीं यह इस अधिकरणमें संदेह है. पूर्वपक्षमें विरोध मानके परमाणुको कारण अंगीकार कियेसे सिद्धांतमें यह अर्थ है कि मनुआदिकोंने सत्कार्यवाद अंशमें प्रधानकारणवाद

वाद सोभी खंडन कियाही जाना चाहिये. तर्क वेदसे वाधित है. इति तात्पर्य ॥ १२ ॥

भोक्त्वापत्तेरविभागश्चेत्स्याल्लोकवत् ॥ १३ ॥

भोक्त्वापत्तेः । अविभागः । चेत् । स्यात् ।

लोकवत् । इति प० ॥

अर्थ—अद्वितीय ब्रह्मसे उत्पत्तियका समन्वयका प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे विरोध है वा नहीं यह इसमें संदेह है. ननु अद्वितीय ब्रह्मको जगतका उपादान मानेसे भोक्ताका भोग्यरूपकी औ भोग्यको भोक्कारूपकी आपत्ति नाम प्राप्ति होवेगी, सर्व प्रपंचको ब्रह्मरूप होनेसे उक्त दोष होवेगा, यातें प्रत्यक्ष प्रमाणसिद्ध जो विभाग नाम भेद सो नहीं सिद्ध होवेगा; यातें समन्वयका प्रत्यक्षसे विरोध है, इति चेत् नाम यह शंका करें तौ संभवे नहीं. यथा मृत्तिकारूपसे अभिन्न जे घटद्वारावादिक तिनका परस्पर भेद प्रसिद्ध है और एक रज्जुके कार्य जे दंडसर्पधारादिक तिनका परस्पर भेद है तथा भोक्तादिक प्रपंचका भेद 'स्यात्' नाम है. कल्पित भेद अंगीकार है यातें प्रत्यक्षसे विरोध नहीं. इति ॥ १३ ॥

अव०—जंगत् अनिर्वचनीय अंगीकृत है यातें ब्रह्मसैं भिन्न ताकी सत्ता नहीं; यह अर्थ विस्तारसैं सूत्रकार सिद्ध करे हैं ।

तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ॥ १४ ॥

तदनन्यत्वं । आरम्भणशब्दादिभ्यः । इति । प० ॥

अर्थ—संदेह इसमें पूर्ववत् जाना चाहिये. तत् नाम ब्रह्मसैं प्रपंचको अनन्यत्व है अर्थात् ब्रह्म सत्तासैं भिन्न सत्तारहित है. 'आरम्भणशब्दादिभ्यः' यह तहां हेतु हैं। 'यथा सोम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृष्टमयं विजातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यं' जा छांदोग्यश्रुतिमें घटादिक कार्यको नाममात्र अंगीकार किया है, नामभिन्न कार्य नहीं कहा यातें मृत्तिकामात्रही कार्यका वास्तवस्वरूप है, तिसके ज्ञात हुये घटादिक ज्ञात होवे हैं, यातें कार्य मिथ्या है कारण सत्य है यह अर्थ यथा दृष्टांतमें सिद्ध है तथा दार्ष्टांतमेंभी ब्रह्मभिन्न प्रपंचकी सत्ता नहीं यह अंगीकार है. आदिपदमें 'ब्रह्मैवेदं सर्वं' इत्यादिक वचनोंका ग्रहण है. इति ॥ १४ ॥

तहां अपरहेतु कहे हैं ।

भावाच्चोपलब्धेः ॥ १५ ॥

भावात् । च । उपलब्धेः । इति प० ॥

अर्थ—केवल श्रुतिसैंही कार्यकारणका अभेद नहीं किंतु प्रत्यक्षउपलब्धि-काभी भाव नाम सद्भाव है, यातेंभी कार्यकारणका अभेद है. तंतुसैं भिन्न पदकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होवे नहीं किंतु संयोगवान् तंतुही 'पट है पट है' इस व्यवहारका विषय होवेहै, यातें कारणसैं कार्य अभिन्न है. इति ॥ १५ ॥

सत्त्वाच्चावरस्य ॥ १६ ॥

सत्त्वात् । च । अवरस्य । इति प० ॥

अर्थ—उत्पत्तिसैं पूर्व अवरस्य नाम कार्यका कारणसैं अभिन्न सत्व अर्थात् विद्यमानत्व 'सदेव' इत्यादि श्रुतिसैं सुना है, यातें उत्पत्तिसैं अनंतरभी कारणसैं अभिन्न सिद्ध होवेहै. जो उत्पत्तिसैं पूर्व प्रपंचको ब्रह्मरूप नहीं मानें तौ यथा सिकतारूपसैं अविद्यमान तेल सिकतासैं उपजे नहीं तथा ब्रह्मसैं प्रपंचभी नहीं उपजेगा. इति ॥ १६ ॥

असद्व्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात् १७

असद्व्यपदेशात् । न । इति । चेत् । न ।

धर्मान्तरेण । वाक्यशेषात् । इति प० ॥

अर्थ—ननु छांदोग्यके तृतीयप्रपाठकमें 'असद्वा इदमग्रे आसीत्' इस वाक्यमें उत्पत्तिसँ पूर्व असद्व्यपदेश नाम कार्यको असत् कथन किया है यातँ कार्यको कारणरूपता संभवे नहीं, इति चेत् नाम उक्त शंका करें तौ संभवे नहीं. श्रुतिमें जो असत् कथन है सो अत्यंत असत् अभिप्रायसँ नहीं किंतु प्रगट धर्मसँ अंतर नाम अपर जो अप्रगट धर्म तासँ असत् कथन किया है. उक्तवाक्यके आगे । 'तत्सदासीत्' यह वाक्य है. इस वाक्यशेषसँ उक्त अर्थही निश्चित है. जो पूर्ववाक्यमें अत्यंत असत् ग्रहण करेंगे तौ वाक्यशेषका बाध होवेगा, यातँ कारणसँ कार्य भिन्न नहीं. इति ॥ १७ ॥

युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ १८ ॥

युक्तेः । शब्दान्तरात् । च । इति प० ॥

अर्थ—युक्तिसँ और शब्दान्तरसँभी कार्यको कारणरूपता और उत्पत्तिसँ पूर्व विद्यमानता अवश्य सिद्ध होवेहै. 'घटो जायते' जा प्रतीतिसँ घट स्वउत्पत्तिका कर्ता भान होवेहै. जो उत्पत्तिसँ पूर्व घटको अत्यंत असत् मानेंगे तौ उत्पत्तिका कर्ता नहीं सिद्ध होवेगा, यातँ कारणरूप सत्ही घट उत्पत्तिका कर्ता है यह युक्तिशब्दसँ ग्रहण है. 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' यह छांदोग्य-वाक्य शब्दान्तरसँ ग्रहण की है; इसमें जो सत्पद है तासँभी कार्यकारणका अभेद निश्चित है. इति ॥ १८ ॥

पटवच्च ॥ १९ ॥

पटवत् । च ॥ इति प० ॥

अर्थ—मृत्तिका व घट भिन्न भिन्न हैं. विलक्षण प्रतीतिका विषय होनेसँ घट पटकी नाई जा अनुमानमें व्यभिचार दिखायें हैं. यथा संवेष्टित और प्रसारित पट विलक्षण प्रतीतिका विषय हैं तौभी ताका भेद नहीं तथा मृत्तिका और पटकाभी भेद नहीं. इति ॥ १९ ॥

यथा च प्राणादि ॥ २० ॥

यथा । च । प्राणादि । इति प० ॥

अर्थ—यथा प्राणायामादिकोंसे निरुद्ध किये हुये प्राण प्राणापानादि जीवन-
मात्र कार्यको सिद्ध करेंहें और नहीं निरुद्ध कियेहुये आकुंचन प्रसारणादि
कार्यको करेंहें, उक्त क्रियाके भेदसे प्राणोंका भेद सिद्ध होवे नहीं, यातेंभी
कार्यकारणका अभेदही है. इति ॥ २० ॥

पूर्वपक्षसूत्र ।

• इतरव्यपदेशाद्विहाकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २१ ॥

इतरव्यपदेशात् । विहाकरणादिदोषप्रसक्तिः । इति प० ॥

अर्थ—जीवाभिन्न ब्रह्मउपादानबोधक समन्वय इस अधिकारणका विषय
है। जो जीव अभिन्न ब्रह्म उपादान है तो जो जीवको अनिष्ट है सो नहीं रचा
चाहिये, इसतर्कसे समन्वयका विरोध है वा नहीं यह इसमें संदेह है. पूर्वपक्षमें यह
अक्षरार्थ है, इतरस्य नाम जीवको 'तत्त्वमसि' आदिक वाक्यनसे ब्रह्मरूपकथन
किया है. यातें ब्रह्मको जगत्कर्ता मानेसे जीवभी कर्ता सिद्ध होवेहै, ताके सिद्ध
हुयेसे हितका अकरण और आदिपदसे अहितका करणरूप दोषनकी प्रसक्ति
नाम प्राप्ति होवेगी. अहित जे जरामरणादिरूप दोष तिनकी प्राप्ति होवेगी
यातें जीवाभिन्न ब्रह्म अनिष्टप्रपंचका कर्ता नहीं. इति ॥ २१ ॥

सिद्धान्तसूत्र ।

अधिकं तु भेदनिर्देशात् ॥ २२ ॥

अधिकं । तु । भेदनिर्देशात् ॥ इति प० ॥

अर्थ—तु पूर्वपक्षनिषेधार्थ है. 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः । सत्ता सोम्य
तदा सम्पन्नो भवति' इत्यादिक श्रुतिमें भेदका निर्देश नाम उपदेश किया है
यातें अधिकं नाम जीवसे अपर सर्वज्ञ सर्वशक्तियान् ब्रह्म है सो जगत्का
कर्ता और उपादान है यह हमको अंगीकार है, यातें हित अकरणादि दोषकी
प्राप्ति नहीं. नित्य ब्रह्मको कोईभी रंचक हिताहित नहीं, कल्पित भेदसे सर्व
संभवे है. इति ॥ २२ ॥

अव०—ननु एक ब्रह्मको जगत्का कारण अंगीकार कियेसे कार्यकी वि-
चित्रता नहीं सिद्ध होवेगी, जा शंकाका उत्तर कहेहें ।

अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २३ ॥

अश्मादिवत् । च । तदनुपपत्तिः । इति प० ॥

अर्थ—यथा एक पृथिवीजन्य जे अश्म नाम पापाण तिनकी वज्र, वैदूर्य, इंद्री-लादि भेदसँ विचित्रता है तथा एक ग्रहके अनेक कार्योंकी स्वरूपसँ विचित्रता संभवे है. ननु एक ग्रहके आश्रित जे कार्य तिनमें धर्मविचित्रता कैसे है? और अर्थ क्रिया विचित्रता कैसे है? जा शंका निषेध अर्थ सूत्रमें आदिपद ग्रहण क्रिया है. यथा एक पृथिवीके आश्रित जे बीज तिनमें बहुविध पत्र पुष्प फल गंध रसादि विचित्रता है, यथा एक अन्नमें केश नखादि विचित्र अर्थ क्रियाकारित्त है तथा प्रसंगमेंभी संभवे है. यातें 'तदनुपपत्तिः' नाम उक्त दोषनकी प्राप्ति नहीं. इति ॥ २३ ॥

उपसंहारदर्शान्नेति चेत् क्षीरवद्धि ॥ २४ ॥

उपसंहारदर्शानात् । न । इति । चेत् । क्षीरवत् । हि । इति प० ॥

अर्थ—सहायता विना ब्रह्मसँ उत्पत्ति कहिनेवाला समन्वय इस अधिकरणका विषय है. सहायता रहित होनेसँ ब्रह्म जगत्का उपादान और कर्ता नहीं इस युक्तिसँ ता समन्वयका विरोध है वा नहीं यह तहा संदेह है. तहां यह आधे सूत्रसँ पूर्वपक्ष है. लोकमें कर्ता जो कुलाल तिसको दंडचक्रादिकोंकी उपसंहार अर्थात् सहायता देसी है और मृत्तिकारूप उपादानको स्वभिन्न कुलालकी सहायता देसी है, ब्रह्म सहायतासँ रहित है यातें ब्रह्म जगत्का उपादान और कर्ता नहीं इस पूर्वपक्षका उत्तर कहेहे यथा लोकमें क्षीर नाम दुग्ध यादसाधन विनाही दधिरूप परिणामको प्राप्त होवे है तथा ब्रह्मभी अपरकी सहायता चाहे नहीं, यद्यपि क्षीरको उष्णताकी अपेक्षा है तथापि उष्णता दधि होनेमें जो शीघ्रता तत्मात्रमें निमित्त है. इति । और श्वेताश्वतरके षष्ठ अध्यायमें यह कहा है 'न तस्य कार्यं करणं च विद्यते । न समञ्चाधिकश्च दृश्यते । पराऽस्य शक्तिर्विचिद्यैव श्रूयते म्वाभाविकी ज्ञानयत्-क्रिया च' । यह वाक्यभी ब्रह्मको सहायताका निषेध करे है. इति ॥ २४ ॥

देवादिवदपि लोके ॥ २५ ॥

देवादिवत् । अपि । लोके । इति प० ॥

अर्थ—लोके नाम श्तिहासादिकोंमें यथा पितर ऋषि देवादिक चेतन स्वतः

सिद्धसामर्थ्यवान् बाह्यसाधनविना संकल्पमात्रसैः अनेक प्रकारके कार्यका कर्ता भान होवेहै तथा ब्रह्मभी सहायताविना कार्यकर्ता है. इति ॥ २५ ॥

पूर्वपक्षसूत्र ।

कृत्स्नप्रसक्तिर्निरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २६ ॥

कृत्स्नप्रसक्तिः । निरवयवत्वशब्दकोपः । वा । इति प० ॥

अर्थ—ब्रह्म निरवयव है, नानाप्रकारका परिणाम सावयवका होवे है. इस युक्तिसँ समन्वयका विरोध है वा नहीं यह इसमें संदेह है. पूर्वपक्षमें यह अर्थ है कि ब्रह्म सावयव है वा निरवयव है. निरवयव मानके कार्याकार परिणामी मानेंगे तौ कृत्स्न नाम समग्र ब्रह्मको कार्याकार परिणामकी प्रसक्तिः नाम प्राप्ति होवेगी; यातें कार्यसँ अतिरिक्त ब्रह्म नहीं रहेगा. जो सावयवको कार्य-रूपसँ परिणामी मानेंगे तौ 'निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवयवं निरञ्जनं' जा श्वेताश्वतरः श्रुतिरूप शब्दका कोप होवेगा, दोनों पक्षनमें अनित्यत्वप्रसंग होवेगा. इति ॥ २६ ॥

सिद्धान्तसूत्र ।

श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् ॥ २७ ॥

श्रुतेः । तु । शब्दमूलत्वात् । इति प० ॥

अर्थ—तु पूर्वपक्षको असंगतबोधन करे है. यथा ब्रह्मको जगतका उपादान सुना है तथा । 'तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुषः' इत्यादिक वचनोंमें कार्यसँ अधिकभी ब्रह्मका स्वरूप सुना है यातें सर्व ब्रह्मको परिणामप्राप्तिरूप दोष नहीं. ननु पाछे जो युक्ति कहीथी तासँ श्रुति बाधित है, यातें कार्यसँ अधिक ब्रह्मका सत्व श्रुति कैसे बोधन करेगी ? जा शंकासँ कहे हैं । ब्रह्मको शब्दमूलत्वात् नाम केवल शब्दप्रामाणिक होनेसँ शब्दअनुसार कार्य उपादानत्व और कार्य अतिरिक्त सत्व यह दोनों ब्रह्ममें संभवे हैं, विरोध नहीं. इति ॥ २७ ॥

आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि ॥ २८ ॥

आत्मनि । च । एवं । विचित्राः । च । हि । इति प० ॥

अर्थ—एवं नाम यथा ब्रह्ममें विवर्तरूप विचित्र नाम अनेकप्रकारका कार्य उपजे है तथा । 'न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति अथ रथान्

रथयोगान्पथः सृजते' इत्यादिक श्रुतिनमें स्वप्नद्रष्टा निरवयव आत्मनि नाम जीवमें विचित्र सृष्टि सुना है, यथा स्वप्नप्रपंचसँ स्वप्नसाक्षीमें दोष नहीं तथा विवर्तरूप कार्य उपादानत्वसँ ब्रह्ममेंभी कृत्स्नप्रसक्ति आदिक दोष नहीं. इति रहस्यं इति । उक्त श्रुति बृहदारण्यकके षष्ठम प्र० तृतीय ब्राह्मणमें है ॥२८॥

स्वपक्षदोषाच्च ॥ २९ ॥

स्वपक्षदोषात् । च । इति प० ॥

अर्थ—सांख्यमतमेंभी निरवयव प्रधानको जगत्का उपादान अंगीकार किया है यातें स्वनाम सांख्यमतमेंभी कृत्स्नप्रसक्तिआदिक सर्व दोष तुल्य हैं और परमाणुवादमें परमाणु दोनोंके संयोगसँ द्रव्यणुकादि सृष्टि मानी है सो संयोग परमाणुके एकदेशमें है वा सर्वजगा है. संयोगीके सर्वदेशमें तो संयोग लोकमें कोई देखा नहीं, एकदेशमें मानेसँ सावयवत्व विना एकदेशका संयोग संभवे नहीं. सावयव मानेसँ निरवयव कथन असंगत होवेगा. इत्यादि दोष स्वपक्ष नाम न्यायपक्षमेंभी तुल्यही हैं. ब्रह्मवादमें दोष रचक नहीं यातें परमात्माही सर्वका उपादान है. इति ॥ २९ ॥

सर्वोपेता च तद्दर्शनात् ॥ ३० ॥

सर्वोपेता । च । तद्दर्शनात् । इति प० ॥

अर्थ—मायाशक्तियान् ब्रह्म जगत्का कारण है. यह पूर्व कहा सो ब्रह्म शरीररहित है. शरीरविना मायाकथन असंगत है. इस युक्तिसँ पूर्व उक्तका विरोध है वा नहीं यह तहां संदेह है. पूर्वपक्षमें विरोध अंगीकार कियेसँ यह सिद्धांत है. परदेवता सर्वोपेता नाम सर्वशक्तिवान् है तत् नाम सर्वशक्तिमत्त्वदर्शनात् नाम धुतिमें देखा है ॥ तथाहि 'सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः' यह छांदोग्यतृतीयप्रपाठकगतश्रुति सर्वशक्तिमत्त्व ब्रह्ममें दिखावेहै इति । धुतिअर्थ—सर्व जगत् कर्म होने जिसका सो सर्वकर्म कहिये अर्थात् सर्वको रचे है. इसीतरह आगे जाना चाहिये. इति ॥ ३० ॥

विकरणत्वान्नेति चैतद्दुक्तम् ॥ ३१ ॥

विकरणत्वात् । न । इति । चैत् । तत् । उक्तं । इति प० ॥

अर्थ—सर्वशक्तियुक्त जे देवतादिक ते नेत्रादिकरणवान्ही विचित्रकार्यके वर्ता देवेह और ब्रह्मको 'अचक्षुष्कमधोत्रं' जा धुतिमें विकरणत्वात्

नाम करणोंसे रहित सुना है, याते ब्रह्म जगत्कर्ता नहीं, इति चेत् नाम यह शंका करे तो इसका जो उत्तर है तत् नाम सो उक्तं नाम पूर्व कह दिया है- इति ॥ ३१ ॥

पूर्वपक्ष ।

न प्रयोजनवत्त्वात् ॥ ३२ ॥

न । प्रयोजनवत्त्वात् । इति प० ॥

अर्थ—सर्वकामन्यसे रहित ब्रह्मको जो समन्वय उपादान कहेहै सो इस अधिकरणका विषय है. ब्रह्म फलसे विना जगतको रचे नहीं । अभ्रांतचेतन होनेसे इस तर्कसे तिस समन्वयका विरोध है वा नहीं यह तहां संदेह है. पूर्वपक्षमें यह अर्थ है ब्रह्म नित्यतृप्त है याते प्रयोजनसे रहित है. बुद्धियान्-की प्रवृत्ति प्रयोजनविना होवे नहीं. याते प्रयोजनवत्त्वात् नाम प्रवृत्तिको प्रयोजनयान् होनेसे ब्रह्म जगतकर्ता नहीं । इति ॥ ३२ ॥

सिद्धान्तसूत्र ।

लोकवत्तु लीलकैवल्यम् ॥ ३३ ॥

लोकवत् । तु । लीलकैवल्यं । इति प० ॥

अर्थ—तु पद शंकानिषेध अर्थ है, यथा लोकमें राजाकी फलविनाही केवल लीलारूप अनेक प्रकारकी प्रवृत्ति देखी है और यथा प्राणोंका व्यापार स्वाभाविक है तथा ब्रह्मकीभी विचित्र कार्य रचना लीलकैवल्यं नाम केवल लीलामात्र है. फल अभिलाषासे नहीं, और किसी प्रकार राजाकी लीलामें फल-कल्पना संभवे है परंतु नित्यतृप्त ब्रह्मकी लीलामात्रही है. इति ॥ ३३ ॥

वैषम्यनैर्घृण्येन सापेक्षत्वात्तथाहि दर्शयति ॥ ३४ ॥

वैषम्यनैर्घृण्येन । सापेक्षत्वात् । तथाहि । दर्शयति । इति प० ॥

अर्थ—निरवयव ब्रह्ममें उत्पत्ति कहनेवाला समन्वय रसका विषय है. जो विषमदृष्टिकर्ता होवे है सो सावद्य होवेहै. इस तर्कसे तिस समन्वयका विरोध है वा नहीं यह इसमें संदेह है. तहां यह पूर्वपक्ष है. ब्रह्म प्राणिकर्मनिमित्तसे जगतकर्ता है वा तिससे विनाही कर्ता है. कर्मनिमित्तसे कर्ता माने तो ब्रह्मको अनीश्वर हुआ चाहिये. कर्मनिमित्त विना कर्ता माने तो वैषम्य और नैर्घृण्य दोष होवेंगे. तथाहि अनेक कीटपतंगादि योनिको अत्यंत दुखी उत्पन्न करना,

अनेक मनुष्यादिजीवको साधारण दुखी सुखी उत्पन्न करना, अनेक देवादि जीवोंको अत्यंत सुखी उत्पन्न करना, यह वैषम्यतादोष है और सर्व संहारकर्ता होना यह नैर्घृण्य दोष है. तिन दोषनसँ ब्रह्म सावद्य सिद्ध होवेगा. यातें निरवद्य ईश्वर जगत्कर्ता नहीं, इति । उक्त शंकाका यह समाधान है. पूर्व जे दोष कहे हैं, ते ' न ' नाम असंगत हैं. सापेक्षत्वात् नाम ईश्वरमें कर्तापना प्राणिकर्मनिमित्तसँ अंगीकृत है, यातें दोष नहीं, उक्त दोष कर्मनिमित्तविना कर्ता मानेसँ होयेंहें और कर्मनिमित्तसँ जो अनीश्वरतादोष कहा था सोभी असंगत है. भृत्यसेवाके अनुसार फलदाता राजाको अराजापना लोकमें देखा नहीं तथा ईश्वरमें अनीश्वरता होये नहीं, अनेक बीज भूमिमें पड़े रहेंहें मेघविना अंकुर उपजे नहीं तथा ईश्वरविना कर्मफल उपजे नहीं । तथाहि दर्शयति नाम श्रुति स्मृति ईश्वरको प्राणिकर्मनिमित्तसँ जगत्का कर्ता कहे है. तथाहि । 'एष हि एव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उद्दिनीपते एष उ एव असाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽधो निनीपते ॥ पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन' यह कौपीतकिश्रुति कर्मनिमित्तसँ ईश्वरको कर्ता कहेहै. श्रुतिअर्थ—जिसको इस लोकसँ ऊपर प्राप्त करनेकी इच्छा करहै ताको पूर्वजन्मकृत सुकृतके वशसँ शुभ कर्म करावे है और जिसको नीचे प्राप्त करनेकी इच्छा करे है ताको अशुभ करावे है, पुण्यसँ सुखी होवेहै पापसँ दुखी होवेहै. इति । 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं' इत्यादिक स्मृतिभी कर्मनिमित्तसँही ईश्वरको कर्ता कहेहै. इति ॥ ३४ ॥

न कर्माविभागादिति चेन्नाऽनादित्वात् ॥ ३५ ॥

न । कर्म । अविभागात् । इति । चेत् । न ।

अनादित्वात् । इति प० ॥

अर्थ—'एकमेवाद्वितीयं' इस छांदोग्यश्रुतिमें उत्पत्तिसँ पूर्व अविभागात् नाम अभेद निश्चय होवेहै. यातें तदा न कर्म कहिये कर्मोंका अभाव था यातें जगत्कर्तामें कर्मनिमित्तविना विषम दृष्टि मंभवहै जा शंकाका यह उत्तर है, मंभार बीजअंकुरवत् अनादि है, यातें उक्त शंका असंगत है. पूर्व किये जे धर्माधर्म ते अत्यंत नाश होयें नहीं. इति ॥ ३५ ॥

अप०—ननु संसार अनादि कैसे है? जा शंकासँ कहे हैं.

उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६ ॥

उपपद्यते । च । अपि । उपलभ्यते । च । इति प० ॥

अर्थ—संसारमें अनादित्व उपपद्यते नाम संभवे है. अनादि नहीं मानें तो अकस्मात् सृष्टि अंगीकार कियेसँ मुक्तकोभी पुनः संसार होवेगा, और धृति-स्मृतिमें संसार अनादि उपलभ्यते नाम प्रतीत होवेहै । 'धाता यथा पूर्व-भकल्पयत्' यह धृति और 'न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा' यह भगवद्वाक्य संसारको अनादि कहेहै. इति ॥ ३६ ॥

सर्वधर्मोपपत्तेश्च ॥ ३७ ॥

सर्वधर्मोपपत्तेः । च । इति प० ॥

अर्थ—जो समन्वय निर्गुण ब्रह्मको जगत्का कर्ता कहे है। ताका जो निर्गुण है सो उपादान नहीं जा तर्कसँ विरोध है वा नहीं जा संदेहसँ पूर्वपक्षमें विरोध मानके यह उत्तरपक्ष है । जगत्कारणत्व सर्वज्ञत्वादिक जे कारणके सर्व धर्म ते पूर्व उक्त प्रकारसँ ब्रह्ममें उपपत्तेः नाम बने हैं यांते ब्रह्मही जगत्का कारण है, यातें यह शास्त्र निर्दोष है. इस निर्दोष शास्त्रसँ ब्रह्ममें जो सर्व वेदांतका समन्वय ताका स्मृति और युक्तिसँ विरोध रंचक नहीं. इति सिद्धं । इति सूत्रभावप्रकाशिकाभाषाटीकायां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादः समाप्तः॥३७॥

॥ अथ द्वितीयपादप्रारम्भः ॥

पूर्व समन्वयमें परकल्पित दोषनको निरास करके अब अधिकारीकी अद्वैतशास्त्रमें निस्संदेह प्रवृत्तिअर्थ सूत्रकार परतदूषणप्रधान इस पादका आरंभ करें हैं. सांख्यमतमें कहे जे पदार्थ तामें श्रद्धाके निषेधार्थ प्रथम सांख्यमत-खंडन करेंहैं । पूर्व तो वेदांत प्रधानका बोधक नहीं यह सिद्ध किया है. इस पादमें प्रधानसाधक युक्तिको खंडन करेंहैं याते पुनरुक्तिदोष नहीं. इस पादके पंच अधिक चाठीस सूत्र हैं. तिनमें < अधिकरण हैं, ३७ गुण हैं. तथाहिः—

सूत्रसंख्या ।	अधिकरण ।	गुण ।	प्रसङ्ग.
१	अ०	+	साङ्ख्यखण्ड
२	+	गु०	सा०

३	+	गु०	सा०
४	+	गु०	सा०
५	+	गु०	सा०
६	+	गु०	सा०
७	+	गु०	सा०
८	+	गु०	सा०
९	+	गु०	सा०
१०	+	गु०	सा०
११	अ०	+	सा०
१२	अ०	+	वैशेषिकमतखण्डनसिद्धान्त.
१३	+	गु०	वैशेषिकमतखण्डन.
१४	+	गु०	वै०
१५	+	गु०	वै०
१६	+	गु०	वै०
१७	+	गु०	वै०
१८	अ०	+	वै०
१९	+	गु०	बुद्धमुनिवाह्य मतखण्डन.
२०	+	गु०	बु०
२१	+	गु०	बु०
२२	+	गु०	बु०
२३	+	गु०	बु०
२४	+	गु०	बु०
२५	+	गु०	बु०
२६	+	गु०	बु०
२७	+	गु०	बु०
२८	अ०	+	बु०
२९	+	गु०	बुद्धमुनिअन्तर मतखण्डन.
३०	+	गु०	बु०
३१	+	गु०	बु०
३२	+	गु०	बु०

३३	अ०	+	जैनमतखण्डन.
३४	+	गु०	जै०
३५	+	गु०	जै०
३६	+	गु०	जै०
३७	अ०	+	केवलनिमित्तकारणखण्डन.
३८	+	गु०	के०
३९	+	गु०	के०
४०	+	गु०	के०
४१	+	गु०	के०
४२	अ०	+	भागवतमतखण्डन
४३	+	गु०	भा०
४४	+	गु०	भा०
४५	+	गु०	भा०

रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम् ॥ १ ॥

रचनानुपपत्तेः । च । न । अनुमानं । इति प० ॥

अर्थ-परमतयुक्तिविरोधसँ समन्वयकी अस्तिद्धि पूर्वपक्षमें फल है. और परमतकी युक्तिके अविरोधसँ समन्वयसिद्धि सिद्धांतका फल है. यह पाद-समाप्तिपर्यंत जाना चाहिये । अचेतन प्रधान जगत्का उपादान है. यह सांख्यसिद्धांत इस अधिकरणका विषय है जामें संदेह होवे सो विषय कहियेहँ सो सिद्धांत प्रमाणमूल है वा भ्रान्तिमूल है यह तहां संदेह है. तहां यह पूर्वपक्ष है. यह सुखदुःख मोहरूप जो जगत् इसका स्वतुल्यही कोई उपादान है तामें अन्वित होनेसँ यथा मृत्तिका अन्वित घटादिकोंका उपादान है इस अनुमानसँ जो सुखदुःख मोहरूप वस्तु सिद्ध होवेहँ सो प्रधान अंगीकार है याते सांख्यसिद्धांत प्रामाणिक है. इति। तहां यह उत्तर है. चेतनप्रेरणारहित रचनाज्ञानशून्य जो प्रधान तासँ अनेकविध विचित्र जगतरचना अनुपपत्तेः नाम संभवे नहीं याते अनुमानं नाम उक्त अनुमानकरके सिद्ध जो प्रधान सो जगत्का उपादानकारण नहीं, चकारसँ स्वरूपासिद्धहेतु आभास सूचना किया है, याते सांख्यसिद्धांत अप्रामाणिक हैं. इति ॥ १ ॥

प्रवृत्तेश्च ॥ २ ॥

प्रवृत्तेः । च । इति प० ॥

अर्थ—साम्यावस्थाको प्राप्त जे गुणतिनका नाम प्रधान है, साम्यावस्थाकालमें रंचक कार्य उपजे नहीं, किंतु साम्यावस्था हटकर गुणोंका अंगांगीभाव हुयेसँ अर्थात् कम ज्यादा हुयेसँ कार्य उपजे है. यह सांख्यसिद्धांत है सो असंगत है, लोकर्म जे अचेतन रथादिक तिनकी प्रवृत्ति चेतनाधीन देखी है. प्रधानका जो साम्यावस्थाका छोड़नारूप प्रवृत्ति सो चेतनप्रेरणाविना संभवे नहीं, याते 'प्रवृत्तेः' नाम उक्त विधसँ प्रवृत्तिके असंभवसँ सांख्यमत असंगत है. इति ॥ २ ॥

पयोऽम्बुवच्चेत्त्रापि ॥ ३ ॥

पयः । अम्बुवत् । चेत् । तत्र । अपि । इति प० ॥

अर्थ—ननु अचेतनकीभी स्वतः प्रवृत्ति होवेहै. यथा पयस नाम दुग्ध वत्सके लिये आपही प्रवृत्त होवेहै यथा जल स्वभाविकही चले है अर्थात् निम्न देशमें गमनार्थ प्रवृत्त होवेहै तथा प्रधानभी चेतनप्रेरणाविना प्रवृत्त होवेहै, इति चेत् नाम यह कल्पना करें तौ तत्रापि नाम तहां जलादिकोंमेंभी परमात्मा प्रेरक सुना है, याते अचेतनकी प्रवृत्ति स्वतः संभवे नहीं. इति ॥ ३ ॥

व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् ॥ ४ ॥

व्यतिरेकानवस्थितेः । च । अनपेक्षत्वात् ॥ इति प० ॥

अर्थ—प्रधानको स्वतंत्रकारण अंगीकार कियेसँ कदाचित्भी कार्यके व्यतिरेक नाम अभावकी 'अनवस्थितेः' नाम अवस्थितिका अभाव होवेगा. अर्थात् किसी कालमेंभी कार्यका अभाव नहीं होवेगा किंतु सर्वदा कार्य बना रहेगा । स्वतंत्रप्रधानका अपर कोई चेतन सहकारी 'अनपेक्षत्वात्' नाम तुमने अंगीकार नहीं किया याते उक्त अर्थ सिद्ध होवेगा. सो असंगत है. याते स्वतंत्र प्रधान जगत्का उपादान नहीं. इति ॥ ४ ॥

अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत् ॥ ५ ॥

अन्यत्राभावात् । च । न । तृणादिवत् । इति प० ॥

अर्थ—ननु तृण जलादिक अपर निमित्तसँ बिना दुग्धाकार परिणामको

प्राप्त होतेहैं. तथा प्रधान जगताकार अपर निमित्तविनाही होतेहैं. यह दृष्टांतभी असंगत है, तथाहि—अन्यत्र नाम धेनुआदिकोंसे अपर जै बैलादिक तिनमें तृणादिकोंके दुग्धाकार परिणामका अभाव देखा है. यातें तृणादिवत् कल्पना संभवे नहीं, यातें धेनुवादिक निमित्तसैही तृणादिक क्षीररूप होतेहैं. इति ॥ ५ ॥

अभ्युपगमेऽपि अर्थाभावात् ॥ ६ ॥

अभ्युपगमे । अपि । अर्थाभावात् । इति । प० ॥

• अर्थ—प्रधानकी स्वतःप्रवृत्ति 'अभ्युपगमे' नाम अंगीकार कियेसँभी अर्थाभाव नाम प्रयोजन सिद्ध होते नहीं. तथाहि प्रधानकी प्रवृत्ति भोगअर्थ मानें तौ भोग्य पदार्थ अनंत हैं, यातें कदाभी मोक्ष नहीं होवेगा, जो प्रधानकी प्रवृत्तिको अपवर्ग अर्थ मानेंगे तौ भोग नहीं होवेगा, यातें प्रयोजनका अभाव होनेसँ प्रधान जगतका कारण नहीं. इति ॥ ६ ॥

पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि ॥ ७ ॥

पुरुषाश्मवत् । इति । चेत् । तथापि । इति । प० ॥

अर्थ—ननु पुरुष यद्यपि असंग है यातें सो प्रधानका प्रवर्तक नहीं तथापि यथा पंगुपुरुष स्वप्रवृत्तिसँ रहितभी प्रवृत्तिमें सामर्थ्य अंधको प्रवृत्त करे है और अश्म नाम अयस्कांत संनिधिमात्रसँ लोहको प्रवृत्त करेहै. तथा प्रधानका प्रवर्तक पुरुष है. यह कल्पना करें तौ तथापि नाम तौभी दोष दूर होवे नहीं. तथाहि पुरुषको प्रेरक मानेसँ प्रधान स्वतंत्र है, जा प्रतिज्ञा भंग होवेगी और पुरुष अकर्ता नहीं सिद्ध होवेगा और दृष्टांतोंमें पंगुपुरुषका वाणीरूप व्यापार है. अयस्कांतका जानित्य सांनिधिव्यापार है. प्रधानपुरुषकी सांनिधिसदाही है, यातें सो व्यापार नहीं. जा विध दोष दूर होवे नहीं. इति ॥ ७ ॥

अङ्गित्वानुपपत्तेश्च ॥ ८ ॥

अङ्गित्वानुपपत्तेः । च । इति । प० ॥

अर्थ—गुणोंका अंगांगीभाव होकर महत्तत्वादि कार्य उपजेहैं यह सांख्यवाले कहेहैं. तहां यह पूछा चाहिये। कि प्रकृति कूटस्थ है वा विकारी है? प्रथम पक्ष मानें तौ गुणसाम्यावस्थाका भंग नहीं होवेगा यातें अंगित्व नाम गुणोंका कम

ज्यादारूप अंगांगीभाव 'अनुपपत्तेः' नाम नहीं बनेगा यातें कार्य नहीं उप-
जेगा. जो विकारी मानें तौ साम्यावस्थाभंगरूप विकार स्वतः होवेहै वा परसैं
होवेहै ? स्वतःपक्षमें कार्य सदा बना रहेगा. परसैं मानें तौ पुरुषको उदासीन
कहिना असंगत होवेगा. यातें अंगांगीभावके असंभवसैं कार्यका अभाव
होवेगा. इति ॥ ८ ॥

अन्यथाऽनुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात् ॥ ९ ॥

अन्यथा । अनुमितौ । च । ज्ञशक्तिवियोगात् । इति । प० ॥

अर्थ—ननु हमको उक्तविधसैं अंगीकार नहीं किंतु अन्यथा नाम कार्यसैं
अंगांगीभावकी 'अनुमितौ' नाम अनुमिति अंगीकार कियेसैं उक्त दोष नहीं
यहभी असंगत है. चेतनत्व धर्म पुरुषका है 'गुण' ज्ञशक्तिवियोगात् नाम ज्ञा-
नरूप शक्तिसैं रहित हैं यातें तासैं अनुमिति संभवे नहीं. तात्पर्य यह है कि
गुण साम्यावस्थाभंगके योग्य हैं तथापि ताका भंग निमित्तविना संभवे नहीं.
निमित्त कोई बने नहीं, स्वतः भंग मानेसे सदा वैषम्यता रहेगी. जो स्वतः
अवैषम्यता मानेंगे तौ सदा साम्यता रहेगी, यातें अंगांगीभाव संभवे नहीं.
इति ॥ ९ ॥

विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम् ॥ १० ॥

विप्रतिषेधात् । च । असमञ्जसम् । इति । प० ॥

अर्थ—सांख्यवाले कहें तौ महत्तत्त्वसैं पंचतन्मात्रकी उत्पत्ति कहेहैं और
कहें अहंकारमें कहेहैं, कहें एकादश इंद्रियां कहेहैं कहें, सप्त इंद्रियां कहेहैं, यातें
परस्पर विप्रतिषेधात् नाम निषेध करनेसैंभी सांख्यमत 'असमञ्जसं' नाम
अममीचीन है. इति सिद्धं ॥ १० ॥

महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् ॥ ११ ॥

महत् । दीर्घवत् । वा । ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् । इति । प० ॥

अर्थ—जो ममन्वय चेतन ब्राह्मणमें जगत्की उत्पत्ति कहे हैं सो इस अधिक-
रणका विषय है. कारणके गुण स्वममान गुणोंको कार्यमें आरंभ करेहैं, इस युक्तिमें
निम ममन्वयका विरोध है वा नहीं यह तहां संदेह है । ब्रह्मको प्रपंचका
वपादान मानेमें प्रपंचभी ब्राह्मणत्व चेतन्य हुआ चाहिये, कारणके गुण कार्यमें

अवश्य जावे हैं यातें चेतनसैं जड़की उत्पत्ति माननी विरुद्ध है. यह पूर्वपक्ष है. उक्त कल्पनाका व्यभिचार है यातें सिद्धांतविरोध नहीं. अक्षरार्थ यह है कि यथा 'ह्रस्वपरिमण्डलाभ्यां' नाम द्व्यणुक और परमाणुसैं महत् दीर्घ त्र्यणुक उपजेहैं अर्थात् परमाणुसैं अणु ह्रस्व द्व्यणुक उपजे है. अणु ह्रस्व द्व्यणुकसैं महत् दीर्घ त्र्यणुकादि उपजेहैं तथा चेतनभी ब्रह्म अचेतनका कारण है. इति । यह वैशेषिकमत है. दो परमाणुसैं ह्रस्व अणु द्व्यणुक उपजेहैं. तहां तीन तीन द्व्यणुकसैं महत् दीर्घ त्र्यणुक उपजेहैं. तहां परमाणुमें जो परिमाणरूप गुण सो स्वसंमान परिमाणको द्व्यणुकमें नहीं उपजावे है, किंतु परमाणुगत जो द्वित्वसंख्या सो द्व्यणुकमें ह्रस्वत्व अणुत्वका आरंभ करेहैं. और द्व्यणुकमें जो अणुत्व ह्रस्वत्व ते त्र्यणुकमें स्वसमान अणुत्व ह्रस्वत्वका आरंभ नहीं करेहैं, किंतु द्व्यणुकमें जो त्रित्व संख्या सो त्र्यणुकमें महत्वादिकोंका आरंभक है. यह तिनका संकेत है. इनका इस मतमें कारणके गुण कार्यमें जावेहैं जा संकेतमें व्यभिचार स्पष्ट भान होवेहैं, यातें उक्त नियम असंगत है. इति॥११॥

आगे ताका मत खंडन करेहैं.

उभयथाऽपि न कर्माऽतस्तदभावः ॥ १२ ॥

उभयथा । अपि । न । कर्म । अतः । तदभावः । इति । ५० ॥

अर्थ—परमाणुसैं जो जगतकी उत्पत्ति सो इस अधिकरणका विषय है. सो प्रमाणमूल है वा श्रौतिमूल है यह तहां संशय है. पूर्वपक्षमें प्रामाणिक अंगीकार कियेसैं यह सिद्धांत है. न्यायमतमें प्रथम परमाणुमें क्रिया मानी है. तिस क्रियाका परमाणु समवायिकारण है. आत्मपरमाणुसंयोग असमवायिकारण है. अदृष्टादि निमित्त कारण हैं. तिस क्रियासैं परमाणु दोका संयोग होवेहैं. संयोग होकर द्व्यणुक उपजे है. यह तिनका सिद्धांत है सो असंगत है. तथाहि—परमाणुमें जो प्रथम कर्म है तामें कोई निमित्त नहीं मानें तौ कर्म नहीं होवेगा. जो निमित्त मानें तौ दृष्ट है वा अदृष्ट है. दृष्ट तौ जीवप्रयत्न हस्तसंयोगादि हैं. ते तदा विद्यमान नहीं. और अदृष्टपक्षमें यथा आत्मसमवेत अदृष्ट निमित्त है तथा अदृष्टवान् आत्माका संबंधभी सदा रहे है, यातें प्रलयका अभाव होवेगा यातें उभयथा नाम निमित्त मानेसैं और नहीं मानेसैं कर्म नाम क्रिया संभवे नहीं, अतः नाम कर्मके असंभवसैं । तत् नाम कार्योत्पत्तिकाभी अभाव सिद्ध होवेगा यातें परमाणुकारणवाद असंगत है. इति । १२ ॥

समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः ॥ १३ ॥

समवायाभ्युपगमात् । च । साम्यात् ।

अनवस्थितेः ॥ इति । प० ॥

अर्थ—द्व्यणुक परमाणुं समवायसंबंधसँ रहे है, यह न्यायमतमें मानें है यातँभी परमाणुकारणवाद असंगत है. तहां दोष कहे है—यथा द्व्यणुक परमाणुसँ अत्यंत भिन्न है, ताको समवायकी अपेक्षा है, तथा समवायभी परमाणुसँ अत्यंत भिन्न है यातँ ताकोभी समवायकी अपेक्षा होवेगी जैसे द्व्यणुकमें भिन्नत्व है तथा समवायमेंभी भिन्नत्व है यातँ साम्यात् नाम भिन्नत्वकी तुल्यतासँ ताको अपर समवायकी अपेक्षा अवश्य होवेगी ताके अंगीकार कियेसँ 'अनवस्थितेः' नाम ताको अपर समवाय चाहीवे जाविध अनपस्था प्राप्त होवेगी. जो समवाय नहीं सिद्ध हुआ तो द्व्यणुकादि कार्य कैसे होवेगा ? इति ॥ १३ ॥

नित्यमेव च भावात् ॥ १४ ॥

नित्यम् । एव । च । भावात् । इति । प० ॥

अर्थ—किंच परमाणुका प्रवृत्तिस्वभाव है वा निवृत्तिस्वभाव है ? प्रवृत्तिस्वभाव मानेसँ प्रवृत्तिको नित्य नाम सदा भावात् नाम होनेसँ प्रलय नहीं होवेगा और निवृत्तिस्वभाव मानेसँ निवृत्तिको नित्य नाम सदा भावात् नाम होनेसँ उत्पत्तिका अभाव होवेगा इति ॥ १४ ॥ किंच ।

रूपादिमत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात् ॥ १५ ॥

रूपादिमत्वात् । च । विपर्ययः । दर्शनात् । इति । प० ॥

अर्थ—चतुर्विध परमाणु गधादिवान् नित्य अणुरूप है यह वैशेषिक मानें है सोभी असंगत है. तथाहि—परमाणु अनित्य स्थूलरूप है रूपादिवान् होनेसँ पटादिकोंकी नाई है इति । पटमँ रूपादिक है यातँ सो तंतुसँ अस्थूल और अनित्य है तथा जगत्कारणमँ रूपादिक अंगीकार कियेसँ सो स्थूल और अनित्य सिद्ध होवेगा यातँ जगत् कारण रूपादिकोंसँ रहित है. अक्षर योजना यह है कि तुम्हारे मतमें जगत् कारणमा रूपादिमत्वात् नाम रूपादिकान् होनेसँ अणुत्व नित्यत्वसँ विपर्यय नाम उलटे धर्म जे स्थूलत्व अनित्यत्वादि तिनकी प्राप्ति होवेगी लोकमँ रूपादिकान् जे पटादिङ् ते तँसेही दर्शनात् नाम देये है. इति ॥ १५ ॥

उभयथा च दोषात् ॥ १६ ॥

उभयथा । च । दोषात् । इति । प० ॥

अर्थ—किंच रूप रस स्पर्श गंधवान् ४ पृथिवी स्थूल मान होवे है. रूप रस स्पर्शवान् ३ जल सूक्ष्म मान होवे है. रूपस्पर्शवान् २ तेज सूक्ष्मतर मान होवे है. वायु स्पर्शवान् सूक्ष्मतर मान होवे है. उनके अनुसार परमाणुको कल्पें तौ अणु कथन संभवे नहीं. जो रूपादिवान् नहीं कल्पेंगे तौ पृथिवी आदिकोंमें रूपादिकोंका लाभ नहीं होवेगा इस प्रकार उभयथा नाम दोनोंही प्रकारसे दोष होनेसे परमाणुकारणवाद असंगत है. इति ॥ १६ ॥

अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षम् ॥ १७ ॥

अपरिग्रहात् । च । अत्यन्तम् । अनपेक्षम् । इति । प० ॥

अर्थ—प्रधानकारणवादको सत्कार्यअंशमें मनुआदिकोंने अंगीकार किया है परंतु परमाणुकारणवाद किसी अंशमेंभी ग्रहण नहीं किया; यातें सो अत्यंत नाम सर्व अंशमें अनपेक्षं नाम अधिकारीको त्यागनेयोग्य है. यातें वैशेषिकमतसे समन्वयका विरोध नहीं. इति ॥ १७ ॥

अव०—पूर्व वैशेषिकमतको खंडन किया है आगे वैनाशिकमतको खंडन करें हैं । बुद्धमुनिने जिस आगमका उपदेश किया है सो आगम वैभाषिक १, सौत्रान्तिक २, योगाचार्य ३, शून्यवादी ४, जा चार शिष्योंकी बुद्धि-अनुसार चार प्रकारका है. तहां आदिके दोषके मतमें ज्ञानादिक सर्व पदार्थ क्षणिक मानें हैं और सत्यरूप मानें हैं. तिनमेंभी एता भेद है । वैभाषिकके मतमें घटादिक पदार्थ प्रत्यक्ष हैं और सौत्रान्तिकके मतमें घटाकारज्ञान उपजे है ता ज्ञानसे अप्रत्यक्ष घटादिकोंका अनुमान होवे है । 'घटादयः अप्रत्यक्षा भवितुमर्हन्ति स्वाकारज्ञानविषयत्वात् धर्मादिषु' यह अनुमानका आकार है ॥ उक्त उभय मतनको मिलाकर सूत्रकार खंडन करें हैं ।

समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॥ १८ ॥

समुदाये । उभयहेतुके । अपि । तदप्राप्तिः । इति । प० ॥

अर्थ—उक्त मत प्रमाणमूल है वा भ्रान्तिमूल है जा संदेहसे पूर्वपक्षमें प्रमाणमूल अंगीकार है तथाहि भूमि जल तेज वायु यह चारों भूत चतुर्विध पर-

माणुकी पुंजस्वरूप है. परमाणुविना अवयवीरूप कार्य रंचक नहीं. यह परमाणुहेतुक जलादिसमुदाय बाह्य है. द्वितीय आध्यात्मिक समुदाय है ताके हेतुस्कंध है. तथाहि । रूप १, विज्ञान २, वेदना ३, संज्ञा ४, संस्कार ५, यह पंच स्कंध है. विषयोंसहित इंद्रियोंका नाम रूप स्कंध है, १ अहं यह जो आलयविज्ञानप्रवाह सो विज्ञानस्कंध कहिये है २ । सुखादि प्रत्यय वेदनास्कंध अंगीकार है ३, गौं है अश्व है इत्यादि शब्दविशिष्ट वस्तुविषय सविकल्प प्रत्यय संज्ञास्कंध है ४, राग, द्वेष, मोह, धर्माधर्म यह संस्कारस्कंध है ५. तहां विज्ञानस्कंधको चित्त और आत्मा कहें है अपर चारों चैतस्कंध है. अर्थात् चित्तमें है. यह उभय स्कंधनका समुदाय सर्व व्यवहारका कारण है. यह आध्यात्मिकसमुदाय स्कंधहेतुक है. यह वैभाषिक और सौत्रांतिकका मत है. इनका खंडन करेंहें. उभयहेतुके नाम परमाणुहेतुक बाह्यसमुदायमें और स्कंधहेतुक आध्यात्मिक समुदायमें तत् नाम उभय समुदायकी अप्राप्ति है परमाणु स्कंध उभेही अचेतनरूप है. (यातें स्वतः) तिनका समुदाय संभवे नहीं. अपर कोई समुदायकर्ता माना नहीं यातें समुदायप्राप्ति संभवे नहीं. इति ॥ १८ ॥

इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्र- निमित्तत्वात् ॥ १९ ॥

इतरेतरप्रत्ययत्वात् । इति । चेत । न । उत्पत्ति-
मात्रनिमित्तत्वात् । इति । ५० ॥

अर्थ—ननु चेतनविनामी संघात संभवे है. तथाहि—अविद्या १, संस्कार २, विज्ञान ३, नाम ४, रूप ५, पडायतन ६, स्पर्श ७, वेदना ८, यह अविद्यादिक इतरेतर नाम परस्पर प्रत्ययत्वात् नाम हेतु है यातें घटीयंत्रत् इनसे संघातकी उत्पत्ति संभवे है यह आधे सूत्रसें पूर्वपक्ष है । क्षणिक पदार्थमें स्थित्वनित्यत्वादि भ्रान्ति अविद्या मानेहें सो विषयोंमें रागादिरूप संस्कारोंका हेतु है तिस संस्कारसें गर्भगत आद्य विज्ञान उपजे है. तिस विज्ञानसें पृथिवी आदिक चार भूत उपजे है, तिनकोही नाम कहें हैं. रूपपदसें शरीरका ग्रहण है. भूमिआदिक चार एक शरीर एक विज्ञान यह पद आश्रय होवें जिसका ताका नाम पडायतन है अर्थात् इंद्रियोंका नाम है. नामरूप इंद्रियोंका जो परस्पर संबंध सो स्पर्श अंगीकार है तिनसें सुखादिवेदना उपजेहें. तासें

पुनः अविद्या उपजे है जाविध परस्पर कारण हैं, यह कल्पनाभी असंगत है। दो प्रकारकी कार्योत्पत्ति तुमने मानी हैं एक हेतुअधीन मानी है एक समुदायअधीन मानी है। यथा बीजसँ अंकुर अंकुरसँ पत्र पत्रसँ कांड उपजे हैं यह हेत्वधीन है। भूमिआदिक भूतनके मिलनेसँ बीजसँ अंकुर उपजे है। सो समुदायाधीन है। और आध्यात्मिक उत्पत्तिभी दो प्रकारकी है। तहां अविद्या-दिकोंकी उत्पत्ति हेतुअधीन है। और भूमि जल तेज वायु आकाशके समुदाय-सँ जो कार्योत्पत्ति सो समुदायाधीन है। तहां उभयविध उत्पत्तिमें चेतनकी अपेक्षा नहीं। तहां प्रथमको अंगीकार करके द्वितीयको दूषित करहें। अविद्यादिकों-को परस्पर कारण मानेभी उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात् नाम हेतुअधीन उत्पत्तिमें निमित्त होनेसँ समुदायाधीन कार्योत्पत्ति संभवे नहीं। अपर चेतन कोई माना नहीं यातें संभवे नहीं इति ॥ १९ ॥

क्षणिकवादमें हेतुअधीनभी उत्पत्ति संभवे नहीं यह कहेंहैं।

उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात् ॥ २० ॥

उत्तरोत्पादे । च । पूर्वनिरोधात् । इति । प० ॥

अर्थ—कार्यउत्पत्तिकालमें विद्यमान जे मृत्तिकादि तेही कारणत्वरूपसँ प्रसिद्ध हैं। नष्ट हुआ कारणकार्यका जनक देखा नहीं और तुम्हारे मतमें उत्तरोत्पादे नाम कार्योत्पत्तिकालमें पूर्व जो कारण क्षण तिसका नाश माना है यातें हेतु अधीनभी कार्योत्पत्ति संभवे नहीं। इति ॥ २० ॥

हेतुविना उत्पत्ति माने दोष कहेंहैं ।

असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॥ २१ ॥

असति । प्रतिज्ञोपरोधः । यौगपद्यं । अन्यथा । इति । प० ॥

अर्थ—असति नाम हेतुविना कार्यउत्पत्ति अंगीकार कियेसँ । पूर्वज्ञान १, नेत्र २, आलोक ३, विषय ४, यह चार हेतु होवें तौ नीलादिज्ञानरूप कार्य उपजेहैं जा प्रतिज्ञाका उपरोध नाम बाध होवेगा और अन्यथा नाम कार्यपर्यंत कारणकी स्थिति मानें तौ यौगपद्यं नाम नाम कार्यकारणकी एककालमें स्थिति होवेगी। तिसके सिद्ध हुयेसँ क्षणकत्व प्रतिज्ञा भंग होवेगी। इति ॥ २१ ॥

अव०—बुद्धिपूर्वक नाश अबुद्धिपूर्वक नाश आकाश यह त्रय अवस्तु हैं,

निर्हेतुक है तुच्छ है, निरपाख्य है यह वैनाशिक मानें हैं तहां पहिले दोनों-
को प्रथम खंडन करें।

प्रतिसङ्ख्याऽप्रतिसङ्ख्यानिरोधाप्राप्तिर- विच्छेदात् ॥ २२ ॥

प्रतिसङ्ख्याप्रसिङ्ख्यानिरोधाप्राप्तिः । अविच्छेदात् ।

इति । प० ॥

अर्थ—प्रतिसंख्यापदसँ बुद्धिका अंगीकार है. बुद्धिपूर्वक जो नाश सो प्रतिसं-
ख्यानिरोध कहियेहै. अबुद्धिपूर्वक जो नाश सो अप्रतिसंख्यानिरोध अंगीकार
है. तिस उभय प्रकारके विनाशकी प्रवाहप्रवाहीमें अप्राप्ति नाम असंभव है.
अविच्छेदात् यह तहां हेतु है. तथाहि—उभय प्रकारका नाश प्रवाहप्रवाहीके
विच्छेदसँ कहा चाहिये. प्रवाहका विच्छेद तो चर्मप्रवाहीके विच्छेदअधीन है.
प्रवाही घटादिक क्षणिक है यातँ तिनका बुद्धिपूर्वक नाश तो संभवे नही.
और कारणरूप मृत्तिकादिक प्रतीत होवेहै यातँ अबुद्धिपूर्वकभी समूल नाश
संभवे नहीं. यातँ उभय प्रकारका निरोध संभवे नहीं. इति ॥ २२ ॥

उभयथा च दोषात् ॥ २३ ॥

उभयथा । च । दोषात् । इति । प० ॥

अर्थ—किंच क्षणिकर्म स्थिरत्वभ्राति तुमने अविद्या मानी है सो सम्यक्
ज्ञानसँ नाश होवेहै वा स्वतः नाश होवे है ? ज्ञानसँ नाश मानें तो निर्हेतुक
नाश कथन असंगत होवेगा. स्वतः नाश मानें तौ ज्ञानका उपदेश अनर्थक
होवेगा. जाविध उभयथा नाम दोषही प्रकारसँ दोष होनेसँ सुगत (बुद्ध)
मत असंगत है. इति ॥ २३ ॥

आकाशे चाविशेषात् ॥ २४ ॥

आकाशे । च । अविशेषात् । इति । प० ॥

अर्थ—‘आत्मन आकाशः सम्भूतः’ इत्यादिक धृतिसँ और शब्द-
गुणत्वर्म आकाशे नाम आकाशर्मभी भूमिआदिकोंके अविशेष नाम तुल्यव-
स्तुज्ञान होवेहै; यातँ आकाश निरपाख्य अर्थात् अभावरूप नहीं. इति ॥ २४ ॥
विं. च.

अनुस्मृतेश्च ॥ २५ ॥

अनुस्मृतेः । च । इति । प० ॥

अर्थ—अनुभवसँ अनु नाम पीछे उपजे जो ज्ञान सो अनुस्मृति अंगीकार है, तुमने अनुभवकर्ताको क्षणिक माना है, अपरके अनुभवसँ अपरका स्मरण होवे नहीं; यातँ 'अनुस्मृतेः' नाम आत्माका स्मरण होनेसँ अनुभवकर्ताको क्षणिक कहना संभवे नहीं. इति ॥ २५ ॥

नासतोऽदृष्टत्वात् ॥ २६ ॥

न । असतः । अदृष्टत्वात् । इति । प० ॥

अर्थ—तुमने स्वग्रंथमें साक्षात् अभावसँ भावकी उत्पत्ति मानी है, निरुपाख्य जे नरविपाणादि तिनसँ भावकी उत्पत्ति देखी नहीं यातँ असतः नाम अभावसँ कार्योत्पत्ति युक्त नहीं. 'अदृष्टत्वात्' नाम लोकमें अभावसँ भाव उपजा कहुँ देखा नहीं यातँ सुगतमत असंगत है. इति ॥ २६ ॥

उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ॥ २७ ॥

उदासीनानां । अपि । च । एवं । सिद्धिः । इति । प० ॥

अर्थ—एवं नाम अभावसँ भावकी उत्पत्ति अंगीकार कियेसँ तत् तत् कार्यके साधन जे कृप्यादि तिनको त्यागके स्व स्व गेहमें 'उदासीनानां' नाम जे स्थित हैं तिनको स्वस्ववांछित कार्यकी सिद्धि नाम प्राप्ति होनी चाहिये. यातँ भ्रांतिमूलक वैभाषिक सौत्रांतिकके इस वाह्य अर्थवादसँ समन्वयका विरोध नहीं. इति सिद्धम् ॥ २७ ॥

अव०—आगे विज्ञानवादीका खण्डन करेहैं। यह तिसका मत है। विज्ञानविना अर्थात् बुद्धिविना वाह्य पदार्थ कोई नहीं यह तिसका सिद्धांत उत्तर आधिकरणका विषय है. सो प्रमाणमूल है, वा भ्रांतिमूल है, यह तहां संदेह है. प्रमाणमूल है यह तहां पूर्वपक्ष है. तथाहि—नीलादि विज्ञानस्वरूपसे सर्व पदार्थोंका तुल्यत्व है यातँ विज्ञानको नीलादिज्ञानत्वकी सिद्धिके अर्थ वाह्य अर्थवादीकोभी नीलादिआकारत्व अंगीकार किया चाहिये, ताके मानेसँ ज्ञाननिष्ठ जो नीलादि-आकारत्व तिससँ सर्व व्यवहारसिद्धि संभवे हैं. वाह्य नीलादिक मानने अनर्थक हैं. सो विज्ञान स्वप्रकाश है क्षणिक है साकार है यातँ निराकार विज्ञानरूप ब्रह्मसँ उत्पत्तिकथन असंगत है. इति । इसमें यह सूत्रकारका सिद्धांत है.

नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥

न । अभावः । उपलब्धेः । इति । प० ॥

अर्थ—यह घट है यह पट है इत्यादि असंभवसं सिद्ध जो विज्ञान तासं भिन्न पदार्थकी उपलब्धि नाम प्रतीति होवे है यातें विज्ञानसं भिन्न पदार्थका अभाव कहना संभवे नहीं, बाह्यविषय विना ज्ञानमें विषयाकारताकथन असंगत है, यातें बाह्यपदार्थोंके विद्यमान होनेसे ज्ञानको साकारता सिद्ध होवे नहीं, और ज्ञान क्षणिकभी नहीं ॥ २८ ॥

अव०—ननु—जाग्रतअवस्थामें उपजे जे ज्ञान ते निरालम्ब हैं अर्थात् निर्विषय हैं- ज्ञान होनेसे स्वप्न गंधर्वनगरादिज्ञानवत् जा अनुमानसं ज्ञान निर्विषय सिद्ध होवेहैं, जा शंकासं कहेहैं ।

वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत् ॥ २९ ॥

वैधर्म्यात् । च । न । स्वप्नादिवत् । इति । प० ॥

अर्थ—स्वप्नज्ञानमें बाधित विषयत्व है जाग्रतज्ञानमें अबाधित विषयत्व है यातें दोनो ज्ञानोंको 'वैधर्म्यात्' नाम विरुद्धधर्मवान् होनेसं स्वप्नादिदृष्टांतसं जाग्रतज्ञानको निर्विषय कहना संभवे नहीं, चकारपदसं दृष्टांतमें अनुमानविषे साध्याभाव बाधन किया है- स्वप्नमेंभी प्रातिभासिक विषय है ॥ २९ ॥

अव०—किंच बाह्य पदार्थ नहीं मानें तौ 'घटज्ञानं' 'पटज्ञानं' इत्यादि ज्ञानमें विचित्रता नहीं सिद्ध होवेगी; जो पूर्व पूर्व अनादि विचित्र वासनासं विचित्रता मानें तौ बाह्य पदार्थ कोई माना नहीं, यातें वासना सिद्ध होवे नहीं- यह सूत्रकार कहे हैं-

न भावोऽनुपलब्धेः ॥ ३० ॥

न । भावः । अनुपलब्धेः । इति । प० ॥

अर्थ—तुम्हारे मतमें बाह्य पदार्थकी अनुपलब्धि है अर्थात् बाह्यज्ञान हुआ नहीं यातें वासनाका संभव नहीं- इति ॥ ३० ॥

अव०—किंच संस्काररूप वासनाका तुम्हारे मतमें आश्रयभी कोई नहीं- जो 'अहं' जा आलयविज्ञानको आश्रय कहे तौ तिसका निषेध करेहै-

क्षणिकत्वात् ॥ ३१ ॥

एक पद है।

अर्थ—आलयविज्ञान क्षणिक है यातें ताको वासनाका आश्रय कहना संभवे नहीं. आश्रय मानेंगे तौ सो क्षणिक नहीं सिद्ध होवेगा. इति ॥ ३१ ॥

सर्वथाऽनुपपत्तेश्च ॥ ३२ ॥

सर्वथा । अनुपपत्तेः । च । इति । प० ॥

अर्थ—‘दर्शनं’ इस शब्दके स्थानमें पश्यना यह अपशब्द उच्चारण करेंहैं औ ‘स्थानं’ इस शब्दके स्थानमें तिष्ठना यह अपशब्द उच्चारण करेंहैं यातें सर्वथा नाम ग्रंथसँ और अर्थसँ यह वेदवाह्य मत असंगत है. ‘अनुपपत्तेः’ नाम असंगत होनेसे मोक्षार्थी पुरुषोंको यह सौंगतमत आदर करनेयोग्य नहीं. इति ॥ ३२ ॥

अच०—उक्त तीनों मतोंके अनुसार शून्यमत भी असंगत है. शून्य किसी प्रमाणसे सिद्ध होवे नहीं. सर्व प्रमाणोंकरके बाधित है, यातें ताके खंडनमें सूत्रकारने पृथक् प्रयत्न नहीं किया. इति। पूर्व मुक्तकच्छ बौद्धनके मतको खंडन करके आगे विवसन जैनोंके मतको खंडन करेंहैं. यह जैनोंका सिद्धांत है। स्यादस्ति १, स्यान्नास्ति २, स्यादस्ति नास्ति च ३, स्यादवक्तव्यः ४, स्यादस्ति चावक्तव्यः ५, स्यान्नास्ति चावक्तव्यः ६, स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यः ७, जाविध अस्तित्व नास्तित्व आदिक विरुद्धधर्मोंको ग्रहण करके सर्व पदार्थोंमें उक्त सप्तभंगनयको जोड़तेहुये विवसन पदार्थमात्रको अनेकरूप कथन करेंहैं. ग्रहणादिव्यवहारकी सिद्धिके लिये उक्तविधि नहीं माननेसँ यह दोष करेंहैं, वस्तुका एकरूप अंगिकार कियेसँ वस्तु ही यह कहा चाहिये, वा वस्तु नहीं यह कहा चाहिये, प्राप्यरूपसँ भी वस्तुका सत्य है यातें वस्तुप्राप्तिके अर्थ ग्रहणादि व्यवहार नहीं सिद्ध होवेगा, यातें एकरूपता संभवे नहीं. किंतु घटादिरूपसँही प्राप्यादि रूपसँ नहीं जाविधही माना चाहिये; यातें वस्तुको अनेकरूपता संभवे है. सप्तभंगनयका यह अर्थ है. अस्तित्वादि सप्तकोटिविधे एक वस्तुमें जो विरोधका भंग सो सप्तभंग कहिये. तहां जो नय नाम युक्ति सो सप्तभंगनय कहिये. तिनका यह अक्षरार्थ यह है किम प्रकार है १, किसप्रकार नहीं २, किमप्रकार है और नहीं ३, किस प्रकार कहा नहीं जाय ४, किम प्रकार है तो कहा

नहीं जाय ५, किस प्रकार है नहीं और कहाभी नहीं जाय ६, किस प्रकार है भी नहीं भी कहा भी नहीं जाय ७, इति । है कहनेकी अभिलाषासं प्रथम भंग प्रवृत्त होवेहै, निषेधकी इच्छासं द्वितीय २, क्रमसं उभय इच्छासं तृतीय ३, एककालमें उभय इच्छासं चतुर्थ ४, प्रथम चतुर्थकी क्रमसं इच्छासं पंचम ५, द्वितीय चतुर्थकी इच्छासं षष्ठ ६, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थकी इच्छासं सप्तम, भंग प्रवृत्त होवे है. इसप्रकार एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्वादि विरुद्ध धर्मोंको ग्रहण करके उक्त नयकी योजना करनी चाहिये. यातें वस्तुमात्रको सत्यअसत्त्वादि अनेक विरुद्ध धर्मवान् होनेसं एकरूप ब्रह्ममें समन्वय असंगत है. यह उक्त पक्षमें दोष कहेहैं.

नैकस्मिन्नसम्भवात् ॥ ३३ ॥

न । एकस्मिन् । असम्भवात् । इति । ५० ॥

अर्थ—एकस्मिन् नाम परमार्थरूप एक वस्तुमें असंभवात् नाम विरुद्धधर्मनका असंभव है यातें एक वस्तुको अनेकरूपता संभवे नहीं । जो है सो है ही नास्ति नहीं । जो नित्य है । सो नित्यही है अनित्य नहीं. यथा प्रत्यग् आत्मा है प्रपंचभी तुम्हारे मतमें सत्स्वरूप है. यातें ताको अनेकरूप कहना संभवे नहीं. और हमारे मतमें प्रपंच सत्य नहीं और असत्यभी नहीं किंतु अनिर्वचनीय है. यातें सर्व व्यवहारसिद्धि संभवे है. इति ॥ ३३ ॥

विवसन आत्माको देहजितना मानेहैं ताका निषेध करेंहैं—

एवं चाऽत्माऽकात्स्न्यं ॥ ३४ ॥

एवं । च । आत्मा । अकात्स्न्यं । इति । ५० ॥

अर्थ—यथा तुम्हारे मतमें एकविवे विरुद्ध धर्मनका असंभवरूप दोष है, एवं नाम तथाहि आत्माको 'अकात्स्न्यं' नाम परिच्छिन्नत्वरूप अपरदोष है. जीवको देहपरिमाणवान् माना है यातें परिच्छिन्न होनेसं घटादिवत् आत्मा अनित्य सिद्ध होवेगा, और गजादिशरीरमें संपूर्ण प्रवेशभी नहीं होवेगा. इति ॥ ३४ ॥

अथ०—जो सावयव मानके आत्माको बहने घटनेवाला मानके दोषका निषेध करें तां सोभी संभवे नहीं, यह कहेहैं.

१ जीव है. २ जीव जरमें नहीं. ३ जीव शरीरकालमें प्रसिद्ध है शरीरकालमें नहीं. ४ जीव है कहा नहीं जाय.

न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३५ ॥

न । च । पर्यायात् । अपि । अविरोधः । विकारादिभ्यः । इति । प० ।

अर्थ—पर्यायात् नाम अवयवत्वके गमनागमनसँ भी आत्मासँ उक्त दोषक अविरोध संभवे नहीं. आत्माको सावयव मानके बढ़ने घटनेवाला माननेसँ आत्मा विकारी होवेगा, अनित्य होवेगा, इत्यादिक दोष प्राप्त होवेंगे यातँ उक्त दोष दूर होवे नहीं. इति ॥ ३५ ॥

अन्त्यावस्थितेश्चोभयनित्यत्वादविशेषः ॥ ३६ ॥

अन्त्यावस्थितेः । च । उभयनित्यत्वात् । अविशेषः । इति । प० ।

अर्थ—मुक्त आत्माका जो परिमाण सो नित्य है यह जैनसिद्धांत है सो असंगत है. तथाहि—यथा अंत्यपरिमाणसँ परिमाणत्व है यातँ आद्य और मध्य परिमाणसँ परिमाणत्व है, यातँ आद्य मध्य परिमाणकोभी नित्य होना चाहिये यातँ तीनोंही तुल्य सिद्ध होवेंगे. अक्षरयोजना यह है कि अंत्य नाम अंतके परिमाणकी नित्यरूपसँ 'अवस्थितेः' नाम स्थिति होनेसँ उभय नाम प्रथम मध्यपरिमाणका भी नित्यत्व सिद्ध होवेगा. यातँ अविशेष नाम तीनोंही तुल्य सिद्ध होवेंगे. उक्तविधिसँ इस मतकोभी असंगत होनेसँ इनसँभी समन्वयका विरोध नहीं. इति सिद्धम् ॥ ३६ ॥

अव०—ईश्वरवादीजे सांख्य, पतंजलि, शैव, कणमुक् आदिक, ते ईश्वरको केवल निमित्तकारण मानेहँ उपादान नहीं माने हँ. आगे तिनके मतका खंडन करें हँ ।

पत्युरसामञ्जस्यात् ॥ ३७ ॥

पत्युः । असामञ्जस्यात् । इति । प० ॥

अर्थ—ईश्वरको जगद्रचनासँ प्रवृत्त होनेसँ 'असामञ्जस्यात्' नाम वैपम्य नैर्घृण्यादि दोष प्राप्त होवेंगे यातँ 'पत्युः' नाम परमेश्वरको निमित्तमात्र कहना संभवे नहीं. ॥ ३७ ॥

सम्बन्धानुपपत्तेश्च ॥ ३८ ॥

सम्बन्धानुपपत्तेः । च । इति । प० ॥

अर्थ—प्रेरणायोग्य जे प्रधानादिक तिनसँ ईश्वरका संबंध कहा चाहिये, संबंधिना प्रेरकता संभवे नहीं. ईश्वर निरवयव है ताका प्रधानादिकोंसँ संबंध

संभवे नहीं यातें संबंधके नहीं बननेसें निमित्तमात्र कारण कहना संभवे नहीं. इति ॥ ३८ ॥

अधिष्ठानानुपपत्तेश्च ॥ ३९ ॥

अधिष्ठानानुपपत्तेः । च । इति । प० ॥

अर्थ—प्रधानादिक नीरूप है यातें तिन विषयक ईश्वरको अधिष्ठान नाम प्रेरणा संभवे नहीं, यातेंभी निमित्तमात्रकथन असंगत है. इति ॥ ३९ ॥

करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥

करणवत् । चेत् । न । भोगादिभ्यः । इति । प० ॥

अर्थ—ननु प्रत्यक्षरूप करण नाम इंद्रियोंका जीव यथा प्रेरक है तथा अप्रत्यक्षरूप प्रधानादिकोंका ईश्वरको प्रेरक मानना संभवे है. यह शंका करें तो भोगादि दोषनसें संभवे नहीं. जीव इंद्रियोंको स्वभोगार्थ प्रेरणा करे है तत् दृष्टांतसें ईश्वरको प्रेरक मानेसें ईश्वरकोभी भोगादिप्राप्तिरूप दोष होवेगा. इति ॥ ४० ॥

अन्तवत्वमसर्वज्ञता वा ॥ ४१ ॥

अन्तवत्वम् । असर्वज्ञता । वा । इति । प० ॥

अर्थ—किंच प्रधान, जीव, ईश्वर, इन तीनोंकी जो संख्या और परिमाण तिन दोनोंको ईश्वर जानेहै वा नहीं? प्रथम पक्ष मानें तो संख्यापरिमाणवान् होनेसें तीनोंही घटादिकोंकी नाई विनाशी होंगे. दूसरे पक्षमें ईश्वरको असर्वज्ञता सिद्ध होवेगी, यातें अभिन्न निमित्त उपादान ब्रह्ममें जो समन्वय ताका उक्त मतनसें विरोध नहीं. इति ॥ ४१ ॥

अब०—आगे भागवतमतखंडन करें हैं । भागवतमतमें ईश्वरको अभिन्ननिमित्त उपादान मानेहैं परंतु जीवकी उत्पत्ति मानेहैं. तिस अंशमें भागवतमत श्रान्तिमूल है वा प्रमाणमूल है यह तहां संदेह है? पूर्वपक्षमें प्रमाणमूल है. तथाहियामुदेव परमात्मा जगतका उपादान और निमित्तकारण है. तिस यामुदेवसें संकर्षण नाम जीव उपजे हैं, तसिं प्रसुप्त नाम मन उपजे हैं, मनसें अनिरुद्ध नाम अहंकार उपजे हैं, यातें जीवाभिन्न ब्रह्मसें जगतकी उत्पत्तिका बोधक समन्वय असंगत है इति. तहां यह सिद्धांत है.

उत्पत्त्यसम्भवात् ॥ ४२ ॥

उत्पत्त्यसम्भवात् । इति । प० ॥

अर्थ—वासुदेवपरमात्मासँ जीवकी उत्पत्तिका असंभव है यातँ यह मत असाधु है. जो उत्पत्तिही अंगीकार करेंगे तौ जीव अनित्य सिद्ध होवेगा यातँ भगवत्प्राप्तिरूप मुक्ति किसकी होवेगी. इति ॥ ४२ ॥

न च कर्तुः करणम् ॥ ४३ ॥

न । च । कर्तुः । करणम् । इति । प० ॥

अर्थ—लोकमें कर्ता जे देवदत्तादिक तिनसँ कुठारादिक करणोंकी उत्पत्ति देखी नहीं यातँ जीव कर्तासे मनरूप करण उपजे हैं. यह कथन युक्त नहीं यातँभी यह मत असंगत है. इति ॥ ४३ ॥

अव०—ननु संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध. यह त्रय जीव नहीं किंतु वासुदेवत् विज्ञानस्वरूप ईश्वर हैं जा शंकासँ कहे हैं.

विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ ४४ ॥

विज्ञानादिभावे । वा । तदप्रतिषेधः । इति । प० ॥

अर्थ—संकर्षणादित्रयको वासुदेववत् विज्ञानादि नाम ऐश्वरादि निर्दोषभाव नाम स्वरूप मानेसँ तत् नाम उत्पत्तिके असंभवरूप दोषका अप्रतिषेध नाम निषेध हौवे नहीं. तथाहि—चारोंको ईश्वर माननेका कुछ प्रयोजन प्रतीत हौवे नहीं. एक ईश्वरसँही कार्यसिद्धि संभवे है. और 'भगवान् एव एको वासुदेवः परमार्थतत्त्वम्' इस तुम्हारे सिद्धांतकीभी हानि होवेगी. जो संकर्षणादित्रयको वासुदेवके तुल्य मानके वासुदेवसँ तिनकी उत्पत्ति मानें तौ उत्पत्ति असंभव दोष प्राप्त होवेगा. क्योंकि वासुदेवसुल्यनकी वासुदेवसँ उत्पत्ति संभवे नहीं. इति ॥ ४४ ॥

विप्रतिषेधाच्च ॥ ४५ ॥

विप्रतिषेधात् । च । इति । प० ॥

अर्थ—कहँ ज्ञान, ईश्वरी शक्ति, बल, वीर्य, तेज, यह वासुदेवके गुण कहे हैं, और कहँ उक्त गुणोंका गुणीसँ अभेद कहा है यातँ परस्पर विप्रतिषेधात्

नाम निषेध करनेसे यह भागवतमतभी असंगत है. यातें विवादरहित अद्वितीय ब्रह्ममें सर्व वेदांतका समन्वय है, इति सिद्धम् ॥ ४५ ॥

इति शारीरकसूत्रभावप्रकाशिकाभाषाटीकायां द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ।

अथ तृतीयपादप्रारम्भः ।

इस पादमें श्रुतिविरोधपरिहार करेहैं—इस पादके त्रय अधिक पंचाशत् सूत्र हैं. तहां १७ अधिकरण हैं ३६ गुण हैं । तथाहि—

सूत्रसङ्ख्या ।	अधिकरण ।	गुण ।	प्रसङ्ग.
१	अ०	+	आकाशउत्पत्तिनिषेध.
२	+	गु०	पूर्वपक्ष.
३	+	गु०	आ० उ० नि०
४	+	गु०	आ०
५	+	गु०	आ०
६	+	गु०	आकाशउत्पत्तिसिद्धि.
७	+	गु०	आ०
८	अ०	+	वायुउ०
९	अ०	+	ब्रह्मउत्पत्तिनिषेध.
१०	अ०	+	तेजउ०
११	अ०	+	जलउ०
१२	अ०	+	पृथिवीउ०
१३	अ०	+	भूतब्रह्मअधीन
१४	अ०	+	भूतलयवि०
१५	अ०	+	इंद्रियउत्पत्तिविचार.
१६	अ०	+	जीवउत्पत्तिनिषेध.
१७	अ०	+	जी०
१८	अ०	+	जीवस्वप्रकाश.
१९	अ०	+	जीवअणुपूर्वपक्ष.
२०	+	गु०	जी०

२१	+	गु०	जी०
२२	+	गु०	जी०
२३	+	गु०	जी०
२४	+	गु०	जी०
२५	+	गु०	जी०
२६	+	गु०	जी०
२७	+	गु०	जी०
२८	+	गु०	जी०
२९	+	गु०	जीवमहान् सिद्धांत.
३०	+	गु०	जीववृद्धिसंयोगविचार.
३१	+	गु०	जी०
३२	+	गु०	अंतःकरणसिद्धि.
३३	अ०	+	आत्माकर्ता सिद्धि.
३४	+	गु०	आ०
३५	+	गु०	आ०
३६	+	गु०	आ०
३७	+	गु०	आ०
३८	+	गु०	आ०
३९	+	गु०	आ०
४०	अ०	+	कर्तृत्वउपाधिक सिद्धि.
४१	अ०	+	कर्तृईश्वरअधीन.
४२	+	गु०	ईश्वर प्रेरक.
४३	अ०	+	ईश्वरअंदा जीव.
४४	+	गु०	ई०
४५	+	गु०	ई०
४६	+	गु०	ईश्वरमं सुखादिनिषेध.
४७	+	गु०	ई०
४८	+	गु०	देहसंबंधानुज्ञापरिहार.
४९	+	गु०	कर्मसंकरनिषेध.
५०	+	गु०	ईश्वरआभास जीव.

५१	+	गु०	न्यायमतखण्डन-
५२	+	गु०	न्या०
५३	+	गु०	न्या०
	<u>+</u>	<u>गु०</u>	
	१७	३६	

इति । तहां यह प्रथम सूत्र है ।

न वियदश्रुतेः ॥ १ ॥

न । वियत् । अश्रुतेः । इति । प० ॥

अर्थ—आकाशकी उत्पत्तिमें संदेह हुये यह पूर्वपक्ष है । 'तत् तेजोऽसृ-
जत्' जा छांदोग्यश्रुतिमें तेजादिकोंकी उत्पत्ति सुनी है, आकाशकी नहीं,
और 'आत्मन आकाशः संभूतः' जा तैत्तिरीयश्रुतिमें आकाशकी उत्पत्ति
सुनी है, यातें वाक्यनका परस्पर विरोध है. इति । अध्यायसमाप्तिपर्यंत पर-
स्पर विरोधसं वाक्यनकी अप्रमाणता पूर्वपक्षका फल है और विरोधके असं-
भवसं प्रमाणता सिद्धांतका फल है. एकदेशमतसं समाधान करेंहें. 'अश्रुतेः'
नाम आकाशउत्पत्तिबोधक वाक्य सुना नहीं यातें वियत् नाम आकाश उ-
पज्ञे नहीं. 'आत्मनः' यह श्रुति गौण है. यातें आकाशकी उत्पत्ति नहीं
होनेसं वाक्यविरोध नहीं. इति ॥ १ ॥

शंकासूत्र ।

अस्ति तु ॥ २ ॥

अस्ति । तु । इति । प० ॥

अर्थ—तु पद अपरपक्षके ग्रहणार्थ है. तैत्तिरीयमें आकाशउत्पत्तिबोधक
श्रुति अस्ति नाम है. यातें विरोध दूर होये नहीं. इति ॥ २ ॥

एकदेशी स्वाभिप्रायको कहें हैं. ।

गौण्यसम्भवात् ॥ ३ ॥

गौणी । असम्भवात् । इति । प० ॥

अर्थ—आकाशकी उत्पत्तिमें समवायि आदिक कारणोंका 'असम्भवात्'
नाम अभाव है और विमु होनेसं नित्यभी है यातें कारणके असंभवसं आका-
शजन्मबोधक श्रुति मुख्य नहीं, किंतु गौणी है. इति ॥ ३ ॥

शब्दाच्च ॥ ४ ॥

शब्दात् । च । इति । प० ॥

अर्थ—‘वायुश्चान्तरिक्षं चैतदमृतम्’ जा श्रुतिविषे अमृतपदसँ आकाश ग्रहण किया है, यातँ ‘शब्दात्’ नाम अमृत शब्दसँभी आकाशका जन्म संभवे नहीं. इति ॥ ४ ॥

अव०—ननु एक संभूत शब्दकोही आकाशमें गौण मानना और तेजादिकोंमें मुख्य मानना असंगत है. जा शंकासँ कहे हैं.

स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत् ॥ ५ ॥

स्यात् । च । एकस्य । ब्रह्मशब्दवत् । इति । प० ॥

अर्थ—यथा भृगुवह्नीके द्वितीय अनुवाकके आरंभमें ‘अन्नं ब्रह्म इति व्याजानात्’ यह कहकर पष्ठ अनुवाकके आरंभमें । ‘आनन्दो ब्रह्म इति व्याजानात्’ यह कहा है. इसमें अन्नके साथ ब्रह्म शब्द गौण है, आनन्दके साथ मुख्य है. तथा ब्रह्मशब्दवत् आकाशके साथ संभूत शब्द गौण है. तेजादिकोंके साथ मुख्य है. यातँ ब्रह्मशब्दवत् ‘एकस्य’ नाम एकही संभूत शब्दको गौणता व मुख्यता ‘स्यात्’ नाम संभवे है. इति ॥ ५ ॥

अव०—सूत्रकार स्वसिद्धांत कहेहैं.

प्रतिज्ञाऽहानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ॥ ६ ॥

प्रतिज्ञाऽहानिः । अव्यतिरेकात् । शब्देभ्यः । इति । प० ॥

अर्थ—ज्ञेय ब्रह्मसँ सर्व जगत् ‘अव्यतिरेकात्’ नाम अभिन्न हैं यातँ अभेद-ज्ञानसँ सर्वके ज्ञानप्रतिज्ञाकी अहानि होवे हैं अर्थात् प्रतिज्ञा समीचीन होवेहैं. जो ब्रह्मसँ भिन्न मानके आकाशको नित्य मानेंगे तौ प्रतिज्ञाकी हानि होवेगी यातँ प्रतिज्ञासिद्धिअर्थ आकाशका जन्म अवश्य माना चाहिये. किंच ‘शब्देभ्यः’ नाम कार्यकारण अभेदबोधक शब्दोंसँभी प्रतिज्ञा सिद्ध होवेहैं. ‘प्रेतदात्म्यमिदं सर्वं’ इत्यादिक शब्द सर्व कार्यको ब्रह्माभिन्न कहेहैं. आकाशको नित्य मानेसँ उक्त शब्दोंका बाध होवेगा. उत्पत्ति मानेमें जो विरोध कहा है; ताका यह परिहार है. छांदोग्यमें उत्पत्तिमात्र मुनी हैं. अमुक प्रथम उपजा यह सुना नहीं. और तैत्तिरीयमें ‘आत्मन आकाशः

सम्भूतः । आकाशात् वायुर्वायोरग्निः' जाविध तेजको तृतीयजगा मुना है, यातें आकाश वायुको रचके तेजको रचा जाविध तैत्तिरीयअनुसार छांदोग्यमें अंगीकार कियेसँ उभय वाक्यनका विरोध नहीं. इति ॥ ६ ॥

अच०—उत्पत्तिकी सामग्री ब्रह्म है यह कहेहैं.

यावद्विकारं तु विभागो लोकवत् ॥ ७ ॥

यावत् । विकारं । तु । विभागः । लोकवत् । इति । प० ॥

अर्थ—तु शंकानिपेधार्थक है. 'यावत् विकारं' नाम जितना कार्यमात्र है सो 'विभागं' नाम भेदवान् है. अविकाररूप ब्रह्ममें भेद प्रतीत होवे नहीं. लोकमें घटादिक विकारकोही भेदवान् देखाहै. तहां यह अनुमान है । आकाश, दिशा, काल, मन, परमाणु, यह पराधीनसत्तावान् हैं । स्वसमान सत्ताको विभागवान् होनेसँ घटशरावादिवत् आकाशमें जो अमृत शब्द कहा या सो 'अमृतादोषा' जा अमृत शब्दवत् सापेक्षक है, यातें आकाश ब्रह्मका कार्य है. इति ॥ ७ ॥

एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ ८ ॥

एतेन । मातरिश्वा । व्याख्यातः । इति । प० ॥

अर्थ—एतेन नाम आकाशका जन्म साधनेसँ 'मातरिश्वा' नाम वायुभी आकाशावच्छिन्न ब्रह्मसँ उपजेहै यहभी 'व्याख्यातः' नाम कहदिया. वायु-कोभी नित्य मानेसँ प्रतिज्ञाहानि होवेगी. इति ॥ ८ ॥

असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥ ९ ॥

असम्भवः । तु । सतः । अनुपपत्तेः । इति । प० ॥

अर्थ—ननु 'त्वं जातोऽसि विश्वतोऽमुषः' जा श्वेताश्वतरकी ब्रह्मजन्म-बोधक श्रुतिका ब्रह्मनित्यत्वबोधक श्रुतिसँ विरोध है, यातें विरोधनिपेधार्थ ब्रह्मका जन्म अंगीकार किया चाहिये जा शंकामें यह सिद्धांत है । 'सतः' नाम सत्स्वरूप ब्रह्मकी उत्पत्तिका असंभव है. सत् सामान्यसँ सत् सामान्यकी तो उत्पत्ति 'अनुपपत्तेः' नाम बने नहीं । विशेष जे घटादिक ते सामान्यजन्य है यातें तिनसँभी मतुसामान्यकी उत्पत्ति संभरे नहीं. और ब्रह्मको विशेष मानके ताका जन्म माने ताँ जो ताका जनक सामान्य है तिसको हम ब्रह्म

मानेंगे और जन्मबोधक जो श्रुति कही है सो औपाधिक जन्म कहेहैं, यातें श्रुति विरोधभी नहीं. इति ॥ ९ ॥

तेजोऽतस्तथाह्याह ॥ १० ॥

तेजः । अतः । तथाहि । आह । इति । ५० ॥

अर्थ—‘तत्तेजोऽसृजत’ जा छांदोग्यश्रुतिमें तेजको ब्रह्मजन्य मुना है ‘वायोरग्निः’ जा तैत्तिरीयमें तेजको वायुजन्य मुना है. इन वाक्यनके विरोधका संदेह हुयेसँ पूर्वपक्षमें श्रुतिके बलसँ विरोध अंगीकार कियेसे यह सिद्धांत है. अतः नाम वायुसँ तेज उपजे हैं. तथाहि नाम वायुजन्मत्व ‘वायो-रग्निः’ जा श्रुति आह नाम कहे है. यथा वायुरूपको प्राप्त ब्रह्मसँ तेजका जन्म छांदोग्यमें कहा है तथा ‘वायोरग्निः’ इस वाक्यमेंभी वायुउपहित ब्रह्मसँ अग्नि उपजे है यह अंगीकार है, यातें उभयवाक्यनका विरोध नहीं. इति ॥ १० ॥

आपः ॥ ११ ॥

आपः । इति । ५० ॥

अर्थ—‘तदपोऽसृजत’ जा छांदोग्यवाक्यमें जलको ब्रह्मजन्म मुना है और ‘अग्नेरापः’ जा तैत्तिरीय श्रुतिमें अग्निजन्य जल मुना है, यातें उभयवाक्य-नके विरोधका संदेह हुयेसे पूर्वपक्षमें विरोध मानेसँ यह उत्तर है. पहला सूत्र इसमें मिलाकर यह अक्षरार्थ है. ‘अतः’ नाम तेजसँ ‘आपः’ नाम जल उपजेहैं. तथाहि नाम तेजजन्यत्व जलको ‘अग्नेरापः’ यह श्रुति आह नाम कहे है. श्रुतिअविरोध पूर्ववत् जानना चाहिये. इति ॥ ११ ॥

पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ १२ ॥

एकपदम् । इति । ५० ॥

अर्थ—‘ता अन्नं असृजन्त’ जा छांदोग्यवाक्यमें जलसँ अन्नकी उत्पत्तिमुनी है. इसमें अन्नशब्दमें मीढादिका ग्रहण है वा पृथिवीका ग्रहण है ? यह संदेह है. और ‘पृथिव्या ओषधय ओषधीभ्योऽन्नं’ जा तैत्तिरीयश्रुतिमें अन्नको पृथिवीजन्य मुना है, यातें उभयवाक्यनका विरोध है. तहां यह उत्तर है । अधिकार १, रूप २, शब्दान्तर ३, जा त्रय हेतुमें अन्नशब्दमें छांदोग्य श्रुतिमें

पृथिवीका अंगीकार है. ब्रह्मादिकोंका ग्रहण नहीं । 'तत्तेजोऽसृजत' यह महाभूतउत्पत्तिका अधिकार है. तहांही 'यत् कृत्स्नं तदन्नस्य' जा श्रुति कृत्स्नरूप अन्न शब्दका वाच्य जो पृथिवी ताका बोधक है. और 'तद्यदपां शर आसीत् तत्समहन्यत सा पृथिवी अभवत्' जा बृहदारण्यक-श्रुतिमें जलजन्य जो पृथिवी ताका बोधक शर यह शब्दांतर है. श्रुतिअर्थ 'तत्' नाम तत्र उत्पत्तिकालमें 'यत् अपां' नाम जलोंका शर नाम कीच 'आसीत्' नाम हुआ सो 'समहन्यत' नाम संघातरूप हुआ. 'सा' नाम सो कठिनाकार परिणाम पृथिवी हुई. इति । जा उक्त त्रय कारणोंसे ब्रह्मादिक अन्नका जल उपादान नहीं. किंतु पृथिवी उपादान है. यातें श्रुतिविरोध नहीं. इति ॥ १२ ॥

अव०—पूर्व महाभूतउत्पत्तिबोधक श्रुतिवचनोंके विरोधका परिहार किया है. आगे महाभूतअभिमानी देवताओंका विचार करें हैं. ते देवता स्वतंत्र भौतिक कार्य उत्पत्तिमें प्रवृत्त होवें हैं वा ईश्वरअधीन हुये प्रवृत्त होवें हैं? यह उत्तरअधिकारणमें संदेह है । 'आकाशात्' इत्यादिक श्रुतिमें स्वस्वकार्य-उत्पत्तिमें देवतानको स्वतंत्रता भुनी है, यातें ब्रह्मसे उत्पत्तिबोधक वाक्यनका भूतनसे उत्पत्तिबोधक वाक्यनसे विरोध है. यह पूर्वपक्ष है । तहां यह उत्तर-सूत्र है.

तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्सः ॥ १३ ॥

तदभिध्यानात् । एव । तु । तल्लिङ्गात् । सः । इति । ५० ॥

अर्थः—'सः' नाम परमात्मा 'तत्' । नाम तत्तत्कार्यविषयक जो ज्ञानरूप ध्यान तिसकरके सर्वकार्यको रचेहै । 'पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद ॥ यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयति एष ते आत्मा अन्तर्याम्यमृतः ।' इत्यादि बृहदारण्यकश्रुतिमें 'तत्' नाम परमात्माकाही प्रेरणारूप लिंग प्रतीत होवेहै । जो पृथिवीके अंतर है, पृथिवी जिसका शरीर है, पृथिवी जिसको जाने नहीं, पृथिवीमें स्थित हुआ जो पृथिवीको अंतरप्रेरणा करेहै, यह तुम्हारा अमृतरूप अंतर्यामी आत्मा है. इति । श्रुतिमें 'पृथिवीमें स्थित हुआ' जा कथनसे पृथिवीअभिमानीडेवतानमें स्थित हुआ प्रेरणा करेहै. यह अंगीकार है, यातें भूताभिमानी देवनको स्वकार्यरच-नामें म्यतंत्रता नहीं. इति ॥ १३ ॥

अव०—आगे लयविचार करेहै.

विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च ॥ १४ ॥

विपर्ययेण । तु । क्रमः । अतः । उपपद्यते । च । इति । प० ॥

अर्थ०—भूतनकी उत्पत्तिका क्रम यथा श्रुतिमें कहा है तथाहि लयका क्रम है वा तासैं उलटा है? यह इसमें संदेह है. पूर्वपक्षमें जन्मअनुसार लय अंगीकार कियेसैं यह सिद्धांत है. 'अतः' नाम उत्पत्तिके क्रमसैं लयका क्रम विपर्ययेण नाम उलटा है. स्वस्वकारणमें कार्यलय होवेहै और उलटाही लय-क्रम 'उपपद्यते' नाम बनेहै. जो उत्पत्तिक्रमसैंही लयक्रम मानेंगे तौ कार्यमें कारणका नाश होवेगा, सो युक्त नहीं. ॥ १४ ॥

अव०—भूतनके उत्पत्तिक्रमसैं इंद्रियउत्पत्तिक्रमका विरोध है वा नहीं? यह उत्तर अधिकरणमें संदेह है ।

अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तल्लिङ्गादिति चेन्नाविशेषात् ॥ १५ ॥

अन्तरा । विज्ञानमनसी । क्रमेण । तल्लिङ्गात् । इति ।
चेत् । न । अविशेषात् । इति । प० ॥

अर्थ—ननु 'एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायु-
ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी' जा द्वितीयमुंडकश्रुतिका सूत्रके
'तत्तल्लिङ्ग' जा पदसैं ग्रहण है. विज्ञानपदसैं बुद्धि और इंद्रियोंका ग्रहण है.
ते इंद्रियां, बुद्धि, मन, भूत और आत्माके 'अन्तरा' नाम अन्तर हैं. अर्थात्
मध्यमें क्रमसैं उपजेहैं. 'तत्तल्लिङ्गात्' नाम उक्त श्रुतिवाक्य इसीप्रकार कहेहैं.
आत्मासैं इंद्रियां, बुद्धि, मन उपजेहैं. तिनसैं भूत उपजे हैं. इति तात्पर्य. और
'आत्मन आकाशाः सम्भूतः' जा श्रुतिमें आत्मासैं भूतनकी उत्पत्ति कहीहैं
यातें उभयवाक्यनका विरोध है. इति । उक्त पूर्वपक्षका 'अविशेषात्' जा पदसैं
निषेध करेहैं. इंद्रियां, मन, बुद्धि, यह भूतनका कार्य है; यातें भूतनकी उत्प-
त्तिके क्रमसैं इंद्रियां, बुद्धि, मन, उत्पत्तिका क्रम अविशेष है अर्थात् तुल्य है
यातें विरोध नहीं। 'एतस्मात् जायते प्राणः' यह श्रुति सर्वका आत्मासैं ज-
न्ममात्र कहेहैं. क्रम नहीं कहेहैं, यातें विरोध नहीं. इति ॥ १५ ॥

अव०—आगे जीवबोधक श्रुतिवचनोंके विरोधका परिहार करेहैं । जीवकी
उत्पत्तिबोधक श्रुतिका जीवनिवृत्त्यबोधक श्रुतिसैं विरोध है वा नहीं जा? मं-
देह है. पूर्वपक्षमें विरोध मानेसैं यह सिद्धांतसूत्र है ।

चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्व्यपदेशो भाक्तस्तद्भावभावित्वात् ॥ १६ ॥

चराचरव्यपाश्रयः । तु । स्यात् । तद्व्यपदेशः । भाक्तः ।
तद्भावभावित्वात् । इति । प० ॥

अर्थ—अमुक मरगया अमुक जन्मा यह लोकमें जो जन्ममरणका व्यपदेश नाम कथन है. सो चरअचर व्यपाश्रय है. अर्थात् स्थावर जंगम देहविषयक मुख्य है. और जीवमें 'भाक्तं' नाम गौण है. जन्ममरणका जो कथन है सो तद्भावभावित है. अर्थात् देह उत्पत्तिनाशअनुसारी है. यातें जीवमें गौण है अर्थात् औपाधिक है. यातें जीवनित्यत्वबोधक श्रुतिका जीवजन्मबोधक श्रुतिसें विरोध नहीं. इति ॥ १६ ॥

अव०—'एतस्मादात्मनः सर्वे एते आत्मनो व्युचरन्ति' जा वाक्यमें परसैं जीवकी उत्पत्ति कही है. और 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' जा मुं-डकश्रुतिमें 'अनेन जीवेनात्मना प्राविश्य' जा छांदोग्यमें अविकारी ब्रह्मका जीवरूपसैं प्रवेश कहा है. इस विरोधके निषेधार्थ कहेहैं ।

नात्माश्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः ॥ १७ ॥

न । आत्मा । अश्रुतेः । नित्यत्वात् । च । ताभ्यः । इति । प० ॥

अर्थ०—आत्मा नाम जीव उपजे नहीं. उत्पत्तिका जहां जहां प्रसंग है तहां तहां 'अश्रुतेः' नाम जीवकी उत्पत्ति सुनी नहीं. उलटा 'ताभ्यः' नाम श्रुति-वाक्यनसैं जीव नित्य निश्चित है । 'जीवापेतं वाच किलेदं त्रियते न जीवो त्रियते' जा छांदोग्यवाक्यमें और 'स वा एष महानज आत्मा-अन्नादो वसुदानो विन्दते वसु य एवं वेद' जा बृहदारण्यकश्रुतिमें जीवको नित्य कहा है. पूर्व जिस श्रुतिमें जीवकी उत्पत्ति कही है तहां कार्यकारणसं-घात उपाधिनिमित्तसैं कही है. यातें उक्तवाक्यनका विरोध नहीं. इति ॥१७॥

ज्ञोऽतः एव ॥ १८ ॥

ज्ञः । अतः । एव । इति । प० ॥

अर्थ—अतः नाम उत्पत्तिरहित होनेसैं जीव'ज्ञः'नाम स्वयंप्रकाशरूप है. स्वयं-प्रकाशरूप ब्रह्मही उपाहित हुआ जीवरूप है. यातें जीवभी स्वयंप्रकाशरूप है. 'अप्र अयं पुरुषः स्वयंज्योतिः' यह श्रुतिभी जीवको स्वप्नअवस्थामें स्वयं-

प्रकाश कहेहै. यद्यपि 'पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं' इत्यादिक श्रुतिका उक्त श्रुतिसं विरोध प्रतीत होवेहै; तथापि यह श्रुति गौण स्वयंप्रकाश कहेहै; यातें विरोध नहीं. श्रुतिमें चक्षुपद द्रष्टावाचक है ॥ १८ ॥

पूर्वपक्ष १० सूत्र ।

उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम् ॥ १९ ॥

उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम् । एकपदम् ।

अर्थ—'एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः' जा मुंडकश्रुतिमें आत्माको अणु कहा है. और उत्क्रान्ति, गति, आगति, अर्थात् स्वत्वत्याग, गमनागमन यह त्रय उत्तरश्रुतिमें सुने हैं. विभुमें त्रयही संभवे नहीं; यातें जीवात्मा अणु है. 'स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति स तदा वागादिभिः प्राणैः सह उत्क्रामति' जामें मरणसमय उत्क्रान्ति सुनी है। 'ये के च वै अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसं एव ते सर्वे गच्छन्ति इति तस्मात् लोकात् पुनः एति अस्मै लोकाय कर्मणा' इसमें गमनागमन सुने हैं. यातें जीव अणु है. इति ॥ १९ ॥

स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ २० ॥

स्वात्मना । च । उत्तरयोः । इति । प० ॥

अर्थ—यद्यपि स्वत्वत्यागरूप उत्क्रान्ति आत्माको विभु मानेसेभी संभवे है; तथापि 'उत्तरयोः' नाम गति, आगति, यह उभय आत्मना नाम जीवके स्वरूपसँ संबद्ध हैं, यातें आत्मा अणु है. इति ॥ २० ॥

नाणुरतच्छ्रुतेरिति चेन्नेतराधिकारात् ॥ २१ ॥

न । अणुः । अतत् । श्रुतेः । इति । चेत् । न । इतरा-
धिकारात् । इति । प० ॥

अर्थ—ननु 'अतत् श्रुतेः' नाम 'महानज आत्मा अनन्तं ब्रह्म' इत्यादिकोंमें जीवको विभु सुना है, यातें जीव अणु नहीं. यह शंका सिद्धांती करे तो संभवे नहीं. जीवसँ इतर जो ब्रह्म ताका 'एष महानज आत्मा' जामें अधिकार है. अर्थात् सर्ववेदांतमें प्रधानताकरके ज्ञेयरूपसँ प्रसंगमें ब्रह्मको महान् सुना है. इति ॥ २१ ॥

स्वशब्दोन्मानाभ्या च ॥ २२ ॥

स्वशब्दोन्मानाभ्यां । च । इति । प० ॥

अर्थ—स्व नाम अणुत्वका वाचक 'एपोऽणुरात्मा' यह शब्द है. यातें जीव अणु है. और 'बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्प्यते' जा श्वेताश्वतर पंचमअध्यायगत श्रुतिका उन्मानपदसँ ग्रहण है. इससँभी जीव अणु निश्चित है. सर्व स्थूलोंसँ जो निकले वा जो निकाला हो सो उन्मान कहिये हँ. इति ॥ २२ ॥

अच०—ननु आत्मा जो अणु होवे तौ गंगाजलमें निमग्नको देहव्यापी शीतका ज्ञान नहीं होवेगा, जा शंकासँ कहेहँ ॥

अविरोधश्चन्दनवत् ॥ २३ ॥

अविरोधः । चन्दनवत् । इति प० ॥

अर्थ—यथा शरीरके एकदेशमें स्थित जो चंदनविंदु सो सर्वशरीरमें व्यापके सुखको उपजावे है, तथा जीवभी देहव्यापी शीतज्ञानको बनावे है. इति ॥२३॥

अवस्थितेर्वेशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमात्

हृदि हि ॥ २४ ॥

अवस्थितेः । वेशेष्यात् । इति । चेत् । न । अभ्युपगमात् ।

हृदि । हि । इति । प० ॥

अर्थ—चंदनविंदुकी जो अवस्थिति नाम स्थिति सो 'वेशेष्यात्' नाम एकदेशमें प्रत्यक्षका विषय है. जीवकी स्थिति प्रत्यक्षसँ निश्चित नहीं यातें अनुत्पत्ता होनेसँ चंदनदृष्टांत संभवे नहीं; यातें व्यापक शीतज्ञानरूप कार्यसँ महत्वकल्पना युक्त है. इति । यह शंकाभी असंगत है. 'कतमात्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि अन्तर्ज्योतिः पुरुषः' जा बृहदारण्यक पठ-गत श्रुतिमें अल्पपरिमाणवान् हृदयविषे जीवकी स्थिति कही है, यातें अल्प-हृदयमें 'अभ्युपगमात्' नाम अंगीकार करनेसँ जीव अणु है. और उक्त शंका असंगत है. इति ॥ २४ ॥

गुणाद्वा लोकवत् ॥ २५ ॥

गुणात् । वा । लोकवत् । इति । प० ॥

अर्थ—अथवा आत्माको अणु मानेभी जीवका जो ज्ञान गुण सो व्यापक है यातें व्यापक गुणसँ सर्व शरीरव्यापी कार्य उत्पत्ति संभवे है. यथा लोकमें दीप अल्प है तौभी प्रभारूप दीपगुणसँ गृहव्यापी प्रकाशरूप कार्य होवे है तथा प्रसंगमें संभवे है. विरोध नहीं. ॥ २५ ॥

अव०—ननु ज्ञानको व्यापक मानेसँ जीवसँ अधिकदेशमेंभी ज्ञानगुण रहेगा और है नहीं. और दीपकी जो प्रभा है सो दीपसंयुक्त अपर द्रव्य है; यातें सो दृष्टांत संभवे नहीं; जा शंकासँ कहे हैं.

व्यतिरेको गन्धवत् ॥ २६ ॥

व्यतिरेकः । गन्धवत् । इति । प० ॥

अर्थ—यथा गन्धगुण गुणीसँ भिन्नदेशवृत्ति है. तथा ज्ञानकोभी जीवसँ व्यतिरेक नाम भिन्नदेशमें मानना संभवे है. इति ॥ २६ ॥

तथा च दर्शयति ॥ २७ ॥

तथा । च । दर्शयति । इति । प० ॥

अर्थ—अणु आत्माको ज्ञानगुणसँही देहव्याप्ति है. इस अर्थमें सूत्रकार श्रुतिको दिखावें हैं. 'स एष इह प्रविष्ट आलोमेभ्यः आनखेभ्यः' यह बृहदारण्यकश्रुति चेतनरूप गुणसँ सर्व देहमें जीवको व्यापक कहे है. इति ॥ २७ ॥

पृथगुपदेशात् ॥ २८ ॥

पृथक् । उपदेशात् । इति । प० ॥

अर्थ—'प्रज्ञया शरीरं समारुह्य' जा श्रुतिमें आत्मा और ज्ञानका कर्ताकरणरूपसँ पृथक् नाम भिन्न भिन्न उपदेश किया है, यातें व्यापक गुणद्वारा जीवकी शरीरमें व्याप्ति प्रतीत होवे है. उक्त विधिसे ज्ञानगुणको व्यापक होनेसँ और जीवको अणु होनेसँ महद्बोधक श्रुतिका बाध संभवे है. इति ॥ २८ ॥

अथ०-आगे यह सिद्धांत है। अणु जो जीव सो ब्रह्मका कोई अपर स्वरूप है वा कार्य है वा ब्रह्मस्वरूप है? प्रथम पक्ष मानें तो एकज्ञानसें सर्वके ज्ञानकी प्रतिज्ञाका बाध होवेगा. कार्यरूपताभी पूर्व पंडन करी है यातें द्वितीय पक्षभी असंगत है. तृतीय पक्ष मानें तो ब्रह्म महान् है यातें जीवभी महान् अवश्य सिद्ध होवेगा. 'एपोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः' जा श्रुतिमें वेदितव्य मुना है यातें इसमें जीवका ग्रहण नहीं किंतु नेत्रादिकोंका जो अनिपय ज्ञेय ब्रह्म ताका ग्रहण है, यातें उक्त श्रुति जीवको अणु नहीं कहे है. और 'वालाग्रशतभागस्य' यह श्रुति जीवके आंषाधिकस्वरूपका बोध करेहै. और 'स च आनन्त्याय कल्प्यते' इतने वाक्यसें तिसमें जीवको अपरिच्छिन्न कहा है. किंच अणु मानेसें सर्व देहमें व्यापी ज्ञान नहीं होवेगा. चंदनविट्टुका जो दृष्टांत कहा है सो सावयव पदार्थ है यातें ताको अवयवद्वारा देहव्यापित्व संभवे है. आत्मा निरवयव है यातें दृष्टांतकी तुल्यता नहीं. और गंधके दृष्टांतसें जो ज्ञानगुणको व्यापक मानके सर्वदेहव्यापी कार्य माना है, सोभी असंगत है. गंधगुण आश्रयविना गमन करे नहीं. जो आश्रयविना ताका गमन मानें तो सो गंध गुण नहीं सिद्ध होवेगा. और 'प्रज्ञया शरीरं समारुह्य' जा जो श्रुति कही सो इसमें प्रज्ञापदसें बुद्धिका ग्रहण है. और जीवनिष्ठ जो अणुत्वकथन है सो उत्तरसूत्रसें कहे हैं।

तद्गुणसारत्वात् तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् ॥ २९ ॥

तणद्गुसारत्वात् । तु । तद्व्यपदेशः । प्राज्ञवत् । इति । प० ॥

अर्थ-तत् नाम बुद्धिके जे गुण नाम अणुत्व, उत्क्रांति, गमनागमन, मुखदुःखादि धर्म, ते धर्मसार नाम प्रधान होवें जिसमें सो तत्गुणसार कहिये. अर्थात् बुद्धिके गुणोंसें गुणमान् जीवका तत्गुणसार इतने पदसें ग्रहण है यातें जीवनिष्ठ तत्नाम अणुत्वव्यपदेश नाम कथन है. स्वाभाविक नहीं. 'प्राज्ञवत्' यह तहां दृष्टांत है. 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः अर्णियान्' जा श्रुतिमें सगुण उपासनाविषे उपाधिके वक्षसें प्राज्ञ नाम परमात्माको अणु कहा है तथा जीवको अणु कहा है. इति ॥ २९ ॥

अथ०-ननु बुद्धिदृष्टपाधिसें आत्मामें अणुत्वादि संसार अंगीकार कियेमें कदाचित् आत्माका बुद्धिसें वियोग हृये आत्मामें संसार नहीं रहेगा, जा शंकाकी उत्तर कहे हैं.

यावदात्मभावित्वाच्च न दोषः तद्दर्शनात् ॥ ३० ॥

यावत् । आत्मभावित्वात् । च । न । दोषः । तद्दर्शनात् ।
इति । प० ॥

अर्थ—बुद्धिका जो संयोग सो यावत् नाम जहांपर्यंत 'आत्मभावित्वात्' नाम आत्माको संसारभाव है तहांपर्यंत है, यातें उक्त दोषकी प्राप्ति नहीं तद् नाम बुद्धिसंयोग, देहवियोग हुयेभी 'दर्शनात्' नाम श्रुतिमें देखा है तथाहि। 'कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि अन्तर्ज्योतिः पुरुषः स समानः सन् उभौ लोकौ अनुसंचरति ध्यायति इव लेलायति इव' इस बृहदारण्यक पष्ठगत श्रुतिमें आत्माको जहांपर्यंत संसार है तहांपर्यंत भ्रममूलक बुद्धिसंयोगको माना है. इति। अर्थ—जो यह बुद्धिउपाधिक है, प्राणोंसे व्यतिरिक्त है. कमलाकार जो मांसपिंडरूप हृदय तामें स्थित होनेसे बुद्धिही हृदय है तासैंभी भिन्न है, सो बुद्धिके उल्य हुआ उभय लोकमें विचरे है. इति ॥ ३० ॥

अव०—ननु सुषुप्तिमें ब्रह्मकी प्राप्ति और कार्यका नाश माना है यातें बुद्धिसंयोगको जहांपर्यंत संसार है तहांपर्यंत कहिना संभवे नहीं, जा शंकाका उत्तर कहें हैं ।

पुंस्त्वादिवत्त्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात् ॥ ३१ ॥

पुंस्त्वादिवत्त्वस्य । सतः । अभिव्यक्तियोगात् ।
इति । प० ॥

अर्थ—यथा बालअवस्थामें जे पुंस्त्वादि धर्म तिन 'सतः' नाम विद्यमान धर्मनकी यौवन अवस्थामें अभिव्यक्ति नाम प्रगटताका योग कहिये संयोग होवे है. तथा बुद्धियोगादिक सुषुप्तिमें सूक्ष्मरूपसे विद्यमान रहेहें. तिनकी जाग्रतमें प्रकटतामात्र होवेहै; यातें यावत् आत्मभावित्वका विरोध नहीं. इति ॥ ३१ ॥

अव०—ननु जाकर आत्तामें संसार है तिस अंतःकरणका साधक कौन प्रमाण है? जा शंकासें कहेहैं.

नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गोन्यतरनि- यमो वाऽन्यथा ॥ ३२ ॥

नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गः । अन्यतरनियमः । वा ।
अन्यथा । इति । प० ॥

अर्थ—अंतःकरण अवश्य मानना चाहिये. अन्यथा नाम अंतःकरण अनेगीकार कियेसँ सर्व इंद्रियोंकी स्वस्वविषयसमीपता कालमें नित्य उपलब्धिप्रसंग होवेगा अर्थात् एककालमें सर्व विषयोंका ज्ञानहुआ चाहिये. मनविना ज्ञानकी सर्व-सामग्री विद्यमान है. जो सामग्री होतेभी ज्ञानरूप फल नहीं होवेगा तौ नित्य अनुपलब्धिप्रसंग होवेगा, अर्थात् एकभी विषयका ज्ञान नहीं होवेगा. अथवा एकविषयका ज्ञान होवे अपरका नहीं जाविध इच्छा हुयेसे ज्ञानसामग्रीके मध्यमें 'अन्यतरस्य' नाम आत्माकी शक्तिका वा इंद्रियोंकी शक्तिका नियम नाम प्रति-बंध कहाचाहिये, सो संभवे नहीं. आत्मा तो निर्धर्मक है, याते तामें शक्तिका अभाव है और इंद्रियोंकी शक्तिको प्रतिबंध तौ होवे, जो कोई प्रतिबंधक होवे. प्रतिबंधक कोई है नहीं याते उक्त स्थलमें इच्छाको ही नियामक कहा चाहिये. सो आत्माका धर्म नहीं किंतु 'कामः संकल्पः' इत्यादिक श्रुति इच्छाको मनका धर्म कहेहैं, याते अन्तःकरणविना इच्छाके नहीं बननेसँ और श्रुतिसँ अंतःकरण अवश्य सिद्ध होवेहैं. तिस अंतःकरणकरकेही आत्मामें संसार है, स्वाभाविक नहीं. ॥ ३२ ॥

अव०—आगे आत्माको कर्ता सिद्ध करके पुनः बुद्धिगुणोंसँ गुणवान् सिद्ध करें हैं. ।

कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् ॥ ३३ ॥

कर्ता । शास्त्रार्थवत्वात् । इति । प० ॥

अर्थ—कर्ता आत्मा है वा बुद्धि है ? यह प्रश्नमें संदेह है. पूर्वपक्षमें बुद्धिको कर्ता अंगीकार कियेसँ यह सिद्धांत है । आत्माही कर्ता है, बुद्धि कर्ता नहीं. आत्माको कर्ता मानेसँ विधिशास्त्र अर्थवान् नाम सफल होवेंहैं. आत्माको अकर्ता मानेसँ विधिशास्त्र सफल नहीं होवेगा. और बुद्धिको कर्ता मानके आत्माको भोक्ता माने तौभी विरोध है, याते आत्माही कर्ता है, बुद्धि नहीं. इति ॥ ३३ ॥

विहारोपदेशात् ॥ ३४ ॥

एकपदम् ।

अर्थ—‘स यथा महाराजो जानपदान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा-
कामं परिवर्तते एवमेव एष एतत् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे
यथाकामं परिवर्तते’ जा बृहदारण्यक चतुर्थ अध्याय प्रथमब्राह्मणकी श्रुतिमें
कामनाअनुसार विहार कथन किया है. यातें विहारके उपदेशसँभी जीवही
कर्ता है. इति । श्रुतिअर्थ—यथा सो महाराजा जानपदान् नाम भृत्योंको
ग्रहण करके स्वइच्छाअनुसार जनपदमें वर्तेहै. तथा विज्ञानमयभी प्राणोंको
ग्रहण करके इच्छाअनुसार देहकरके विहरता हुआ वर्ते है. इति ॥ ३४ ॥

उपादानात् ॥ ३५ ॥

उपादानात् ॥ एकप० ॥

अर्थ—‘सहोवाच अजातशत्रुः यत्र एष एतत् सुसोऽभूत् य विज्ञा-
नमयः पुरुषः तदेपां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानं आदाय य एषः
अन्तर्हृदये आकाशः तस्मिन् शेते’ जा श्रुतिमें तहांही आत्माको उपा-
दान सुना है, अर्थात् प्राण जे इंद्रियां तिनका स्वीकार करना सुना है यातें
आत्माही कर्ता है बुद्धि नहीं. प्राण नाम इंद्रियोंकी विज्ञान नाम बुद्धिसँ
ग्रहणरूप शक्तिको ग्रहण करके स्वापकालमें जीव हृदय आकाशमें शयन
करेहैं. यह श्रुतिका अक्षरार्थ है. इति ॥ ३५ ॥

व्यपदेशाच्च प्रक्रियायां न चेन्निर्देश-

विपर्ययः ॥ ३६ ॥

व्यपदेशात् । च । प्रक्रियायां । न । चेत् । निर्देश-

विपर्ययः । इति । प० ॥

अर्थ—‘विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुते’ जा ब्रह्मानंदवल्लीगत
श्रुतिमें लौकिक वैदिक प्रक्रिया नाम कर्मोंविषे विज्ञानशब्दवाच्य आत्माको
कर्ताका व्यपदेश नाम कथन कियाहै, यातें आत्मा कर्ता है. ननु विज्ञानपद
बुद्धियाचक है, जीववाचक नहीं; जा शंकासँ कहेहैं. न चेत् नाम जो विज्ञा-
नपदको जीववाचक नहीं मानेंगे तौ निर्देशविपर्यय होवेगा. अर्थात् बुद्धि-

को विज्ञानपदका अर्थ माननेसे 'विज्ञानं यज्ञं तनुते' जा पाठकी जगा निर्देश नाम पाठका विपर्ययः नाम 'विज्ञानेन यज्ञं तनुते' जाविध पाठ चाहिये. इति ॥ ३६ ॥

अव०—ननु आत्मा कर्ता होवे तौ जो अपनेको इष्ट है सो किया चाहिये, अनिष्ट नहीं किया चाहिये. जा शंकासें कहे हैं—

उपलब्धिवदनियमः ॥ ३७ ॥

उपलब्धिवत् । अनियमः । इति । प० ॥

अर्थ—यथा ज्ञानमें अत्मा स्वतंत्र है, तौभी इष्टअनिष्टरूप उभय ज्ञान ताको होवेहै, तथाहि इष्ट अनिष्ट उभय क्रियाको करेहै । स्वअतिरिक्त करण अनपेक्षत्वरूप स्वतंत्रता ईश्वरकोभी नहीं तौ जीवको कैसे होवेगी, किंतु सर्वकारक प्रेरकत्वरूप स्वतंत्रता अंगीकार है यातें अनिष्टसाधन कारकोंमेंभी इष्टसाधनत्वभ्रमसें अनिष्टकोभी जीव करेहै. इति ॥ ३७ ॥

शक्तिविपर्ययात् ॥ ३८ ॥

एक पद है ॥

अर्थ—जो बुद्धिको कर्ता मानेंगे तौ शक्ति नाम करणशक्ति 'विपर्ययात्' नाम नहीं रहेगी, करणविना कर्तासें कार्य होवे नहीं यातें बुद्धिरूप कर्ताका अपर करणकल्पना करना पड़ेगा, यातें करणभिन्न कर्ता कल्पना कियेसें नाममात्रमें विवाद प्रतीत होवेहै. वस्तुमें विवाद नहीं. ॥ ३८ ॥

समाध्यभावाच्च ॥ ३९ ॥

समाध्यभावात् । च । इति । प० ॥

अर्थ—आत्माकारवृत्ति विद्यमानभी जा अवस्थामें असत्की नाई होवे सो समाधि कहिये हैं. तिस समाधिका जो आत्माको कर्ता नहीं मानेंगे तौ समाधिका अभाव सिद्ध होवेगा, यातें आत्माको कर्ता माने विना समाधिको नहीं चननेसें आत्माको कर्ता अवश्य मानना चाहिये ॥ ३९ ॥

अव०—सो कर्तृत्व स्याभाविक नहीं किंतु आपाधिक हैं. यह सूत्र-कार कहेहैं—

यथा च तक्षोभयथा ॥ ४० ॥

यथा । च । तक्षा । उभयथा । इति प० ॥

अर्थ—सांख्यमतमें बुद्धिको कर्ता माना है ताको खंडन करके पूर्व आत्माको कर्ता सिद्ध किया है सो कर्तृत्व स्वाभाविक हैं वा औपाधिक है ? जा संदेहसँ न्यायमतमें वास्तव अंगीकार कियेसँ यह सिद्धांत है । बृहदारण्यकके षष्ठ-के द्वितीय ब्राह्मणमें यह वाक्य है. 'अयं पुरुषः प्राज्ञेन आत्मना सम्प-रिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरं तद्वा अस्य एतत् आसकामं आत्म-कामं अकामं रूपं शोकान्तरं' यह कहकर आगे यह कहा है. 'एषाऽस्य परमा गतिः एषाऽस्य परमा सम्पत् एषोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य परमानन्दः । एतस्य एव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रां उप-जीवन्ति' इति' श्रुतिअर्थ—यह जीव प्राज्ञेन नाम परम आत्मासँ अभिन्न हुआ बाह्य अंतर विषयको नहीं जानेहै. तत् एतत् नाम प्रसं-गमें प्राप्त जो ब्रह्म तत् अस्य नाम जीवका आत्मकाम है अर्थात् सर्वविषे स्वरूपसँ कामना करने योग्य है. आसकाम यह तहां हेतु है. 'अकाम' यह आसकाममें हेतु है. अपर कामना नहीं होवे जिसको सो अकाम कहिये हैं. सर्व शोकसंबंधरहित होनेसँभी आसकाम कहिये हैं, यह कहेहैं. 'शोकान्तरं इति' शोकसँ अंतर नाम भिन्न है. यह उक्त जो स्वरूप है. सो इसकी परम-गति है. यही परम संपत् है. यही परमलोक है. यही परमानंद है. इस आ-नंदके एक अंशमात्रसँ सर्वभूत आनंदवान् हैं. इति । इस श्रुतिउक्त अर्थको भगवान् सूत्रकार कहें हैं. यथा तक्ष नाम खाती उभयथा नाम वास्यादि करण ग्रहण कियेसँ कर्ता होकर दुःखी होवेहै, तिनको त्यागके अकर्ता होकर सुखी होवेहै. तथा आत्माभी बुद्धिआदिक करणोंके संबंधसँ कर्ता संसारी होवेहै. तिनको त्यागके अकर्ता परमानंद होवेहै. चकारपदसँ स्वभाविक कर्तृत्वका निषेध किया है; यातँ आत्माउपाधिक कर्ता है. इति ॥ ४० ॥

परात्तु तच्छ्रुतेः ॥ ४१ ॥

परात् । तु । तत् । श्रुतेः । इति प० ।

अर्थ—जो औपाधिक जीवमें कर्तृत्व कहा है सो ईश्वराधीन है वा नहीं ?

जा इसमें संदेह है. जीवको करणोंकी बाहुल्यतासें कर्तृत्व संभवे है. ईश्वराधीन नहीं यह पूर्वपक्ष है. तहां यह उत्तर है. 'परात्' नाम परमेश्वरसेंही जीवको कर्तृत्वादि संसार है. और मोक्षभी परमेश्वराधीन है. तत् नाम ईश्वराधीनता श्रुतिमें सुनी है तथाहि 'एष हि एव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यः उद्धिनीपते एष उ एव असाधु कर्म कारयति तं यमघो निनीपते' जा कौपीतकिश्रुतिमें ईश्वराधीनता कर्तृत्वको स्पष्टही प्रतीत होवेहै. इति ॥ ४१ ॥

अव०—ननु जीवके कर्तृत्वको ईश्वराधीन मानेसें ईश्वरको जीवसें धर्मही कराना चाहिये अधर्म नहीं, अन्यथा ईश्वरमें विपमता निर्दयता दोष होवेंगे; जा शंकासें कहेहैं ।

कृतप्रयत्नापेक्षास्तु विहितप्रतिपिद्धान्वैयर्थ्या-
दिभ्यः ॥ ४२ ॥

कृतप्रयत्नापेक्षाः । तु । विहितप्रतिपिद्धान्वैयर्थ्या-
दिभ्यः । इति । प० ।

अर्थ—तु शंका निषेधार्थक है. जीवकृत नाम किया जो प्रयत्न धर्माधर्मरूप तिनकी अपेक्षासेंही इस जन्ममें ईश्वर जीवसें कर्म करावेहै. तिन कर्मोंके अनुसारही सुखादि फल देवे हैं, यातें ईश्वरमें विपमतादिदोषकथन असंगत है. ईश्वरको पूर्वकर्मद्वारा प्रेरक मानेसें विहित, प्रतिपिद्ध, अवैयर्थ्य नाम अनर्थक नहीं होवेंहै. अन्यथा विधिनिषेधशास्त्र अनर्थक होवेंहै. धर्मकर्ता दुःखको, अधर्मकर्ता सुखको, संपादन करेगा यह आदिपदसें ग्रहण है. इति ॥ ४२ ॥

अव०—पूर्व स्वयंप्रकाश आत्माको अकर्ता कथन किया है आगे. तिसका ब्रह्ममें अभेद सिद्ध करेंहै. भेदाभेदबोधक श्रुतिके विरोधका संदेह हुयेसें पूर्वपक्षमें विरोध अंगीकार है. पूर्व जो ईश्वरजीवका उपकारकउपकार्यरूप संबंध फटा है सो भेदविना संभवे नहीं. और अभेदविना 'तस्यमसि' आदिक वाक्य असंगत होवेंगे, यातें विरोध प्रसिद्ध है. इति। तहां यह सिद्धांतस्य है.

अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाश-
कितवादित्वमधीयते एके ॥ ४३ ॥

अंशः । नानाव्यपदेशात् । अन्यथा । च । अपि । दाश-
कितवादित्वम् । अधीयते । एके । इति प० ॥

अर्थ-अंशः नाम जीव ईश्वरका अंश है. अर्थात् अंशइव अंश है. स्वाभा-
विक अंश नहीं. स्वाभाविक अंश मानें तौ । ' निष्कलं ' इत्यादि ईश्वर ति-
रंशबोधक श्रुतिसँ विरोध होवेगा, यातें ईश्वरका कल्पित अंश जीव है और
भेदाभेद श्रुतिसँभी जीव ईश्वरका अंश अंशीभाव है। ' य आत्मनि तिष्ठन्
आत्मानमन्तरो यमयति ' इत्यादि श्रुतिमें जीव ईश्वरका ' नानाव्यप-
देश ' नाम भेद कथन किया है। और अन्यथा चापि नाम अनानाव्यप-
देशभी श्रुतिमें किया है. तथाहि । ' ब्रह्मदासा ब्रह्मदाशा ब्रह्मैव इमे
कितवाः ' इति । यातें अनाना नाम अभेदकथनसँभी अंशांशीभाव है. शु-
तिमें दासपद भृत्यवाची है, दाशपद कैवर्तवाची है. कितवपद द्यूतकृत् भ्रष्ट-
वाची है. इति । प्रत्यक्षसिद्ध जो भेद ताका अनुवाद करके श्रुतिके अभेदमें
तात्पर्य है. यातें कल्पित भेदवान् अंश जीव है. इति ॥ ४३ ॥

मन्त्रवर्णाच्च ॥ ४४ ॥

मन्त्रवर्णात् । च । इति प० ॥

अर्थ-'पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपात् अस्य अमृतं दिवि' जा
छांदोग्यश्रुतिसँभी जीव ईश्वरका अंश है. उक्त मंत्रके वर्णोंसँ भी जीव अंश
है. यह सूत्राक्षरार्थ है । भूत नाम सर्व जीव इस परमात्माकी पाद नाम
एक अंश है. त्रय पाद अमृतरूप दिवि नाम स्वरूप में हैं, यह श्रुतिअर्थ
है. इति ॥ ४४ ॥

अपि च स्मर्यते ॥ ४५ ॥

अपि । च । स्मर्यते । इति प० ।

अर्थ-'ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः' जा गीतावाक्यमें
भगवाननेभी जीवको ईश्वरअंश स्मरण किया है. इति ॥ ४५ ॥

अव०—ननु यथा पादरूप अंशका दुःख अंशी देहमें भान होवेहै तथा जीवको ईश्वर अंश मानेसँ जीवके दुःखसँ ईश्वरको दुःखी हुआ चाहिये जा शंकासँ कहेहैं.

प्रकाशादिवन्नैवं परः ॥ ४६ ॥

प्रकाशादिवत् । न । एवम् । परः । इति प० ॥

अर्थ—यथा सूर्यका प्रकाश काष्ठादि उपाधिकरके काष्ठादि आकारको प्राप्त हुआभी वास्तवसँ काष्ठवक्रताकार होवे नहीं तथा जीवको दुःख हुयेभी एवं नाम जीववत् पर नाम परमात्मा दुःखी नहीं होता. जीव प्रतिबिम्बरूप है ईश्वर विम्बरूप है प्रतिबिम्बके धर्म बिम्बमें जाते नहीं, याते ईश्वर दुःखी नहीं होता. इति ॥ ४६ ॥

स्मरन्ति च ॥ ४७ ॥

स्मरन्ति । च । इति प० ॥ .

अर्थ—‘तत्र यः परमात्माऽसौ स नित्यो निर्गुणः स्मृतः । न लिप्यते फलैश्चाऽपि पद्मपत्रमिचाम्भसा ॥ कर्मात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्ष-
वन्धैः स युज्यते’ इत्यादिक स्मृतिमें व्यासादिकभी जीवदुःखसँ ईश्वरको अदुःखी स्मरण करे हैं. इति ॥ ४७ ॥

अव०—ननु ‘एष ते आत्मा अन्तर्यामी अमृतोऽदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमन्तो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता एष ते आत्मा अन्तर्यामी अमृतः अतोऽन्यदार्तम्’ जा बृहदारण्यक मसमब्रह्मणमं भेदमात्रका निषेध किया है. श्रुतिअर्थ पूर्व कर दिया है.

और ‘यदेवेह तदमुत्र यदामुत्र तदन्विह मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन’ जा कठचतुर्थवल्लीमें भेदमात्रका निषेध किया है. कठश्रुतिअर्थ—जो कार्यकारण-संघातयुक्त है सोई तत्संघातरहित है, जो संघातरहित है सोई संघात-यान् है तिम अभिन्न वस्तुमें जो भिन्नत्व देखे है सो मृत्युसँ मृत्युको प्राप्त होवेहै. इति ॥ उक्तविषय अभेद मानेसँ मित्र भवितव्य है, शत्रु परिहर्तव्य है,

इत्यादिक अनुज्ञा परिहार असंगत होंगे जा शंकाका उत्तर भगवान् सूत्रकार
कहे हैं.

अनुज्ञापरिहारौ देहसम्बधाज्ज्योतिरादिवत् ॥ ४८ ॥

अनुज्ञापरिहारौ । देहसम्बन्धात् । ज्योतिरादिवत् । इति प० ॥

अर्थ—उक्त अनुज्ञा और परिहार आत्माको एक मानेभी 'मनुष्योऽहं'
जाविध देहसम्बन्ध नाम देहाभिमानसँ संभवेहँ तत्तत्तद्देहविशिष्टरूपसँ आत्माका
भेद है यातँ ग्राह्यत्याज्यका भेद संभवे है; यथा ज्योतिः नाम अग्नि एक है
तौभी श्मशानसम्बन्धी अग्नि त्याज्य है अपर ग्राह्य है तथा लौकिक वैदिक
अनुज्ञा परिहार संभवेहँ. इति ॥ ४८ ॥

अव०—तथापि सर्वशरीरमें चेतन एकरूप है यातँ देवदत्तशरीरावच्छेदसँ
कर्म कियेसँ यज्ञदत्तशरीरावच्छेदसँ उपजे चाहिये? जा शंकाका उत्तर कहेहँ.

असन्ततेश्चाव्यतिकरः ॥ ४९ ॥

असन्ततेः । च । अव्यतिकरः । इति प० ॥

अर्थ—परिच्छिन्न अंतःकरण उपाधिवान् जो परिच्छिन्न देवदत्तका आत्मा
ताका यज्ञदत्तशरीरसँ 'असन्ततेः' नाम संबंध होवे नहीं यातँ धर्माधर्मका
व्यतिकर नाम संकर होवे नहीं, यातँ देवदत्तको यज्ञदत्तशरीरावच्छेदसँ धर्मा-
दिप्राप्ति संभवे नहीं. ॥ ४९ ॥

अभास एव च ॥ ५० ॥

अभासः । एव । च । इति प० ॥

अर्थ—यथा अनेक घटजलोंमें प्रतिबिंबित जे सूर्याभास तिनमें किसी एक
सूर्याभासके कंपमान हुये अपर सूर्याभास कंपमान होवें नहीं तथा ईश्वरका
आभासरूप यह जीव है, यातँ धर्मादिसंबंधी एक जीवमें अपर जीवके धर्मा-
दिकोंका संबंध होवे नहीं. किंच जिनके मतमें अनेक विभु आत्मा माने हैं
जिनके मतमें धर्मादि संकरकी प्राप्ति है, तथाहि—सांख्यमतमें भोगसाधनरूप
प्रधानका सर्व आत्मासँ संबंध है यातँ एक आत्माका सुखादिकोंसँ संबंधहुये
सर्व आत्मासँ सुखादिकोंका संबंध होवेगा; तथा न्यायमतमेंभी देवदत्तके
आत्माका जो सुखादिहेतु मनःसंयोग सो सर्व आत्मासँ तुल्य है यातँ फलका
नियम नहीं रहेगा. इति ॥ ५० ॥

अव०—ननु अदृष्टके नियमसँ फलका नियम संभवे है, जा शंकासँ कहे हैं।

अदृष्टानियमात् ॥ ५१ ॥

एक पद है ॥ .

अर्थ—सांख्यमतमें अदृष्ट प्रधानमें रहेहें सो प्रधान सर्वमें साधारण है, यातँ अदृष्टके अनियमसँ फलकाभी नियम नहीं रहेगा. और न्यायमतमें अदृष्टका हेतु मन आत्माका संयोग है सोभी सर्व आत्मामें तुल्य है; यह इसका अदृष्ट है इसका नहीं, जाविध जो अदृष्टका नियम है तिसका अभाव है यातँ फलकाभी नियम नहीं रहेगा. इति ॥ ५१ ॥

अव०—ननु 'इदं प्राप्तवान् इदं परिहरिष्यामि इदं करिष्ये इदं न करिष्ये' इसप्रकारके जे अभिसंध्यादि ते भिन्न भिन्न हैं ते स्वसाध्य अदृष्ट नियमके हेतु होवेंगे, यातँ व्यवस्था संभवे है, जा शंकाका उत्तर कहे हैं.

अभिसन्ध्यादिष्वपि चैवम् ॥ ५२ ॥

अभिसन्ध्यादिषु । अपि । च । एवम् । इति । प० ॥

अर्थ—अभिसंधिपद अभिप्रायवाची है. अर्थात् ज्ञानका अंगीकार है. आदि-पदसँ इच्छादिका ग्रहण है, तेभी साधारण मनःसंयोगकरके साध्य हैं, यातँ ताँमेंभी एवं नाम अदृष्टयत् अनियम है. इति ॥ ५२ ॥

प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात् ॥ ५३ ॥

प्रदेशात् । इति । चेत् । न । अन्तर्भावात् । इति । प० ॥

अर्थ—ननु आत्मा विमु है, यातँ स्वस्वशरीरावच्छिन्न आत्मा प्रदेशमें अभि-संधि आदिकोंका हेतु मनका संयोग होवे है, यातँ अभिसंध्यादि नियम संभवे है जा कल्पनाभी असंगत है. सर्व आत्मा सर्व शरीरके अंतर हैं यातँ इस आत्माका यह शरीर है इस नियममें कोई हेतु मिले नहीं यातँ इस आ-त्माका इस शरीरमें प्रदेश है. यह कल्पना संभवे नहीं, यातँ वेदांतयज्ञही सर्व-दोषरहित है. इति सिद्धम् ॥ ५३ ॥

इति शारीरकसूत्रभावप्रकाशिकाभाषाटीकायां द्विती-

याध्यायस्य तृतीयपादः समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥

॥ श्रीरामाय नमो नमः ॥

अथ चतुर्थपादप्रारम्भः ।

पूर्व महाभूतउत्पत्तिबोधक वाक्यनके विरोधका परिहार किया है. इस पादमें लिङ्गशरीरबोधक वाक्यनके विरोधका परिहार करें हैं. इस पादके दो अधिक वीस सूत्र हैं. तहां ९ अधिकरणरूप हैं । १३ गुणरूप हैं.

तथाहिः—

सूत्रसङ्ख्या ।	अधिकरण ।	गुण ।	प्रसङ्ग.
१	अ०	+	इंद्रियउत्पत्तिविचार
२	+	गु०	इं०
३	+	गु०	इं०
४	+	गु०	इं० पूर्वपक्षविरोध
५	अ०	+	विरोधनिषेध
६	+	गु०	सप्तनिषेध
७	अ०	+	इंद्रियसूक्ष्म
८	अ०	+	प्राणउत्पत्ति
९	अ०	+	प्राणवायुक्रियानिषेध
१०	+	गु०	प्राणजीवकरण
११	+	गु०	प्रा०
१२	+	गु०	प्राणवृत्तिसिद्धि
१३	अ०	+	प्राणअणु
१४	अ०	+	इंद्रियचेष्टा देवताअधीन
१५	+	गु०	जीवभोक्ता
१६	+	गु०	जी०
१७	अ०	+	प्राणइंद्रियभेदसिद्धि
१८	+	गु०	प्रा०
१९	+	गु०	प्रा०
२०	अ०	+	परसं उत्पत्ति
२१	+	गु०	भूतकार्यविचार
२२	+	गु०	भू०
	९	१३	

इति ॥

इस पादमें वाक्यनका परस्पर विरोध मानके अप्रमाणतासें पूर्वपक्षमें समन्वयकी असिद्धि फल है. और सिद्धांतमें अधिरोधसें प्रमाणताके संभवसें समन्वयकी सिद्धि फल है ॥ 'आत्मन आकाशः सम्भूतः' जा उत्पत्ति-प्रकरणमें इंद्रियोंकी उत्पत्ति सुनी नहीं. और 'ऋपयो वाच एते अग्रे सदासीत् के ते ऋपय इति प्राणा वाच ऋपयः' जा श्रुतिमें इंद्रियोंको सत्य सुना है । और 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी' जा मुंडकश्रुतिमें उत्पत्ति सुनी है. यातें उक्त वचनोंका विरोध है. जा पूर्वपक्षमें अंगीकार कियेसें यह सिद्धांत सूत्र है ।

तथा प्राणः ॥ १ ॥

तथा । प्राणः । इति प० ।

अर्थ-यथा आकाशादिक उपजे हैं तथा 'एतस्मात् जायते प्राणः' जा श्रुतिसें प्राण नाम इंद्रियां उपजे हैं. इति ॥ १ ॥

अव०-ननु उत्पत्तिबोधक श्रुति उक्त विरोधसें गौण है जा शंकासें कहे हैं।

गौण्यसम्भवात् ॥ २ ॥

गौणी । असम्भवात् । इति प० ॥

अर्थ-उत्पत्तिश्रुतिको गौणी कहिना असंभव है. यातें शंका असंगत है. इंद्रियोंको नित्य अंगीकार किये । 'येन अश्रुतं श्रुतं' जा प्रतिज्ञासें विरोध होवेगा. और जो श्रुति इंद्रियोंको सत्य कहे है सो अवांतरप्रलयमें हिरण्य-गर्भकी इंद्रियोंको सत्य कहे हैं. इति ॥ २ ॥

किंच ।

तत्प्राक् श्रुतेश्च ॥ ३ ॥

तत् । प्राक् । श्रुतेः । च । इति प० ।

अर्थ-'एतस्मात् जायते प्राणः' जा वाक्यमें तत् नाम जायते यह जो पद है सो आकाशादिकोंमें प्राक् नाम पूर्व जे इंद्रियां तिनमें श्रुतेः नाम सुना है. यातें इंद्रियोंका मुख्य जन्म है. ॥ ३ ॥

अव०-उत्पत्तिमें अपर श्रुतिप्रमाण कहे हैं. ।

तत्पूर्वकत्वाद्वाचः ॥ ४ ॥

तत्पूर्वकत्वात् । वाचः । इति प० ।

अर्थ—तेज, जल, भूमि जा त्रयका तत्पदसँ ग्रहण है, ताके अंगीकार किये यह अर्थ सिद्ध हुआ। 'अन्नमयं हि सोम्य मनः आपोमयः प्राणः ते-जोमयी वाक्' जा छांदोग्यश्रुतिमें वाचः नाम प्राण-मनसहित वाक्को तत्पूर्वकत्वात् नाम तेज, जल, भूमि, पूर्वक सुना है. मनके पूर्व भूमि है. प्राणके पूर्व जल है. वाक्के पूर्व तेज है अर्थात् मन प्राण, वाक्, भूमि, जल ते-जसँ उपजे हैं, यातँ उत्पत्तिबोधक श्रुतिको विद्यमान होनेसँ और सत्यबोध-कको हिरण्यगर्भ इंद्रियबोधक होनेसँ उक्त वाक्यनका विरोध नहीं. इति ॥४॥

पूर्वपक्षसूत्र ।

सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च ॥ ५ ॥

सप्तगतेः । विशेषितत्वात् । च ।

इति प० ।

अर्थ—'सप्त प्राणाः प्रभवन्ति' जा द्वितीय मुंडकश्रुतिमें सप्त इंद्रियां कही हैं. प्राणपदका अर्थ इंद्रिय है. और 'हैनं आर्तभागः पप्रच्छ कति ग्रहाः कति अतिग्रहाः इति । अष्टौ ग्रहा अष्टौ अतिग्रहा इति । ये ते अष्टौ ग्रहा अष्टौ अतिग्रहा कतमे ते इति प्राणो वै ग्रहः सोऽपानेन अतिग्रहेण गृहीतोऽपानेन हि गन्धं जिघ्रति । वाग् वै ग्रहः स नाम्ना अतिग्रहेण गृहीतो वाचा हि नामानि अभिवदति' जा बृहदारण्य-कके पंचमअध्याय द्वितीय ब्राह्मणमें आठ इंद्रियां कही हैं । प्राण पदसँ वायुसहित प्राणका ग्रहण है. अपानपदसँ गन्धका ग्रहण है, अपानकरके उपहृत गंधको सर्वलोक ग्रहण करे हैं. इति । और 'सप्त शीर्षण्यः प्राणा द्वौ अर्वाचौ' जा श्रुतिमें नव प्रमाण कहे हैं । सप्त शिरमं हैं दो नीचे हैं इति । 'नव वै पुरुषे प्राणा नाभिर्दशमः' जामें दश कहे हैं । 'दश वै पुरुषे प्राणा आत्मैकादश' जा श्रुतिमें एकादश कहे हैं. आत्मापदसँ मनका ग्रहण है. कहां द्वादश कहां त्रयोदशभी सुने हैं, इन वाक्यनका परस्पर विरोध प्राप्त हुयेसँ एकदेशीके मतमें यह अर्थ है । श्रुतिमें इंद्रिय-निष्ठ सप्तत्व 'गतेः' नाम सप्त संख्या निश्चित है. यातँ इंद्रियां सात हैं और 'सप्त वै शीर्षण्यः प्राणाः' जा श्रुतिमें इंद्रियोंको शीर्षण्य जा विशेषण क-रके विशेषितत्वात् नाम विशेषण करके युक्त किया है, यातँभी इंद्रियां सप्त हैं. और अष्टादि जो संख्या कही हैं. सो सप्तोंकी वृत्तिके भेदसँ संभवे हैं, यातँ श्रुतिविरोध नहीं. इति ॥ ५ ॥

सिद्धान्तसूत्र ।

हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम् ॥ ६ ॥

हस्तादयः । तु । स्थिते । अतः । न । एवम् । इति प० ।

अर्थ—तु सप्तसंख्यानिषेधार्थ है । उक्त बृहत् श्रुतिके आगे यह श्रुति है । जिहा चक्षु श्रोत्र मनको ग्रहण कहकर 'हस्तो वै ग्रहः स कर्मणा अतिग्रहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति' यह कहा है । इसमें हस्तादिक भिन्न इंद्रियां सुनी हैं । आदिपदसँ त्वचाका ग्रहण है, यातें सप्तसंख्यासँ स्थिते नाम अधिक स्थिति है, 'अतः' नाम सप्तसंख्यासँ अधिक संख्या स्थित होनेसँ 'नैव' नाम सप्त इंद्रियां माननी योग्य नहीं किंतु एकादश हैं । इति । सप्तसंख्याबोधक श्रुतिने स्थानभेदमात्रसँ चारोंको सप्तमें कहा है, नवबोधक वाक्यका छिद्रासँ तात्पर्य है, यातें वाक्यविरोध नहीं । इति ॥ ६ ॥

अर्थ—सांख्यमतमें इंद्रियोंको व्यापक माना है, तिनका निषेध करे हैं ।

अणवश्च ॥ ७ ॥

अणवः । च । इति प० ।

अर्थ—यह इंद्रियां अणु हैं अर्थात् इंद्रियोंसँ इंद्रियोंका ग्रहण होवे नहीं, यातें सूक्ष्म हैं, जो इंद्रियोंको विभु मानें तौ काशीगत विश्वनाथका सेतुवासी जनोंकोभी दर्शन हुआ चाहिये, इत्यादिक अनेक दोष ता पक्षमें हैं, यातें परिच्छिन्न सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इति ॥ ७ ॥

अव०—प्राणोंकी उत्पत्ति होवे है, वा नहीं ? जा संदेहसँ कहे हैं ।

श्रेष्ठश्च ॥ ८ ॥

श्रेष्ठः । च । इति प० ।

अर्थ—'एतस्मात् जायते प्राणः' जा श्रुतिमें प्राणकी उत्पत्ति सुनी है, यातें श्रेष्ठ नाम प्राण ब्रह्मका कार्य है, इति ॥ ८ ॥

अव०—प्राणोंका स्वरूप कहे हैं ।

न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् ॥ ९ ॥

न । वायुक्रिये । पृथक् । उपदेशात् । इति प० ।

अर्थ—'यः प्राणः सः वायुः' जा वाक्यमें महान् वायुको प्राणरूप कहा

है यातें महान् वायुही प्राण हैं, जा पूर्वपक्षसैं कहे हैं. प्राण वायुरूप नहीं और क्रिया नाम इंद्रियोंका व्यापाररूप जो क्रिया तत्स्वरूपभी प्राण नहीं । 'एतस्मात् जायते प्राणः' इत्यादि श्रुतिमें वायु और इंद्रियोंसैं पृथक् नाम प्राणोंको भिन्न उपदेश किया है, यातें प्राण वायु और क्रियारूप नहीं । 'घः प्राणः सः वायुः' जा श्रुतिमें कार्यकारणका वास्तव अभेद कहा है, और 'जायते प्राणः' जामें कल्पित भेद कहा है, यातें उभयश्रुतिविरोध नहीं. इति ॥ ९ ॥

अव०— देहमें यथा जीव स्वतंत्र है तथा प्राणभी स्वतंत्र करण हैं, यातें उभयस्वतंत्रतासैं शरीरउन्मथनप्रसंग होवेगा, जा शंकासैं कहे हैं:—

चक्षुरादिवत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः ॥ १० ॥

चक्षुरादिवत् । तु । तत् । सह । शिष्ट्यादिभ्यः । इति प० ।

अर्थ—तु प्राणोंकी स्वतंत्रताका निषेध करे है । चक्षु आदिकोंके साथ जो प्राणोंका संवाद तामें तत्सह नाम इंद्रियोंके साथ प्राणोंका शिष्टि (शासना) अर्थात् उपदेश किया है, यातें चक्षुरादिवत् नाम यथा चक्षु आदिक अस्वतंत्र हैं तथा प्राणभी अस्वतंत्र हैं. आदिपदसैं अचेतनत्वादिका अंगीकार है. इति ॥ १० ॥

अव०—यथा नेत्रादिकोंके रूपादिक विषय हैं, तथा प्राणोंका साधारण विषय नहीं यातें नेत्रादिवत् करणत्वयुक्ति नहीं, जा शंकासैं कहे हैं ।

अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति ॥ ११ ॥

अकरणत्वात् । च । न । दोषः । तथा । हि । दर्शयति । इति प० ।

अर्थ—प्राण अकरणत्वात् नाम करण नहीं यातें प्राणविषयका अभाव दोषरूप नहीं, उक्तदोष करणको होवे है, अकरणको नहीं. चकारसैं देहधारणरूप कार्य प्राणका है. यह अंगीकार है. तथाहि श्रुति 'दर्शयति' नाम दिखावे है । 'तान् वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहं आपद्य अहमेव एतत्पञ्चधा आत्मानं विभज्य एतत् घाणं अवष्टभ्य विधारयामि' जा द्वितीय प्रश्नश्रुतिमें देहधारणरूप असाधारण कार्य दिखाया है. इति ॥ ११ ॥

अव०—प्राणोंका अपर कार्य दिखावे हैं:—

पञ्चवृत्तिर्मनोवद्व्यपदिश्यते ॥ १२ ॥

पञ्चवृत्तिः । मनोवत् । व्यपदिश्यते । इति प० ।

अर्थ—यथा अनेक वृत्तिरूप असाधारण कार्यकी दृष्टिसँ मन नाम अंतःकरण अनेक प्रकारका है अर्थात् प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, जा पंचवृत्तिवान् है; तथा प्राणभी प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, जा पंचवृत्तिवान् 'व्यपदिश्यते' नाम श्रुतिमें कहा है. इति ॥ १२ ॥

अणुश्च ॥ १३ ॥

अणुः । च । इति प०

अर्थ—यथा नेत्रादिक अणु हैं तथा प्राणभी परिच्छिन्न सूक्ष्म है. इति ॥ १३ ॥

ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात् ॥ १४ ॥

ज्योतिराद्यधिष्ठानम् । तु । तदामननात् । इति प० ॥

अर्थ—इंद्रियां और प्राणोंकी देवता अधीन चेष्टा है, वा स्वतंत्र है, यह इसमें संदेह है । 'चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति' जा श्रुतिमें देवताविना इंद्रियोंकी चेष्टा प्रतीत होवे है, और 'अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत् । वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् । आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा आक्षिणी प्राविशत् । दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णां प्राविशत् । ओषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशत् । चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत् । मृत्युः अपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत् । आपो रेतो भूत्वा शिश्रं प्राविशत्' जा ऐतरेयके द्वितीय खंडकी श्रुतिमें देवता अधीन चेष्टा प्रतीत होवे है. इन उभय वचनोंके विरोधमें यह उत्तर है । ज्योति नाम अग्नि आदिमें होवे जिनके ते ज्योतिआदि कहिये. तिनकरके जो प्रेरित सो ज्योतिआदि अधिष्ठान अंगीकृत है. अर्थात् अग्निआदिक देवताकरके प्रेरणावान् वाक्यादिकोंका ग्रहण है. तत् नाम देवताप्रेरित वाक्यादिक 'आमननात्' नाम उक्तश्रुतिमें अंगीकार किये हैं, यातें इंद्रियोंकी देवताअधीन चेष्टा है. अचेतनकी स्वतः चेष्टाः संभवे नहीं. इति ॥ १४ ॥

अच०—प्रेरणासँ देवता अधीन भोगप्राप्ति नहीं यह कहे हैं:—

प्राणवता शब्दात् ॥ १५ ॥

प्राणवता । शब्दात् । इति प० ।

अर्थ—प्राणवता नाम जीवसँही इंद्रियोंका स्वस्वामिरूप संबंध है. यातें इंद्रियसाध्य जो भोग सो जीवकोही होवे है. शब्दात् यह तहां हेतु है । 'अथ

यत्र एतत् आकाशं अनुविषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुः' जा छांदोग्यके अष्टम अध्यायगत श्रुतिका शब्दपदसं ग्रहण है । अर्थ—अथ नाम देहमें प्राणप्रवेश अनंतर यत्र नाम कृष्णतारामें जो सिद्धरूप आकाश तामें चक्षु 'अनुविषण्णं' नाम प्रवेश किया तहां 'स चाक्षुषः' नाम चक्षुवान् पुरुष है. रूपादिदर्शनार्थ तिनके यह चक्षु हैं. इति ॥ १५ ॥

तस्य च नित्यत्वात् ॥ १६ ॥

तस्य । च । नित्यत्वात् । इति प० ।

अर्थ—किंच स्वकर्मोंकरके प्राप्त जो देह इसमें तस्य नाम जीवको कर्ता भोक्ता रूपसं नित्य होनेसं देवता इस शरीरमें भोक्ता नहीं. किंतु इंद्रियोंके अधिष्ठाता हैं. इति ॥ १६ ॥

अव०—ननु इंद्रियां कोई पदार्थ होवें तो तत् देवनका विचार किया चाहिये, इंद्रियां मांसपिंडमात्र हैं वा प्राणव्यापारमात्र हैं यातें उक्तविचार निष्फल है. जा शंकासं कहेहैं. ।

त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् ॥ १७ ॥

ते । इन्द्रियाणि । तद्व्यपदेशात् । अन्यत्र । श्रेष्ठात् । इति प० ।

अर्थ—'एतस्मात् जायते प्राणः' जा श्रुतिमें प्राणोंसं इंद्रियां भिन्न प्रतीत होवें हैं और 'हन्त अस्यैव सर्वे रूपं असाम इति त अस्यैव सर्वे रूपं अभवन्' जा श्रुतिमें प्राणरूपही इंद्रियां कही हैं, यातें दोनों श्रुतियोंका पूर्वपक्षमें विरोध मानेसं यह सिद्धांत है. श्रेष्ठात् नाम प्राणोंसं ते नाम वाक्पादिक अन्यत्र नाम अन्य 'इन्द्रियाणि' नाम इंद्रियां हैं; प्राणव्यापाररूप नहीं. तत् नाम प्राणोंसं 'एतस्मात् जायते' जा श्रुतिमें 'व्यपदेशात्' नाम भिन्न कथन किया है यातें प्राणव्यापाररूप इंद्रियां नहीं. श्रुतिअर्थ—अव हम सर्व वाक्पादिक इस प्राणकी नाई रूपवान् होवें इस प्रकार ते वाक्पादिक इस प्राणका स्वरूप हुये. इति ॥ इस श्रुतिमें प्राणअधीन चंष्टावान् इंद्रियां हैं. यह अंगीकार है. प्राणस्वरूप है, यह अंगीकार नहीं. इति ॥ १७ ॥

भेदश्रुतेः ॥ १८ ॥

भेदश्रुतेः । इति प० ।

अर्थ—'अथ ह इमं आसन्नं प्राणं ऊचुः' जा श्रुतिमें प्राणको

इंद्रियोंसे भिन्न सुना है. चाते प्राणव्यापाररूप इंद्रियां नहीं । आस्य नाम मुखमें जो होवे सो आसन्य कहिये, अर्थात् प्राणका नाम है. इति ॥ १८ ॥

वैलक्षण्याच्च ॥ १९ ॥

वैलक्षण्यात् । च । इति प० ।

अर्थ—सुषुप्तिमें प्राणोंकी स्थिति है, इंद्रियोंकी नहीं. इत्यादिक बहुविलक्षणातासेंभी इंद्रियां प्राणोंसें भिन्न हैं चाते वाक्यनका विरोध नहीं. इति ॥१९॥

अव०—‘अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि तासां घृतं घृतं एकैकं करवाणि’ जा छांदोग्यश्रुतिमें नाम रूप प्रकट करनेका कर्ता सुना है. सो जीव है, वा ईश्वर है, जा संदेहसें पूर्वपक्षमें जीव अंगीकार कियेसें यह सिद्धांतसूत्र है ॥

संज्ञामूर्तिऋषिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात् ॥ २० ॥

संज्ञामूर्तिऋषिः । तु । त्रिवृत्कुर्वतः । उपदेशात् । इति प० ।

अर्थ—तु जीवकर्तृत्व निषेधार्थ है. संज्ञा जो नाम मूर्ति जो रूप तिन उभयकी जो ऋषि नाम कल्पना अर्थात् नामरूपका प्रकट करना सो ‘त्रिवृत्कुर्वतः’ नाम परमेश्वरकोही योग्य है. उपदेशात् नाम ‘व्याकरवाणि’ जा श्रुतिमें परदेवताकोही नामादिकोंका कर्ता उपदेश किया है, चाते जीव कर्ता नहीं. इति ॥ २० ॥

अव०—शरीरमें त्रिवृत्करण दिखावे हैं ॥

मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २१ ॥

मांसादि । भौमम् । यथाशब्दम् । इतरयोः । च । इति प० ।

अर्थ—शरीरमें पृथिवीके त्रय कार्य हैं. पुरीष, मांस, मन, इति । जलकेभी त्रय हैं. मूत्र १, लोहित २, प्राण ३, तेजकेभी त्रय हैं. अस्य १, मज्जा २, वाक् ३, इति । यह आध्यात्मिक त्रिवृत्करण है. सोई सूत्रकार कहे हैं. ‘भौमं’ नाम भूमिके कार्य मांसादि त्रय हैं. यथा०—‘अन्नमशितं त्रिधा विधीयते तस्य यः स्वविष्टो घातुः तत् पुरीषं भवति यो मध्यमः तन्मांसं योऽणिष्ठः तन्मनः’ और ‘इतरयोः’ नाम जल तेजकेभी त्रयही कार्य हैं ‘यथाशब्दं’ नाम ‘आपः पीताः त्रिधा विधीयन्ते तासां यः स्वविष्टो घातुः तन्मूत्रं भवति यो मध्यमः तल्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राणः ॥ तेजोऽशितं

त्रिधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुः तदस्थि भवति यो मध्यमः
सा मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक्' जा श्रुति अनुसार ग्रहण किये चाहिये. इति २१

अव०-ननु सर्वका त्रिवृत्करण हुयेसँ यह पृथ्वी है, यह जल है, यह तेज है, जाविध भिन्न भिन्न व्यवहार कैसे होवेगा, जा शंकासँ भगवान् सूत्रकार कहे हैं.

वैशेष्यात् तद्वादस्तद्वादः ॥ २२ ॥

वैशेष्यात् । तु । तद्वादः । तद्वादः । इति प० ।

अर्थ-तु पूर्वपक्षनियेधकहै. पृथिवी आदिकोंका त्रिवृत्करण हुयेसेभी 'वैशेष्यात्' नाम स्वस्व अर्द्धभागकी अधिकतासँ तत्त्वाद नाम यह पृथ्वी है इत्यादि व्यवहार संभवे है. द्वितीय 'तत्त्वादपद' अध्यायकी समाप्तिके अर्थ है. उक्तविधसँ श्रुतिवाक्यनका रंचक विरोध नहीं, यातँ सर्व वेदांतका ब्रह्ममें समन्वय है. इति सिद्धम् ॥ २२ ॥

इति शारीरकसूत्रभावप्रकाशिकाभाषाटीकायां द्विती-
याध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ ४ ॥ शुभमस्तु
श्रीरामाय नमो नमः

अथ तृतीयध्यायप्रारम्भः ॥ ३ ॥

दोहा-विराग पदार्थ शोधन, परगुणउपसंहार ॥

उप वहि साधन दोयका, जासँ करँ विचार ॥ १ ॥

इस अध्यायकेभी चार पाद हैं, तहां प्रथमपादमें जीवका जो परलोकमें ग-
मन ताका विचार है; सो विचार विरागार्थ है. द्वितीयपादमें तत् त्वं पदार्थनका
शोधन करंगे, तृतीयमें सगुणविद्यामें गुणनका उपसंहार विधान करंगे, चतु-
र्थमें निर्गुण ब्रह्मज्ञानके बहिरंग और अंतरंग साधन कहंगे. तहां प्रथम पादके
सप्तअधिक वीस सूत्र हैं. तिनमें पद अधिकरण हैं, एकविंशति गुणरूप हैं.
तथाहिः—

संख्या	अधिकरण	गुण	प्रसङ्ग
१	अ०	+	जीवगमनविचार.

२	+	गु०	जी०
३	+	गु०	जी०
४	+	गु०	जी०
५	+	गु०	जी०
६	+	गु०	जी०
७	+	गु०	जी०
८	अ०	गु०	कर्मयुक्तआगमन.
९	+	गु०	कर्म०
१०	+	गु०	कर्म०
११	+	गु०	कर्म०
१२	अ०	+	पापीचंद्रलोकप्राप्तिपूर्व०
१३	+	गु०	तन्निषेधनरकप्राप्ति.
१४	+	गु०	तत्०
१५	+	गु०	सप्तनरकविधान.
१६	+	गु०	तहां यमआज्ञा.
१७	+	गु०	तृतीयमार्ग.
१८	+	गु०	आहुतितिनियमनिषे.
१९	+	गु०	आ०
२०	+	गु०	आ०
२१	+	गु०	अंडजादिभेद.
२२	अ०	+	आगममार्ग.
२३	अ०	+	आ०
२४	अ०	+	अन्नमं संबंधसिद्धि.
२५	+	गु०	संव०
२६	+	गु०	सं०
२७	+	गु०	योनिजन्मअंगीकार.
	<u>६</u>	<u>२१</u>	

इति ॥ तहां यह प्रथम सूत्र है—

तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्न- निरूपणाभ्याम् ॥ १ ॥

तदन्तरप्रतिपत्तौ । रंहति । सम्परिष्वक्तः । प्रश्ननिरू-
पणाभ्याम् । इति प० ।

अर्थ—जीव यदा पूर्वदेहको त्यागके अपरदेहको प्राप्त होवेहै तदा प्राण, इंद्रिय, मूलाविद्या, धर्माधर्म, पूर्वध्रमजन्य संस्काररूप पूर्वज्ञान इतनी साम-
ग्रीसहित अपरदेहको प्राप्त होवेहै; यह श्रुतिसिद्ध अर्थ है. तहां देहके आरं-
भक व प्रणादिकोंके आधाररूप जे पंचीकृत भूतनके भाग तिनभागोंसँ सम्प-
रिष्वक्त जीव गमन करेहै वा असम्परिष्वक्त, गमन करेहै ? यह इस अधिकर-
णमें संदेह है । तहां प्रमाणके अभावसँ असम्परिष्वक्त गमन करे है यह पूर्व-
पक्ष है । पूर्वपक्षमें वैराग्यकी असिद्धि फल है. सिद्धांतमें तत्सिद्धि फल है.
यहां यह सिद्धांत है:—तत् नाम पूर्वशरीरसँ अंतर नाम अपरशरीरकी जो
प्रतिपत्ति नाम प्राप्ति तदर्थ सम्परिष्वक्त नाम भूतभागसँ सम्बद्ध जीव 'रंहति'
नाम गमन करेहै. प्रश्न व निरूपण यह दो तहां हेतु हैं. तथाहि:—छांदोग्यमें
पंचाग्निविद्यामें कहा है कि कोई प्रवाहणनाम राजा था ताकी सभामें श्वेत-
केतु गया था ताके आगे राजाने पंच प्रश्न किये यह प्रश्नपदका अर्थ है.
तिनका उत्तर श्वेतकेतुको नहीं आया तब श्वेतकेतुने आकर पितासँ पूछा तो
उसने कहा हमकोभी यह विद्या नहीं आती, तब उद्दालकने जाकर राजासँ
पूछा तब राजाने यह उपदेश किया 'असौ वाव लोको गौतमाग्निस्तस्या-
दित्य एव समिद्रश्मयो धूमोऽहरर्चिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फु-
लिङ्गाः ॥१॥ तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देव श्रद्धां जुहति तस्या आहुतेः
सोमो राजा सम्भवति ॥ २ ॥ १ ॥ पर्जन्यो वाव गौतमाग्निः तस्य
वायुरेव समिद्भ्रं धूमो विद्युर्दधिरशनिरङ्गाराः हाडुनयो विस्फु-
लिङ्गाः ॥१॥ तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवाः सोमं राजानं जुहति तस्या
आहुतेः वर्षं सम्भवति ॥ २ ॥ पृथिवी वाव गौतमाग्निः तस्याः सं-
वत्सर एव समित् आकाशो धूमो रात्रिरर्चिर्दिशोऽङ्गारा अवान्तरदि-
शो विस्फुलिङ्गाः ॥ तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा वर्षं जुहति तस्या
आहुतेः अन्नं सम्भवति ॥ ३ ॥ पुरुषो वाव गौतमाग्निः तस्य वागेव
समित् प्राणो धूमो जिह्वार्चश्चक्षुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः ॥ तस्मिन्

एतस्मिन् अग्नौ देवा अन्नं जुहति तस्या आहुतेः रेतः सम्भवति ॥४॥
 योपा वाच गौतमाग्निः तस्या उपस्थ एव समिद् यदुपमन्त्रयते स धूमो
 योनिरर्चिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः तस्मिन् ए-
 तस्मिन् अग्नौ देवा रेतो जुहति तस्या आहुतेः गर्भः सम्भवति ॥५॥ इति
 तु पञ्चम्यां आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति । इति । इस पंचाग्निविद्याके
 उपेदशका निरूपणपदसँ ग्रहण है. उक्त प्रश्न व निरूपणसँ जलादिभूतसम्बद्ध
 जीवका गमन होवेहै. यह निश्चित है । अर्थ—हे गौतम ! यह द्युलोक अग्नि है.
 इसमें देवा नाम अग्निआदिरूप यजमानके प्राण श्रद्धा नाम दुग्धादिरूप ज-
 लका हवन करें हैं. तिस आहुतिसँ तिन जल्लोका परिणामरूप सोम राजा अ-
 र्थात् चंद्र समीपस्थ तत्सदृश शरीर होवेहै । पर्जन्य, (देवताविशेष) देव,
 (इंद्रादि), इसीतरा आगे जानना चाहिये. पंचमी आहुतिमें जल्लोकी पुरुष-
 संज्ञा होवेहै. इति ॥ १ ॥

व्यात्मकत्वात् भूयस्त्वात् ॥ २ ॥

व्यात्मकत्वात् । तु । भूयस्त्वात् । इति प० ।

अर्थ—यद्यपि उक्त प्रसंगमें जलसंबद्ध गमन भान होवेहै तथापि त्रिवृत्करण-
 धृतिसँ देह 'व्यात्मकत्वात्' नाम त्रयभूतस्वरूप निश्चित है; यातें यज-
 मानद्वारा ताको जलजन्य सिद्धहुये अपर दो जन्यत्व और तत्संबद्धत्वभी
 सिद्ध होवे है. धृतिमें जो केवल जलका ग्रहण है 'सो भूयस्त्वात्' नाम
 तेजादिकोकी अपेक्षासँ जलकी बाहुल्यतासँ है. इति ॥ २ ॥

प्राणगतेश्च ॥ ३ ॥

प्राणगतेः । च । इति प० ।

अर्थ—देहरूप जे भूत तत् आश्रित प्राण व इंद्रियां प्रतीत होवेंहैं । 'हृद-
 यस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा
 श्रुणो वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः ॥ तं उत्क्रामन्तं प्राणोऽनू-
 त्क्रामति प्राणं अनूक्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति' जा यहदार-
 प्यक्के षष्ठ अध्याय व चतुर्थ ब्राह्मणगत धृतिमें मरणकालमें प्राणोंकी
 गति नाम गमन सुना है. यातें जीवनकालमें यथा प्राण देह आश्रित हैं

तथा मरणकालमेंभी भूतआश्रित प्रणोंका गमन सिद्ध होनेसँ जीव भूतसं-
बद्धही गमन करेहै. इति ॥ ३ ॥

अग्न्यादिगतिश्रुतेरितिचेन्न भाक्तत्वात् ॥ ४ ॥

अग्न्यादिगतिश्रुतेः । इति । चेत् । न ।

भाक्तत्वात् । इति प० ॥

. अर्थ—‘यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निं वागप्येति वातं प्राणः चक्षुरा-
दित्यं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रे पृथिवीं शरीरं आकाशं आत्मा औषधी-
लोमानि वनस्पतीन् केशाः’ जा बृहदारण्यकके पंचम अध्याय द्वितीय
ब्राह्मणगत श्रुतिमें वाक् आदिक इंद्रियोंका अग्निआदिक देवतनमें गति
नाम लय सुना है यातें अपरलोकमें इंद्रियगमन असंभवसँ भूतसम्बद्ध
जीवगमन कथन असंगत है, जा शंका करें तौ असंगत है. तथाहि-उक्त
श्रुतिका यह अर्थ है कि प्रथम हृदयके अग्रभागमें प्रकाश होवेहै तिसकरके
यह आत्मा गमन करेहै. तिसके गमन पीछे ‘प्राण गमन, करेहैं प्राण गमन
किये पीछे सर्व इंद्रियां गमन करेहैं. इति । और ‘ओषधीलोमानि’ जा श्रु-
तिमें औषधिनमें लोमनका लय कहा है. वनस्पतिमें केशलय कहा है. ते
लोम केश मृतपुरुषके प्रत्यक्षसँ लय होते प्रतीत होवे नहीं और वाक् आदि-
कोंका लयभी तहां कहा है यातें पूर्वउक्त गमनबोधक श्रुतिसँ विरोध नि-
पेध अर्थ वाक् आदिकोंका लय भाक्त नाम गौण है मुख्य नहीं. इति ॥ ४ ॥

प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्युपपत्तेः ॥ ५ ॥

प्रथमे । अश्रवणात् । इति । चेत् । न । ताः । एव । हि

उपपत्तेः । इति प० ।

अर्थ०—ननु ‘एतस्मिन् अग्नौ देवाः श्रद्धां जुहति’ जा श्रुतिमें प्रथमे
नाम प्रथम अग्निविषे श्रद्धारूप आहुति सुनी है जल नहीं सुना, इति चेत्
नाम जो उक्त शंका करें तौ असंगत है. श्रद्धा मनकी वृत्तिविशेष है. यातें
ताकी आहुति संभवे नहीं, किंतु जलरूप दुग्धादिकोंकीही आहुति संभवे है
यातें ता नाम जलही श्रुतिमें श्रद्धापदसँ ग्रहण किया है, जलसँ श्रद्धाशब्द
लाक्षणिक है. इति ॥ ५ ॥

अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतिः ॥६॥

अश्रुतत्वात् । इति । चेत् । न । इष्टादिकारिणाम् ।

प्रतीतिः । इति प० ।

अर्थ—ननु जलादिकोंकी नाई जीवको उक्त श्रुतिमें गमनका कर्ता सुना नहीं, यातें जलादिभूतसम्बद्ध गमन कथन असंगत है, जा शंशाका आधे सूत्रसैं निषेध करें हैं, जे गृहस्थ इष्टापूर्तदत्तको करेहैं ते चंद्रलोकमें जावेहैं तिनका 'एष सोमो राजा' जा श्रुतिमें सोमराजशब्दसैं ग्रहण है तथा पंचाग्नि-विद्यामेंभी आहुतिको सोमराजशब्दसैं सुना है; यातें तिन इष्टादिकारी पुरुषोंकी पंचाग्निविद्यामें प्रतीति होनेसैं भूतसंबद्ध जीवगमन संभवे है, इति ॥६॥

अथ०—ननु 'ते चंद्रं प्राप्य अन्नं भवन्ति' जा श्रुतिमें कर्माजनोंको देवनका अन्न कहा है, यातें चंद्रलोकमें तिनका गमन स्वकर्मफलभोगार्थ है, यह तो संभवे नहीं जा शंकारैं कहेहैं ।

भाक्तं वानात्मवित्वात्तथाहि दर्शयति ॥ ७ ॥

भाक्तम् । वा । अनात्मवित्वात् । तथाहि । दर्शयति । इति प० ।

अर्थ—या पद उक्तदोषके निषेधार्थ है, उक्त श्रुतिमें कर्मीको जो अन्नरूप कहा है सो 'भाक्तं' नाम गौण है, मुख्य नहीं, यथा पुत्रादि भोगके साधन होंवेहैं तथा कर्मीजनभी देवनके प्रति भोगके साधन हैं; यातें तिनको अन्न कथन किया है, और 'अनात्मवित्वात्' नाम कर्मीजन अज्ञानी हैं; यातेंभी देवनप्रति तिनको भोग्यकरके कहा है, तथाहि—'उत्तरश्रुतिर्दर्शयति' नाम अनात्मवेत्ता होनेसैं कर्मीको देवनका भोग्यकरके दिखावेहैं । 'अथ षोऽन्यां देयतां उपासते अन्योऽसौ अन्योऽहमस्मि न स घेद यथा पशु एषं स देयानां इति' यह श्रुति बृहदारण्यकके प्रथमर्म है, अर्थ—जो अन्नदायित् आत्मासैं भिन्न देयताकी उपासना करेहै यह हमसैं भिन्न हें मैं इसका दाम हीं जायिध माने है सो तत्तको नहीं जाने है सो देवनका पशु है, इति । यातें अन्नकथनको गौण होनेमें परलोकभोगार्थ गमन संभवे है, इति ॥ ७ ॥

कृतात्ययेऽनुशयवान् दृष्टिस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च ८
कृतात्यये । अनुशयवान् । दृष्टस्मृतिभ्याम् । यथा ।

एतम् । अनेवं । च । इति प० ।

अर्थ-‘तस्मिन् यावत् सम्पातं उपित्वा अथैतं एव अध्वानं पुनर्नि-
वर्तन्ते यथेतं आकाशं आकाशाद् वायुम्’ जा श्रुतिमें तहांही यह कहा है
कि तिस चंद्रलोकमें भोक्तव्य कर्मको भोगके पुनः इसी मार्गको प्राप्त होवेहै-
इति । इसमें यह संदेह है कि तहांसे अनुशयवान् आवें हैं वा अनुशयरहित
आवेंहैं? पूर्वपक्षमें अनुशयरहित अंगीकार कियेसे यह सिद्धांत है; कि ‘कृत’
नाम स्वर्गदाता कर्मके ‘अत्यये’ नाम भोगसे विनाश हुयेसे शेष कर्म यु-
क्तही जीव आवेहै- दृष्ट व स्मृति यह तहां हेतुहैं । ‘तद्य इह रमण्यिच-
रण अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिं आपद्येरन् ब्राह्मणयोनिं वा
क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वा अथ य इह कर्पूचरणा अभ्याशो
ह यत्ते कर्पूपां योनिं आपद्येरन् । श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डा-
लयोनिं वा’ यह श्रुतिवचन दृष्टपदसे अंगीकृत है । अर्थ-ये कर्मी इस
कर्मभूमिमें शुभ कर्म करें ते स्वर्गसे आकर ब्राह्मणादिकयोनिको प्राप्त होवे
हैं, ये पापकारी हैं ते आकर श्वानादिक योनिको पावें हैं- अभ्याशपद शीघ्र-
वाची है- ‘शेषेण जन्म प्रतिपद्यन्ते’ जा स्मृतिवाक्यका स्मृतिपदसे ग्र-
हण है- उभय श्रुति स्मृतिसं शेषकर्मवानकाही आगमन प्रतीत होवेहै- ते
कर्मी जा मार्गसे जावे हैं उसी मार्गसे आवेंहैं वा अपर मार्गसे आवेंहैं? जा
संदेहसे कहेहैं- ‘यथा एतं’ नाम जिस मार्गद्वारा चंद्रलोकमें प्राप्त हुयेये
‘अनेवं च’ नाम तिससे अपर मार्गसे आवेहैं- इति ॥ ८ ॥

चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कार्णाजिनिः ॥९॥

चरणात् । इति । चेत् । न । उपलक्षणार्था । इति ।

कार्णाजिनिः । इति प० ।

अर्थ-ननु श्रुतिमें चरणसे योनिप्राप्ति सुनी है- सो चरण अनुशयकर्मसे
भिन्न है याते शेषकर्मवान आवे हैं- जा कथन संभवे नहीं जा शंकाका यह
उत्तर है कि चरणश्रुति अनुशयके उपलक्षणार्थ है- यह कार्णाजिनि आ-
चार्य मानेहैं- इति ॥ ९ ॥

आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात् ॥ १० ॥

आनर्थक्यम् । इति । चेत् । न । तत् । अपेक्षत्वात् । इति प० ।

अर्थ—ननु चरणश्रुति उपलक्षणार्थ है यह असंगत है. शुभाशुभरूप जो चरण तिससँ उत्तम मंद योनि प्राप्ति संभवेहै. अन्यथा चरण अनर्थक होवेगा जा कल्पना करें तौ असंगत है. कर्मनको तत् नाम चरणकी अपेक्षा है यातें चरण अनर्थक नहीं. इति ॥ १० ॥

सुकृतदुष्कृते एवेति वादरिः ॥ ११ ॥

सुकृतदुष्कृते । एव । इति । वादरिः । इति प० ।

अर्थ—चरणपदसँ सुकृत नाम धर्म दुष्कृत नाम पाप यह उभयही अंगीकार हैं. यह वादरि आचार्य मानेहैं । 'धर्म चरति एष महात्मा' जा-विद्य लोकमें कर्म और चरणमें एकही प्रयोग देखा है. यातें चंद्रलोकसँ अनुशययानही जा लोकमें आवे है. इति सिद्धम् ॥ ११ ॥

अनिष्टादिकारिणामपि श्रुतम् ॥ १२ ॥

अनिष्टादिकारिणाम् । अपि । श्रुतम् । इति प० ।

अर्थ—चंद्रलोकमें पापी जावे हैं या नहीं? जा संदेह हुयेपर पूर्वपक्षमें यह सूत्रार्थ है. यथा इष्टादिकोंके करनेवाले चंद्रलोकमें जावे हैं. तथा 'अनिष्टादिकारिणाम्' नाम पापीजनोंकाभी चंद्रलोकमें गमन होवेहै । 'ये वै के चास्माद्भोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसं एव ते सर्वे गच्छन्ति' जा कौपी-तकियुतिमें मर्यका गमन चंद्रलोकमें 'श्रुतं' नाम सुना है यातें धर्मीही तहाँ जावें हैं यह असंगत है. तहां चंद्रलोकमें पापीजनोंको भोग नहीं होता किंतु तहां गमनमात्रकरके तहांसँ आकर नरकमें दुःखका अनुभव करे हैं. इति. ॥१२॥

सिद्धांतसूत्र ।

संयमने त्वनुभूयेतरेपामारोहावरोहौ

तद्गतिदर्शनात् ॥ १३ ॥

संयमने । तु । अनुभूय । इतरेपाम् । आरोहावरोहौ ।

तद्गतिदर्शनात् । इति प० ।

अर्थ—चंद्रलोकमें जो गमन है सो भोगार्थ है जो बिना भोगमें पायीका

गमन होवे तौ सो व्यर्थ होवेगा. पूर्व जो श्रुति कही है सो धर्मविषयक है पापविषयक नहीं यातें धर्माही चंद्रलोकमें जावेंहैं. और पापी 'संयमने' नाम यमलोकमें पापफल दुःखके अनुभवार्थ जावेंहैं. तहां दुःखका 'अनुभूय' नाम अनुभवकरके पुनः इस लोकमें आवेंहैं. इसप्रकार 'इतरेषाम्' नाम पापीजनोंका आरोह अधरोह नाम गमनागमन होवेहैं. तत् नाम यमपुरके प्रति जो गति सो दर्शनात् नाम । 'अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे' जा कठगत द्वितीयवल्लीश्रुतिमें देखी है. इति॥१३॥

स्मरन्ति च ॥ १४ ॥

स्मरन्ति । च । इति प० ।

अर्थ—मनु आदिकोंनेभी पापीजनोंको नरकमें भोग स्मरण किया है, यातें चंद्रलोकप्राप्ति धर्माकोही है. इति ॥ १४ ॥

अपि च सप्त ॥ १५ ॥

अर्थ—पौराणिकोंनेभी रौरवादिक सप्त नरक, पापफल, भूमिरूपकरके स्मरण किया है. तिनमें पापी प्राप्त होवे हैं. इति ॥ १५ ॥

तत्रापि च तद्व्यापारादविरोधः ॥ १६ ॥

तत्र । अपि । च । तद्व्यापारात् । अविरोधः । इति प० ।

अर्थ—यद्यपि महारौरवादिक नरकनमें चित्रगुप्तकी शासना सुनी है यातें तहां यमराजकी शासना है यह कथन विरुद्ध है; तथापि तत्रापि नाम चित्रगुप्तकी शासनमेंभी तत् नाम यमराजकाही अज्ञारूप व्यापार है यातें अविरोध है, चित्रादिक यमके अधीन हैं. इति ॥ १६ ॥

अव०—उपासकोंका अग्नि आदि मार्ग है. केवल कर्माजनोंका धूमादि मार्ग है उक्त मार्ग दोयसैं भ्रष्ट जे पापी तिनके लिये तृतीयमार्ग कहा है. यातें भी तिनको चंद्रलोक प्राप्त होवे नहीं. यह कहे हैं ।

विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात् ॥ १७ ॥

विद्याकर्मणोः । इति । तु । प्रकृतत्वात् । इति प० ।

अर्थ—राजा प्रवाहणने श्वेतकेतुसैं पूजा था कि बहु जीव मृत होते हैं ति-

नसँ चंद्रलोक कैसे नहीं पूर्ण होता यह प्रकार तुम जानते हो? इस प्रश्नका उत्तर राजाने उद्दालक मुनिके प्रति कहा है. पापी जीवोंके अग्निभूम मार्ग नहीं किंतु 'जायस्व म्रियस्व' यह तीसरा मार्ग है. यातें स्वर्ग नहीं पूर्ण होता. यह सूत्रकार कहें है। विद्या नाम उपासना देवयान मार्गका साधन है. कर्म पितृयान मार्गका साधन है. पापीका इन मार्गमें अधिकार नहीं. उभयमार्गके विद्या कर्म साधनरूपसँ 'प्रकृतत्वात्' नाम प्रसंगमें प्राप्त हैं. और पापी जीवनका पुनः पुनः जन्ममरण बाहुल्यतायुक्त तीसरा मार्ग है यातें स्वर्ग पूर्ण होता नहीं. इति ॥ १७ ॥

अब०—ननु जा लोकमें पापीके जन्मअर्थ पापीको चंद्रलोककी प्राप्ति कही चाहिये जो नहीं मानेंगे तौ पांचवीं आहुतिसँ जलकी पुरुषसंज्ञा होवे है यह नियम नहीं रहेगा. जा शंकाका उत्तर कहें हैं।

न तृतीये तथोपलब्धेः ॥ १८ ॥

न । तृतीये । तथा । उपलब्धेः । इति प० ।

अर्थ—तृतीये नाम तीसरे मार्गमें प्रवेशवान् जे पापी तिनके अर्थ देहप्राप्तिके अर्थ आहुतिसंख्याका नियम नहीं 'अथ एतयोः पथोर्न कतरेण च न तानि इमानि धुद्राणि असकृत् आवर्तीनि भूतानि भयन्ति जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयोऽयं स्थानं । तेन असौ लोको न सम्पूर्यते तस्मात् जुगुप्सेत्' जा श्रुतिमें संख्यानियमयिनाही 'तथा उपलब्धेः' नाम तृतीय मार्गमें देहप्राप्ति प्रतीत होवे है. आहुतिका योनि जो यम सो धर्मके अर्थ है. इति ॥ १८ ॥

स्मर्यतेऽपि च लोके ॥ १९ ॥

स्मर्यते । अपि । च । लोके । इति प० ।

अर्थ—लोके नाम महाभारतादिकोंमें द्रोण, घृष्टघुम्न, सीता, द्रौपदी आदिकोंको योनिरहित स्मरण किया है. तहां द्रोणादिकोंकी योपित आहुति एक नहीं घृष्टघुम्नादिकोंकी योपित पुरुष दोनोंकी आहुति नहीं है, यातें संख्याका नियम नहीं ॥ १९ ॥

दर्शनाच्च ॥ २० ॥

दर्शनात् । च । इति प० ।

अर्थ—किंच लोकमें जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज्ज, जा चार भेद दे-हके सुनेहैं. तहां स्वेदज व उद्भिज्जकी योपित पुरुष संबंधविनाही उत्पत्ति 'दर्शनात्' नाम देखनेसैं आहुति संख्याका नियम नहीं. इति ॥ २० ॥

अव०—ननु 'तेषां भूतानि त्रीणि एव बीजानि भवन्ति अपण्डजं जीवजं उद्भिज्जम्' जा श्वेतकेतु 'उपदेशात्' श्रुतिमें शरीरके त्रयभेद सुनेहैं • यातें चार भेद कथन विरुद्ध है, जा शंकासैं कहहैं ।

तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥ २१ ॥

तृतीयशब्दावरोधः । संशोकजस्य । इति प० ।

अर्थ—श्रुतिमें उद्भिज्ज यह जो तृतीय शब्द है. इसकरके 'संशोकजस्य' नाम स्वेदजकाभी अवरोध नाम ग्रहण है. वृक्षादिक पृथिवीको फोड़कर निकलहैं. स्वेदज जलको फोड़कर निकलेहैं. यातें उभयमें अवयवार्थ अर्थात् फोड़ना तुल्य होनेसैं उद्भिज्जसैं स्वेदजका ग्रहण संभवेहै. इति ॥ २१ ॥

तत्साभाव्यापत्तिरूपपत्तेः ॥ २२ ॥

तत्साभाव्यापत्तिः । उपपत्तेः । इति प० ।

अर्थ—'तस्मिन् यावत् सम्पातं उपित्वा अथ एतमेवाध्वानं पुनर्निर्वतन्ते यथेतं आकाशं आकाशाद् वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अन्नं भवति ॥ १ ॥ अन्नं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा वर्षति त इह व्रीहि यवा औषधिवनस्पतयः तिलमाषा इति जायन्ते अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरं यो यो हि अत्र अस्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूयः एव भवति ॥ २ ॥' यह छांदोग्यके पंचमप्रपाठकके दशमखण्डगत श्रुति उक्त सूत्रका विषयवाक्य है.

अर्थ—'तस्मिन्' नाम चंद्रलोकमें जवतक 'संपातं' नाम कर्मनका क्षय होय 'उपित्वा' तवतक रहकर । उसी मार्गसे फिर लौटते हैं. चंद्रलोकगतजल आकाशवत् सूक्ष्म होवे है । 'अतः' नाम अनुशयवान् रेतःसिक् अकृतिरूप-होवे है. इति । यवादिकोंमें निकलना 'दुर्निष्प्रपतरं' नाम दुर्निष्प्रपतरे हैं

अर्थात् कठिन है. यो रेतसूँसिचन करे है सो 'भूय एंव' नाम तत् आकृति ही होवे. है अर्थात् यदा जीवका स्वर्गसँ आगमन होवे है तदा आकाशादिकोंका स्वरूप होवे है वा तत् तुल्य होवे हैं. पूर्वपक्षमें श्रुति अक्षर अनुसार जीवको आकाशादिकोंका स्वरूप अंगीकार कियेसँ यह सिद्धांत है कि जीवको आकाशादिकोंकी 'साभाव्य' नाम तुल्यता की आपत्ति नाम प्राप्ति होवे है सोई 'उपपत्तेः' नाम बने है. लोकमें क्षीरकालमें दधि होवे नहीं यातें दुग्धको दधिरूपता युक्त है. पूर्व विद्यमान जो आकाशादि स्वरूप तत् रूप जीवको होना संभवे नहीं किंच जीवको आकाश स्वरूप मानेसँ उत्तर वायु आदिकोंका स्वरूप कहिना असंगत होवेगा, यातें जीवका आकाशादिकोंसँ संबंध मात्र होवे है सो सादृश्यरूप है. इति ॥ २२ ॥

अव०—तहां जीव बहुकाल सादृश्यताको प्राप्त होकर अपरकी सादृश्यताको प्राप्त होवे है वा कल्पकाल रहे है? जा संदेहसँ कहें हैं।

नातिचिरेण विशेषात् ॥ २३ ॥

न । अतिचिरेण । विशेषात् । इति प० ।

अर्थ—जीव अतिचिरेण नाम बहुकाल सादृश्यताको प्राप्त नहीं होवे है किंतु अल्प अल्पकाल आकाशादिकोंके तुल्य स्थित होकर वर्षाधाराद्वारा पृथिवीमें प्रवेश करे है, 'विशेषात्' यह तहां हेतु है. 'दुर्निष्प्रपतरं' जा पूर्ण श्रुतिमें ग्रीहादिकोंसँ जीवका निकलना दुःखतर कहा है यातें आकाशादिकोंसँ मुखसँ निकले है यह प्रतीत होवे है यातें ग्रीहि आदिकोंमें चिरकाल स्थितिरूप जो विशेषता तासँ आकाशादिकोंमें अल्प कल्पकाल सादृश्यतासँ स्थिति सिद्ध होवे है. इति ॥ २३ ॥

अन्याधिष्ठिते पूर्ववदभिलापात् ॥ २४ ॥

अन्याधिष्ठिते । पूर्ववत् । अभिलापात् । इति प० ॥

अर्थ—पूर्व श्रुतिमें जीवनका ग्रीहादिरूपसँ जो जन्म कहा है सो मुख्य है या अपर जीवोंकरके युक्त जे ग्रीहादि तिनमें संबंधमात्र होवे है? जा संदेहसँ कहें हैं. अन्य नाम अपर जीवोंकरके 'अधिष्ठिते' नाम युक्त जे ग्रीहादिक तिनमें अनुदायवान् जीवोंका संमर्ग मात्र होवे है. पूर्ववत् नाम आकाशादिकोंमें यथा मबंधमात्र होवे है तथा ग्रीहादिकोंमेंभी कर्मपरामर्शसँ यिनाही प्रवेश अभिलाष नाम कथन किया है यातें तहां तिनका संबंधमात्र होवे है. इति ॥२४॥

अशुद्धमिति चेन्न शब्दात् ॥ २५ ॥

अशुद्धम् । इति । चेत् । न । शब्दात् । इति प० ।

अर्थ—ननु ज्योतिष्टोमादिक कर्मनमें पशुआदिहिंसा होवेहै यातें ते कर्म अशुद्ध हैं अर्थात् पापके हेतु हैं यातें तिनके करनेवाले जे अनुशयवान् जीव तिनका व्रीह्यादिकोंमें दुःखानुभवार्थ मुख्यही जन्म मानना चाहिये यह शंका करें तौ 'शब्दात्' नाम विधिशास्त्रसँ हिंसाको धर्मरूप होतेंसँ असंगत है. इति ॥ २५ ॥

रेतःसिग्योगोऽथ ॥ २६ ॥

रेतःसिग्योगः । अथ । इति प० ॥

अर्थ—'अथ' नाम व्रीहिआदिक भावसँ अनंतर श्रुतिमें रेतःसिग्योग कहा है. रेतस्पद वीर्यवाचक है. तिसको जो सिंचन करे सो 'रेतःसिग्' कहिये तिसका जो भाव सो रेतःसिग्योग कहिये. तथाहि श्रुतिः । 'यो रेतः सिञ्चति तद्भूयः एव भवति इति' इसमें जो रेतस्का सिंचन कंहा है सो अनुशयवानको मुख्य तो संभवे नहीं इस कालमें तिसका प्रवेश किया है यातें ताको यौवनत्वभावकी प्राप्तिसँ सुख नहीं किंतु तहां ताका संसर्गमात्र कहा-चाहिये यातें व्रीह्यादिकोंमें संसर्गमात्रही है. इति ॥ २६ ॥

अव०—ननु अनुशयवानका सर्वमें संबंधमात्र अंगीकार कियेसँ ताका मुख्यजन्म कहंभी नहीं होवेगा जा शंकासँ कहें हैं ।

योनेः शरीरम् ॥ २७ ॥

योनेः । शरीरम् । इति प० ॥

अर्थ—योनिमें वीर्यके प्रवेश हुयेसे योनिसे अनुशयवान् जीवका अनुशयरूप कर्मफलके भोगके अर्थ शरीर उपजे है. यह शास्त्र कहे है. 'रमणीयचरणः' इत्यादि यातें ब्राह्मणादियोनिमें अनुशयवानका मुख्य जन्म होवे है. इति । इस गमनागमन विवेकसँ जो वैराग्य उपजे है सो ज्ञानका साधन है. इति तात्पर्यम् ॥ २७ ॥

इति शारीरकसूत्रभाष्यप्रकाशिकाभाषाटीकायां
तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादः समाप्तः ।

अथ द्वितीयपादप्रारम्भः ॥

इस पादमें तत्त्वंपदनके अर्थका शोधन करें हैं, आत्माकी स्वप्रकाशता सिद्धिमें स्वप्नको स्पष्ट साधनता है यातें प्रथम स्वप्नविचार करेंगे. इस पादके एक अधिक चालीस सूत्र हैं. तहां अष्ट अधिकरण हैं. शेष गुण हैं. तथाहि—

सङ्ख्या ।	अधिकरण ।	गुण ।	प्रसङ्ग.
१	अ०	+	स्वप्नसत्यपूर्वपक्ष
२	+	गु०	स्व०
३	+	गु०	मायामात्रसिद्धान्त
४	+	गु०	मा०
५	+	गु०	परसं बन्धमुक्तिअज्ञान
६	+	गु०	देहसचन्धईश्वरतिरोधान
७	अ०	+	सुषुप्ति आत्मामें
८	+	गु०	ब्रह्मसं उत्थान
९	अ०	+	सोई जीव उठेहै
१०	अ०	+	मूर्छा
११	अ०	+	निर्विशेषविचार
१२	+	गु०	नि०
१३	+	गु०	नि०
१४	+	गु०	नि०
१५	+	गु०	नि०
१६	+	गु०	नि०
१७	+	गु०	नि०
१८	+	गु०	नि०
१९	+	गु०	नि०
२०	+	गु०	नि०
२१	+	गु०	नि०
२२	अ०	+	नामरूपनिषेध
२३	+	गु०	ना०

२४	+	गु०	ना०
२५	+	गु०	ना०
२६	+	गु०	ना०
२७	+	गु०	ना०
२८	+	गु०	ना०
२९	+	गु०	ना०
३०	+	गु०	ना०
३१	अ०	+	द्वैतसिद्धिपूर्वपक्ष
३२	+	गु०	तत्तन्निषेधसिद्धान्त
३३	+	गु०	त०
३४	+	गु०	त०
३५	+	गु०	त०
३६	+	गु०	त०
३७	+	गु०	त०
३८	अ०	+	ईश्वरसँ कर्मफल
३९	+	गु०	ई०
४०	+	गु०	कर्मसँ फल जैमिनि
४१	+	गु०	ईश्वरसँ फलसिद्धात
		<hr/>	
	८	३३	

इति

सन्ध्ये सृष्टिराह हि ॥ १ ॥

सन्ध्ये । सृष्टिः । आह । हि । इति प० ॥

अर्थ—'न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति अथ रथान् रथयोगान्पथः सृजते । न तत्र आनन्दा मुदः प्रमुदो भवन्ति अथ अनन्दान् मुदः प्रमुदः सृजते स हि कर्ता' जा बृहदारण्यक पष्ठ अध्यायगत श्रुति सूत्रका विषयवाक्य है। अर्थ—तत्र स्वप्नमें रथयोगा नाम अश्वादिक । आनन्द (सुखविशेष) मुद (पुत्रादिलाभनिमित्तहर्ष) सोई प्रमुद है यातें सो कर्ता है। इति यथा घटादिक व्यावहारिक हैं तथा स्वप्नप्रपञ्चव्यावहारिक है? वा यथा शुक्तिरजतादि हैं तथा मायामात्र हैं? यह तहांसंदेह है। पूर्वपक्षमें यह अर्थ

हे जाग्रत् सुषुप्तिकी जो संधिमैं होवे सो संध्य कहियेहैं अर्थात् स्वप्नका नाम संध्य हे. तामैं जो सृष्टि नाम गजादि सो व्यावहारिक हे. 'न तत्र' यह उक्त श्रुति स्वप्नसृष्टिको व्यावहारिकी आह नाम कहेहैं. इति ॥ १ ॥

निर्मातारं तथा चैके पुत्रादयश्च ॥ २ ॥

निर्मातारम् । तथा । च । एके । पुत्रादयः । च । इति प० ।

अर्थ-एके नाम किसी शाखावाले स्वप्नमें तथा नाम जीवचत् परमात्माको विषयोंके 'निर्मातारं' नाम रचनेवाला माने हैं. तथाहि 'य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं कामं पुरुषो निर्भिमाणः तदेवं शुक्रं तद् ब्रह्म त देवा-मृतमुच्यते' जा कठश्रुति तहां प्रमाण हे. अर्थ-नेत्रादिक करणोंके निर्व्यापार हुयेसैं तिसतिसअभिलापितको रचताहुआ जागेहैं सो शुद्ध हे, सोई ब्रह्म हे, सोई अमृत कहलाता हे. कामपदसैं बुद्धिवृत्ति और पुत्रादि विषयोंका ग्रहण हे. इति । याते पुत्रादि स्वप्नप्रपंच सत्य हे. ताका ईश्वरको कर्ता होनेसैं. इति॥२॥
सिद्धांतसूत्र.

मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् ॥३॥

मायामात्रम् । तु । कात्स्न्येन । अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात् । इति प० ।

अर्थ-तु पूर्वपक्षनिषेधार्थक हे. स्वप्नगजादिक 'कात्स्न्येन' नाम सर्वप्रकारसैं अनभिव्यक्त स्वरूप हे अर्थात् प्रगट नहीं याते मायामात्र हे. अर्थात् शुक्तिरजवत् मिथ्या हे. उक्त अनुमानमें उचित देशादिजन्यत्व उपाधि हे, याते सो असंगत हे. और "कामं कामं पुरुषो निर्भिमाणः" जा श्रुतिमें भी जीवही स्वप्नकर्ता अंगीकार हे; ब्रह्म नहीं. इति ॥ ३ ॥

अव०-ननु स्वप्नको मिथ्या मानेसैं ताको शुभाशुभका सूचक नहीं हुआ चाहिये, जा शंकासैं कहेहैं ।

सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ४ ॥

सूचकः । च । हि । श्रुतेः । आचक्षते । च । तद्विदः । इति प० ।

अर्थ-'यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्ने पश्यति स समृद्धिं तत्र जानीयात् स्वप्ननिदर्शने तस्मिन् स्वप्ननिदर्शने' जा छांदोग्य पंचम प्रपाठ-कगत श्रुतिसैं स्वप्न शुभाशुभ सूचनका हेतु प्रतीत होवेहैं. याते असत्यभी

स्वप्नासत्यत्वप्राप्तिका सूचक है. यथा असत्य रजत सत्य हर्षादिकोंका जनक है. और 'तत्त्विदः' नाम स्वप्नाध्यायवेत्ताभी स्वप्नको शुभाशुभका सूचक 'आ-चक्षते' नाम कहेंहैं. इति । अर्थ—यदा कामअर्थ कर्मोंमें स्त्रीको स्वप्नमें देखे तदा कर्मफल सिद्ध होवेगा यह जाने. परंतु स्त्रीआदिक प्रशस्त स्वप्नके देखेंसैं. इति ॥ ४ ॥

अव०—संकल्पमात्रसैं जीव कर्ता नहीं यह कहेहैं.

पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ ५
पराभिध्यानात् । तु । तिरोहितम् । ततः । हि । अस्य ।
बन्धविपर्ययौ । इति प० ।

अर्थ—जीवका ईश्वरसैं अभेद है. तौभी जीव प्रति ईश्वर मायाकरके तिरो-हित है. अर्थात् आच्छादित है; यातें जीवको संकल्पमात्रसैं कर्तापना संभवे नहीं. जीवका तिरोहितपना पर नाम परमात्माके 'अभिध्यानात्' नाम अभेदाभ्याससैं प्रगट होवेहै. 'ततः' नाम ईश्वरके अज्ञानसैं 'अस्य' नाम जीवको कर्तृत्वादि बन्ध है. ताके ज्ञानसैं विपर्ययं नाम मोक्ष प्राप्त होवेहै. यातें ईश्वरकृपाविना ईश्वर प्रगट होवे नहीं. इति ॥ ५ ॥

अव०—जीवके ईश्वरत्वतिरोभावमें अपर हेतु कहेंहैं ।

देहयोगाद्वासोऽपि ॥ ६ ॥

देहयोगात् । वा । सः । अपि । इति प० ।

अर्थ—जीवके ईश्वरत्वका सो नाम तिरोभाव देहादिकोंके 'योगात्' नाम सम्बन्धसैं है. यथा भस्मके सम्बन्धसैं अग्नितिरोहित होवेहै. तथा जीवका ईश्वरत्व अच्छादित है. 'वा' पद ईश्वरत्व अभाव अंगीकारके निषेधार्थ है; यातें स्वप्न जाग्रतादिक मायामात्र हैं. आत्मा अवस्थात्रयसैं रहित है. इति॥६॥

तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च ॥ ७ ॥

तदभावः । नाडीषु । तच्छ्रुतेः । आत्मनि । च । इति प० ॥

अर्थ—'यत्र सुप्तः स्वप्नं न विजानाति आशु तदा नाडीषु सुप्तो भवति' इति । जा अवस्थामें बाह्य इंद्रियां उपराम हुये सोवेहैं. सर्व वृत्ति-सहित अंतकरण लय होवे हैं. स्वप्नको जाने नहीं तदा नाडीमें सोवे हैं. यह

श्रुतिका अक्षरार्थ है । “य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिन् शेते” जा बृहदारण्यकके चतुर्थ अध्यायगत श्रुतिमें आत्मां सुषुप्ति प्रतीत होवे है. और तहांहीं आगे यह कहा है.—‘ताभिः प्रत्यवसृष्य पुरीततिं शेते स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वाऽतिग्रीमानन्दस्य गत्वा शयीत एवमेव एष एतच्छेते’ इति । इसमें पुरीततिविषे सुषुप्ति भान होवे है. इसमें संदेह हुयेसं पूर्वपक्षमें विकल्प अंगीकार किये यह सिद्धांत है तत् अभाव नाम स्वप्नका अभावरूप जे सुषुप्ति सो नाडियोंमें और आत्मां होवे हैं. यातें सर्वका समुच्चय अंगीकार है, विकल्प अंगीकार नहीं. नाडीपुरीतति प्रवेश विना आत्मां प्रवेश संभवे नहीं यातें नाडी और पुरीततिमें गौण और आत्मां मुख्य प्रवेश अंगीकार है. ‘ततः श्रुतेः’ नाम नाडीआदिकोंको सुषुप्तिका स्थान सुना है यातें उक्त व्यवस्था संभवे है, जो समुच्चय नहीं मानेंगे तौ श्रुतिव्यवस्था नहीं बनेगी. इति ॥ ७ ॥

अतः प्रबोधोऽस्मात् ॥ ८ ॥

अतः । प्रबोधः । अस्मात् । इति प० ।

अर्थ—‘अतः’ नाम सुषुप्तिको परमात्मां होनेसं ‘अस्मात्’ नाम परमात्मांसं जीवके प्रबोध नाम उठनेका श्रुतिमें उपदेश किया है । ‘प्रबोधकाले कस्मात् जीवात्मानः समुत्तिष्ठन्ति । परमात्मनः सकाशात् उत्तिष्ठन्ति’ जा श्रुति परमात्मांसं प्रबोधको कहे है. जो आत्मांसं अपरको सुषुप्तिका अवस्थान मानेंगे तौ उक्त श्रुतिका बोध होवेगा. इति । सुषुप्तिमें मिथ्याज्ञानके अभावमात्रसं ईषत् ब्रह्मप्राप्ति होवे है तो मूलाज्ञानके निवृत्त हुयेसं सकल ब्रह्मप्राप्ति अवश्य होवेगी. इति । सुषुप्तिबोधक श्रुति अर्थ—‘ताभिः’ नाम शरीरमें अनेक नाडी है तिनकरके ‘प्रत्यवसृष्य’ नाम रोकके ‘पुरीतति’ नाम नाडीमें सोवे है. यथा अतिवाल और महाराजा और विद्वान् ब्राह्मण ‘अतिघ्नी’ नाम दुःखनाशक आनंद अवस्थाको प्राप्त होकर सोवें हैं. तथा यह सोवे है. इति ॥ ८ ॥

स एव कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः ॥ ९ ॥

सः । एव । कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः । इति प० ॥

अर्थ—जलराशिमें एक बिंदु जल गेरेंसं सो बिंदु पुनः निकले नहीं यातें

परमात्माको सुपुष्टिका स्थान कहिना असंगत है. जा पूर्वपक्षसँ कहेहँ. यो जीव सोवे है 'सः' नाम सोई उठेहै अपर नहीं; तहां यह पंच हेतु हैं. दो दिनमें होनेवाले कर्मको आधा करके सोजाय तो उठकर आधेको करेहै. यह कर्मरूप हेतु है १; यामँ तो जिस मैंने पूर्वले दिनमें काशीनाथको देखा था सो मैं अब मणिकर्णिकामँ स्थित हूँ जाविध प्रतिज्ञाका ग्रहण अनुशब्दसँ है. यह द्वितीय हेतु है २; स्मृति तृतीय हेतु है ३; "स वा एष एतस्मिन् सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वा एव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्या द्रवति स्वप्नाय एव स यत्तत्र किञ्चित् पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति असंगो ह्ययं पुरुषः" जा बृहदारण्यकपष्ठाध्याय तृतीय ब्राह्मणगतवाक्यका ग्रहण शब्दपदसँ है. श्रुतिअर्थ—सो विज्ञानमयज्योतिपुरुष सुपुष्टिमँ स्थित होकर शोकादिकोंसँ रहित होवेहै. स्वप्नमें रतिका और श्रमका अनुभव करके पुण्यपापके फलको देखके सुपुष्टिमँ प्राप्त होवेहै. स्वप्नसँ सुपुष्टिका अनुभव करके जागरितसँ स्वप्नको तासँ सुपुष्टिको गमन करेहै, सुपुष्टिसँ स्वप्नको वा जागरितको गमन करेहै सो प्रतिन्यायपदसँ ग्रहण है. और प्रतियोनि नाम स्वप्नस्थानको स्वप्नवासते 'आद्रवति' नाम आगमन करेहै. सो आत्मा स्वप्नमें जिस पुण्यपापफलको देखेहै, तिस देखनेसँ ताका बंध नहीं होता. इति यह चौथा हेतु है ४; ज्योतिष्टोमादि विधिसँ ग्रहण है. जा पंचकारणसँ जो सोवे है सोई उठेहै जा निश्चित है, अन्यथा उक्त कारणोंका बाध होवेगा. इति॥९॥

अव०—मूर्छाअवस्था सुपुष्टिके अंदर है? वा तासँ भिन्न है? जा संदेहसँ पूर्वपक्षमें सुपुष्टिके अंतर ग्रहण कियेसँ यह सिद्धांतसूत्र है—

मुग्धेऽर्धसम्पत्तिः परिशेषात् ॥ १० ॥

मुग्धे । अर्द्धसम्पत्तिः । परिशेषात् । इति प० ॥

अर्थ—मूर्छामँ ज्ञान होवे नहीं यातँ सो जाग्रत् स्वप्नके अंतर नहीं, मूर्छामँ प्राण गरम रहेहँ. यातँ मरणके अंतर नहीं मूर्छितके शरीरमें कंप, भयंकर वदन, निश्चल उन्मीलित नेत्रादि प्रतीत होवेहँ. सुपुष्टिमँ जैसे नहीं यातँ सुपुष्टिके अंदरभी मूर्छा नहीं किंतु 'परिशेषात्' नाम उक्त सर्वअवस्थाओंके अंदर नहीं होनेसँ मुग्धमें अर्द्धधर्मोंकी संपत्ति नाम प्राप्तिरूप मुग्धावस्था अतिरिक्त है. सुपुष्टिमँ प्रस्थिन्नवदनत्व, निमीलितनेत्रत्व, प्राणगमनागमन, विशेषविज्ञानराहित्यादि जेते धर्म हैं तिनमें जे विशेष विज्ञानराहित्यादि अर्द्धधर्म ते मूर्छामँ हैं यातँ अर्द्धधर्मसंपत्ति मूर्छा अंगीकृत है. इति ॥ १० ॥

न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि ॥ ११ ॥

न । स्थानतः । अपि । परस्य । उभयलिङ्गम् । सर्वत्र ।

हि । इति प० ॥

अर्थ—अब तत् पदार्थका शोधन करें हैं—“सत्यसङ्कल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदं अभ्यात्तोऽवाक्यनादरः” इस छांदोग्यके तृतीय प्रपाठकगत श्रुतिविषे ब्रह्मको सविशेष सुना है और ‘तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलमनण्वह्रस्वमदीर्घमलोहितमस्लेहमच्छायमतमोऽचार्यवनाकाशमसङ्गमरसङ्गमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोतेजस्कं अप्राणं अमुखं अमात्रं अनंतरवाह्यं न तदश्नाति किञ्चन न तदश्नाति कश्चन” इन बृहदारण्यकके पंचम अध्यायगत वाक्यनमें ब्रह्मको निर्विशेष कहा है. तहां उभयवाक्यनकी अनुसार ब्रह्म उभयस्वरूप है वा एक स्वरूप है? एकरूप मानेभी सविशेष है वा निर्विशेष है? यह संदेह है पूर्वपक्षमें श्रुतिअनुसार उभयरूप अंगीकृत है तहां यह सिद्धांत है ‘परस्य’ नाम ब्रह्मके ‘उभयलिङ्ग’ नाम दोरूप स्वतः संभवे नहीं; एक वस्तु एकलोकमें धर्मवान् और धर्माभाववान् होवे नहीं. ‘स्थानतः’ नाम उपाधिसंभी ब्रह्मको उभयरूपतायुक्त नहीं, अग्निसंयोग मात्रसं जलका उष्ण स्वभाव होवे नहीं किंतु ब्रह्म एकरूप है सोभी निर्विशेष है सविशेष नहीं ‘हि’ पद हेतुअर्थक है ‘सर्वत्र’ नाम ‘अस्थूल’ इत्यादिक वचनोंमें सविशेषका निषेध करके निर्विशेषका उपदेश किया है यातें निर्विशेष एकरूप ब्रह्म है. इति । श्रुतिअर्थ सर्व जगत् जिसकरके व्याप्त होवे सो ‘अभ्यात्त’ कहीये । वाक्यरहित अवाकी अंगीकृत है, ईश्वर नित्य तृप्त है; यातें अनादर है अर्थात् संभ्रमरहित है इति । हे गार्गी! अक्षरमें सर्व ओतप्रोत है यह ब्राह्मण कहे हैं सो अस्थूलसं भिन्न है इसीतरह आगे जाना चाहिये. इति ॥ ११ ॥

भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् ॥ १२ ॥

भेदात् । इति । चेत् । न । प्रत्येकम् । अतत् । वचनात् । इति प० ॥

अर्थ—ननु किसी विद्यार्थ ब्रह्मके चार पाद हैं; किसी विद्यार्थ षोडशकलावान् कहा है; किसी विद्यार्थ त्रैलोक्य शरीरवान् कहा है; यातें ‘भेदात्’

नाम विद्याका भेद होनेसँ ब्रह्मको निर्विशेष कहिना संभवे नहीं जा शंकासँ कहेंहँ 'प्रत्येकं' नाम उपाधि उपाधिमें 'अतद्वचनात्' नाम परब्रह्मका अभेद सुना है यातँ शंका असंगत है. इति ॥ १२ ॥

अपि चैवमेके ॥ १३ ॥

अपि । च । एवं । एके । इति प० ॥

अर्थ—'अपि च' नाम किंच कोई शाखावान् 'एवं' नाम भेदकी निंदा करके ब्रह्मका अभेदही कहेंहँ. तथाहि—“मनसैवेदमासव्यं नेह नानाऽस्ति किंचन” जा कठवाक्यमें कठवान् अभेदही कहेंहँ. ब्रह्म शुद्धमनकरके प्राप्त होनेयोग्य है. तिसके प्राप्तहुये ब्रह्मतासँ भिन्न रंचक नहीं, यह श्रुतिअक्षरार्थ है. इति ॥ १३ ॥

अव०—ननु सगुणनिर्गुणबोधक उभयश्रुतिके विद्यमान होते केवल निर्गुणमें हठ कैसे है ? जा शंकासँ कहेंहँ—

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् ॥ १४ ॥

अरूपवत् । एव । हि । तत्प्रधानत्वात् । इति प० ॥

अर्थ—'अस्थूलं' 'अनणुं' इत्यादि निषेधरूप शास्त्र 'तत्' नाम निर्गुण ब्रह्ममें प्रधान है यातँ 'अरूपवत्' नाम रूपादिकोंसँ रहित निर्विशेषरूपही ब्रह्म है; सविशेष नहीं. इति ॥ १४ ॥

अव०—ननु सगुणबोधक वाक्यनकी क्या गति होवेगी? जा शंकासँ कहेंहँ—

प्रकाशवच्चैवैयर्थ्यात् ॥ १५ ॥

प्रकाशवत् । च । अवैयर्थ्यात् । इति प० ॥

अर्थ—यथा सूर्यादि प्रकाश वक्र ऋजु काष्ठादि उपाधिसँ वक्रकी नाई ऋजुकी नाई होवेहै तथा ब्रह्मभी पृथिवीआदिक उपाधिके वशसँ तत् तत् उपाधिकी नाई होवेहै सो उपाधि आकारताही सगुणबोधक वाक्यनकी गति है यातँ ताको 'अवैयर्थ्यात्' नाम अनर्थकता नहीं. इति ॥ १५ ॥

आह च तन्मात्रम् ॥ १६ ॥

आह । च । तत् । मात्रम् । इति प० ॥

अर्थ—‘स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽधाहः कृत्स्नो रसघन एवैवं वा अरे अयमात्माऽनन्तरोऽधाहः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एवं’ जा बृहदारण्यकके पष्ठ अध्यायगत श्रुति ‘तन्मात्रं’ नाम चैतन्य एकरस निर्विशेषरूपसं ब्रह्मको ‘आह’ नाम कहेहै. श्रुतिअर्थ—यथा सैन्धवघन नाम लवणमूर्तिविशेष अंतरवाह्यसं विलक्षण रसरहित सर्व लवणरूपही लोकमें प्रसिद्ध है. तथा यह आत्मा अंदरवाहिरसं भेदरहित सर्वस्वप्रकाश चैतन्य एकरूप स्थितं है. इति ॥ १६ ॥

दर्शयति चाथोऽपि स्मर्यते ॥ १७ ॥

दर्शयति । च । अथो । अपि । स्मर्यते । इति प० ।

अर्थ—“अर्थात् आदेशो नेति नेति” इत्यादि श्रुतिनिषेधमुखसं ब्रह्मको ‘दर्शयति’ नाम दिखावेहै. पंचभूतउत्पत्तिअनंतर अथपदका अर्थ है. आदेशनाम उपदेशका है. सूत्रमें जो अथपद है तिसका तथा अर्थ है. तथा नाम निषेधमुखकरके ब्रह्मका ‘स्मर्यते’ नाम स्मरणभी किया है. “ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते” इत्यादिक स्मृतिमें स्मरण किया है यातें ब्रह्म निर्विशेष है. इति ॥ १७ ॥

अत एव चोपमासूर्यकादिवत् ॥ १८ ॥

अतः । एव । च । उपमा । सूर्यकादिवत् । इति प० ।

अर्थ—उक्तविधिसं ब्रह्मको एक निर्विशेष सिद्ध किया है, ‘अतः’ नाम निर्विशेष होनेसं आपाधिक सविशेषको ग्रहण करके ‘जलसूर्यादिवत् उपमा’ नाम दृष्टांत ग्रहण किया है. यथा जलमें ‘सूर्यकः’ नाम सूर्यका प्रतिबिंब होवेहै. आदिपदसं यथा चंद्रप्रतिबिंब होवेहै तथा एकही आत्मा उपाधिसं अनेकरूप होवेहै. तथाहि श्रुतिः—“यथा हि अयं ज्योतिरात्मा विवस्वान् अपो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन् । उपाधिना क्रियते भेदरूपो देव क्षेत्रे-प्वेचमजोऽयमात्मा” इति । अर्थ—यथा ज्योतिःस्वभाव सूर्य एकार्थं तत् तत् उपाधिकरके अनेकप्रकारका होवेहै. तथा यह प्रकाशस्वरूप, कूटस्थ, नित्य, एकरूप आत्मा भिन्नभिन्न शरीरोंमें प्राप्तहुआ उपाधिकरके भेदरूप होवेहै. इति । उक्त दृष्टांतसंभी ब्रह्म निर्विशेषरूप है. इति ॥ १८ ॥

अम्बुवदग्रहणात् न तथात्वम् ॥ १९ ॥

अम्बुवत् । अग्रहणात् । तु । न । तथात्वम् । इति प० ।

अर्थ—यथा जल सूर्यादि मूर्तपदार्थोंसे भिन्न है और दूरदेशगत है सो प्रतिबिंबकी उपाधिसँ प्रतीत होवेहै. और आत्मा व्यापक है यातँ 'अम्बुवत्' नाम जलवत् आत्माकी उपाधि आत्मासँ दूरदेशगत 'अग्रहणात्' नाम ग्रहण होवे नहीं; यातँ 'तथात्वम्' नाम सूर्यादितुल्यता आत्माको संभवे नहीं. इति १९

उत्तरसूत्र ।

वृद्धिहासभाक्त्वमन्तर्भावाद् उभय-
सामञ्जस्यादेवम् ॥ २० ॥

वृद्धिहासभाक्त्वम् । अन्तर्भावात् । उभयसाम-
ञ्जस्यात् । एवं । इति प० ।

अर्थ—यथा सूर्यका जलके अंदर जो प्रतिबिंब तामँ जलउपाधिधर्म 'वृद्धि-
हासादिभाक्त्वम्' नाम गौण है, वास्तव नहीं; 'एवं' नाम तथा अविकारी
परमात्माका जो देहादिउपाधिकेविषे अंतर्भाव तासँ देहगत वृद्धिहासादिक
आत्मासँ गौण है, वास्तव नहीं; इतने अंशमँ 'उभय' नाम दृष्टांत दाष्टीत उभ-
यही 'सामञ्जस्यात्' नाम समीचीन हैं यातँ उक्त शंका असंगत है. सूर्यादि
दृष्टांतकी सर्वअंशमँ तुल्यता संभवे नहीं. सर्वअंशमँ तुल्यता मानें तो दृष्टांत-
भावभंग होवेगा. इति ॥ २० ॥

दर्शनाच्च ॥ २१ ॥

दर्शनात् । च । इति प० ।

अर्थ—परब्रह्मका प्रतिबिंबरूपसँही देहअंतर प्रवेश 'दर्शनात्' नाम श्रुतिमँ
देखा है. तथाहि—“पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । पुरः स पक्षी
भूत्वा पुरः पुरुष आविज्ञादिति” अर्थ—परमेश्वर भूआदिक लोकनको
रचकर द्विपदवान् शरीर उत्पन्न किये और चारपदवान् शरीर रचे. सो ईश्वर

पूर्वालिंगशरीर होकर शरीरोंमें प्रवेश करताभया. इति । यातें निर्विशेष चैतन्य एकरस ब्रह्म है. इति ॥ २१ ॥

अव०—बृहदारण्यकके चतुर्थ अध्यायमें यह कहाहै । 'हे वाच ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च' यह कहकर अंतमें यह कहा है 'अथात आदेशो नेति नेति नहि एतस्मात् इति न इति अन्यत् परं अस्ति अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेव सत्यं न इति' इति । तहां 'नेति नेति' जा वाक्यसँ प्रपंच ब्रह्म उभयका निषेध अंगीकृत है ? वा प्रपंचका निषेध है ? वा ब्रह्मका निषेध है ? यह संदेह है. प्रपंच प्रत्यक्ष सिद्ध है, यातें ताका निषेध तो संभवे नहीं किंतु ब्रह्मका निषेध तहां अंगीकृत है. यह पूर्वपक्ष है; तहां ग्रह उत्तरका सूत्र है—

प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः२२

प्रकृतैतावत्त्वम् । हि । प्रतिषेधति । ततः ।

ब्रवीति । च । भूयः । इति प० ।

अर्थ—ब्रह्मके जे दो मूर्तामूर्त रूप तेही 'प्रकृत' नाम प्रसंगमें 'एतावत्त्वं' नाम परिच्छिन्नरूप प्राप्त हैं. तिन उभयरूपनकाही 'नेति नेति' श्रुति 'प्रतिषेधति' नाम निषेध करेहै. वाक्यमें जो 'इति' पद है सो प्रसंगमें प्राप्तका स्मरण करावे है; ब्रह्मप्रसंगमें प्रधान नहीं यातें श्रुति ब्रह्मका निषेध नहीं करेहै. 'ततः' नाम प्रपंचनिषेधसँ अनंतर 'भूयः' नाम पुनः श्रुति 'ब्रवीति' नाम कोहै. तथाहि—'न हि एतस्मात् इति न इति अन्यत् परं अस्ति इति' इसका यह अर्थ है 'नेति नेति' जा वाक्यकरके उपदेश किया जो ब्रह्म 'एतस्मात्' नाम तिस ब्रह्मसँ 'अन्यत्' नाम भिन्न रंचक नहीं; किंतु ब्रह्मही पर चस्तु है. इति । उक्त वाक्यार्थसँ 'नेति नेति' वाक्य ब्रह्मका निषेध नहीं करेहै यह निश्चित है. इति ॥ २२ ॥

अव०—ननु ब्रह्मकी उपलब्धि कैसे नहीं होती? जा शंकासँ कहेंहैं.

तदव्यक्तमाह हि ॥ २३ ॥

तत् । अव्यक्तम् । आह । हि । इति प० ।

अर्थ—'तत्' नाम ब्रह्म अव्यक्त है अर्थात् श्रुतिभिन्न प्रमाणक अविषय है.

‘नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा’ जा कठवाक्य अपरप्रमाणका अविषय ‘आह’ नाम कहे है; यातें ग्रहणके योग्य नहीं. इति ॥२३॥

अव०—जो सर्वदा ग्रहण नहीं होवेगा तो मोक्ष नहीं होवेगी जा शंकाको निषेध करें.

अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ॥ २४ ॥

अपि । संराधने । प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् । इति प० ।

अर्थ—इस आत्माको ‘संराधने’ नाम समाधिअवस्थामें कृतार्थ योगिजन देखेहैं; यह ‘प्रत्यक्ष’ नाम श्रुति और ‘अनुमान’ नाम स्मृतिसैं प्रतीत होवेहैं. अपिशब्दसैं प्रत्यक्षकरकेभी विश्वासके योग्य है. तहां कठचतुर्थवल्लीगत यह श्रुति है—“पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूस्तस्मात्पराद् पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानं ऐक्षत आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्” इति । अर्थ—परमात्मा इन्द्रियोंको अनात्मविषयक रचा है; यातें इन्द्रियां बाह्यही देखेहैं, अन्तरात्माको नहीं देखेहैं. कोई विवेकी जितेन्द्रिय मोक्षइच्छा करता हुआ प्रत्यक् आत्माको समाधिअवस्थामें देखेहैं. इति । स्मृति—‘यं विनिद्रा जितश्वासाः सन्तुष्टाः संयतेन्द्रियाः ॥ ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः’ इति ॥ २४ ॥

अव०—ननु जीव ईश्वरको ध्याता व ध्येयरूप माननेसैं भेद सिद्ध होवेगा जा शंकाका उत्तर—

प्रकाशादिवच्चैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् २५

प्रकाशादिवत् । च । अवैशेष्यम् । प्रकाशः । च । कर्मणि ।

अभ्यासात् । इति प० ।

अर्थ—यथा सूर्यका प्रकाश अंगुल्यादि उपाधिरूप कर्ममें भिन्नकी नाई वक्रकी नाई भान होवेहैं, वास्तवसैं एकरूप है. तथा ‘प्रकाशः’ नाम आत्माभी ज्ञान ध्यानादि कर्मरूप उपाधिमें भिन्नकी नाई भान होवेहैं. वास्तवसैं ‘अवैशेष्यं’ नाम आत्मा एकरूप है. ‘अभ्यासात्’ नाम ‘तत्त्वमसि’ जा अभेदके अभ्याससैं उक्त अर्थही समीचीन है. इति ॥ २५ ॥

अतोऽनन्तेन तथाहि लिङ्गम् ॥ २६ ॥

अतः । अनन्तेन । तथाहि । लिङ्गम् । इति प० ।

अर्थ—‘अतः’ नाम भेदको औपाधिक होनेसे ज्ञानसे भेदके निवृत्त हुए-
पर जीव ‘अनन्तेन’ नाम परमात्मासे अभेदको प्राप्त होवेहै. ‘तथाहि लि-
ङ्गम्’ नाम उक्त अर्थबोधक श्रुति अनेक हैं. तथाहि—“न तस्य प्राणा उत्क्रा-
मन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति” यह बृहदारण्यकके सप्तमाध्यायगत श्रुति
उक्त अर्थका बोधक लिंग है. इति ॥ २६ ॥

अव०—स्वमतशुद्धिअर्थ भेदाभेद पक्ष कहेंहैं—

उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत् ॥ २७ ॥

उभयव्यपदेशात् । तु । अहिकुण्डलवत् । इति प० ।

अर्थ—‘उभय’ नाम ध्याताध्येयरूपसे भेदाभेदको श्रुति ‘व्यपदेशात्’ नाम
कहे हैं. याते जीवईश्वरका भेदाभेद हैं. यथा अहिकुण्डलका भेदाभेद है अ-
हित्वधर्मसे अभेद है कुण्डलत्वधर्मसे भेद है तथा जीवईश्वरका भेदाभेद है
‘तु’ सिद्धांत बलक्षणताका बोधक है. इति ॥ २७ ॥

अव०—धर्मभेदसे भेदाभेद कहकर एकधर्मावच्छेदसे भेदाभेद कहेंहैं—

प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् ॥ २८ ॥

प्रकाशाश्रयवत् । वा । तेजस्त्वात् । इति प० ।

अर्थ—यथा सूर्यका प्रकाश और तत् आश्रय जो सूर्य ता उभयका
अत्यंत भेद नहीं. ‘तेजस्त्वात्’ नाम यथा तेजस्त्वधर्म प्रकाशमें है, तथा
सूर्यमें है; याते तेजस्त्वको उभयमें तुल्य होनेसे तिनका भेद नहीं. तथापि
भिन्न भिन्न प्रतीत होवेहैं तथा जीव ईश्वरकाभी भेदाभेद है. इति ॥ २८ ॥

अव०—सिद्धांत कहेंहैं—

पूर्ववद्वा ॥ २९ ॥

पूर्ववत् । वा । इति प० ।

अर्थ—पूर्व जो औपाधिकभेद और वास्तवअभेद कहा है सोई सिद्धांत अंगी-
कृत है. इति ॥ २९ ॥

प्रतिषेधाच्च ॥ ३० ॥

प्रतिषेधात् । च । इति प० ।

अर्थ—‘नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ इत्यादिक श्रुति परमात्मासं भिन्नचेतनका ‘प्रतिषेधात्’ नाम निषेध करेहै और “नेति नेति” इत्यादिक श्रुति प्रपंचका निषेध करेहै यातें ब्रह्म अद्वितीय है यह सिद्धांत है. यातें परमात्मा निर्विशेष है. इति सिद्धम् ॥ ३० ॥

पूर्वपक्षसूत्रम् ।

परमतः सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः ॥ ३१ ॥

परम् । अतः । सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः । इति प० ।

अर्थ—ब्रह्मसं भिन्न वस्तु है वा नहीं जा संदेहसं पूर्वपक्षी कहेहै—‘अतः’ नाम ब्रह्मसं ‘परं’ नाम भिन्न वस्तु है. तथाहि—‘अथ य आत्मा स सेतुविधृतिरेषां लोकानामसम्भेदाय’ जा छांदोग्यश्रुतिमें ब्रह्मको सेतु कहा है यातें यह अनुमान है कि, ब्रह्म सद्वितीय है. सेतु होनेसं ‘रामसेतुवत्’ इति “ब्रह्म चतुष्पात्” जा श्रुतिमें उन्मान कहा है इतना यह है. इस परिच्छिन्न कथनका ‘उन्मान’ पदसं ग्रहण है. चारों दिशा एक पाद है १; पृथिवी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, समुद्र यह चारों द्वितीय पाद हैं २; अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत्, यह चारों तृतीय पाद हैं ३; चक्षु, श्रोत्र, वाक्, मन, यह चारों चतुर्थ पाद हैं ४; उपासनाके अर्थ यह ब्रह्मके पाद कहेहैं. “सुपुसौ प्राज्ञेनात्मना शारीरः सम्परिष्वक्तः” इत्यादि श्रुतिमें सम्बन्ध कथन किया है. आदित्यमें ईश्वरका उपदेश करके तिससं भिन्न नेत्रोंमें उपदेश किया है यातें सेतु १, उन्मान २, संबंध ३, और भेद ४, जा चार हेतुसं ब्रह्म सद्वितीय है. इति ॥ ३१ ॥

सिद्धांतः ।

सामान्यात्तु ॥ ३२ ॥

सामान्यात् । तु । इति प० ।

अर्थ—‘तु’ पूर्वपक्षनिषेधक है. मृत्तिका काष्ठरचनाविशेषमें सेतुशब्द रुढि है. तत्परु सेतुब्रह्मको कहना संभवे नहीं किंतु यथा सेतु जलका व्यवस्थापक है तथा ब्रह्मभी सकलजगत्पर्यादाका व्यवस्थापक है. यातें प्रसिद्ध सेतुके ‘सामान्यात्’ नाम तुल्य सेतु कथन किया है. यातें सेतुदोष नहीं. इति ३२.

बुद्धयर्थः पादवत् ॥ ३३ ॥

बुद्धयर्थः । पादवत् । इति प० ।

अर्थ—‘ब्रह्म चतुष्पात्’ इत्यादि श्रुतिमें पादकथन मुख्य नहीं किंतु ‘बुद्धि’ नाम उपासनाके अर्थ है. यथा ब्रह्मकी प्रतीक जो मन ताके वाक्, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र यह चार उपासनाअर्थ पाद कहेहैं तत्पादवत् ब्रह्मके पाद कहेहैं. इति ३३

स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत् ॥ ३४ ॥

स्थानविशेषात् । प्रकाशादिवत् । इति प० ।

अर्थ—सुषुप्तिमें ब्रह्मसँ जीवका जो सम्बन्ध है सो घटपटके सम्बन्धसमान नहीं; किंतु ‘स्थानविशेषात्’ नाम बुद्धिआदिकी उपाधिराहित्यतासँ है. विशेष विज्ञान उपाधिके लय हुयेपर रहेता नहीं. यातँ अभिव्यक्त उपाधिकरके जो भेद सो रहेता नहीं; यातँ ब्रह्मसँ जीवका सुषुप्तिमें सम्बन्ध कहा जाय है और आदित्यका जो पुरुषसँ भेद है सोभी नेत्रादित्यरूप स्थानविशेषकी अपेक्षासँ है. ‘प्रकाशादिवत्’ नाम यथा सूर्यका प्रकाश अंगुलियोगसँ घटादि-उपाधिविशेषकरके असम्बद्ध इव भिन्न इव भान होवे है. उपाधिके दूर हुये सम्बद्ध अभिन्न भान होजेहैं. ‘आदि’पदसँ आकाशका ग्रहण है. तथा ब्रह्म भान होवेहैं. यातँ ब्रह्मसँ जीवका सम्बन्ध और भेद औपाधिक है, स्वाभाविक नहीं. इति ॥ ३४ ॥

उपपत्तेश्च ॥ ३५ ॥

उपपत्तेः । च । इति प० ।

अर्थ—किंच परमात्मासँ जो जीवका सम्बन्ध है सो मुख्य नहीं किंतु “स्वमपीनो भवति” जा छादोग्यके पष्ठप्रपाठकगत श्रुति स्वरूपकोही सम्बन्ध कहेहैं. स्वरूप सर्वदा बना रहे है यातँ तहां गौणसम्बन्ध है. तथा भेदभी मुख्य नहीं. यह अनेक श्रुति कहे हैं. इति ॥ ३५ ॥

अव०—अद्वितीयसाधक अपर हेतु कहेहैं—

तथाऽन्यप्रतिषेधात् ॥ ३६ ॥

तथा । अन्यप्रतिषेधात् । इति प० ।

अर्थ—यथा सेतुआदिक हेतुनसँ ब्रह्मसँ भिन्न वस्तु सिद्ध हुआ नहीं तथा

“अथातोऽहंकारादेश एवाहं एवाधस्तात् अहं उपरिष्ठात् अहं पश्चात् अहं पुरस्तात् अहं दक्षिणातः अहं उत्तरतः अहं एवेदं सर्वम्” इति । इसका छांदोग्यके सप्तम प्रपाठकमें आत्मासँ भिन्न सर्वका निषेध किया है; यातँ ब्रह्म अद्वितीयस्वरूप है. इति ॥ ३६ ॥

अव०—ननु जो ब्रह्म अद्वितीय है तौ ताको सर्वगत कहिना असंगत है. जा शंकासँ कहैहँ—

अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ ३७ ॥

अनेन । सर्वगतत्वम् । आयामशब्दादिभ्यः । इति प० ।

अर्थ—‘अनेन’ नाम सेतुआदिकोंके निषेधसँ और अपरवस्तुके निषेधसँ ‘सर्वगतत्वम्’ नाम त्रिधापरिच्छेदशून्यत्व सिद्ध हुआहै. तहां ‘आयामशब्दादिभ्यः’ यह हेतु है. ‘आयाम’ पद व्याप्तिवाचक है. “आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः” इत्यादि श्रुतिका शब्दपदसँ ग्रहण है. “नित्यः सर्वगतः स्थाणुः” इत्यादि स्मृतिका आदिपदसँ ग्रहण है; यातँ अद्वितीय ब्रह्ममें अविद्यक सर्वको ग्रहण करके श्रुतिस्मृतिसँ सर्वगतत्व सिद्धि संभवे है इति ॥ ३७ ॥

अव०—ननु ब्रह्माको निर्गुण माननेसँ ब्रह्म कर्मफलदाता नहीं सिद्ध होवेगा? जा शंकाका उत्तर कहैहँ—

फलमत उपपत्तेः ॥ ३८ ॥

फलम् । अतः । उपपत्तेः । इति प० ।

अर्थ—जीवको कर्मसँ फल होवेहै वा ईश्वरसँ होवेहै? जा संदेहसँ सिद्धांत कहैहँ—‘अतः’ नाम इस परमात्मासेही सर्वको ‘फलम्’ नाम सुखदुःखादिक होवेहँ, कर्मोंसँ नहीं. कर्म जड हँ, तासँ फल संभवे नहीं; यातँ ईश्वरकोही फलदातृत्व ‘उपपत्तेः’ नाम संभवे है, यातँ सोई फलदाता है. इति ॥ ३८ ॥

श्रुतत्वाच्च ॥ ३९ ॥

श्रुतत्वात् । च । इति प० ।

अर्थ—“स वा एष महानज आत्मा अघ्रादो वसुदानो विन्दते

वसु य एवं वेद" जा बृहदारण्यकके षष्ठाध्यायगत वाक्यमें ईश्वरकोही फलदाता हेतु सुना है; याते ईश्वरही कर्म फलदाता हैं. इति ॥ ३९ ॥

पूर्वपक्षसूत्रम् ।

धर्मं जैमिनिरंत एव ॥ ४० ॥

धर्मम् । जैमिनिः । अतः । एव । इति प० ।

अर्थ—श्रुतिसं और युक्तिसं यथा ईश्वरको फलदाता माना है. तथा 'अतः' नाम श्रुति और युक्तिसं धर्मको फलदाता जैमिनि आचार्य माने हैं. तथाहि "स्वर्गकामो यजेत" इस विधिका विषय जो यज्ञ ताको स्वर्गसाधनता सुनी है. ताके निर्वाहार्थ श्रुतिप्रमाणसं यज्ञकी उत्तरअवस्थारूप अपूर्वता कल्पी चाहिये; याते यागादि धर्मही फलदाता हैं. और ईश्वर सर्वमं साधारण है याते ताको फलदातृत्व संभवे नहीं. इति ॥ ४० ॥

उत्तरसूत्रम् ।

पूर्वं तु वादरायणो हेतुत्वव्यपदेशात् ॥ ४१ ॥

पूर्वम् । तु । वादरायणः । हेतुत्वव्यपदेशात् । इति प० ।

अर्थ—वादरायण आचार्य 'पूर्वम्' नाम पूर्ववक्त ईश्वरकोही फलदाता माने हैं;—'तु' उक्त शंकानिषेधार्थ है. "एष एव साधु कर्म कारयति । अन्नादो वसुदानः" । इत्यादिक श्रुति और "लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्" इत्यादिक स्मृति परमेश्वरकोही धर्माधर्मफलका 'हेतुत्व' नाम कारण 'व्यपदेशात्' नाम कथन करेहैं; याते तत्तत्कर्मसापेक्ष परमात्मासंही सर्वफलप्राप्ति होवेहै. इति सिद्धम् ॥ ४१ ॥

इति शारीरकसूत्रभावप्रकाशिकाभाषाटीकायां तृतीयाध्यायस्य
द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ २ ॥ श्रीरामाय नमोनमः ॥

अथ तृतीयपादप्रारम्भः ॥

पूर्वपादमें वाक्यार्थज्ञानका उपयोगी तत्त्वंपदार्थज्ञोपन किया है. इस पादमें वाक्यार्थ निर्णय करेहैं. इस पादके पद अधिक साठ सूत्र हैं. तहां पद अ-

धिक तीस अधिकरण हैं, तीस सूत्र गुणरूप हैं. वह नीचे अधिकरणरूप सूत्रोंके और गुणरूप सूत्रोंके देखनेका प्रकार यह है. तथाहि—

सङ्ख्या ।	अधिकरण ।	गुण ।	प्रसङ्ग ।
१	अ०	+	उपासनाअभेद
२	+	गु०	अग्निअभेद
३	+	गु०	शिवव्रतविचार
४	+	गु०	निर्गुणविद्याएक
५	अ०	+	समानउपासना गुणउपसंहार
६	अ०	+	प्राणविद्याभेद
७	+	गु०	प्राणविद्याभेद
८	+	गु०	वि०
९	अ०	+	उद्गीथविचार
१०	अ०	+	गुणउपसंहार
११	अ०	+	आनन्दादि गुणउपसंहार
१२	+	गु०	प्रियादिनिषेध
१३	+	गु०	आ० उ०
१४	अ०	+	वाक्यएकसिद्धि
१५	+	गु०	वा०
१६	अ०	+	आत्मबोधता
१७	+	गु०	आ०
१८	अ०	+	जलवासविधान
१९	अ०	+	गुणउपसंहार
२०	अ०	+	पूर्वपक्ष
२१	+	गु०	नामव्यवस्था
२२	+	गु०	उपसंहारनिषेध
२३	अ०	+	सम्भूतिउपसंहार
२४	अ०	+	उपसंहारनिषेध
२५	अ०	+	वेधादि उ० निषेध
२६	अ०	+	पुण्यादिग्रहण उ०

२७	अ०	+	कर्मविधान
२८	+	गु०	क०
२९	अ०	+	देवयानविचार
३०	+	गु०	निर्गुणविद्यामार्गनि०
३१	अ०	+	उपासनामार्गउ०
३२	अ०	+	ज्ञानिजन्मनिषेध
३३	अ०	+	गुणउ०
३४	अ०	+	वेद्य एक विद्या एक
३५	अ०	+	ए०
३६	+	गु०	वेद्य एक विद्या एक
३७	अ०	+	व्यतिहारउ०
३८	अ०	+	सत्य विद्या एक
३९	अ०	+	सत्यकामादिउ०
४०	अ०	+	प्राणाग्निहोत्रविचार
४१	+	गु०	प्रा०
४२	अ०	+	अङ्गउपासनावि०
४३	अ०	+	पुरोडाशवि०
४४	अ०	+	मनादिविचार
४५	+	गु०	म०
४६	+	गु०	म०
४७	+	गु०	म०
४८	+	गु०	म०
४९	+	गु०	म०
५०	+	गु०	म०
५१	+	गु०	म०
५२	+	गु०	म०
५३	अ०	+	देहआत्मापूर्वपक्ष
५४	+	गु०	तत्निषेध
५५	अ०	+	अङ्गउपासनावि०
५६	+	गु०	अ०

५७	अ०	+	उपासनाविधान
५८	अ०	+	एक उपास्यउपासनाभेद
५९	अ०	+	उपासनाविकल्प
६०	अ०	+	इच्छासे समुच्चय
६१	अ०	+	प्रतीकइच्छासँ निषेध
६२	+	गु०	पूर्वपक्ष
६३	+	गु०	अ०
६४	+	गु०	अ०
६५	+	गु०	समुच्चयनिषेध
६६	+	गु०	अ०
	३६	३०	

अव०—सगुण विद्या अंतःकरणशुद्धिद्वारा वाक्यार्थज्ञानका साधन है यातें या पादसँ सगुणबोधक वाक्यार्थविचार करेहैं—तहां प्रथम सगुण ब्रह्मकी पंचाग्निप्राणादि उपासनाविषे भेदाभेद विचार करेहैं। तहां प्राणउपासना और पंचाग्निउपासना एक है वा भिन्नाभिन्न है, यह संदेह है। कहां पंचाग्नि-विद्यामें पष्ठ अग्नि उपास्य सुना है, कहां पंचही सुना है; यातें उपासनाके रूपका भेद होनेसँ उपासनका भेद है यह पूर्वपक्ष है। तहां यह सिद्धांत है—

सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात् ॥ १ ॥

सर्ववेदान्तप्रत्ययम् । चोदनाद्यविशेषात् । इति प० ।

अर्थ—‘चोदना’ नाम विधि और ‘आदि’पदसँ संयोगरूप समाख्या यह सर्व वेदांतमें ‘अविशेषात्’ नाम तुल्य है। “यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठं च ह वै श्रेष्ठं च भवति प्राणो वाव ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च” यह छांदोग्यके पष्ठ प्रपाठकके आरंभसँ कहा है। और “यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च खानां भवति प्राणे वैज्येष्ठं च श्रेष्ठं च ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च खानां भवति अपि च येषां बुभूषति य एवं वेद” जा बृहदारण्यकके पष्ठ अध्यायके आरंभमें कहा है। इन उभय वाक्यनमें चोदना और प्रयोजन संयोग अविशेष है, अर्थात् तुल्य है। यातें सर्व वेदांतमें ‘प्रत्ययं’ नाम प्रतीयमान उपासना एक है, भिन्न भिन्न नहीं। इति ॥ १ ॥

भेदान्नेति चेन्नैकस्यामपि ॥ २ ॥

भेदात् । न । इति । चेत् । न । एकस्यां । अपि । इति प० ।

अर्थ-ननु 'भेदात्' नाम छांदोग्यमें पंचाग्नि उपास्य मानी हैं, बृहत्में प्रसिद्ध अग्नि मिलाकर षट् अग्नि उपास्य मानी हैं याते उभय शाखामें पंचाग्नि-विद्याका भेद मानना चाहिये. 'इति चेत्' नाम उक्त शंका करें तो 'एकस्याम्' नाम एक विद्यामें रूपभेद संभवे नहीं याते शंका असंगत है. षट् अग्निका छांदोग्यमें उपसंहार अंगीकृत है. इति तात्पर्यम् ॥ २ ॥

अच०-“तदेतद्व्याऽभ्युक्तं क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः । स्वयं जुहते एकपिश्रद्धावन्तः तेषामेवेषां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधि-वत् यैस्तु चीर्णम् । तदेतत् सत्यं ऋषिरङ्गिराः पुरोवाच नैतदचीर्ण-वतोऽधीते' जा तृतीय मुंडकसमाप्तिसमें कहा है. अर्थ-यह विद्या ऋचा नाम मंत्रकरके कही है. कि जे यह क्रियावान् हैं, श्रोत्रिय हैं, श्रद्धा-वान् हुये, एकऋषि नाम अग्निका सेवन करे हैं और ब्रह्मनिष्ठ हैं तिन पात्र-रूपोंकी प्रति ब्रह्मविद्याको कहै. जे शिरमें अग्निधारणरूप शिरोव्रत करें ति-नकी प्रति कहें. इस सत्यअक्षरको अंगिरानाम ऋषिने दौनकप्रति कहा था इत् ग्रंथको अचीर्णव्रत नहीं अध्ययन करे. इति । उक्तवाक्यमें मुंडकअध्ययनमें व्र-तका नियम सुना है, अपर उपनिषद् अध्ययनमें नहीं सुना; याते मुंडकविद्यामें अपरविद्याका भेद है. जा शंकाका सूत्रकार उत्तर कहे हैं—

स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः ॥ ३ ॥

स्वाध्यायस्य । तथात्वेन । हि । समाचारे । अधिकारात् । च ।

सववत् । च । तत् । नियमः । इति प० ।

अर्थ-उक्तशिरोव्रतरूप धर्म 'स्वाध्यायस्य' नाम वेदपठनका अंग है, वि-द्याका अंग नहीं. स्वाध्यायकाही 'तथात्वेन' नाम अंगकरके 'समाचारे' नाम वेदव्रत उपदेशयोधक ग्रंथमें शिरोव्रतको अधर्वणज्ञान् वेदव्रतकरके माने हैं. याते शिरोव्रत मुंडकअध्ययनका अंग है. मुंडक उक्तविद्याका अंग नहीं, कि 'अधिकारात् च' इसका यह अर्थ है. "नैतदचीर्णव्रतोऽधीते" । यह

जो मुंडकवाक्य है इसमें 'एतत्' पद मुंडकग्रंथका वाचक है. 'अधीते' पद अध्ययनबोधक है. इस ग्रंथको व्रतरहित नहीं अध्ययन करे यह उक्त वाक्यका अर्थ है. यातें 'अधिकारात्' नाम 'एतत्' शब्दसँ चकारकरके अधीतशब्दसँ शिरव्रत अध्ययनकाही अंग है. 'सवचत्' यह तहां दृष्टांत है. सौर्यादि सप्त होमोंकी संज्ञा सव है. ते पूर्वमीमांसामें प्रसिद्ध है. तिनका त्रेताग्निसँ असम्बन्ध है, अथर्वण उक्त एक अग्निसँ है; यातें यथा तिनका अथर्वणअग्निसँ नियम है तथा 'एतत्' शब्दसँ अधीतपदसँ मुंडक अध्ययनमें-ही 'तत्' नाम शिरव्रतका नियम है. इति ॥ ३ ॥

दर्शयति च ॥ ४ ॥ .

दर्शयति । च । इति प० ।

अर्थ—“ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् विदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि' जा कठकी द्वितीयबल्लीगत वाक्य निर्गुणब्रह्मविद्याकी सर्व एकरूपताही दिखावे है. इति ॥ ४ ॥

अव०—उक्त विचारका प्रयोजन कहेहै—

उपसंहारोऽर्थाभेदात् विधिशेषवत् समाने च ॥ ५ ॥

उपसंहारः । अर्थाभेदात् । विधिशेषवत् । समाने । च । इति प० ।

अर्थ—सर्व शाखाओंमें एक उपासना माननेसेभी एक शाखागतविद्यामें जितने गुण कहे होवें उनसँ अपरशाखामें अधिक गुण कहे होवें तो तिन अधिक गुणोंका दूसरी शाखामें उपसंहार किया चाहिये वा नहीं? यह इसमें संदेह है: जितने गुण इस शाखामें सुने हें तिनसँही आकांक्षा शांतहुयेपर उपसंहारका कुछ प्रयोजन नहीं, यह पूर्वपक्ष है. तहां यह सिद्धांत है कि 'अर्थ' नाम उपास्य गुणोंकरके सिद्ध होने योग्य जो उपासनारूप अर्थ सो सर्वशाखामें 'अभेदात्' नाम अभिन्न है अर्थात् एक है. यातें 'समाने' नाम उपासना एकमें गुणोंका उपसंहार कर्तव्य है. 'विधि' नाम यथा अग्निहोत्र सर्वशाखामें एक है तिसके 'शेष' नाम अंगोंका उपसंहार होवेहै. तथा उपासनामें कर्तव्य है. इति ॥ ५ ॥

अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात् ॥ ६ ॥

अन्यथात्वं । शब्दात् । इति । चेत् । न । अविशेषात् । इति प० ।

अर्थ—इस सूत्रमें पूर्वपक्ष सिद्धांतीका है, सिद्धांत पूर्वपक्षीका है. बृहदारण्यकमें उद्गीथका कर्ता जो प्राण ताको उपास्य कहा है. और छांदोग्यमेंभी प्राण उपास्य कहा है. तहां उभयविद्यावोंका भेद है वा अभेद है? जा संदेहसँ यह पूर्वपक्ष है. 'अन्यथात्वं' नाम भिन्न भिन्न आकार प्राणोंका उभयशाखावोंमें कहा है. बृहत्में उद्गीथका कर्ता कहा है. छांदोग्यमें उद्गीथका कर्म कहा है. 'शब्दात्' नाम "त्वं न उद्गाय । तं उद्गीथं उपासांचक्रिरे" जा उभयश्रुतियोंसँ निश्चित है यातें विद्याका भेद है. इति । तहां यह पूर्वपक्षीका सिद्धांत है. "अविशेषात्" नाम देवअसुरविवादादिक अनेक अर्थ उभयशाखावोंमें तुल्य हैं यातें विद्याका भेद नहीं छांदोग्यमें जो प्राणको कर्म कहा है सो लक्षणसँ कर्ता मानना चाहिये यातें विद्या एक है. इति ॥ ६ ॥

सिद्धांत ।

न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत् ॥ ७ ॥

न । वा । प्रकरणभेदात् । परोवरीयस्त्वादिवत् । इति प० ।

अर्थ—'वा' पद निश्चयार्थक है. प्रकरणका उभयशाखावोंमें 'भेदात्' नाम भेद है, यातें विद्या एक नहीं. तथाहि छांदोग्यमें 'ओं इति एतत् अक्षरं उद्गीथं उपासीत' जा आरंभमें उद्गीथके अवयवको उद्गीथत्वरूपसँ उपास्य कहकर "य एवायं सुर्यः प्राणः तं उद्गीथं उपासीत" जा उत्तरवाक्यमें प्राणकोभी उद्गीथ कथन किया है. और बृहत्में "त्वं न उद्गाय" जा वाक्यमें सामउद्गीथभक्तिका प्राणको कर्ता कहा है. यातें प्रकरणभेदसँ उभय विद्यावोंका भेद है. यथा छांदोग्यके तृतीयके नवमें खंडमें यह कहा है— "स एष परोवरीयान् उद्गीथः स एषोऽनन्तः परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकान् जयति य एतदेवं विद्यान् परोवरीयांसं उद्गीथं उपास्ते ।" इति । इस वाक्यमें परत्व वरीयस्त्वादि गुणवान् उपासनाका विधान किया है इससँ हिरण्यदमधुत्वादि गुणविशिष्ट उद्गीथकी उपासना भिन्न है तथा प्रसंगमें विद्याका भेद है. इति ॥ ७ ॥

संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ८ ॥

संज्ञातः । चेत् । तत् । उक्तं । अस्ति । तु । तत् । अपि । इति प० ।

अर्थ-ननु उद्गीथविद्या जा 'संज्ञातः' नाम संज्ञाको उभयशाखावोंमें एक होनेसे विद्या एक है. इति 'चेत्' नाम उक्त शंका करें तो 'तत्' नाम उत्तर 'उक्तं' नाम पूर्व कह दिया है. संज्ञाकरण पौरुषेय है यातें सो विद्या भेदका साधक नहीं. 'तत्' नाम संज्ञा एकत्वभिन्न उपासनाकाभी संभवे हैं. 'अपि' शब्दसे इसमें अपर दृष्टांत अंगीकृत है. यथा एक काठकग्रंथमें भिन्न-भिन्न कर्मनकी काठक यह एक संज्ञा है. तथा संज्ञा संभवे है; यातें विद्याका भेद है एक नहीं. इति ॥ ८ ॥

व्याप्तेश्च समञ्जसम् ॥ ९ ॥

व्याप्तेः । च । समञ्जसम् । इति प० ।

अर्थ-"ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत" जा छांदोग्यवाक्यमें ओंकारसे उद्गीथका समानाधिकरण प्रतीत होवेहै. सो नाममें ब्रह्मदृष्टिवत् अध्यासरूप है वा "यत् रजतं सा शुक्तिः" इसकी नाई अपवादरूप है? वा "भू-सुरो ब्राह्मणः" जाविध तुल्यधर्मकी प्रतीति है? वा 'नीलोत्पलम्' जाविध विशेषणविशेष्यभाव है? जा संदेहहुये पर यह सिद्धांत है कि- ओंकार प्रति-ऋचा प्रतिअनुवाक् प्रतिसाम आदि अंतमें व्याप्त है; यातें कौन ओंकार उपास्य हैं? जा आकांक्षा हुयेसे 'ओं इति एतत् अक्षरं उद्गीथं उपासीत' यह आज्ञा है. इसमें ओंकारका उद्गीथ विशेषण अंगीकृत है; यातें विशेषणको 'समञ्जसं' नाम समीचीन होनेसे अपर त्रयपक्ष अंगीकृत नहीं. इति ॥ ९ ॥

सर्वाभेदादन्यत्रेमे ॥ १० ॥

सर्वाभेदात् । अन्यत्र । इमे । इति प० ।

अर्थ-"प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च" जा पंचमप्रपाठकमें श्रेष्ठगुणयुक्त प्राणोंको उपास्य कहकर आगे यह कहाहै-"वाग्वाव वसिष्ठः । चक्षुर्वाव प्रतिष्ठः । श्रोत्रं वाव सम्पत् । मनो ह्वा आयतनम्" यह वाक्यादिकोंमें वसिष्ठत्वादिक गुण कहे हैं. यह गुण जा शाखामें नहीं कहे तहां इनका उपसंहार किया चाहिये वा नहीं? जा संदेहसे कहेहै 'सर्व' नाम सर्व शाखावोंमें

प्राणउपासना 'अभेदात्' नाम एक है; यातें 'अन्यत्र' नाम जा शाखामें ते गुण नहीं कहे तहां; 'इमे' नाम उक्तगुण उपसंहारके योग्य हैं. इति ॥ १० ॥

आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ११ ॥

आनन्दादयः । प्रधानस्य । इति प० ।

अर्थ—“आनन्दं ब्राह्मणो विद्वान् न विभेति कदाचन आनंदो ब्रह्म इति व्याजानात्” इत्यादिक अनेक वाक्यनसँ आनंदत्वादि गुण सुने हैं. तिनका अपर शाखामें उपसंहार किया चाहिये वा नहीं? जा संदेहसँ कहेहैं—‘प्रधानस्य’ नाम ब्रह्मके जे आनंदत्वादि गुण ते जा शाखामें नहीं कहे तहां उपसंहार करे चाहिये. इति ॥ ११ ॥

अध०—ननु तैत्तिरीयमें यह सुना है—“तस्य प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” इति । इसमें जे गुण सुने हैं तेभी आनंदादिगुणोंवत् ब्रह्मके धर्म हैं; यातें तिनकाभी सर्वत्र उपसंहार करना चाहिये. जा पूर्वपक्षसँ कहेहैं—

प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरुपचयापचयौ हि भेदे ॥ १२ ॥

प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिः । उपचयापचयौ । हि । भेदे । इति प० ।

अर्थ—उक्त श्रुतिमें प्रियशिरस्त्वादि धर्म कहेहैं तिनके उपसंहारकी सर्वशाखाओंमें अप्राप्ति है. ‘भेदे’ नाम भेदहुयेपर उपचय व अपचय धर्म होवेहैं, अभेदहुयेपर नहीं. प्रियादिक धर्म परस्पर उपचय अपचय स्वरूप हैं, अर्थात् तारतम्यरूपसँ बतें हैं; और भोक्ताकाभी भेद है. ब्रह्म अद्वितीयस्वरूप है यातें ब्रह्मके उपचित अपचित प्रियादिधर्म स्वाभाविक नहीं; यातें अस्वाभाविक धर्मनका ब्रह्मज्ञानार्थ उपसंहार संभवे नहीं. इति ॥ १२ ॥

इतरे त्वर्थसामान्यात् ॥ १३ ॥

इतरे । तु । अर्थसामान्यात् । इति प० ।

अर्थ—‘अर्थ’ नाम प्रतिपाद्य जो ब्रह्म सो ‘सामान्यात्’ नाम एक है या उक्तधर्मनसँ इतर जे आनंदादिक धर्म तिनका उपसंहार अवश्य कर्तव्य है. तिनके उपसंहारविना अविधानिवृत्ति होये नहीं. इति ॥ १३ ॥

आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ॥ १४ ॥

आध्यानाय । प्रयोजनाभावात् । इति प० ।

अर्थ—कठतृतीयवलीमें यह कहा है—“इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ॥ मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः ॥ महतः परमव्यक्त-मव्यक्तात् पुरुषः परः ॥ पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः” इति । इस उक्त श्रुतिमें वाक्य एक है वा अनेक हैं ? जा संदेहसँ कहे हैं, ‘आध्यानाय’ नाम ध्यानसाध्य साक्षात्कारके अर्थ पुरुषही विषयादिकोंसँ परे अर्थात् सूक्ष्मरूप प्रतिपादन किया है; इंद्रियादिकोंसँ परे कर विषयादिक प्रतिपाद्य नहीं, तिनके प्रतिपादनसँ कुछ प्रयोजन सिद्ध होवे नहीं; यातँ प्रतिपाद्यको एक होनेसँ वाक्य एक है, अनेक नहीं. इति ॥ १४ ॥

आत्मशब्दाच्च ॥ १५ ॥

आत्मशब्दात् । च । इति प० ।

अर्थ—उक्तवाक्यके आगे कठमें यह वाक्य है—“एष सर्वेषु ऋतेषु गृ-ढाऽत्मा न प्रकाशते दृश्यते ॥ त्वय्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः” इति । इस उत्तरवाक्यमें पुरुषवाचक आत्माशब्द सुना है; यातँ ‘इंद्रियेभ्यः’ यह आत्मबोधक एकही वाक्य है. इति ॥ १५ ॥

आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् ॥ १६ ॥

आत्मगृहीतिः । इतरवत् । उत्तरात् । इति प० ।

अर्थ—“आत्मा वा इदमेक एवावाक् आसीत्” जा ऐतरेयके आरंभ-में वाक्य है. इसमें आत्माशब्द हिरण्यगर्भका वाचक है वा परमात्माका वाचक है ? जा संदेहसँ कहे हैं कि— उक्तवाक्यमें आत्माशब्दसँ परमात्माका ‘गृहीति’ नाम ग्रहण है, हिरण्यगर्भका ग्रहण नहीं; ‘इतरवत्’ नाम यथा—“आत्मन आकाशः सम्भूतः” इत्यादिक उत्पत्तिबोधक अपरवाक्यनमें आत्मापदसँ पर-मात्माकाही ग्रहण है और “स ईक्षत लोकानुसृजा इति स इमाँल्लोकान-सृजत” जा ‘उत्तरात्’ नाम इस ऐतरेयके उत्तरवाक्यमें इच्छापूर्वक कर्तृत्वरूप विशेषण कहा है; सो विशेषण मुख्यताकरके परमात्माविषेही अपरश्रुतिसँ निश्चित है; यातँ आत्मापद परमात्माका बोधक है, हिरण्यगर्भका बोधक नहीं. इति ॥ १६ ॥

अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात् ॥ १७ ॥

अन्वयात् । इति । चेत् । स्यात् । अवधारणात् । इति प० ।

अर्थ-पूर्व उत्तर विचार कीयेसँ 'अन्वयात्'-नाम प्रजापतिसँही उक्त ऐत-
रेयवाक्यका सम्बन्ध है, यातँ सो प्रजापतिकाही वाचक है. 'इति चेत्' नाम
यह शंका करें तौ 'आत्मा च इदं' इस वाक्यमें निश्चयवाचक 'वै' शब्द ग्रहण
किया है सो 'अवधारणात्' नाम निश्चय करके उत्पत्तिसँ पूर्व परमात्मामँही
समीचीन है, अपरमँ नहीं; यातँ अवधारणासँभी तहां परमात्माका ग्रहणही
'स्यात्' नाम युक्त है. इति ॥ १७ ॥

कार्याख्यानादपूर्वम् । १८ ।

कार्याख्यानात् । अपूर्वम् । इति प० ।

अर्थ-बृहदारण्यकके, अष्टमप्रथमब्राह्मणमें यह वाक्य हैं-"तत् वि-
द्वांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्ति अशित्वा च आचामन्ति
एतं एव तत् अन्नं अनन्नं कुर्वतो मन्यन्ते तस्मात् एवंचित् अशिष्यन्
आचामेत् अशित्वा च आचामेत् एतं एव तत् अन्नं अनन्नं कुरुते"
इति । इसका यह अर्थ है-प्राणोंका जलमें वास कहा है, यातँ प्राणउपासक
भोजनसँ पूर्व और पीछे आचमन करें; तिस आचमनसम्बधी जलके वाससँ इस
प्राणको आच्छादन किया हुआ पूर्वले जन चितन करें हैं. यातँ इस कालमेंभी
प्राणउपासक तैसेही चितन करें इति । तहां यह संदेह है कि-आचमनयोग्य जलमें
प्राणके वासका ध्यान विधेय है वा आचमन विधेय है ? इति । तहां यह सिद्धांत
है कि- जलमें प्राणके वासका जो ध्यान सो 'अपूर्व' नाम प्राणउपासनाका अंगक-
रके विधेय है. 'द्विजो नित्यं उपस्पृशेत्' जा स्मृतिउक्त विधिसँ सर्व
अनुष्ठानका अंग प्रतीत होवेहै, यातँ शुद्धिअर्थ 'कार्य' नाम कर्तव्यताकरके
प्राणविद्यामँ प्राप्त आचमनका 'आख्यानात्' नाम कथन है, यातँ आचमन
विधेय नहीं किंतु जलवासही विधेयहै. इति ॥ १८ ॥

समान एवं चाभेदात् ॥ १९ ॥

समाने । एवं । च । अभेदात् । इति प० ।

अर्थ-"स आत्मानं उपासीत मनोमयं प्राणशरीरं. भारूपम्" जा
शांढिल्यविद्यामें मनोमयत्वादिक गुण सुने हैं और "मनोमयोऽयं पुरुषो
भाः सत्यः तस्मिन्नन्तर्हृदये यथा ग्रीहिर्या यवो घा स एष सर्वत्ये-
शानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशस्ति यदिदं किञ्च" जा बृहदा-

- रण्यकके सप्तम अध्यायमें गुण सुनेहैं. तहां उभयशाखागत विद्या एक है वा भिन्न है? जा संदेहसैं कहे हैं. मनोमयत्वादिगुणवान् उपास्य उभयशाखावोंमें 'अभेदात्' नाम एक है. यातें यथा भिन्नशाखामें एक विद्याविषे गुणोंका उपसंहार होवे है तथा 'समाने' नाम एक शाखामेंभी गुणोंका उपसंहार युक्त है. इति ॥ १९ ॥

सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २० ॥

सम्बन्धात् । एवं । अन्यत्र । अपि । इति प० ।

अर्थ—बृहदारण्यकके सप्तम अध्यायमें यह कहा है कि—“य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः तस्य उपनिषदहर् इति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥ योऽयं दक्षिणे अक्षन् पुरुषः तस्य उपनिषदहम्” यह सत्यविद्यामें कहा है. इति । तहां नामोंकी व्यवस्थासैं ध्यान कर्तव्य है वा नामद्वयका पुरुषनमें उपसंहार अंगीकृत है? जा संदेहसैं पूर्वपक्षमें यह अर्थ है कि—यथा उक्त शांडिल्य विद्यामें एक शाखामें भिन्न भिन्न पठन किये गुणोंका एकविद्यात्व संबंधसैं उपसंहार पूर्व कहा है 'एवं' नाम तथा 'अन्यत्रापि' नाम सत्यविद्यामेंभी सत्यत्वसंबंधसैं एक विद्या मानके नामोंका उपसंहार मानना चाहिये. इति ॥ २० ॥

सिद्धांत ।

न वा विशेषात् ॥ २१ ॥

न । वा । विशेषात् । इति प० ।

अर्थ—विद्या एक अंगीकार कियेभी नेत्र और आदित्यरूप स्थान 'विशेषात्' नाम भिन्न भिन्न है; यातें नामद्वयका पुरुषद्वयविषे उपसंहार अंगीकृत नहीं किंतु 'अहर् अहं' ये उभे पुरुषनके नाम हैं. इति ॥ २१ ॥

दर्शयति च ॥ २२ ॥

अर्थ—छांदोग्यके तृतीयअध्यायमें “य एपोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते” जा वाक्यमें आदित्यको पुरुष कहकर “य एपोऽन्तरादिति पुरुषो दृश्यते तस्य एतस्य तदेवं रूपं यदमुष्य रूपं यन्नाम

तन्नाम” जा वाक्यमें नेत्रगतको आदित्यका रूप कहा है. यह अतिदेशभी सत्यविद्या स्थलमें स्थानके भेदसें धर्मनका भेद ‘दर्शयति’ नाम दिखावे है; यातें उपसंहार अंगीकृत नहीं इति ॥ २२ ॥

सम्भृतिद्युव्याप्तिश्चातः ॥ २३ ॥

सम्भृतिद्युव्याप्तिः । च । अतः । इति प० ।

अर्थ—“ ब्रह्मज्येष्ठा वीर्यां सम्भृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दिवमात-
तान ” यह श्रुतिविषयवाक्य है. इसका अर्थ—ब्रह्म है ‘ज्येष्ठ’ नाम स्वतंत्र-
कारण जिनोंका ते ब्रह्मज्येष्ठ कहिये ब्रह्म करके निर्विघ्न जे वृद्धिको प्राप्त होवें
ते ‘सम्भृतानि’ पदसें ग्रहण किये हैं. ब्रह्मके कार्य जे ‘वीर्य’ नाम आका-
शादिक ते अतिवृद्धिको प्राप्त हैं. इति सो ‘ज्येष्ठं’ नाम स्वतंत्रकारणरूप जो ब्रह्म
सो ‘अग्रे’ नाम इंद्रादिकोंके जन्मसें पूर्व ‘दिवं’ नाम स्वर्गको ‘आतनान’ नाम
व्याप्त करताभया अर्थात् नित्य सर्वव्यापक है. इति । इस वाक्यमें वृद्धि सर्व-
व्याप्तित्वादि गुण सुने हैं. तिन गुणोंका अपर ब्रह्मविद्यामें उपसंहार अंगी-
कृत है वा नहीं? जा संशयसें कहेहैं. यथा पूर्वस्थानके भेदसें नामोंकी व्यव-
स्था करी है. तथा ‘संभृति’ नाम वृद्धि, ‘द्युव्याप्ति’ नाम स्वर्गव्याप्तित्वादि
गुणनका शांडिल्यादि विद्यामें उपसंहार अंगीकृत नहीं; ‘अतः’ नाम
स्थानभेदसें उक्त अर्थही समीचीन है. इति ॥ २३ ॥

पुरुषविद्यायामिव चेतरेपामनाम्नानात् ॥ २४ ॥

पुरुषविद्यायां । इव । च । इतरेपां । अनाम्नानात् । इति प० ।

अर्थ—तांब्यशास्त्रांमें और तैत्तिरीयमें पुरुषविद्या कही है. तहां उभय विद्या-
योंमें परस्पर गुण उपसंहार अंगीकृत है वा नहीं? जा संदेहसें कहेहैं. तांब्य-
शास्त्रागत पुरुषविद्यामें यथा गुण कहेहैं ‘इव’ नाम तथा ‘इतरेपां’ नाम तैत्ति-
रीयशास्त्रावानोंकी पुरुषविद्यामें गुण ‘अनाम्नानात्’ नाम कहे नहीं; यातें
विद्याका भेद होनेसें गुणउपसंहार अंगीकृत नहीं. इति ॥ २४ ॥

वेद्याद्यर्थभेदात् ॥ २५ ॥

वेद्याद्यर्थभेदात् । इति प० ।

अर्थ—“ सर्वे प्रविष्य हृदयं प्रविष्य धमनीः प्रपृज्य शिरोऽभिप्र-
पृज्य त्रिधा विपृष्टः ” इत्यादिक मंत्र उपनिषदोंके आरंभमें सुनेहैं. अर्थ—

अभिचारक कर्म देवताकी अभिचारकर्ता प्रार्थना करतेहैं। हे देवते ! हमारे रिपुके सर्व अंगनको विदारण कर, हृदयको विदारण कर, घमनी शिर भेदन कर, और शिरको चारोंतरफसँ भेदन कर; इसप्रकार मेरा रिपु त्रयप्रकारसँ भेदन होवे। इति। इसप्रकार उपनिषदोंके आरंभमें मंत्र हैं तिनका तत् तत् उपनिषदोंमें जो विद्या कही है, तामें उपसंहार है वा नहीं ? जा संदेहसँ कहैहैं— 'सर्व प्रविध्य' इत्यादि मंत्रोंकरके कहा जो 'वेद्यादिअर्थ' नाम मारणादिअर्थ तिनका अभिचारक कर्मसँ संबंध है, विद्यासँ संबंध नहीं; यातें वेद्यादिक अर्थनका भेद होनेसँ तिनका विद्यामें उपसंहार अंगीकृत नहीं। इति ॥ २५ ॥

हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्कुशा च्छन्दः स्तुत्युपगानवत्तदुक्तम् ॥ २६ ॥

हानौ । तु । उपायनशब्दशेषत्वात् । कुशा । च्छन्दः । स्तुत्युपगानवत् । तत् । उक्तं । इति प० ।

अर्थ—तांडिच्छांदोग्यरहस्यमें यह सुना है—“श्यामाच्छबलं प्रपद्ये शबलाच्छ्यामं प्रपद्ये अश्व इव रोमाणि विधूय पापं चंद्र इव राहोर्मुखात् प्रमुच्यते घृत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकं अभिसम्भवामि” इति। अर्थ—यथा अश्व रजसहित जीर्ण रोमोंको त्यागकर निर्मल होवेहै तथासर्व पापको त्यागकर निर्मल होता है। और यथा राहुके मुखसँ छूटके चंद्र भास्वर होवेहै तथा हमभी प्रवाहरूपसँ 'अकृतं' नाम अन्नादिशरीरको 'घृत्वा' नाम त्यागके अतिनिर्मल हो कृतकृत्य होकर 'ब्रह्मलोकं' नाम ब्रह्मरूप लोकको 'अभिसम्भवामि' नाम प्राप्त होते हैं। इति “तथा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति” जा अर्थवण श्रुतिका यह अर्थ है कि— विद्वान् पुण्यपापको त्यागके निरञ्जन हुआ परम ब्रह्मको प्राप्त होवे है। इति। “तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां छिपन्तः पापकृत्याम्” जा श्रुतिका यह तात्पर्य है कि—मृत विद्वान्के पुत्र विभागको प्राप्त होवे हैं, सुहृद् पुण्यको, और द्वेषी पापको प्राप्त होवे हैं। कौपीतिकमेंभी कहा है—“तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्ति अप्रिया दुष्कृतम्” इति। अर्थ—'तत्' नाम विद्याके बलसँ विद्वान् पुण्य पापको 'विधूनुते' नाम त्यागदेता है तिस तजेहुये पुण्यपापको सेवक निंदक प्राप्त होवे

हैं यातें उपासकसं द्वेष नहीं करे. इति । पुत्र दायको प्राप्त होवे है जा श्रुतिमें पुण्य पापका ग्रहण मात्र सुना है सो पुण्यपापके त्याग बिना संभवे नहीं यातें तहां त्याग अर्थात् सिद्ध होवे है. तांडिरहस्य और अथर्वणमें पुण्यपापका त्याग मात्र सुना है. तिस तजेहुये पुण्यपापका अपरवाक्यमें सुना हुआ ग्रहण मानना चाहिये वा नहीं ? जा संदेहसँकहे हैं 'तु' पद केवल हानिवाचक है. जहां विद्वान्के पुण्यपापकी हानि सुनी है तहां पुण्यपापका ग्रहणभी मानना चाहिये. 'उपायनशब्दशेषत्वात्' यह तहां हेतु है. कौपीतिकमें 'विधूनुते सुकृतं उपयन्ति' यह हानिका उपायनशब्द शेष है यातें उपायनको हानिका शेष होनेसँ केवल हानिकी जगामें 'उपायन' नाम ग्रहण किया चाहिये. विद्वान् करके भोज्यत्वाभावहानि अंगीकृत है; तत् तुल्यकर्म प्राप्ति ग्रहण अंगीकृत है. इति तात्पर्यम् । तहां कुशादिक दृष्टांत हैं. तथाहि "कुशा वानस्पत्याः स्य" जा श्रुतिका यह अर्थ है कि-हे समितद्रूप कुशो ! तुम वनस्पतिमें स्थित हो मम यजमानकी रक्षा करो इति । उक्तवचनमें सामान्यसमित श्रयण होनेसे "औ-दुम्बराः" जा अपरशाखागत श्रुतिका आश्रय किया है. औदुंबर शब्द कुशावाचक है इति । द्वितीय दृष्टांत-"छन्दोभिः स्तुवीत" जा वाक्यसँ देव असुर उभयच्छंदनके प्राप्त हुयेसँ "देवच्छन्दांसि पूर्वाणि" जा अपर शाखागत श्रुतिकरके छंदनके पूर्व उत्तरभावका निश्चय होवे है. तृतीय दृष्टांत षोडशी पात्रविशेषके ग्रहण कियेसँ तिसका अंगरूप स्तोत्र किसकालमें उच्चारण करे ? जा आकांक्षा हुयेसँ छांदोग्यमें कालके तुल्य प्राप्त हुयेसँ "समयाध्युपिते सूर्ये षोडशिनं स्तोत्रं उपाकरोति" जा तैत्तिरीय वाक्यसँ कालविशेषबुद्धि होवे है. उपगान दृष्टांत-"ऋत्विज उपगायन्ति" यह सामान्य वाक्य है. "नाध्ययुरुपगायति" इस विशेषवाक्यसँ अध्वर्युवर्जित गायन करे; यह निर्णय होवे है. यथा उक्त दृष्टांतनमें अपर श्रुतिगत विशेषका अन्यय होवे है तथा त्यागमें ग्रहणका अन्यय है. 'तत् उक्तं' नाम इमी अर्थका पूर्वमीमांसामें जमिनि आचार्यने अंगीकार किया है. इति ॥ २६ ॥

साम्पराये तर्तव्याभावात्तथाह्यन्ये ॥ २७ ॥

साम्पराये । तर्तव्याभावात् । तथाहि । अन्ये । इति प० ।

अर्थ-पर्यकगत ब्राह्मका जो उपामक ताकी देह त्यागमें अनंतर यह सुना है-

कौपीतकिमें—“स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसैवात्येति तत्सुकृतं
 दुष्कृते विधूनुते” इति। अर्थ—जब उपासक ब्रह्मलोकको जावे है, तब मार्गमें
 महाजलहृद आवे है, तासैं आगे सो विरजा नाम नदीको प्राप्त होवे है, ता
 नदीको अपर साधनरहित केवल मनकरके तरेहैं. ननु सुकृत विरजाके उत्त-
 रणमें सहायता करहैं जा शंकाके निपेधार्थ श्रुति कहे हैं—‘तत्’ नाम शरीरके
 त्यागकालमें वा उपास्यमान साक्षात्कारकालमें पुण्यपापको ‘विधूनुते’
 नाम त्यागदेताहै. यथा अश्व रोमनको त्याग देताहै तथा परिपाकज्ञानसैं त्याग
 देताहै, अर्थात् दाह अंगीकार है. इति। इसमें यह संदेह है कि विरजानदीतर-
 णसैं अनंतर कर्महानि होवेहै वा देहत्यागसैं पूर्वकालमें कर्महानि होवेहै?
 इति। पूर्वपक्षमें विद्याविना नदीतरणकोही कर्महानि कारणता है, विद्याको
 हानिकारणताकी असिद्धि पूर्वपक्षका फल है. तत् सिद्धि सिद्धांतका फल है.
 सिद्धांतमें यह अर्थ हैकि.—‘साम्पराये’ नाम परलोकसाधनरूप विद्याकालमें-
 ही कर्महानि होवेहै; नदीतरणसैं अनंतर कर्मका फल कोई शेष रहा होवे
 तौ तरणअनंतर कर्महानि माननी चाहिये. ‘तर्तव्य’ नाम तरणअनंतर कर्मसैं
 प्राप्तव्यका अभाव है; यातें विद्याकालमेंही कर्महानि होवेहै. ‘तथाहि’ नाम
 उक्तविधही ‘अन्ये’ नाम तांडिआदिक जीवनकालमेंही कर्मनके क्षयको ‘अश्व
 इव’ इत्यादि श्रुतिसैं दिखावेहैं. इति ॥ २७ ॥

अव०—ननु यथा ब्रह्मप्राप्ति देहत्यागअनंतर होवेहै तथा कर्मनाशभी
 देहत्यागके अनंतर होवेगा; जा शंकासैं कहेहैं—

छन्दत उभयाविरोधात् ॥ २८ ॥

छन्दतः । उभयाविरोधात् । इति प० ।

अर्थ—‘छन्दतः’ नाम स्वइच्छासैं जो विद्याका सेवन सो जीवत्कालमेंही
 कर्मके नाशका हेतु है. कारण होनेसैं कार्य अवश्य होवेहै. विद्या कर्मक्षयको
 कारणकार्यरूप सिद्ध हुये ‘उभयाविरोधात्’ नाम तांड्यादि उभय श्रु-
 तिका अविरोध सिद्ध होवेहै; यातें कर्मक्षय विद्याका फल है. इति ॥ २८ ॥

गतेरर्थवत्त्वमुभयथाऽन्यथा हि विरोधः ॥ २९ ॥

गतेः । अर्थवत्त्वम् । उभयथा । अन्यथा । हि । विरोधः । इति प० ।

अर्थ—कर्महानिके समीप कहे देवयानमार्ग सुना है, कहे निर्गुणविद्यामें

नहीं सुना; तहां मार्गउपसंहार किया चाहिये वा नहीं? जा संदेहसँ यह उत्तर है—‘गतेः’ नाम देवयानमार्गको ‘उभयथा’ नाम दोप्रकारसँ विभागकरके ‘अर्थवत्त्वं’ नाम सफलता है. सगुणविद्यामें देवयानमार्ग है, निर्गुणविद्यामें नहीं. इति । ‘अन्यथा’ नाम सर्वत्र देवयानका उपसंहार कियेसँ “विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ” जा ब्रह्मस्वरूप प्राप्तिबोधक श्रुतिसँ विरोध होवेगा. इति ॥ २९ ॥

उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् ॥ ३० ॥

उपपन्नः । तत् । लक्षणार्थः । उपलब्धेः । लोकवत् । इति प० ।

अर्थ—कहूँ मार्ग है, कहूँ नहीं; जाविध उभयप्रकारसँ मार्ग ‘उपपन्नः’ नाम सिद्ध हुआ है ब्रह्मलोकमें पर्यंकगत ब्रह्मप्राप्ति जो विद्याका फल तिस विद्याफलरूप अर्थका ‘तत्’ नाम सो मार्ग ‘लक्षण’ नाम कारण है, तिस फलरूप अर्थकी श्रुतिमें ‘उपलब्धेः’ नाम प्रतीति होवेहै और निर्गुणविद्यामें मार्गसाध्य फल कोई भान होवे नहीं, यातें तहां मार्गउपसंहारका अंगीकार नहीं; यथा लोकमें रामसेनुवासी जनोको गंगाप्राप्तिअर्थ मार्ग चाहिये, गंगावासी जनोको नहीं, तथा. इति ॥ ३० ॥

अच०—सगुणविद्यामेंभी कहूँ मार्ग सुना है, कहूँ नहीं; तहां मार्गका उपसंहार किया चाहिये वा नहीं? जा संदेहका निपेधक यह सूत्र है—

अनियमः सर्वेषामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम् ३१

अनियमः । सर्वेषाम् । अविरोधः । शब्दानुमानाभ्याम् । इति प० ।

अर्थ—‘सर्वेषाम्’ नाम सर्व सगुण उपासनाके मार्गका अनियम है अर्थात् जहां मार्ग सुना है तिसका जहां जहां मार्ग नहीं सुना तहां तहां सर्व जग उपासंहार अंगीकार है. ‘शब्द’ नाम श्रुतिमें ‘अनुमान’ नाम स्मृतिमें मार्गका अंगीकार किया है; यातें उभयसँ ‘अविरोधः’ नाम प्रकरणविरोधभी नहीं. इति ॥ ३१ ॥

अच०—कलिद्वारकी संधिमें विष्णुके नियोगसँ कृष्णद्वैपायनही उपजे इत्यादिक बचनोंमें निर्गुण ब्रह्मवेत्ताका जन्म सुना है. तहां यह संदेह है— ब्रह्मवेत्ताकी वर्तमानदेह पात हुये ताको अपर देह प्राप्ति होवे है वा नहीं? इति । व्यास यमिष्ठादिकोंमें ब्रह्मविद्या है तिनका जन्मभी सुना है यातें ब्रह्मवेत्ताको अवश्य जन्म हावेगा विद्या मोक्षका हेतु नहीं यातें फलभोगके अर्थ ब्रह्मवेत्ताको

अपर देहकी प्राप्ति होवे है; यह पूर्वपक्ष है. इनका निर्गुणविद्यामें मार्ग उपसंहार फल है. तहां यह सिद्धांतसूत्र है—

यावदधिकारमवस्थितिरधिकारिकाणाम् ॥ ३२ ॥

यावत् । अधिकारम् । अवस्थितिः । अधिकारिकाणाम् । इति प०

अर्थ—परमात्माकी आज्ञासँ वेदप्रवर्तनादि लोकव्यवस्थाहेतु अधिकारोंमें जे प्रवृत्त होवे हैं ते अधिकारिक अंगीकृत हैं; तिन अधिकारी जनोंकी 'यावत् अधिकारम्' नाम जहांपर्यंत प्रारब्धकर्म है तहांपर्यंत अवस्थिति रहे है सो प्रतिबंधकरूप प्रारब्धकर्म अनेक शरीरकर भोग्यफलका हेतु है. तिस फलका भोगसँ नाश हुयेसँ अपर कोई प्रतिबंधक रहे नहीं; यातँ वर्तमान देहपातअनंतर कैवल्यप्राप्ति होवे है, अपर जन्मप्राप्ति होवे नहीं; यातँ ब्रह्मवेत्ताको मार्गकी अपेक्षा नहीं. इति ॥ ३२ ॥

अव०—बृहदारण्यकमें याज्ञवल्क्यका गार्गीप्रति उत्तर सुना है—“तत्रै तदन्तरं गार्गी ब्रह्मणा अभिचदंति अस्थूलं अनणुं अह्रस्वं अदीर्घम्” इत्यादि और “यत् तत् अदेश्यं अग्राह्यं अगोत्रं अवर्णं अचक्षुः” इत्यादि मुंडकमें सुना है. तहां जो निषेध सुना ताका अपरजगा उपसंहार अंगीकृत है वा नहीं! यह संदेह है. तहां यह संदेहनिषेधकसूत्र है—

अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्यामौपसदवत् तदुक्तम् ॥ ३३ ॥

अक्षरधियां । तु । अवरोधः । सामान्यतद्भावाभ्याम् । औपसदवत् । तत् । उक्तं । इति प० ।

अर्थ—‘अस्थूलं अनणुं’ इत्यादिक जे अक्षरमें निषेधबुद्धि तिनका सर्व निषेधप्रकरणमें ‘अवरोधः’ नाम उपसंहार अंगीकृत है. ‘सामान्यतद्भावाभ्यां’ यह तहां हेतु है. सर्व प्रपंचका निषेध करके जो ब्रह्मका प्रतिपादन है सो सर्वजगा सामान्य है और प्रतिपाद्य एक ब्रह्मका जो ‘भाव’ नाम सत्त्व सोभी सर्वजगा एकरूप है; यातँ तिसके शेष जे निषेध तिनका सर्वजगा उपसंहार अंगीकृत है. ‘औपसदवत्’ यह तहां दृष्टांत है. जमदग्नियागमें जे पुरोडाश तिनकी संज्ञा उपसद है, पुरोडाशप्रदानक मंत्रोंकी संज्ञा औपसद है; ते मंत्र

उद्गाताके वेदमें उपजे हैं. यातें उद्गाताकरके तिनके प्रयोगकी प्राप्ति हुयेसँ तिन मंत्रोंका अध्वर्युकर्तृक पुरोडाशप्रदानमें विनियोग है. विनियोगविधि उत्पत्तिविधिसँ मुख्य है. यातें तिस मुख्य अनुसारही अध्वर्युकर्तृक मंत्रप्रयोग किया चाहिये; गौण उत्पत्ति विधिअनुसार उद्गाताकर्तृक प्रयोग नहीं किया चाहिये; यातें अध्वर्युकर्तृक पुरोडाशके शेष जे मंत्र जहां तहां सुनेहुये तिन सर्वका यथा अध्वर्युसँ संबंध अंगीकार है, तथा अक्षरब्रह्मज्ञानके शेष जे निषेध जहां तहां सुनेहुये तिन सर्वका अक्षरसँ सर्वजगत् संबंध अंगीकृत है. 'तत् उक्तं' नाम पूर्वमीमांसामें जैमिनिने यही रीति अंगीकार करी है. इति ॥ ३३ ॥

अव०—“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ॥ तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति” जा मंत्र तृतीय मुंडकके आरंभमें कहा है. अर्थ—दो पक्षी हैं, सर्वदा युक्त हैं, आपसमें सखा हैं, ते शरीररूप वृक्षमें संबंध पाकर स्थित हैं; तिनमें एक फलको खावेहै, और एक प्रकाशे है, खावे नहीं—इति । “ऋतं पियन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराद्धे ॥ छायात्तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्रयो ये च त्रिणाचिकेताः ” यह मंत्र कठतृतीयवल्लीके आरंभमें कहा है. अर्थ पूर्व कहदिया है. इति । उक्त उभयमंत्रोंमें विद्या एक है वा भिन्न है? जा संशयसँ कहे हैं—

इयदामननात् ॥ ३४ ॥

इयत् । आमननात् । इति प० ।

अर्थ—‘इयत्’ नाम इयत्ता अर्थात् द्वित्वसंख्या अविच्छिन्न जो वेद्य उसका उभय मंत्रोंमें एकरूप ‘आमननात्’ नाम अंगीकार किया है. यातें प्रतिपाद्यको एक होनेसँ निर्गुण विद्या उभयमें एक है. इति ॥ ३४ ॥

अव०—बृहत्में उपस्तका याज्ञवल्क्यके प्रति प्रश्न है कि—“यत्साक्षादपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्व” इति । इसका यह उत्तर है—“एष त आत्मा सर्वान्तरः” पुनः प्रश्न—“कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः” । उत्तर—“यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो योऽपानेनापानिति स त आत्मा सर्वान्तरः” इत्यादि । इससँ उत्तर प्राणमं कहौलप्रश्न है. “कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः” इति । उत्तर—

योऽशनाया पिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युं अत्येति एतं वै तं आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैपणायाश्च वित्तैपणायाश्च लोकैपणायाश्च व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति ” इति । अर्थ—जो प्राणकरके प्राणचेष्टाको करेहै अर्थात् जिसकरके प्राण चेष्टा करेहै, चेष्टा चेतनाधिष्ठान-पूर्वक है, अचेतनप्रवृत्तिरूप होनेसँ रथादिचेष्टावत् जानना, इति ।

अव०—तहां उभय ब्राह्मणोंमें विद्या एक है वा भिन्न है ? जा संदेहका परिहार करेहै—

अन्तरा भूतग्रामवत् स्वात्मनः ॥ ३५ ॥

अन्तरा । भूतग्रामवत् । स्वात्मनः । इति प० ।

अर्थ—उभय ब्राह्मणमें स्वआत्माका सर्वके ‘अन्तरा’ नाम अंतर अंगीकार किया है, यातें उभय वेद्य आत्मा एक है, यथा ‘भूतग्राम’ नाम भूतनका समूह-रूप जो स्थूलदेह तिसमें पृथिवीसँ जल अंतर है, जलसँ तेज अंतर है, इत्यादि क्रमसँ सापेक्षक भूतनको अंतरत्व है, मुख्य नहीं; तथा उभय ब्राह्मणमें विद्याभेदका अंगीकार कियेसँ वेद्यात्मा सर्वके अंतर नहीं सिद्ध होवेगा अर्थात् उभय आत्माका अंगीकार कियेसँ गौण अंतरत्व सिद्ध होवेगा; यातें वेद्य एक होनेसँ विद्या एक है, भूतदृष्टांत व्यतिरेकी है, इति ॥ ३५ ॥

अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत् ॥ ३६ ॥

अन्यथा । भेदानुपपत्तिः । इति । चेत् । न । उपदेशान्तरवत् । इति प० ।

अर्थ—‘अन्यथा’ नाम तहां विद्याभेदका अनंगीकार किये आत्माके भेदकी अनुपपत्ति होवेगी अर्थात् भेद नहीं बनेगा, ‘इति चेत्’ नाम उक्त शंका करे तौ असंगत है, तथाहि—यथा छांदोग्यमें ‘उपदेशान्तरवत्’ नाम ‘तत्त्वमसि’ जा वाक्यका नववार अभ्यास कियेभी विद्याका भेद नहीं, तथा ब्राह्मण उभयमें भेद अभ्यास कियेपरभी विद्याभेद नहीं, इति ॥ ३६ ॥

अव०—“तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्” जा वाक्यमें आदित्यपुरुषका अधिकार कहा है, और “त्वं वाऽहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि भगवो देवते” जा जाबालिमें कहा है, उक्त उभयवाक्यनमें आत्माका केवल ईश्वररूपसँ चिंतनका विधान है वा आत्माका ईश्वररूपसँ और ईश्वरका आत्मारूपसँ चिंतनका विधान है ? यह संदेह है, तिसका नि-
पेक्षक यह सूत्र है—

व्यतिहारो विशिंपन्ति हीतरवत् ॥ ३७ ॥

व्यतिहारः । विशिंपन्ति । हि । इतरवत् । इति प० ।

अर्थ—श्रुतिमें यह अर्थ कहा है कि—जो मैं उपासक हूँ सोई यह उपास्य है जो यह उपास्य है सोई मैं उपासक हूँ. इति । हे भगवन् ! हे देवता ! जो तैं है सो मैं हूँ ! हे भगवन् ! हे देवता ! जो मैं हूँ सो तैं है. इति । इनके अनुसार यह सूत्रार्थ है. उक्तवाक्यनमें 'व्यतिहारः' नाम परस्पर उपास्यत्वरूपसँ उपदेश किया है, केवल आत्माका ईश्वररूपसँ चिंतनका विधान नहीं. 'इतरवत्' नाम यथा सर्व आत्मत्वादि गुण उपास्य करके उपदेश किये हैं तथा प्रसंगमें अंगीकार है. 'विशिंपन्ति' यह तहा हेतु है. उक्त शाखावान् जीव और परमात्माको व्यतिहारसँ 'विशिंपन्ति' नाम 'योऽहं' इत्यादिकोंसे परस्पर विशेषणविशेष्यभावको कहेंहें, जो परस्पर विशेषण विशेष्यभाव नहीं मानेंगे तो 'योऽहं सोऽसौ' इतना श्रुतिका अंश सफल होवेगा 'योऽसौ सोऽहं' इतना अंश अनर्थक होवेगा. यातें उभयरूप चिंतन नहीं, विधेय है. इति ॥ ३७ ॥

अव०—बृहत् सप्तमअध्यायमें यह कहा है कि—“ तत्रै तदेव तदास सत्यमेव स यो हैतं महत् यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति जयति इमान् लोकान् ” इति । अर्थ—यह जो हिरण्यगर्भाख्य ब्रह्म व्यापकरूप सर्वकरके पूज्य सर्वसँ प्रथम उपजाहुआ है इसको जो जाने है अर्थात् इसकी उपासना करेहै सो सर्वलोकनक जय करेहें—पुनः तहांहीं कहा है कि—“ तत्सत्यं असौ स आदित्यो य एष एव एतस्मिन् मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणे अक्षन् पुरुषः तौ एतौ अन्योऽन्यस्मिन् प्रतिष्ठितौ रश्मिभिरेपोऽस्मिन् प्रतिष्ठतः । प्राणैरयं अमुष्मिन् ” इति उक्त उभय वाक्यनमें विद्या एक है वा भिन्न है ? जा संशयसँ सूत्रकार कहेंहें—

सैव हि सत्यादयः ॥ ३८ ॥

सा । एव । हि । सत्यादयः । इति प० ।

अर्थ—“ तत्सत्यं ” जा श्रुतिमें विद्या कही है सो 'सा एव' नाम पूर्वश्रुतिवक्त सत्यविद्याही हैं; तासँ भिन्न नहीं. 'तत्सत्यम्' जा श्रुतिमें 'तत्' पदसँ पूर्वश्रुतिवक्त हिरण्यगर्भ उपास्यका ग्रहण है. उभयश्रुतिमें उपास्य एक होनेसे उपासनाका भेद संभवे नहीं; यातें उभय वाक्यनमें उपासना एक

होनेसें उभयवाक्यनमें जे 'सत्यादयः' नाम सत्यत्वादिगुण, तिनका उपसंहार कर्तव्य है. इति ॥ ३८ ॥

अव०—छांदोग्य अष्टमप्रपाठकमें यह कहा है कि—“एष आत्माऽपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः” इति । बृहदारण्यकवाक्य—“स एव महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य एपोन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिन् शेते” इति उक्त उभयवाक्यनमें परस्पर गुणउपसंहार अंगीकृत है वा नहीं जा संदेहसें कहे हैं—

कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३९ ॥

कामादि । इतरत्र । तत्र । च । आयतनादिभ्यः । इति प० ।

अर्थ—‘कामादि’ नाम सत्यकामत्वादि ये छांदोग्योक्त गुण तिनका ‘इतरत्र’ नाम बृहदारण्यकमें उपसंहार अंगीकृत है. ‘आयतनादिभ्यः’ नाम हृदय स्थानवान् ब्रह्म और उपास्य ब्रह्म ‘तत्र’ नाम उभयशाखामें एकही कहा है; यतें परस्पर गुणोंका उपसंहार संभवे है. इति ॥ ३९ ॥

अव०—छांदोग्य पंचमप्रपाठकमें वैश्वानर उपासनाविषे प्राणाग्निहोत्र सुना है—“तत् यत् भक्तं प्रथममागच्छेत् तत् होमीयं, स यां प्रथमां आहुतिं जुहुयात् तां जुहुयात् ‘प्राणाय स्वाहा’ इति प्राणस्तृप्यति, प्राणे तृप्यति चक्षुः तृप्यति, चक्षुषि तृप्यति आदित्यस्तृप्यति, आदित्ये तृप्यति द्यौस्तृप्यति, दिवि तृप्यत्यां यत् किञ्च द्यौश्चादित्यश्चाधितिष्ठत तत्तृप्यति, तस्यानुत्सिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेन” इति । अर्थ—जो भोजनकालमें भोजनार्थ आवे सो होतव्य है; सो भोक्ता जा प्रथम आहुतिको कर ताको कैसे करे ? जा शंकासें कहेंहें. ‘प्राणाय स्वाहा’ जा मंत्रसें अन्नका प्रक्षेप करे. ‘अनु’ नाम ताकी तृप्ति होनेके अनंतर प्रजादिकोंसें भोक्ता तृप्त होवेहें ‘ब्रह्मवर्चसेन’ इस पदसें तेजका अंगीकार है. इति । “पूर्वोऽतिथिभ्योऽश्रीयात्” यह जावालमें सुना है कि—अतिथिसें पूर्वभोजन करे; यह श्रुतिअक्षरार्थ है. तहां उभयशाखावचनोंमें भोजनलोप हुयेसें प्राणाग्निहोत्रका लोप अंगीकृत है ? वा अलोप ‘आदरात्’ नाम अंगीकृत है ? यह संदेह है. तहां यह पूर्वपक्षका सूत्र है—

आदरादलोपः ॥ ४० ॥

आदरात् । अलोपः । इति प० ।

अर्थ—जावालश्रुतिमें प्राणाग्निहोत्रका 'आदरात्' नाम आदर किया है, यातें प्राणाग्निहोत्रके अलोपका अंगीकार है, अतिथिसँ पूर्वभोजनमें जो प्रथमतः धर्म तिसके लोपको नहीं, संहारतीहुई जावालश्रुति प्राणाग्निहोत्ररूप धर्मके लोपको कैसे अंगीकार करेगी ? यातें भोजनलोप हुयेभी अपरभक्ष्य द्रव्यकरके प्राणाग्निहोत्र कर्तव्य है, इति ॥ ४० ॥

उत्तरसूत्र—

उपस्थितेऽतस्तद्वचनात् ॥ ४१ ॥

उपस्थिते । अतः । तद्वचनात् । इति प० ।

अर्थ—'उपस्थितेः' नाम भोजन प्राप्त होवे तौ 'अतः' नाम इस भोजनसँ प्राणाग्निहोत्र कर्तव्य है, जो भोजन प्राप्त नहीं होवे तौ प्राणाग्निहोत्र कर्तव्य नहीं । 'तद्वचनात्' नाम "तत् होमीयं" जा वचनसँ "यत् भक्तं प्रथमं आगच्छेत्" जा वाक्यसँ "तत् होमीयं" जा वाक्यका संबंध निश्चित है, यातें भोजनअर्थ प्राप्तद्रव्यको होमसाधनत्व प्रतीत होवे है; यातें भोजनलोप हुये प्राणाग्निहोत्रके लोपका अंगीकार है, इति ॥ ४१ ॥

अव०—छांदोग्यके आरंभमें कर्मअंग उद्गीथमें प्राणकी उपासना कही है सो कर्मोंका अंग है वा स्वतंत्रफलका साधन है? यह तहां संदेह है, पूर्वपक्षमें कर्मनका अंग माननेसँ यह सूत्र सिद्धांत है कि—

तन्निर्धारणानियमस्तद्वृष्टेः पृथक् वाऽप्रतिबंधः फलम् ॥

तन्निर्धारणानियमः । तद्वृष्टेः । पृथक् । वा । अप्रतिबन्धः ।

फलम् । इति प० ।

अर्थ—'तत् निर्धारण' नाम कर्मअंग आश्रित उपासनाके सेवनका अनियम है, सदा कर्म अनुष्ठान कीयेपर तिसके अनुष्ठानका अंगीकार नहीं 'तद्वृष्टेः' नाम तिस अनियमको "तेनोभौ कुरुत" जा श्रुतिमें तहांही देसा है और उपासनाका 'पृथक्' नाम स्वतंत्रप्रतिबंधरहित तहांही—“यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति" जा श्रुतिमें फल सुना है; यातें नियमका अंगीकार किया नहीं, इति ॥ ४२ ॥

अब०—छान्दोग्यके चतुर्थ प्रपाठकमें यह वाक्य है कि—‘वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेवाप्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति इति प्राणो वाव संवर्गः स यदा स्वपिति प्राणमेव वागप्येति’ इति। उक्त उभयश्रुतिमें वायुको अग्निआदिकोंसे उत्तम कहा है और प्राणको वाक्यादिकोंसे उत्तम कहा है; तथा बृहदारण्यमेंभी कहा है तहां वायु और प्राणका प्रयोग एक है वा भेद युक्त है? जा संदेहसें कहे हैं—

प्रदानवदेव तदुक्तम् ॥ ४३ ॥

प्रदानवत् । एव । तत् । उक्तम् । इति प० ।

अर्थ—इंद्रराजा अधिराजा इत्यादि राज अधिराज स्वाराट्आदि गुणोंके भेदसें यथा इंद्रअर्थ पुरोडाशके ‘प्रदान’ नाम प्रक्षेपका भेद है तथा आधिदैवत्व आध्यात्मिकत्वरूप अवस्थाके भेदसें गुणनके भेदसें प्रयोगका भेद है। ‘तत् उक्तं’ नाम देवताकांडमें उक्त अर्थ कहा है। याते प्रयोगका भेद है। इति ॥ ४३ ॥

अब०—वाजसनेयिक अग्निहस्यमें “आत्मनोऽग्नीनर्कान्मनोमयान्मनश्चित्” इत्यादिक वाक्यनसें मन और इंद्रियोंकी वृत्तिको अग्निरूप कहा है। ते सर्व वृत्तिरूप अग्निकर्मोंके अंग हैं वा स्वतंत्र हैं? जा संदेहसें कहे हैं—

लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि वलीयस्तदपि ॥ ४४ ॥

लिङ्गभूयस्त्वात् । तत् । हि । वलीयः । तत् । अपि । इति प० ।

अर्थ—स्वतंत्रताके बोधक लिंग तहां ‘भूयस्त्वात्’ नाम अनेक हैं, याते मनादि वृत्तिरूप अग्नि स्वतंत्र हैं, ‘तत्’ नाम ते लिंग ‘वलीयः’ नाम प्रकरणसें बलवान् हैं ‘तत् अपि’ नाम सो लिंगभी पूर्वकांडमें कहे हैं। इति ४४

पूर्वपक्षसूत्र—

पूर्वविकल्पः प्रकरणात्स्यात् क्रिया मानसवत् ॥ ४५ ॥

पूर्वविकल्पः । प्रकरणात् । स्यात् । क्रिया । मानसवत् । इति प० ।

अर्थ—संकल्परूप जे अग्नि कहे हैं ते स्वतंत्र नहीं किंतु प्रकरणसें, तिनसें पूर्व जो क्रियारूप अग्नि ताके अंतैर विकल्पसंकल्परूप अग्नि ‘स्यात्’ नाम

१ संवत्सरे वायु संवर्ग है। २ उपशांत होवे है। ३ यथा दशरात्रस्य दशमेऽहनि अपि वाक्ये पृथिव्याः पात्रे समुद्रस्य सोमस्य प्रजापतिदेवतायै गृह्यमाणस्य ग्रहणासादनहरणोपह्वानभक्षणानि मानसानि एव आग्नायते।

हैं। यथा द्वादशाहमध्ये दशम दिनका अंग मानस पूर्वमीमांसामें प्रसिद्ध है तथा 'मानस' अग्निकर्मोंका अंग है; स्वतंत्र नहीं। इति ॥ ४५ ॥

अतिदेशाच्च ॥ ४६ ॥

अतिदेशात् । च । इति प० ।

अर्थ—“तेषां एकैकं एतान् यावान् असौ पूर्वः” जा वाक्यमें पूर्वअग्निकी मानसअग्निमें सादृशताका उपदेश किया है, सो एक क्रियामें प्रवेशविना संभवे नहीं; यातें उक्त अतिदेशसंभी मानसअग्नि स्वतंत्र नहीं। इति ॥ ४६ ॥

सिद्धांत—

विद्यैव तु निर्धारणात् ॥ ४७ ॥

विद्या । एव । तु । निर्धारणात् । इति प० ।

अर्थ—‘तु’ पूर्वपक्षका निषेधक है। मानस सर्वअग्नि स्वतंत्र ‘विद्या’ नाम उपासनारूप है; कर्ममें तिनका प्रवेश नहीं। “ते ह एते ‘विद्याचित’ एव” जा श्रुतिमें तहांही ‘एव’ पदसँ विद्यारूप तिनको निर्धारणात् नाम निश्चय किया है; यातें विद्या स्वतंत्र है। इति ॥ ४७ ॥

दर्शनाच्च ॥ ४८ ॥

दर्शनात् । च । इति प० ।

अर्थ—मानसअग्नियोंकी स्वतंत्रताके बोधक लिंगभी देखे हैं, ते पूर्वमीमांसामें कहेहैं। इति ॥ ४८ ॥

अव०—ननु प्रकरणसँ लिंगका बाध हो, जा शंकाका निषेध करेहैं। कि—

श्रुत्यादिवलीयस्त्वाच्च न बाधः ॥ ४९ ॥

श्रुत्यादिवलीयस्त्वात् । च । न । बाधः । इति प० ।

अर्थ—श्रुतिको और ‘आदि’ पदसँ लिंगवाक्यको प्रकरणसँ ‘वलीयस्त्वात्’ नाम बलवान् होनेसँ बाध होवे नहीं; “विद्याचित एव” यह श्रुति है; “सर्वदा सर्वमयानि ऋतानि” यह लिंग है; “विद्याया हैवैते एवं विद्या ध्रिता भवन्ति” यह वाक्य है; इन त्रयको बलवान् होनेसँ प्रकरणसँ ‘न बाधः’ नाम स्वतंत्र अग्निका बाध संभवे नहीं। इति ॥ ४९ ॥

अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववद्दृष्टश्च तदुक्तम् ५०

अनुबन्धादिभ्यः । प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववत् । दृष्टः । च । तत् ।

उक्तम् । इति ५० ।

अर्थ—“ ते मनसा एव अधीयन्त । मनसा एव अधीयन्त । मनसा एव ग्रहा अगृह्यन्त । मनसा स्तुवन् । मनसाऽशंसन् । यत् किञ्चित् यज्ञे कर्म क्रियते, यत्, किञ्चित् यज्ञीयं कर्म, मानसा एव तत्, मनोमयेषु मनश्चित्सु मनोऽयं अक्रियत ” जा श्रुतिसँ मनादि वृत्तियोंविषे ‘अनुबन्ध’ नाम कर्मांग आधानादिक संपादन किये हैं; यातँ ते स्वतंत्र हैं. ‘आदि’ पदसँ अतिदेशका ग्रहण है ‘प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववत्’ नाम यथा शां-डिल्यादिविद्या स्वतंत्र है तथा मानसअग्नि स्वतंत्र है. यथा “ राजा राज्यकामो राजसूयेन यजेत ” इत्यादिक प्रसंगोंमें ब्राह्मणकर्तृक अंतेष्टीको राजमात्र-कर्तृक राजसूयप्रकरणसँ उत्कर्ष देखा है; तथा प्रसंगमेंभी अग्नियोंको कर्मप्र-करणसँ उत्कर्षता देखी है. ‘तत् उक्तं’ नाम यह सर्व अर्थ पूर्वमीमांसामँ कहा है. श्रुतिअर्थ—ते अग्नि मनकरके संपादन करी हैं, मनकरके स्थापन करी हैं, ‘ग्रहा’ नाम मन अग्निमँ पात्रोंको ग्रहण किया है, ग्रहणकर्ता स्तुति करेहें. उद्गाता होता शंसन करेहें, उपकारक यज्ञअर्थ कर्म किया जाय सो मनकरही होवैहै. इति ॥ ५० ॥

अव०—पूर्व मानसअग्निको मानसवत् कहा सो तिस दृष्टांतसँ अग्निको क्रिया अंग माने तौ तिसका निषेध करे हैं—

न सामान्यादप्युपलब्धेर्मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः॥५१॥

न । सामान्यात् । अपि । उपलब्धेः । मृत्युवत् । न । हि ।

लोकापत्तिः । इति ५० ।

अर्थ—मानसअग्निमँ मानसिकत्व तुल्य है; ताभी क्रियाका अंग नहीं श्रुतिसँ मृत्युवत् अग्निकी स्वतंत्रता ‘उपलब्धेः’ नाम प्रतीत होवे है; यातँ ‘सामा-न्यात्’ नाम मानसत्व तुल्यहुयेभी कर्मोंका अंग नहीं. यथा—“ स च एष एव मृत्युर्य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषो दृश्यते ” जा वाक्यमँ आदि-त्यको मृत्यु कहा है. “अग्निर्वै मृत्युः” जामँ अग्निको मृत्यु कहा है. उभय वाक्यनमँ आदित्य अग्निवाचक मृत्युशब्द उभयमँ तुल्य है तौभी ते परस्पर विलक्षण हैं. और “यथा द्युलोकोऽग्निः तस्य आदित्यः समित्” जामँ

भिन्न प्रयाजादिकोंका प्रयोग अंगीकृत नहीं तथा भिन्न भिन्न उपासनाकी निंदाकर समस्त उपासनाका उपदेश किया था; यातें सो श्रुति सर्वकोही श्रेष्ठता दिखावे है. इति ॥ ५७ ॥

अब०—एक जो सगुण ब्रह्म उपास्य ताकी शांडिल्य दहरादिउपासना अनेक प्रकारकी कही है. तथा अपर प्राणादि उपास्यमें है; तहां एक उपास्यकी उपासना भिन्न भिन्न हैं वा एक है? जा संदेहका निषेध करे हैं कि—

नानाशब्दादिभेदात् ॥ ५८ ॥

नाना । शब्दादिभेदात् । इति ५० ।

अर्थ—“वेदोपासीत सक्तुं संकल्पं कुर्वीत” इत्यादिक शब्दोंके भेदसँ एक उपास्यमें उपासना ‘नाना’ नाम अनेक हैं; एक नहीं. इति ॥ ५८ ॥

अब०—इसमें यह संदेह है कि—जे सगुण ब्रह्मादि उपासना उपास्यसाक्षात्कारसँ फलका हेतु है. तिनका स्वइच्छासँ विकल्प और समुच्चय अंगीकृत है वा विकल्पकाही अंगीकार है? जा संशयकी निवृत्ति करे हैं—

विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात् ॥ ५९ ॥

विकल्पः । अविशिष्टफलत्वात् । इति ५० ।

अर्थ—सर्व उपासनाका उपास्य साक्षात्काररूप अविशिष्टफल होवे है अर्थात् एक फल होवे है; यातें उक्त सर्व उपासनावोंमें विकल्पयुक्त है. एक उपासनासँ साक्षात्कार हुयेसँ अपर उपासना निष्फल हैं. विरुद्ध उपास्यरूपका साक्षात्कार एकको संभवे नहीं, यातें उपास्य साक्षात्कारद्वारा फलहेतु विद्या एकही सेवनयोग्य है. इति ॥ ५९ ॥

अब०—“नाम ब्रह्म इति उपासीत” इत्यादिक जे प्रतीक उपासना तिनमें पूर्ववत् संदेह हुये पूर्वपक्षमें विकल्पके नियमका अंगीकार कियेसँ यह उत्तर है कि—

काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्न वा पूर्वहेत्वभावात् ॥

काम्याः । तु । यथाकामंम् । समुच्चीयेरन् । न । वा ।

पूर्वहेत्वभावात् । इति ५० ।

अर्थ—‘काम्याः’ नाम अदृष्टद्वारा फलका हेतु जो विद्या तिनको ‘यथाकामं’ नाम स्वइच्छा अनुसार ‘समुच्चीयेरन्’ नाम समुच्चय करे ‘वा’ नाम अथवा

नहीं समुच्चय करे. ऐसे विकल्पके नियमका साधक जो सृष्टफल तिस पूर्व-
उक्त हेतुका इस प्रतीकउपासनामें अभाव है; यातें विकल्पका नियम नहीं
इति ॥ ६० ॥

पूर्वपक्षसूत्र-

अङ्गेषु यथाऽऽश्रयभावः ॥ ६१ ॥

अङ्गेषु । यथा । आश्रयभावः । इति प० ।

अर्थ-कर्मअंग उद्गीथादिकोंमें जे उपासनायें अंगीकार करी हैं तिनका
समुच्चयकर अनुष्ठान करे वा इच्छाअनुसार करे? यह तहां संदेह है-प्रती-
कउपासना स्वतंत्र है; यातें इच्छाअनुसार ताका सेवन युक्त है. 'अंगेषु'
नाम कर्मअंग उद्गीथादिकोंविषे 'यथा आश्रयभावः' नाम जैसे इनके
स्तोत्रादिक मिलके होवे हैं तथा उपासना संभवे है. इति ॥ ६१ ॥

शिष्टेश्च ॥ ६२ ॥

शिष्टेः । च । इति.प० ।

अर्थ-यहभी पूर्वपक्षसूत्र है-यथा अंगोंका प्रतिवेदमें शिष्टि नाम विधान
है तथा तत्आश्रित उपासनाका विधान तुल्य है; यातें 'शिष्टेः' नाम तुल्य
विधान होनेसँ अंगोंकी नाई उपासनाके समुच्चयका नियम है. इति ॥ ६२ ॥

पूर्वपक्षसूत्र-

समाहारात् ॥ ६३ ॥

अर्थ-ऋग्वेदउक्त प्रणवकी और सामवेदउक्त उद्गीथकी उद्गाताकरके
'समाहारात्' नाम एक उपासना किये श्रुति फल दिखावेहै यातें प्रणव उद्गीथ
उभयके एक ज्ञानका फल कहती हुई श्रुति सर्ववेदअंगआश्रित उपासनाका
समुच्चय सूचन करे है. इति ॥ ६३ ॥

पूर्वपक्ष-

गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ॥ ६४ ॥

गुणसाधारण्यश्रुतेः । च । इति प० ।

अर्थ-ओंकारको विद्यागुण और विद्या आश्रय कर वेदत्रय साधारण अंगी-
कार किया है. सो उद्गीथउपासनामें गुणरूप जो ओंकार तिसकरके वेदत्रय-

उक्त कर्म होवे है यातें सर्व कर्ममें ओंकारका 'साधारण्यश्रुतेः' नाम श्रवण होवे है; यातें तत्त्वाश्रित उपासनाकाभी समुच्चय कर अनुष्ठान करे. इति ॥ ६४ ॥

सिद्धांतसूत्र—

न वा तत्सहभावाश्रुतेः ॥ ६५ ॥

न । वा । तत्सहभावाश्रुतेः । इति प० ।

अर्थ—'वा' शब्द पूर्वपक्षके निरासार्थ है. यथा अंगउपासनाका समुच्चय सुना है तथा अंगआश्रित उद्गीथादि उपासनाका 'सहभाव' नाम समुच्चय 'अश्रुतेः' नाम सुना नहीं; यातें अंगआश्रित उपासनाके समुच्चयका नियम नहीं. इति ॥ ६५ ॥

दर्शनाच्च ॥ ६६ ॥

दर्शनात् । च । इति प० ।

अर्थ—अंगआश्रित उपासनाके असमुच्चयको अनेक श्रुतियां दिखावे हैं यातें सर्व उपासनाके समुच्चयका अंगीकार नहीं. इति सिद्धम् ॥ ६६ ॥

इति शारीरकसूत्रभावप्रकाशिकाभाषाटीकायां तृतीयाध्यायस्य
तृतीयः पादः समाप्तः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थपादप्रारंभः ।

पूर्वपादमें सगुण निर्गुण ब्रह्मविद्याके उपसंहारकथनसे परिमाण निश्चय किया है. इस पादमें तिस विद्याको कर्मविना पुरुषार्थ साधनता निरूपण करें. और विद्याके अंतरंग साधन जे शमादिक तथा बहिरंग साधन जे यज्ञादि तिनको निरूपण करें. इस पादके दो अधिक पचास ५२ सूत्र हैं. तहां सप्तदश १७ अधिकरण हैं. पंच अधिक तीस ३५ गुण हैं.

तथाहि—

सद्व्या ।	अधिकरण ।	गुण ।	प्रसङ्ग ।
१	अ०	+	स्वतंत्रज्ञानसे मोक्ष.
२	+	गु०	ज्ञानकर्मअंग जैमिनिपूर्वपक्ष
३	+	गु०	ज्ञा०
४	+	गु०	ज्ञा०

संख्या ।	अधिकरण ।	गुण ।	प्रसंग ।
६	+	गु०	ज्ञानकर्मअंग जैमिनिपूर्वपक्ष
६	+	गु०	ज्ञा०
७	+	गु०	ज्ञा०
८	+	गु०	ज्ञा०
९	+	गु०	उत्तर
१०	+	गु०	उ०
११	+	गु०	उ०
१२	+	गु०	उ०
१३	+	गु०	उ०
१४	+	गु०	उ०
१५	+	गु०	उ०
१६	+	गु०	उ०
१७	+	गु०	ज्ञानस्वतंत्रमोक्षहेतु
१८	अ०	+	जैमिनिपूर्वपक्ष
१९	+	गु०	सिद्धांत
२०	+	गु०	आश्रमविचार
२१	अ०	+	उद्गीथविधेय
२२	+	गु०	उ०
२३	अ०	+	कथाविचार
२४	+	गु०	क०
२५	अ०	+	विद्यास्वतंत्र
२६	अ०	+	विद्यामै कर्मअपेक्षा
२७	+	गु०	शमादिविधान
२८	अ०	+	सर्वात्र अनुज्ञा अर्थवाद
२९	+	गु०	स०
३०	+	गु०	स०
३१	+	गु०	स०
३२	अ०	+	आश्रमकर्मविचार
३३	+	गु०	कर्म०

संख्या ।	अधिकरण ।	गुण ।	प्रसंग ।
३४	+	गु०	कर्म०
३५	+	गु०	कर्म०
३६	अ०	+	आश्रमविना कर्मअधिकार
३७	+	गु०	आ०
३८	+	गु०	आ०
३९	+	गु०	आ०
४०	अ०	+	प्रच्युतकर्म विद्याहेतु नहीं.
४१	अ०	+	पूर्वपक्ष
४२	+	गु०	उपपात व अंगीकार
४३	अ०	+	अचकीरणीसह व्यवहारनिषेध
४४	अ०	+	पूर्वपक्ष
४५	+	गु०	कर्मकर्ता विचार
४६	+	गु०	क०
४७	अ०	+	श्रवणादिविधि
४८	+	गु०	गृहस्थाश्रमादिअंगीकार
४९	+	गु०	ब्रह्मचर्यवि०
५०	अ०	+	वाल्मिश्रवण
५१	अ०	+	इस जन्मका ज्ञान
५२	अ०	+	निर्विशेषमुक्तिसिद्धि
	१७	३६	

इति. तहां यह प्रथम सूत्र है-

पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति वादरायणः ॥ १ ॥

पुरुषार्थः । अतः । शब्दात् । इति । वादरायणः । इति प० ।

अर्थ-आत्मविद्या कर्मकर्ता जीवठारा यज्ञमें साधन है वा स्वतंत्र पुरुषार्थका साधन है, जा संदेह हुयेसँ पूर्वपक्षमें ब्रह्मज्ञानको कर्मोंका अंग मानेसँ यह उत्तर पक्ष है. 'अतः' नाम उपनिषद्जन्य आत्मज्ञानसँ स्वतंत्रही 'पुरुषार्थः' नाम मोक्ष सिद्ध होवे है; यह वादरायण आचार्य माने हैं. 'शब्दात्' यह तहां हेतु है. "तरति शोकमात्मवित् । ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति"

इत्यादि श्रुतियोंका 'शब्द' पदसँ ग्रहण है. वे केवल विद्याको मोक्षकारणताके बोधक हैं; सगुणविद्याभी स्वतंत्र फलका हेतु है. इति ॥ १ ॥

आगे पदसूत्रोंसँ जैमिनिका पूर्वपक्ष है—

शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथाऽन्येष्विति जैमिनिः॥२॥

शेषत्वात् । पुरुषार्थवादः । यथा । अन्येषु । इति ।

जैमिनिः । इति प० ।

अर्थ—आत्मा कर्मोंका कर्ता है, यातँ तत्त्वज्ञानभी आत्मद्वारा कर्मोंका 'शेषत्वात्' नाम अंग है. "तत्त्वज्ञानं कर्मोंगं फलशून्यत्वे सति कर्मोश्रयत्वात्" इति । यातँ 'यथा अन्येषु' नाम "यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति" इत्यादिकोंमें फलश्रुति अर्थवादरूप है तथा "तरति शोकमात्मचित्" इत्यादि पुरुषार्थश्रुति अर्थवादरूप है. यह जैमिनि आचार्य माने हैं इति ॥२॥

आचारदर्शनात् ॥ ३ ॥

अर्थ—बृहत् पंचम आरंभमें यह वाक्य है कि—"जनको वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे" इति । यह श्रुति ब्रह्मविद्यावान् जनकमें विद्यासहित 'आचार' नाम कर्माचारको 'दर्शनात्' नाम दिखावे है; यातँ विद्या स्वतंत्र नहीं किंतु कर्मोंका अंग है. श्रुतिअर्थ—विदेहोंका अधिपति जनकराजा बहुदक्षिणायुक्त यज्ञसँ 'ईजे' नाम यजन करता भया. इति ॥ ३ ॥

तच्छ्रुतेः ॥ ४ ॥

तत् । श्रुतेः । इति प० ।

अर्थ—"यदेव कर्म विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति" जा छांदोग्य तृतीयगंतश्रुतिमें विद्याको 'तत्' नाम कर्मोंका अंग 'श्रुतेः' नाम सुना है; यातँ स्वतंत्रविद्या फलका हेतु नहीं. इति ॥ ४ ॥

समन्वारम्भणात् ॥ ५ ॥

समन्वारंभणात् । इति प० ।

अर्थ—"तं उत्क्रामन्तं प्राणोऽनृत्क्रामति स विज्ञानो भवति स वि-

१ तिस परलोकगामीको जे विहित प्रतिषिद्ध विद्या कर्म ते सम्यक् 'अन्वारभेते' नाम अनुगमन करे हैं और प्रज्ञा नाम अतीतकर्मफलवाप्तनामी गमन करे है.

ज्ञानं एव अन्ववक्रामति तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च” जा बृहदारण्यक पष्ठअध्यागत श्रुतिमें विद्यासहित कर्मोंकी साहित्यता प्रतीत होवे है यातेंभी मुक्ति विद्याका फल नहीं, किंतु विद्याकर्मोंका अंग है. इति ॥ ५ ॥

तद्वतो विधानात् ॥ ६ ॥

तद्वतः । विधानात् । इति प० ।

अर्थ—छांदोग्यसमासिमें यह कहा है—“तद्वैतत् ब्रह्मा प्रजापतय उवाच, प्रजापतिर्मनवे, मनुः प्रजाभ्यः, आचार्यकुलात् वेदमधीत्यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेपेण अभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानः धार्मिकान् विदधत् आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्य अहिंसन् सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकं अभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते” इति इसमें ‘तद्वतः’ नाम सर्ववेदार्थ ज्ञानवान्को ‘विधानात्’ नाम कर्म विधान किये है; यातें ब्रह्मविद्या कर्मोंका अंग है. श्रुतिअर्थ—यह आत्मज्ञान हिरण्यगर्भने कश्यपको कहाथा, कश्यपने मनुसे कहा था, मनुने प्रजापतिसे कहा था, कि—आचार्यकुलसे वेद पढ़के यथा विधान है तथा गुरुकर्मसे शेष कालकर वेद अध्ययन करके ‘अभिसमावृत्य’ नाम धर्मजिज्ञासा समाप्त करके ‘धार्मिकान्’ नाम पुत्रशिष्यनको धर्मयुक्तनको प्रेरणा कर्ताहुआ इंद्रियोंको ब्रह्ममें स्थापन करके स्थावर जंगम सर्व भूतनको पीडा नहीं देताहुआ भिक्षानिमित्त अटनादिकोंसे परपीडा होवे है यातें ‘तीर्थेभ्यः अन्यत्र’ यह कहा है; उक्तविषय कर्ताहुआ ब्रह्मलोकको प्राप्त होवेहै तहांसे फिरकर नहीं आवेहै. इति ॥ ६ ॥

नियमाच्च ॥ ७ ॥

नियमात् । च । इति प० ।

अर्थ—“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे” जा ईशावास्य श्रुति जीवनपर्यंत कर्म करनेका ‘नियमात्’ नाम नेम करेहै; यातें विद्या कर्मोंका अंग है. श्रुतिअर्थ—इस देहमें सौ वर्ष जीवनेकी इच्छा करे परंतु कर्मोंको कर्ताहुआ इच्छा करे.

हे नर ! जो तू इसप्रकार करेगा तौ तेरेमें अशुभ कर्मोंका लेप नहीं होवेगा. उक्त प्रकारसँ अपर प्रकार कोई नहीं कि जिससे कर्म लिपायमान नहीं होवें. इति ॥ ७ ॥

अव०—अव सूत्रकार पूर्वपक्षका समाधान करे हैं—

अधिकोपदेशात्तु वादरायणस्यैवं तद्दर्शनात् ॥ ८ ॥

अधिकोपदेशात् । तु । वादरायणस्य । एवं । तत् ।

दर्शनात् । इति प० ।

अर्थ—‘तु’ पद पूर्वपक्षनिषेधार्थ है. “तत्त्वज्ञानं कर्माङ्गं । फलशून्यत्वे सति कर्माङ्गाश्रयत्वात्” जा अनुमानमें कर्माङ्गाश्रयत्व इतना हेतु असिद्ध है. ‘अधिकोपदेशात्’ नाम कर्मकर्ता संसारीसँ अकर्ता असंसारी चिन्मात्रका वेदांतमें उपदेश किया है; यातें तत्त्वज्ञान चेतनमात्रके आश्रय है. कर्मरूप कर्मकर्ताके आश्रय नहीं; यातें हेतु असिद्ध है. यातें “वादरायणस्य” नाम सूत्रकारका जो मत है सो ‘एवं’ नाम जैसे कहाहै तथाहि है. “तत् दर्शनात्” नाम “यः सर्वज्ञः सर्ववित्” इत्यादिक अनेकश्रुतिमें कर्तासँ अधिक आत्माका उपदेश देखा है यातें वादरायणउक्त मतही समीचीन है. इति ॥ ८ ॥

आचारशंकाके उत्तर—

तुल्यं तु दर्शनम् ॥ ९ ॥

तुल्यम् । तु । दर्शनम् । इति प० ।

अर्थ—विद्याको कर्मोंका अंग नहीं माने तौभी आचारदर्शन तुल्य है. तथाहि—“पूर्वे विद्यांसोऽग्निहोत्रं न जुहुवांचक्रिरे” जा कौपीतकिश्रुतिमें विद्वान्में कर्माचारके अभावको दिखाया है; यातें विद्या कर्मोंका अंग नहीं. इति ॥ ९ ॥

असार्वत्रिकी ॥ १० ॥

अर्थ—“यदेव विद्यां करोति” यह जो पूर्व श्रुति कही थी सो ‘असार्वत्रिकी’ नाम सर्वविद्या इनके विषय नहीं; किंतु प्रसंगमें जो उद्गीथविद्या ताकी बोधक है; यातें उक्तश्रुतिसँभी विद्या कर्मोंका अंग नहीं. इति ॥ १० ॥

विभागः शतवत् ॥ ११ ॥

विभागः । शतवत् । इति प० ।

अर्थ—“ तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते ” जा श्रुतिमें “ विभागः ” नाम विभागका अंगीकार है. ‘शतवत्’ नाम “यथा शतमाभ्यां दीयताम्” याविध वाक्य उच्चारण कियेसँ पचास एकको और पचास एकको दिये जायेहैं. तथा “ विद्यया अन्यस्यारम्भणं कर्मणाऽन्यस्यारम्भणम् ” जाविध विभागका अंगीकार है; यातँ विद्या कर्मोंका अंग नहीं. श्रुतिअर्थ पूर्व कर दिया है. इति ॥ ११ ॥

अध्ययनमात्रवतः ॥ १२ ॥

अर्थ—“ आचार्यकुलात् वेदं अधीत्य ” जा श्रुतिमें ‘अध्ययन’ नाम वेद अध्ययनमात्रवान्को कर्म विधान कियेहैं, आत्मज्ञानवान्को नहीं; यातँ विद्या कर्मोंका अंग नहीं. इति ॥ १२ ॥

नाविशेषात् ॥ १३ ॥

न । अविशेषात् । इति प० ।

अर्थ—‘कुर्चन्’ यह जो नियमबोधक वाक्य कहा था तहां ज्ञानी अज्ञानी ‘अविशेषात्’ नाम विशेष प्रतीत होये नहीं यातँ सो ज्ञानीका बोधक नहीं. इति १३

स्तुतयेऽनुमतिर्वा ॥ १४ ॥

स्तुतये । अनुमतिः । वा । इति प० ।

अर्थ—‘वा’ नाम अथवा उक्त वाक्यमें ज्ञानिको ‘अनुमतिः’ नाम कर्मकी अनुज्ञा है सो ‘स्तुतये’ नाम ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके अर्थ है. इस पक्षमेंभी विद्याका प्रत्यक्ष फल दिखानेसँ कालांतरभावी फलवान् कर्मका विद्या अंग नहीं. इति ॥ १४ ॥

कामकारेण चैके ॥ १५ ॥

कामकारेण । च । एके । इति प० ।

अर्थ—परोक्षफलवान् जे कर्म तिनके साधन जे पुत्रादिक तिनको ‘एके’ नाम

आत्मवेत्ता 'कामकारेण' नाम स्वइच्छासँ त्याग देते हैं; यह श्रुति कहे है। तथाहि—“एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छंतः प्रव्रजन्ति” जा बृहदारण्यकके पष्ठाध्यायगत श्रुति त्यागको दिखावे है। श्रुतिअर्थ—भावी त्यागी इस आत्मलोककी इच्छा करते हुये त्याग करे हैं। इति ॥ १५ ॥

उपमर्दं च ॥ १६ ॥

उपमर्दम् । च । इति प० ।

अर्थ—कर्मसेवनका हेतु जो क्रिया, कारक, व फलजा त्रयका विभाग सो सर्व अविद्यासँ होवे है; विद्यासँ ताका 'उपमर्दं' नाम नाश माना है। “यत्र तु अस्य सर्व आत्मा एव अभूत् तत् केन कं पश्येत्” इत्यादिक श्रुतिसँ तिनका अभाव बोधन किया है; यातँ विद्याको कर्मोंका विरोधी होनेसँ विद्या कर्मोंका अंग नहीं, किंतु स्वतंत्रफलका हेतु है। इति ॥ १६ ॥

उर्ध्वरेतस्सु च शब्दे हि ॥ १७ ॥

उर्ध्वरेतस्सु । च । शब्दे । हि । इति प० ।

अर्थ—'उर्ध्वरेतस्सु' नाम त्यागी पुरुषोंमें विद्या निश्चित है, अग्नि होत्रादिक कर्मोंका तिनमें अभाव है; यातँ तिनकी विद्या कर्मोंका अंग नहीं। तहां यह अनुमान है—'विद्या कर्मोंका अंग नहीं परस्पर व्यभिचार होनेसँ ऋतुगमन नैष्ठिक व्रतवत्' इति। संन्यासाश्रमका साधक प्रमाण कौन है? जा शंकानिपेधार्थ 'शब्दे हि' इस सूत्रमें कहा है 'शब्दे' नाम श्रुतिमें उर्ध्वरेताश्रम सुना है। तथाहि—“त्रयो धर्मस्कंधाः यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः, तपः द्वितीयः, ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतीयः, अत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन् सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति” इति। यह छांदोग्यके द्वितीय प्रपाठकमें कहा है। श्रुतिअर्थ—धर्मके त्रय विभाग हैं। तहां यज्ञ, अध्ययन, और दान यह प्रथम है; तप द्वितीय है; और ब्रह्मचर्य तृतीय है। ब्रह्मचारी 'अत्यंत' नाम मरणपर्यंत आचार्यकुलमें नियमोंसँ रहे; उक्त त्रयआश्रमी पुण्यलोकवान् होवे हैं। और जो ब्रह्ममें सम्यक् स्थित हैं सो पुण्यलोकसँ विलक्षण अमृत (मोक्ष) को प्राप्त होवे हैं। इति। यातँ विद्या कर्मोंका अंग नहीं, किंतु स्वतंत्र मुक्तिरूप फलका हेतु है। इति सिद्धम् ॥ १७ ॥

अव०-संन्यास किया चाहिये वा नहीं? जा संदेहसें कहें कि—
पूर्वपक्षसूत्र—

परामर्शं जैमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ १८ ॥

परामर्शम् । जैमिनिः । अचोदना । च । अपवदति । हि । इति प० ।

अर्थ—“त्रयो धर्मस्कंधाः” जा श्रुतिमें चारों आश्रमोंका जो परामर्श है, सो अनुवादमात्र है यह जैमिनिआचार्यमाने हैं. उक्तश्रुति ‘अचोदना’ नाम विधिरूप नहीं. और “वीरहा वा एष देवानां योऽग्निमुद्रासयते” यह श्रुति संन्यासकी ‘अपवदति’ नाम निंदा करेहै; यातें संन्यासाश्रम श्रुतिसिद्ध नहीं, किंतु स्वृतिसिद्ध है. इति ॥ १८ ॥

सिद्धांत—

अनुष्ठेयं वादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ १९ ॥

अनुष्ठेयम् । वादरायणः । साम्यश्रुतेः । इति प० ।

अर्थ—“त्रयो धर्मस्कंधाः” जा श्रुतिमें प्रामाणिक जो गृहस्थ तिसके साथ-ही संन्यासादि अन्य आश्रमभी ‘साम्यश्रुतेः’ नाम तुल्य सुनी है; यातें संन्यासाश्रम ‘अनुष्ठेयं’ नाम सेवनयोग्य है. यह वादरायण आचार्य मानेहै. ‘ब्रह्मसंस्थः’ जा वाक्यकरके संन्यासाश्रमका अनुवाद अंगीकृत है. इति तात्पर्यम् ॥ १९ ॥

विधिर्वा धारणवत् ॥ २० ॥

विधिः । वा । धारणवत् । इति प० ।

अर्थ—‘वा’ नाम अथवा उक्तवाक्यमें विधिअंगीकार है; अनुवादका अंगीकार नहीं. ‘धारणवत्’ यह तहां दृष्टांत है. मृताग्निहोत्रप्रसंगमें यह वाक्य है कि—“अधस्तात् समिधं धारयन् अनुद्रवेत् उपरि हि देवेभ्यो धारयति” इति। इस श्रुतिमें “अधस्तात् समिधं धारयन् अनुद्रवेत्” इतना विधिवाक्य है; उत्तरवाक्य अनुवाद मात्र है. सुकृदंडके नीचे समिध् धारण करे यह तहां अंगीकार है, तौभी सुकृगत हविके ऊपर समिध्का जो धारण सो अपूर्व है; यातें एकवाक्यताको भंग करके “उपरि देवेभ्यो धारयति” या वाक्यमेंभी विधिकल्पना करी है. इस उक्त धारणवत् ‘ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति’ जा वाक्यमें विधिकल्पना है; यातें संन्यासको प्रामाणिक होनेसें ब्रह्मविद्या स्वतंत्रफलका हेतु है. इति ॥ २० ॥

स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात् ॥ २१ ॥
 स्तुतिमात्रम् । उपादानात् । इति । चेत् । न । अपूर्वत्वात् । इति प० ।

अर्थ—“एषां भूतानां पृथिवी रसः, पृथिव्या आपो रसः, अपां औपधयो रसः, औपधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाक् रसः, वाच ऋच रसः, ऋचः साम रसः, साम उद्गीथो रसः । स एष रसानां रसतमः परमः पारङ्ग्योऽष्टमो यत् उद्गीथः” जा छांदोग्यके आरंभमें उद्गीथविद्या सुनी है। श्रुति अर्थ—चराचर भूतनका पृथिवी रस है अर्थात् परायण है, पृथिवीका जल रस है, जलोंका औपधी रस है, औपधियोंका पुरुष रस है, पुरुषका वाक् रस है, वाक्का ऋचा रस है, ऋचाओंका साम रस है और सामका उद्गीथ रस है; सो यह उद्गीथ रसोंकाभी रसतम है, और परम अर्थात् उत्कृष्ट पराङ्ग्य नाम परमात्मवत् उपास्य होनेसे परमात्म स्थानके योग्य है, सो अष्टम है। इति । तहां कर्म अंगरूप उद्गीथकी स्तुति मात्र है वा उद्गीथ उपासनाके गुण विधान किये हैं ? यह संशय है—कर्मोंका अंग जो उद्गीथ ताको ‘उपादानात्’ नाम उक्त वाक्यमें ग्रहण किया है; यातें उक्तवाक्यमें कर्मअंग विधिकी स्तुति मात्र है। यह पूर्वपक्ष है। ‘इति चेत्’ नाम उक्त शंका करें तौ असंगत है उद्गीथउपासना और रसतमत्वादिक गुण ‘अपूर्वत्वात्’ नाम अपरप्रमाणकरके अप्राप्त हैं अर्थात् विधेय हैं; यातें शंका असंगत है। इति ॥ २१ ॥

भावशब्दाच्च ॥ २२ ॥

भावशब्दात् । च । इति प० ।

अर्थ—“उद्गीथं उपासीत सामं उपासीत” इत्यादिक वाक्यनमें ‘भावशब्दात्’ नाम विधिरूप शब्द सुना है; यातें रसतमत्वादिगुण विधेय हैं। इति २२

पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषित्वात् ॥ २३ ॥

पारिप्लवार्थाः । इति । चेत् । न । विशेषित्वात् । इति प० ।

अर्थ—“अथ ह याज्ञवल्क्यस्य हे भाष्ये बभूवतुर्मेत्रेयी काल्यायनी च” यह बृहदारण्यकके पष्ठ अध्यायमें आख्यायिका सुनी है तथा अपर वेदांतमें सुनी है। ते पारिप्लवार्थ हैं वा समीप विद्यास्तुतिके अर्थ हैं ? यह तहां संदेह है। पारिप्लवअर्थही ते कथा हैं, विद्यास्तुतिअर्थ नहीं। यह पूर्वपक्ष

है "पारिप्लव आचक्षीत" जा आरंभ करके "मनुर्वैवस्वतो राजा" इत्यादि वाक्यशेषमें कोई कथाको पारिप्लवका शेष कर विशेषित किया है; यातें उक्तशंका असंगत है. यातें उपनिषदोंकी कथाको पारिप्लवका शेष कहिना संभवे नहीं. इति ॥ २३ ॥

कथाप्रयोजन कहे हैं—

तथा चैकवाक्योपवन्धात् ॥ २४ ॥

तथा । च । एकवाक्योपवन्धात् । इति प० ।

अर्थ—'तथा च' नाम उक्त युक्तिसँ कथाको पारिप्लव अर्थत्वका अभाव सिद्ध हुयेसँ समीपताके बलसँ कथाका विद्यामें उपयोग मानना युक्त है. 'एकवाक्योपवन्धात्' यह तहां हेतु है. तहां उक्त कथाका तिस तिस विद्यासँ संबंधका उपलाभ होवेहै. यह हेतुवाक्यका तात्पर्य है; यातें कथा विद्याका अंग है. पुत्रादिप्रवृत्ति राजाप्रति अश्वमेधमें जो नाना कथाका कथन है सो पारिप्लव कहियेहै इति ॥ २४ ॥

अच०—ब्रह्मविद्या स्वफल मोक्षमें यज्ञादिकर्मोंकी अपेक्षा करे है वा नहीं ? जा संदेहसँ कहे हैं—

अत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ॥ २५ ॥

अतः । एव । च । अग्नीन्धनाद्यनपेक्षा । इति ष० ।

अर्थ—'अतः' नाम ब्रह्मविद्याको स्वतंत्र मोक्षका हेतु होनेसँ 'अग्नीन्धनादि' नाम स्वआश्रमविहित कर्मोंकी अपेक्षा नहीं अर्थात् कर्म साक्षात् मोक्षके हेतु नहीं. इति ॥ २५ ॥

अच०—ब्रह्मविद्याको स्वउत्पत्तिमें कर्मोंकी अपेक्षा है वा नहीं ? जा संशयसँ कहे हैं कि—

सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत् ॥ २६ ॥

सर्वापेक्षा । च । यज्ञादिश्रुतेः । अश्ववत् । इति प० ।

अर्थ—बृहदारण्यकके षष्ठ अध्यायगत चतुर्थब्राह्मणमें यह कहा है—
"एष सर्वेश्वर एष ऋताधिपतिरेष भूतपाल एष स्रुतिविधरण एषां लोकानां असम्भेदाय । तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विधिदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन एतमेव विदित्या मुनिर्भयति" इति
'यज्ञादिश्रुतेः' नाम यह श्रुति सर्व कर्मोंके ज्ञानका साधन कहे हैं; यातें

ब्रह्मविद्या स्वउत्पत्तिमें 'सर्वापेक्षा' नाम सर्व आश्रमकर्मोंकी साधनता चाहे है। यथा योग्यतासँ रथमें अश्वको जोड़े हैं, लांगलआकर्षणमें नहीं; तथा मोक्षमें कर्मोंको साधनता नहीं। इति ॥ २६ ॥

अंतरंगसाधन कहे हैं:—

शमदमाद्युपेतः स्यात्तथापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया तेषा-
मवश्यानुष्ठेयत्वात् ॥ २७ ॥

शमदमाद्युपेतः । स्यात् । तथापि । तु । तद्विधेः । तदङ्गतया ।
तेषाम् । अवश्यम् । अनुष्ठेयत्वात् । इति प० ।

अर्थ—जो कोई यज्ञादिकोंको ज्ञानके साधन नहीं माने 'तथापि' नाम तौभी 'शमदमाद्युपेतः' नाम शमादिसाधनयुक्त हुआ ब्रह्मविद्यार्थी अवश्य 'स्यात्' नाम होवे है। तहां हेतु कहे हैं—“तस्मादेवंचित् शान्तो दान्त उपरतस्तितिधुः समाहितो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति नैनं पाप्मा तपति सर्वं पाप्मानं तरति नैनं पाप्मा तपति विपापो विरजो विचिकित्सो ब्राह्मणो भवति एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति” जा बृहदारण्यकके पष्ठाध्यायगत श्रुतिमें जो शमादिकोंकी विधिही है सो 'तद्विधेः' इस पदसँ अंगीकृत है; यातें 'तद्विधेः' नाम शमादिकोंकी विधिसँ यह निश्चित है जो शमादियुक्त है सो विद्यार्थी अवश्य होवे है। इति। सो विधि स्वतंत्र नहीं किंतु 'तदंगतया' नाम विद्या अंगत्वरूपसँ अंगीकृत है। यातें विद्यार्थी जनॉकरके 'तेषां' नाम शमादिकोंको अवश्य 'अनुष्ठेयत्वात्' नाम सेवनयोग्य होनेसँ तिनको अंतरंग साधनता है। इति ॥ २७ ॥

सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात् ॥ २८ ॥

सर्वान्नानुमतिः । च । प्राणात्यये । तद्दर्शनात् । इति प० ।

अर्थ—“मे किमन्नं किंचास इति यदिदं किंचाश्वभ्य आकृ-
मिभ्य आकीटपतङ्गेभ्यस्तत्तेऽन्नं आपो चासः इति न हवा अस्य
अन्नं जगधं भवति नानन्नं परिगृहीतं य एवमेतदनस्यान्नं वेद तद्वि-
द्वांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्ति अशित्वा आचामन्ति

एतमेव तदन्नं अनन्नं कुर्वन्तो मन्यन्ते ” जा बृहदारण्यकके अष्टमअध्या-
यगत वाक्य सुना है. अर्थ—हमारा अन्न क्या है? और वास क्या है? इति
जो यह किंच अश्वकीटपतंगोंका अन्न है, सो तुम्हारा अन्न है, जल तुम्हारा
वास है. इति अनन्न भुक्त नहीं, अनन्न परिगृहीत नहीं, जो इसप्रकार प्राणके
अन्नको जानते हैं ते विद्वान् श्रोत्रिय अन्नभक्षणसे पूर्व उत्तर जलका आच-
मन करे हैं; ते प्राणको हम अनन्न करे हैं. यह मानेहैं जो जाको वास देवेंहैं
सो ताको अनन्न करेहैं. इति । उक्त वाक्यमें प्राण उपासकको जो सर्व अन्नकी
आज्ञा है सो विद्याका अंग है वा स्तुतिअर्थ है? जा संदेहके निवृत्तिके अर्थ
कहेहैं—सर्व अन्नकी जो ‘अनुमति’ नाम आज्ञा है सो विद्याका अंग नहीं किंतु
प्राणोंकी उपासनामें सर्व अन्नका चितन स्तुतिअर्थ अर्थवादरूप है. ‘प्राणा-
त्यये’ नाम परआपदामें सुरासैं विना सर्व पुरुषोंके प्रति सर्वअन्नके खानेकी
‘अनुमति’ नाम प्रेरणा है; आपदासैं विना नहीं ‘तद्दर्शनात्’ नाम अभ-
क्ष्यका भक्षण आपदाकालमें श्रुतिविषे देखा है. छांदोग्यतृतीयमें गाथा है
कृतक्षेत्रभूमिमें दुर्भिक्षके हुये तहांका वासी चाक्रायणऋषि अपरदेश चला-
गया तहां एक ग्राममें हथिवान्सें तिसका उच्छिष्ट अन्न लेकर भक्षण किया
था सो आपदामें प्राणरक्षार्थ अभक्ष्यभक्षण कियाथा यातें आपदामें अन्न
आज्ञा है; आपदा विना नहीं. ज्ञानीकोभी आपदाविना अभक्ष्यभक्षण करना
उचित नहीं. इति ॥ २८ ॥

अवाधाच्च ॥ २९ ॥

अवाधात् । च । इति प० ।

अर्थ—“आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः” इत्यादिक जो भक्ष्यअभक्ष्यके वि-
भागका बोधक शास्त्र ताका सर्वात्र आज्ञाको अर्थवादमात्र मानेसैं ‘अवा-
धात्’ नाम बाध होवे नहीं, अन्यथा बाध होवेगा; यातें सर्वात्रआज्ञा अर्थ-
वाद मात्र है. इति ॥ २९ ॥

अपि च स्मर्यते ॥ ३० ॥

अपि । च । स्मर्यते । इति प० ।

अर्थ—‘अपि च’ नाम आपदासैं विना ज्ञानी और अज्ञानी सर्वको सर्वके
अन्नभक्षणका निषेध ‘स्मर्यते’ नाम स्मृतिमें कहा है. इति ॥ ३० ॥

शब्दश्चास्याकामकारे ॥ ३१ ॥

शब्दः । च । अस्य । अकामकारे । इति प० ।

अर्थ—“ब्राह्मणः सुरां न पिबेत्” इत्यादि शब्दभी अभक्ष्यके भक्षणका निषेध करेहै; यातें ‘अकामकारे’ नाम स्वइच्छाअनुसार प्रवृत्तिके निषेधक शब्दको विद्यमान होनेसँ सर्वाङ्गअनुज्ञा अर्थवादमात्र है. इति ॥ ३१ ॥

अव०—नित्यकर्म अनाधिकारिको कर्तव्य हैं. या नहीं? जा संदेहसँ कहेहैं—

विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि ॥ ३२ ॥

विहितत्वात् । च । आश्रमकर्म । अपि । इति प० ।

अर्थ—“यावत् अग्निहोत्रं जुहुयात्” इत्यादि श्रुतिकरके नित्यकर्म ‘विहितत्वात्’ नाम विधान कियेहै; यातें अनधिकारीकोभी नित्यकर्म कर्तव्य हैं. इति ॥ ३२ ॥

सहकारित्वेन च ॥ ३३ ॥

सहकारित्वेन । च । इति प० ।

अर्थ—नित्यकर्म अंतःकरणशुद्धिका हेतु है यातें ‘सहकारित्वेन’ नाम अंतःकरणशुद्धिद्वारा सहकारी साधन होनेसँभी नित्यकर्म करने योग्य हैं. इति ॥ ३३ ॥

सर्वथाऽपि त एवोभयलिङ्गात् ॥ ३४ ॥

सर्वथा । अपि । ते । एव उभयलिङ्गात् । इति प० ।

अर्थ—‘सर्वथाऽपि’ नाम नित्यत्वरूपसँ और ज्ञानार्थत्वरूपसँ ‘ते’ नाम अग्निहोत्रादिधर्म अवश्य कर्तव्य हैं. ‘एव’ पद कर्मभेदके निषेधार्थ है. ‘उभयलिङ्गात्’ यह तहां हेतु है. यज्ञेन यह श्रुतिरूप लिंग हैं. “अनाश्रितः कर्मफलं फार्यं कर्म करोति यः” यह स्मृतिरूप लिंग है. ये उभय लिंग कर्मको ज्ञानका साधन कहे हैं; यातें कर्म अवश्य कर्तव्य हैं. इति ॥ ३४ ॥

अनभिभवं च दर्शयति ॥ ३५ ॥

अनभिभवं । च । दर्शयति । इति प० ।

अर्थ—“एष हात्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येणानुविन्दति” इत्यादि श्रुति कर्मोंको चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानसाधनतासँ आत्माके ‘अनभिभवं’ नाम

तिरस्कारभावरूप लिंगको 'दर्शयति' नाम दिखावे हैं. 'न नश्यति' जा वाक्यमें अनभिभवका अंगीकार है; यातें सर्व आश्रम नित्य कर्मनको ज्ञानार्थत्व हैं. इति ॥ ३५ ॥

अच०—आश्रमरहितका ब्रह्मविद्यामें अधिकार है वा नहीं? यह तहां संदेह है। 'यज्ञेन' यह श्रुति आश्रमकर्मोंको ज्ञानका साधन कहे है; यातें आश्रमीका अधिकार है. आश्रमरहित कृतकर्म ज्ञानके हेतु नहीं, यातें आश्रमरहितका ज्ञानमें अधिकार नहीं यह पूर्वपक्ष है. तहां यह उत्तर है—

अन्तरा चापि तु तदृष्टेः ॥ ३६ ॥

अन्तरा । च । अपि । तु । तत् । दृष्टेः । इति प० ।

अर्थ—'अन्तरा चापि' नाम आश्रमरहित पुरुषोंकाभी ब्रह्मविद्यामें अधिकार है. 'तु' शब्द अधिकारके निषेधका अभाव बोधन करे है. 'तत्' नाम विद्याके अधिकारको आश्रमरहित जे रैकादिक तिनमें 'दृष्टेः' नाम श्रुतिस्मृतिमें देखा है. इति ॥ ३६ ॥

अपि च स्मर्यते ॥ ३७ ॥

अपि । च । स्मर्यते । इति प० ।

अर्थ—'अपि च' नाम किंच संवर्तकादिकोंमें आश्रमकर्मविनाभी महायोगित्य इतिहासमें 'स्मर्यते' नाम स्मरण किया है. इति ॥ ३७ ॥

अच०—ननु रैकादिकोंमें पूर्वजन्मकृत संन्याससँ विद्या उपजीधी यातें तिनकी विद्याका दर्शन आधुनिक अनाश्रमीजनोंके विद्याधिकारमें लिंग नहीं; जा शंकासँ कहे हैं—

विशेषानुग्रहश्च ॥ ३८ ॥

विशेषानुग्रहः । च । इति प० ।

अर्थ—आश्रमरहित पुरुषोंके जे जप, उपासना, देवताराधनादिक कर्मविशेष तिनसँ अनाश्रमीकाभी विद्यामें 'अनुग्रह' नाम अधिकार है. इति ॥ ३८ ॥

अतस्त्वितरज्यायो लिङ्गाच्च ॥ ३९ ॥

अतः । तु । इतरत् । ज्यायः । लिङ्गात् । च । इति प० ।

अर्थ—'अतः' नाम अनाश्रमीसँ 'इतरत्' नाम आश्रम 'ज्यायः' नाम

ज्ञानका हेतु होनेसे उत्तम है “ तेन एति ब्रह्मवित् पुण्यकृत्.” इस श्रुतिमें ‘पुण्यकृत्’ इतना विशेषणरूप लिंग है; यातेभी उत्तम है. स्वआश्रमउक्त कर्मकर्ता ज्ञानसे ब्रह्मको प्राप्त होवे है. यह श्रुतिका तात्पर्य है ॥ ३९ ॥

अव०—उत्तमाश्रमसे जो पूर्वाश्रमको प्राप्त है तिसका कर्म विद्याका हेतु है वा नहीं ? जा इसमें संदेह है; ताकी निवृत्ति करे हैं—

**तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमात्तद्रूपाभा-
वेभ्यः ॥ ४० ॥**

तद्भूतस्य । तु । न । अतद्भावः । जैमिनेः । अपि । निय-
मात् । तद्रूपाभावेभ्यः । इति प० ।

अर्थ—‘तद्भूतस्य’ नाम संन्यासाश्रमको जो प्राप्त है तिसका ‘अतत्-
भाव’ नाम उत्तमाश्रमसे पतित होना संभवे नहीं. यह जैमिनिआचार्यको अं-
गीकार है और ‘अपि’ पदसे बादरायणाचार्यकोभी उक्तार्थ अंगीकार है.
तहां हेतु कहे हैं—“ अरण्यमियात् ” जा श्रुतिमें ‘अरण्य’ शब्दसे एकांत
उपलक्षित उत्तमाश्रमका ग्रहण है; तिसको ‘इयात्’ नाम प्राप्त होवे है; तासे
पतित नहीं होवे; यह श्रुतिउक्त जो नियम सो सूत्रके नियमपदसे अंगीकृत है.
‘अतत् रूप’ इतने पदसे उत्तमाश्रमसे पतित होनेका बोधक जो धृति तिसका
अभाव कहा है. ‘अभाव’ पदसे शिष्टाचारके अभावका ग्रहण है. इन उक्त
त्रयहेतुसे उत्तमाश्रमसे पतित होना अप्रामाणिक है; याते पतितके कर्म विद्या
उत्पत्तिके कारण नहीं. इति ॥ ४० ॥

अव०—जो प्रमादसे नैष्ठिकब्रह्मचारी प्रत्यवरोह करे तो ताका प्रायश्चित्त
है वा नहीं ? जा संदेहसे पूर्वपक्ष करेहें:—

न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात् ॥४१॥

न । च । अधिकारिकम् । अपि । पतनानुमानात् । तत्-अयो-
गात् । इति प० ।

अर्थ—अधिकारलक्षण पूर्वमीमांसामें अवकीर्णी ब्रह्मचारीका प्रायश्चित्त
कहा है; सो प्रायश्चित्त ‘अधिकारिकम्’ कहीये सो अधिकारिक प्रायश्चित्त
नैष्ठिक ब्रह्मचारीका ‘न च’ नाम होवे नहीं. “ आरूढो नैष्ठिकं धर्मं यश्च
प्रच्यवते पुनः । प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुद्धयेत् स आत्महा ” यह
स्मृति पतनानुमानरूप हेतु है. उक्त स्मरणसेही ‘तत्’ नाम प्रायश्चित्त अयोग

है. अवकीर्ण पदसँ योनिमें निक्षिप्तवीर्यका ग्रहण है. सो होवे जिसके सो अवकीर्णी ग्रहण है. इति ॥ ४१ ॥

उत्तरसूत्र—

उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत्तदुक्तम् ॥ ४२ ॥

उपपूर्वम् । अपि । तु । एके । भावम् । अशनवत् ।

तत् । उक्तम् । इति प० ।

अर्थ—पूर्व जो पातक कहा है सो महापातक नहीं, जिसकरके ताका प्रायश्चित्त नहीं होवे 'अपितु' नाम किंतु 'एके' नाम कोई आचार्य 'उपपूर्वम्' नाम पातकपदके पूर्व उपपदको जोड़े हैं अर्थात् उपपातक माने हैं; यातें उपकुर्वाण ब्रह्मचारीके तुल्य नैष्ठिक ब्रह्मचारीकेभी 'भावम्' नाम प्रायश्चित्तका होना मानेहैं. उभय ब्रह्मचारीमें ब्रह्मचारित्व और अवकीर्णत्व तुल्य है; यातें प्रायश्चित्त संभवे है. गुरुअंगनादिकोंमें जो गमन है सो महापातक है; ताका प्रायश्चित्त होवे नहीं. 'अशनवत्' नाम यथा मधुमांसभक्षण कियेसँ ब्रह्मचारीके व्रतका लोप माना है, पुनः उसका संस्कार माना है. तथा प्रायश्चित्तभी संभवे है 'तत् उक्तं' नाम यही अर्थ पूर्वमीमांसामें कहा है. इति ॥ ४२ ॥

अव०—प्रायश्चित्त कियेसँ तिस पतितके साथ जो शिष्टाचाररूप कर्म है सो विद्याका हेतु है वा नहीं? जा संदेहसँ कहे हैं—

वहिस्तूभयथाऽपि स्मृतेराचाराच्च ॥ ४३ ॥

वहिः । तु । उभयथा । अपि । स्मृतेः । आचारात् । च । इति प० ।

अर्थ—स्वआश्रमसँ जो पतित है तिसका पतन होना महापातक है; अथवा उपपातक है. 'उभयथाऽपि' नाम दो प्रकारसँही प्रायश्चित्त कियेभी शिष्टपुरुषोंने वाहिर करने चाहिये. "आरूढपतितं विप्रं द्रष्टुं चान्द्रायणं चरेत्" जा स्मृतिमें पतितकी निंदा सुनी है और 'आचारात्' नाम अवकीर्णसँ शिष्टोंका अध्ययनादि आचारभी होवे नहीं; यातें प्रायश्चित्त कियेसँ परलोक सिद्ध हुयेभी तिनके साथ मिलकर श्रवणादिक किये हुये विद्याके साधन नहीं. इति ॥ ४३ ॥

अव०—अंगाश्रित जो उपासना तिसका कर्ता यजमान है वा ऋत्विक् है? जा संशयसँ सूत्रकार कहे हैं—

स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः ॥ ४४ ॥

स्वामिनः । फलश्रुतेः । इति । आत्रेयः । इति प० ।

अर्थ—‘स्वामिनः’ नाम यजमानको अंगाश्रित उपासनामें कर्तापना है यह आत्रेय आचार्य माने हैं. ‘फलश्रुतेः’ नाम तिस उपासनाके यजनको फल सुना है यातें सोई कर्ता है. इति ॥ ४४ ॥

आर्त्विज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै हि परिक्रियते ॥४५॥
 आर्त्विज्यम् । इति । औडुलोमिः । तस्मै । हि । परिक्रियते । इति प० ।

अर्थ—अंगाश्रित उपासना ‘आर्त्विज्यं’ नाम ऋत्विक्कर्तृक है यह औडुलोमि आचार्य माने हैं. ‘तस्मै’ नाम कर्मअर्थ यजमानने ऋत्विक्को ‘परिक्रियते’ नाम लियाहुया है; यातें फल यजमाननिष्ठ हुयेभी कर्ता ताका ऋत्विक्ही है ॥ ४५ ॥

श्रुतेश्च ॥ ४६ ॥

श्रुतेः । च । इति प० ।

अर्थ—“तं ह प्रणवं उद्गीथाख्यं प्राणदृष्ट्या विदित्वा चकनाम ऋपिः सन्निपां उद्गाता बभूव” जा वाक्यशेषसँ उपासनाका ऋत्विक्कोही कर्ता सुना है. इति ॥ ४६ ॥

सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो

विध्यादिवत् ॥ ४७ ॥

सहकार्यन्तरविधिः । पक्षेण । तृतीयम् । तद्वतः ।

विध्यादिवत् । इति प० ।

अर्थ—बृहदारण्यकके पंचमअध्यायमें सुना है— “तस्मात् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्य अथ मुनिरमौनं च मौनं च निर्विद्य अथ ब्राह्मणः स ब्राह्मणः केन स्यात् तेन ईदृश एव अतोऽन्यदार्तं ततो ह कहोल उपरराम” इति । श्रुतिअर्थ—‘ब्राह्मण’ पद अधिकारीका वाचक है. ‘पाण्डित्य’ पद श्रवणका वाचक है. ‘बाल्य’ पदसँ मननका ग्रहण है. ‘मुनि’ पदसँ निदिध्यासन कहा है. ‘ब्राह्मण’ नाम कृतकृत्य होवेहै. सो कृतकृत्य किसकरके होवेहै? जिस किस चरणसँ होवेहै तिसकरके उक्त लक्षणवान्ही ब्राह्मण होवेहै. इससँ अन्यत् सर्व मिथ्या है. इति उक्तवाक्यमें मौनका विधान है वा नही? जा संदेहसँ कहे हैं— श्रवण मननसँ सहकारी अंतर जो निदिध्यासन तामें उक्त वाक्यकरके विधिका अंगीकार है; सो नि-

दिध्यासन-श्रवण-मननकी अपेक्षासँ तृतीय है. सो निदिध्यासनविधि 'तद्व-
त्तः' नाम परोक्षज्ञानवान् संन्यासीको है; जिस पक्षमें भेददर्शनकी प्राप्ति
है तिस पक्षमें निदिध्यासन प्राप्त नहीं, यातें विधि अर्थवान् है; यह अर्थ 'प-
क्षेण' जा पदसँ सूचन किया है 'विध्यादिवत्' नाम पौर्णमासादिकोंमें
आधानादिक हें अंगांगीसमूह विधिके जो आदिमें सो 'विध्यादिवत्'
कहिये तद्वत् निदिध्यासनरूप अंगमें विधि है. इति ॥ ४७ ॥

कृत्स्नभावात्तु गृहिणोपसंहारः ॥ ४८ ॥

कृत्स्नभावात् । तु । गृहिणः । उपसंहारः । इति प० ।

अर्थ—यद्यपि श्रवणादिप्रधान संन्यास होवे तौ छांदोग्यके अंतमें गृहीका
उपसंहार किया है, सो नहीं हुआ चाहिये; तौभी कर्मबाहुल्यतासँ ग्रहस्थका
उपसंहार है; संन्यासके असंभवसँ नहीं. 'कृत्स्न' नाम सर्व आश्रमकर्म शमा-
दिक गृहस्थमेंभी 'भावात्' नाम संभवे है; यातें गृहस्थका उपसंहार है. इति
उपसंहारबोधक वाक्य समग्र पीछे लिखा दिया है. इति ॥ ४८ ॥

मौनवदितरेषामपि उपदेशात् ॥ ४९ ॥

मौनवत् । इतरेषाम् । अपि । उपदेशात् । इति प० ।

अर्थ—'मौन' पदसँ संन्यास और गृहस्थका ग्रहण है. 'मौनवत् इतरेषाम्'
नाम ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थका ग्रहण है. " तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्या-
चार्यकुलवासी तृतीयः " इत्यादि श्रुतिमें 'उपदेशात्' नाम तिनका उप-
देश किया है; यातें ब्रह्मचर्यवानप्रस्थभी सेवन योग्य है. इति ॥ ४९ ॥

अव०—पूर्व जो बाल्य कहा था सो बालकका कर्म जो खड़ा होकर मूत्र-
त्वादि सो ग्रहण है वा अंतःकरणशुद्धिका ग्रहण है? जा संदेहसँ कहे हैं—

अनाविष्कुर्वन्नन्वयात् ॥ ५० ॥

अनाविष्कुर्वन् । अन्वयात् । इति प० ॥

अर्थ—बाल्य तहां विद्याका अंग है, यातें अंतःकरण शुद्धिकाग्रहण है; बाल-
कके कर्मका ग्रहण नहीं. इस वाक्यका विद्याअंगमें अन्यय है; यातें 'अनावि-
ष्कुर्वन्' नाम निदिध्यासनादिकोंसँ आत्माको परार्थ नहीं बोधन कर्ताहुआ
गर्भादिकोंसँ रहित होकर स्थित होनेकी इच्छा करे यह 'बाल्येन तिष्ठासेत'
इतने वाक्यका अर्थ है. इति ॥ ५० ॥

अव०-विद्या इसी जन्ममें उपजे है वा जन्मान्तरमेंभी उपजे है? जा संदेहसँ कहे हैं:—

ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनात् ॥ ५१ ॥

ऐहिकम् । अपि । अप्रस्तुतप्रतिबन्धे । तद्दर्शनात् इति प० ।

अर्थ-फल देनेको सन्मुख जो कर्म सो प्रस्तुतप्रतिबंध कहीये हैं. 'अप्रस्तुतप्रतिबन्धे' नाम सो नहीं होवे तौ श्रवणादिक कियेसँ 'ऐहिक' नाम इसी जन्ममें ज्ञान उपजे है. प्रस्तुतप्रतिबंध होवे तौ जन्मान्तरमें ज्ञान उपजे है. 'तद्दर्शनात्' नाम प्रतिबन्ध अप्रतिबन्धसँ ज्ञानउत्पत्तिका श्रुतिमें अनियम देखा है " तद्धैतत् पश्यन् ऋषिर्वाग्मदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्चेति" जां बृहदारण्यकके प्रथमअध्यायगत श्रुति बंधको दिखावे है. इति५१

अव०-पूर्व यथाज्ञानमें ऐहिकत्व आमुष्मिकत्वरूप उपचयत्वअपचयत्वका नियम किया है तथा तत् फलमुक्तिमें नियम है वा नहीं? जा संदेहकी निवृत्ति भगवान् सूत्रकार करें हैं—

**एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृते-
स्तदवस्थावधृतेः ॥ ५२ ॥**

एवं । मुक्तिफलानियमः । तदवस्थावधृतेः । तदवस्थावधृतेः । इति प० ।

अर्थ-‘एवं’ नाम ज्ञानकी नाई मुक्तिरूपफलमें अनियम है. ‘तदवस्थावधृतेः’ नाम “ ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ” इत्यादिक श्रुतिसे ब्रह्मको निर्विशेष निश्चय किया है, यातें मुक्ति निर्विशेष है, तामें उक्त नियम संभवे नहीं ‘तदव०’ यह जो पुनः पाठ ग्रहण किया है सो अध्यायकी समाप्तिअर्थ है. इति ॥ ५२ ॥

इति शारीरकसूत्रभावप्रकाशिकाभाषाटीकायां तृतीयाध्यायस्य
चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ ४ ॥ ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थाध्यायप्रारंभः ।

दोहा—जीवन्मुक्ति उत्क्रांति अरु, पुनि भने उत्तरपंथ ।

ब्रह्मलोक अभेद पुनि, कथन करू वहि ग्रंथ ॥ १ ॥

इस अध्यायकेभी चार पाद हैं. तहां प्रथम पादमें जीवन्मुक्ति कहेंगे,

द्वितीयपादमें त्रियमाणकी उत्क्रांति कहेंगे, तृतीयपादमें सगुणउपासकका उत्तरायण मार्ग कहेंगे, चतुर्थपादमें निर्गुण ब्रह्मवेत्ताकी विदेह मुक्ति कहेंगे. और सगुणब्रह्मवेत्ताको ब्रह्मलोकप्राप्ति कहेंगे. इतनेके अर्थ इस अध्यायका आरंभ है. इस प्रथमपादमें उन्नीस सूत्र हैं. तहां चतुर्दश सूत्र अधिकरण हैं; और पंचसूत्र गुणरूप हैं.

तथाहि—

सङ्ख्या ।	अधिकरण ।	गुण ।	प्रसङ्ग ।
१	श्र०	+	श्रवणादि आवृत्तिवि०
२	+	गु०	अ०
३	अ०	+	अहंग्रहविचार
४	अ०	+	प्रतीकविचार
५	अ०	+	मनादिकोंमें ब्रह्मदृष्टि
६	अ०	+	आदित्यउपासनाविधान
७	अ०	+	स्थितहोकर उपासना करे
८	+	गु०	स्थि०
९	+	गु०	स्थि०
१०	+	गु०	स्थि०
११	अ०	+	दिशादिनियमनिषेध
१२	अ०	+	भरणपर्यंत उपासनाविधान
१३	अ०	+	ज्ञानसं कर्मनाश.
१४	अ०	+	कर्मनाश
१५	अ०	+	संचितनाश
१६	अ०	+	नित्यनिमित्तनाश
१७	+	गु०	कर्मफलविचार
१८	अ०	+	साधननियमनिषेध
१९	अ०	+	विदेहमुक्ति
	१४	५	इति.

तहां यह प्रथम सूत्र है—

आवृत्तिरसकृदुपदेशात् ॥ १ ॥

आवृत्तिः । असकृत् । उपदेशात् । इति प० ।

अर्थ—श्रवणादिक एक बारकरके उपराम होवे वा पुनः पुनः करे? जा सं-
देहकी निवृत्तिभगवान् सूत्रकार करे हैं—“आत्मा द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्त-
व्यो निदिध्यासितव्यः” जा श्रुतिमें ‘असकृत्’ नाम पुनः पुनः उपदेश
किया है यातें श्रवणादिकोंकी आवृत्ति कर्तव्य है अर्थात् पुनः पुनः किये चा-
हिये. यद्यपि श्रुतिमें पुनः पुनः कर्तव्य सुना नहीं तथापि रज्जुसर्पभ्रमादिकोंमें
साक्षात्कारकोही अविद्याका नाशक देखा है और सूक्ष्मवस्तु साक्षात्कारको
पुनःपुनः श्रवणादिकोंसे साध्य पड़जादिस्वरोमें देखा है. तथा दुर्धिज्ञेय आत्माके
अर्थ किये जे श्रवणादिक तिनमेंभी संसार अनर्थकी मूल अविद्याके नाशार्थ
साक्षात्कारके लिये आवृत्ति कर्तव्य है. यथा दृष्ट कल्पना होवे तथाहि अ-
दृष्टकल्पना उचित है. इति ॥ १ ॥

लिङ्गाच्च ॥ २. ॥

लिङ्गात् । च । इति प० ।

अर्थ—छान्दोग्यके तृतीय प्रपाठकमें “तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौ-
पीतकिः पुत्रमुवाच । रश्मींस्त्वं पर्यावर्त्तयन्ति बहवो वैते भविष्यन्ति
इति अधिदैवतम्” अर्थ—हे पुत्र ! मैंने सूर्य और रश्मियोंका अभेदकर चिं-
तन कियाथा यातें हमारेतैं एक पुत्र है यह कौपीतकिने पुत्रको कहकर
कहा कि—हे पुत्र ! तैं सूर्य और रश्मियोंकी भिन्नभिन्न उपासना कर; यातें तुम्हारे
बहुत प्रजा होवेगी. इति । उक्तवाक्यमें बहुरश्मिउपासनाका विधान किया
है यातें ‘लिङ्गात्’ नाम उक्त बहुत्वलिङ्गसेंभी ज्ञानसाधनासें आवृत्ति कर्तव्य
है. इति ॥ २ ॥

अच०—जिस कालमें निदिध्यासन करे तदा स्वस्वरूपसें ईश्वरका ध्यान
करे वा भिन्नरूपसें ध्यान करे? जा संदेहसें कहेहैं—

आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ३ ॥

आत्मा । इति । तु । उपगच्छन्ति । ग्राहयन्ति च । इति प० ।

अर्थ—‘आत्मा इति’ नाम आत्माको ईश्वररूपसें चिंतन करे. “त्वं
चाहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि भगवो देवते” जा जावा-

लश्रुतिसं आत्माको ईश्वररूपसं उपगच्छति' नाम ग्रहण करें। और "तत्त्वमसि । एष ते आत्मा" इत्यादिक वाक्य ईश्वरको 'ग्राहयन्ति' नाम आत्मारूप करके ग्रहण करावें; यातें अभेदकरके चिंतन किया चाहिये. इति ॥ ३ ॥

अव०—"मनो ब्रह्म इति उपासीत नाम ब्रह्म इति उपासीत" इत्यादिक वाक्यनमें प्रतीकरूप जे मनादिक तिनमें स्वआत्मबुद्धि कर्तव्य है वा नहीं? जा संशयसं कहेहैं कि—

न प्रतीकेन हि सः ॥ ४ ॥

न । प्रतीकेन । हि । सः । इति प० ।

अर्थ—ब्रह्मकी प्रतीकरूप मनादिकोंमें स्वआत्मबुद्धि कर्तव्य नहीं. 'सः' नाम उपासक प्रतीकको स्वात्मारूपसं अनुभव नहीं करेहै और प्रतीकमें स्वआत्मबुद्धि करनी सुनीभी नहीं और प्रतीकस्वरूपसं ब्रह्माभिन्नभी नहीं; यातें प्रतीकमें स्वआत्मबुद्धि करणी असंगत है. इति ॥ ४ ॥

अव०—प्रतीकरूप जे नामादिक तिनमें ब्रह्मदृष्टि करे वा ब्रह्ममें नामादिक दृष्टि करे? जा संदेहकी निवृत्ति करे हैं:—

ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्पात् ॥ ५ ॥

ब्रह्मदृष्टिः । उत्कर्पात् । इति प० ।

अर्थ—निकृष्टमें उत्कृष्टदृष्टि करनेसं निकृष्टमें उत्कृष्टता होवे है. यथा अमात्यमें राजबुद्धि फलदाता हैं, राजांमें अमात्यबुद्धि फलदाता नहीं. 'उत्कर्पात्' नाम ब्रह्म उत्कृष्ट है यातें नामादिक निकृष्टनमें 'ब्रह्मदृष्टि' नाम ब्रह्मबुद्धि कर्तव्य है. इति ॥ ५ ॥

अव०—"य एव असौ तपति तं उद्गीथं उपासीत" इत्यादिक अंगाश्रित उपासना कही है तहां आदित्यआदिकोंमें उद्गीथबुद्धि करे वा उद्गीथादिकोंमें आदित्यबुद्धि करे? जा संशयका निषेध करे हैं—

आदित्यादिमतयश्चाङ्गे उपपत्तेः ॥ ६ ॥

आदित्यादिमतयः । च । अङ्गे । उपपत्तेः । इति प० ।

अर्थ—'अंगे' नाम उद्गीथादिक जे कर्मनके अंग तिनमें आदित्यादि नाम आदित्यादिमतय नाम बुद्धि करनी चाहिये सोई 'उपपत्तेः' नाम संभवे है. यथा

प्रोक्षणादिकोंसें ब्रीहि आदिकोंमें अपूर्वता उपजे है तथा कर्म अंगरूप उद्गी-
थादिकोंमें सूर्यादि दृष्टि कियेसैं फल अधिक होवे है; यातें उद्गीथमें सूर्यबुद्धि
कर्तव्य है. इति ॥ ६ ॥

अव०—उपासना आसनपर स्थित होकर करे? अथवा चलते खड़े जिस किसी
प्रकारसैं करे ? जा संदेहसैं कहे हैं:—

आसीनः सम्भवात् ॥ ७ ॥

आसीनः । सम्भवात् । इति प० ।

अर्थ—सजातिप्रत्ययप्रवाहरूप जो उपासना सो स्थित उपासकमें 'संभ-
वात्' नाम बने है; यातें 'आसीनः' नाम स्थित हुया उपासना करे; खड़ा
होकर करेगा तौ विक्षेप होवेगा; सोकर करेगा तौ निद्रा होवेगी. इति ॥ ७ ॥

ध्यानाच्च ॥ ८ ॥

ध्यानात् । च । इति प० ।

अर्थ—उपासना ध्यानरूप है, सो ध्यान एक विषयमें दृष्टिवान् वकादिक आ-
सीनोंमें देखा है; यातें एकाग्रमनसैं बैठके उपासना करे. इति ॥ ८ ॥

अचलत्वं चापेक्ष्य ॥ ९ ॥

अचलत्वं । च । अपेक्ष्य । इति प० ।

अर्थ—“ध्यायति इव च पृथिवी” जा धृतिमें 'अचलत्वम्' नाम
पृथिवी अचलताकी 'अपेक्ष्य' नाम अपेक्षासैं पृथिवीमें गौणसैं ध्यान देखा है;
यातें उक्तलिगसैंभी उपासना स्थितमेंही संभवे है. इति ॥ ९ ॥

स्मरन्ति च ॥ १० ॥

स्मरन्ति । च । इति प० ।

अर्थ—“शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः” इत्यादिक
स्मृतिसैं बाह्यआसन विधान किया है; यातेंभी आसीन हुआ उपासना
करे. इति ॥ १० ॥

अव०—उपासनामें पूर्वदिशादिकोंके नियमका अंगीकार है? या नहीं? जा
संदेहका निरास करे हैं—

यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात् ॥ ११ ॥

यत्र । एकाग्रता । तत्र । अविशेषात् । इति प० ।

अर्थ—‘यत्र’ नाम जा दिशामें जा कालमें व जा देशमें चित्तकी एकाग्रता होवे ‘तत्र’ नाम तिस दिशा काल व देशमें उपासना करे. ‘अविशेषात्’ नाम इस दिशा मुखकर इस देशमें इसकालमें उपासना करे यह नियम सुना नहीं; यातें प्राचीआदिक दिशाका, प्रदोषादि कालका, व नदीतीरादि देशका नियम नहीं. तथाहि श्वेताश्वतरके द्वितीयाध्यायगत श्रुति कहे हैं—
 “समे शुचौ शर्कराबहिवालुकाविवर्जिते शब्दजलाशयादिभिः ॥ मनोऽनुकूले न तु चक्षुःपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्” इति । यह श्रुतिभी चित्तएकाग्रता जा देशमें होवे तिस देशमें उपासनाका विधान करे है. श्रुति अर्थ—जहां ‘शर्करा’ नाम सूक्ष्म पापाण नहीं होवें, बालुका नहीं होवे, अग्नि नहीं होवे, शब्द नहीं होवें, जलाशय नहीं होवे, वा शब्दजलाशय अनुकूल होवे, जहां नेत्र पीडित नहीं होवें, मनके अनुकूल होवे, सम होवे, और पवित्र होवे, ऐसा जी वायुरहित गुफारूप देश तहां चित्तको एकाग्र करे. इति । उक्त श्रुतिसंभी दिशादिक नियम असंगत है. इति ॥ ?? ॥

अव०—अहंमह उपासनाको कुछकाल करके उपराम होना चाहिये ? वा जहां पर्यंत जीवे तहांपर्यंत करे ? जा संदेहकी निवृत्ति करे हैं:—

आप्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम् ॥ १२ ॥

आप्रायणात् । तत्र । अपि । हि । दृष्टम् । इति प० ।

अर्थ—‘आप्रायणात्’ नाम देहपातपर्यंत उपासना करे ‘तत्रापि’ नाम मरणकालमेंभी “स यावत् ऋतुः अस्मात् लोकात् प्रैति” जा श्रुतिमें ध्येयाकार वृत्तिके प्रवाहका ‘दृष्टं’ नाम अंगीकार किया है; यातें अहंमह उपासना जहांपर्यंत जीवे तहां पर्यंत करे; जहांपर्यंत इस लोकसे उपासक गमन नहीं करे तहांपर्यंत ‘ऋतु’ नाम उपासना करे. यह श्रुतिका अक्षरार्थ है. इति ॥ ?? ॥

अव०—ब्रह्मविद्या उपजेमें ब्रह्मवेत्ताके भावी पापके असंबन्धसे पूर्वपापका विनाश होये है ? वा नहीं ? जा संशयसे कहे हैं—

तदधिगम उत्तरपूर्वाद्ययोरश्लेषविनाशौ तद्यपदेशात् ॥ १३ ॥

तदधिगमे । उत्तरपूर्वाद्ययोः । अश्लेषविनाशौ ।
तत् व्यपदेशात् । इति प० ॥

अर्थ—‘तदधिगमे’ नाम ब्रह्मसाक्षात्कारं हुयेसँ ज्ञान उत्तरपापसँ ‘अश्लेष’ नाम असंबन्धसे और ज्ञानसे पूर्वपापका विनाश होवे है. ‘तत् व्यपदेशात्’ नाम उक्त अर्थही छान्दोग्यके चौथे प्रपाठकगत श्रुतिमें कहा है. तथाहि— “यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्ते एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यते” यह श्रुति उत्तरपापका असम्बन्ध दिखावे है. श्रुतिअर्थ—यथा ‘पुष्करपलाश’ नाम कमलपत्रमें ‘आप’ नाम जल ‘न श्लिष्यन्ते’ नाम सम्बन्ध नहीं पावे; ‘एवं’ नाम तथा “एवंविदि” नाम आत्मवेत्तामें पापकर्मसंबन्ध नहीं पावे है. इति । छान्दोग्यके पंचम प्रपाठकगत “यथा इषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयते एवं ह अस्य सर्वं पाप्मनः प्रदूयन्ते” यह श्रुति पूर्वपापका विनाश कहैहै. अर्थ—यथा ‘इषीकातूल’ नाम रूई विशेष अग्निमें पड़नेसँ दाह होवेहै; तथा इस आत्मवेत्ताके सर्व पाप दाह होवेहैं. इति “भिद्यते हृदयग्रन्थि शिष्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे” यह मुंडकगत श्रुति निर्गुणब्रह्मवेत्ताके पापका नाश दिखावेहै; यातँ ब्रह्मविद्यावान्सँ पूर्वउत्तरपापका सम्बन्ध होवे नहीं. इति ॥ १३ ॥

अव०—पूर्व ब्रह्मवेत्ताके पापका असंबन्ध और नाश कहा है तथा पुण्यकाभी असम्बन्ध और नाश होवे है ? वा नहीं ? जा संशयकी निवृत्ति करे हँ—

इतरस्याप्येवमश्लेषः पाते तु ॥ १४ ॥

इतरस्य । अपि । एवं । अश्लेषः । पाते । तु । इति प० ।

अर्थ—‘इतरस्य अपि’ नाम पापसँ भिन्न जो पुण्य तिसकाभी ‘एवं’ नाम पापवत् असम्बन्ध और विनाश होवे है. “अतः पापं अकरवं इति अतः कल्याणं अकरवं इति उभे उ हैवैप एते तरति नैनं कृताकृते तपतः” जा बृहदारण्यकके षष्ठअध्यायगत श्रुतिमें पापके ‘असम्बन्धवत्’ धर्मकाभी असम्बन्ध कहा है; ब्रह्मवेत्ताके बंधहेतुरूप पुण्यपापका नाश हुयेसँ

‘पाते’ नाम देहपातके अनंतर मुक्ति अवश्य होवे है. ‘तु’ पद निश्चयार्थक है. इति ॥ १४ ॥

अव०—पूर्वज्ञानसँ कर्मनका नाश कहा है सो ज्ञानजन्य नाश सर्व कर्मोंका होवे है? वा प्रारब्धसँ भिन्न कर्मोंका होवे है? जा संदेहसँ कहे हैं—

अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः ॥ १५ ॥

अनारब्धकार्ये । एव । तु । पूर्वे । तदवधेः । इति प० ।

अर्थ—जे धर्माधर्म इस देहमें सुखदुःखके अनुभवार्थ प्रवृत्त हुये हैं तिनको आरब्धकार्य कहे हैं, तिनसँ भिन्न कर्मोंको अनारब्ध कार्य कहे हैं; ते अनारब्धकार्यरूप ‘पूर्वे’ नाम ज्ञान उत्पत्तिपर्यंत संचितरूप पूर्वके विनाश होवे हैं. “तस्य तावत् एव चिरं यावत् न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये” जा छांदोग्यश्रुतिमें ‘तत् अवधेः’ नाम देहपातकी अवधि सुनी है यातें संचितका नाश अंगीकृत है. और “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि” जा श्रुतिमें जो कर्मपद है सोभी संचितकर्मोंका बोधक है; यातें विरोध नहीं. इति ॥ १५ ॥

अव०—पूर्व प्रारब्धसँ इतर कर्मोंका ज्ञानसँ नाश कहा है तैसे नित्यनिमित्तरूप सर्व कर्मनका नाश होवे है? वा नहीं? जा संशयकी निवृत्ति करे हैं—

अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात् ॥ १६ ॥

अग्निहोत्रादि । तु । तत्कार्याय । एव । तद्दर्शनात् । इति प० ।

अर्थ—अग्निहोत्रादिरूप जे निमित्तनैमित्तिक कर्म ‘तत्’ नाम ते कर्म ‘कार्याय’ नाम ज्ञानका कार्य जो मुक्ति तत्अर्थ हैं; अग्निहोत्रादिकोंमें ‘तत्’ नाम ज्ञानकारणत्व ‘यजेन’ इत्यादिक श्रुतिमें ‘दर्शनात्’ नाम देखा है यातें ज्ञानरूप फलसँ नित्यनैमित्तिक सर्व कर्मनका नाश संभवे है. इति ॥ १६ ॥

अव०—ननु नित्यादिककर्मोंको ज्ञानके साधन माननेसँ “तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्वां द्विपन्तः पापकृत्वां” जा वाक्यसँ विरोध होवेगा. जा शंकाका उत्तर कहे हैं:—

अतोऽन्यापि ह्येकेषामुभयोः ॥ १७ ॥

अतः । अन्या । अपि । हि । एकेषाम् । उभयोः । इति प० ।

अर्थ—‘अतः’ नाम अग्निहोत्रादिक नित्यादि कर्मनसँ ‘अन्या अपि’ नाम काम्यरूप कर्म भिन्न हैं तिनका बोधक उक्तश्रुतिवाक्य है यद् ‘एके’

नाम कोई आचार्य माने हैं. काम्यकर्म ज्ञानके साधन नहीं; यह अर्थ 'उ-भयोः' नाम जैमिनि और वादरायणाचार्यको अंगीकार है. श्रुतिका यह तात्पर्य है कि—ब्रह्मवेत्ताकी जो सेवा करे है तिस सुहृदमें ब्रह्मवेत्ताका धर्म स्वसमान धर्मको उपजावे है; तिसका ज्ञानसे नाश होवे है यह अर्थ अंगीकृत है; यातें विरोध नहीं. इति ॥ १७ ॥

अव०—पूर्व जे ज्ञानके साधन नित्यादिक कहे हैं ते उपासनासहित किये चाहिये ? वा तत्ररहित किये चाहिये ? जा संशयका परिहार करे हैं—

यदेव विद्ययेति हि ॥ १८ ॥

यत् । एव । विद्यया । इति । हि । इति प० ।

अर्थ—“यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति” इस श्रुतिका 'यदेव विद्यया' जा सूत्रपदसे ग्रहण है. श्रुतिमें विद्यासहित कर्मनको अतिबलवान् कहा है; यातें केवलकर्मको फलहेतुत्वरूप वीर्यबल सिद्ध होवे है; यातें विद्याविना केवल कर्मभी ज्ञानका हेतु है, विद्यासहितका नियम अंगीकार नहीं. इति ॥ १८ ॥

अव०—ब्रह्मवेत्ता देहपातके अनंतरभी संसारको प्राप्त होवे है ? वा नहीं ? जा संदेहका परिहार करे हैं—

भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ॥ १९ ॥

भोगेन । तु । इतरे । क्षपयित्वा । सम्पद्यते । इति प० ।

अर्थ—संचित कर्मनका नाश पूर्व कहा है तिनसे 'इतर' नाम भिन्न जे प्रारब्धरूप धर्माधर्म तिनको 'भोगेन' नाम भोगकर 'क्षपयित्वा' नाम नाशकरके ब्रह्मवेत्ता 'सम्पद्यते' नाम ब्रह्मरूप होवे है अर्थात् विदेह-मुक्त होवे है. “ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्स्येति” इत्यादिक श्रुतिसे उक्त अर्थही निश्चित है. पूर्वप्रारब्धकर्म विद्यमान था यातें कुलालचक्रवत् मिथ्याज्ञानरूप निमित्तके नाश हुयेभी अविद्यालेशानुवृत्ति युक्ति है प्रारब्ध-भोगसे अनंतर जन्ममरणरूप संसारका कारण कर्म कोई रहा नहीं; यातें भोगसे प्रारब्धकर्मनाशके अनंतर ब्रह्मवेत्ता स्वरूपानंदरूप अवस्थानलक्षण मोक्षको प्राप्त होवे है. इति सिद्धम् ॥ १९ ॥

इति शारीरकसूत्रभाष्यप्रकाशिकाभाषाटीकायां चतुर्थाध्यायस्य
प्रथमः पादः समाप्तः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयपादप्रारंभः ।

इसपादमें निर्गुणब्रह्मवेत्ता विना सर्व जीवोंकी उत्क्रांतिका विचार करे हैं। इस पादके एकविंशति सूत्र हैं, तिनमें एकादश अधिकरण हैं, और दश गुण हैं।

तथाहि—

संख्या ।	अधिकरण ।	गुण ।	प्रसंग ।
१	अ०	+	मनमें वाक्लयविधान
२	+	गु०	नेत्रादिलय
३	अ०	+	मनका प्राणमें लय
४	अ०	+	प्राण जीवमें लय
५	+	गु०	प्रा०
६	+	गु०	प्रा०
७	अ०	+	उत्क्रांतिविचार
८	अ०	+	अत्यंतलयनिषेध
९	+	गु०	सूक्ष्मविचार
१०	+	गु०	सू०
११	+	गु०	सू०
१२	अ०	+	पूर्वपक्ष
१३	+	गु०	आत्मवेत्तागमननि०
१४	+	गु०	आ०
१५	अ०	+	ब्रह्ममें कलालय
१६	अ०	+	अत्यंतल०
१७	अ०	+	उपासकगमन
१८	अ०	+	रदिमअनुसार गमन
१९	+	गु०	२०
२०	अ०	+	दक्षिणोमफलप्राप्ति
२१	+	गु०	श्रौतस्मार्तमार्गवि०
	११	१०	इति.

तहां यह प्रथम सूत्र है—

वाङ्मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च ॥ १ ॥

वाक् । मनसि । दर्शनात् । शब्दात् । च । इति प० ।

अर्थ—“अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते, मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्” यह श्रुति विषयवाक्य है. अर्थ— हे सोम्य ! इस मियमाण पुरुषकी वाक्इंद्रिय मनमें लय होवे है, मन प्राणमें, प्राण तेजमें तेज परदेवतामें लय होवे है. इति । तहां वृत्तिवान् वाक्इंद्रियका मनमें लय होवे है ? वा वाक्की वृत्तिका लय होवे है ? जा संदेहसँ कहे हैं— ‘उक्तिर्वाक्’ जाविध व्युत्पत्तिसँ ‘वाक्’ शब्दसँ वाक्की वृत्तिका ग्रहण है मनकी वृत्ति विद्यमान होतेही ‘मनसि’ नाम मनमें ‘वाक्’ नाम वाक्वृत्तिका लय होवे है. लोकमें मनके होतेही वाक्वृत्तिका लय ‘दर्शनात्’ नाम देखा है. और वृत्ति वृत्तिवान्का अभेद होवे है; यातँ ‘शब्दात्’ नाम ‘वाङ्मनसि’ जा श्रुतिसँभी वृत्तिका लय अंगीकृत है. यद्यपि स्वउपादानमें कार्यका लय होवे है, वाक्का मन उपादान नहीं; यातँ वाक्वृत्तिका मनमें लय संभवे नहीं; तथापि यथा अग्निवृत्तिका अनुपादानरूप जलमें लय होवे है तथा प्रसंगमेंभी संभवे है. इति ॥ १ ॥

अत एव च सर्वाण्यनु ॥ २ ॥

अतः । एव । च । सर्वाणि । अनु । इति प० ।

अर्थ—उपादानत्व अभाववान् मनमें धाणीकी वृत्तिका लय होवे है ‘अतः’ नाम लोकमें देखनेसँ और श्रुतिसँ सर्व नेत्रादिक इंद्रियांभी स्वअनुपदानरूप मनमें स्ववृत्तिमात्रसँ ‘अनु’ नाम वाक्लयसँ पीछे लीन होवे हैं, स्वरूपसँ नहीं. “तस्मात् उपशान्ततेजाः पुनर्भवं इन्द्रियैः मनसि सम्पद्यमानैः” जा श्रुति सर्व इंद्रियोंकी वृत्तिका लय मनमें दिखावे है. ‘तस्मात्’ नाम उत्क्रमणसँ पीछे उपशांतदेह उष्णतावान् पुनः जन्मको मनमें स्थित इंद्रियांसँ प्राप्त होवे है; यह श्रुतिअर्थ है. इति ॥ २ ॥

अब०—पूर्व श्रुतिमें मनका जो प्राणोंमें लय कहा है सो मनका स्वरूपसँ लय होवे है ? वा मनकी वृत्तिका लय होवे है ? जा संदेहकी निवृत्तिके अर्थ कहे हैं—

तन्मनः प्राणे उत्तरात् ॥ ३ ॥

तत् । मनः । प्राणे । उत्तरात् । इति प० ।

अर्थ—‘तत्’ नाम सर्व इंद्रियवृत्तिके लयका अधिकरण जो मन सो ‘प्राणे’ नाम प्राणविषे स्ववृत्तिलयसँ लय होवेहै, स्वरूपसँ नहीं; यह अर्थ ‘उत्तरात्’ नाम ‘मनःप्राणे’ जा उत्तरवाक्यसँ निश्चित है. सुषुप्तिमूर्च्छामें वृत्तिवान् प्राणविषे मनकी वृत्तिका लय देखा है; यातें वृत्तिलयहीका अंगीकार है. यद्यपि “अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्” जा श्रुतिमें प्राण व मनको जल भूमिका कार्य सुना है. जल भूमिका उपादान है यातें मनका स्वरूपसँ प्राणमें लय कहना संभवे है; तथापि जल भूमिके उपादान उपादेयमात्रसँ तिनके कार्यका उपादान उपादेयभाव संभवे नहीं. यथा हिमघटका उपादान उपादेयभाव नहीं. इति ॥ ३ ॥

अव०—“प्राणस्तेजसि” जा वाक्यमेंभी तेजमें प्राणकी वृत्तिका लय होवे है? वा जीवमें प्राणवृत्तिका लय होवे है? यह संशय है. पूर्वपक्षमें श्रुतिवल्सँ तेजमें लय मानेसँ यह उत्तरसूत्र है—

सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ॥

सः । अध्यक्षे । तदुपगमादिभ्यः । इति प० ।

अर्थ—‘सः’ नाम मनलय अधिकरणरूप प्राण ‘अध्यक्षे’ नाम कार्यकारणसंघातका स्वामी जो जीव तामें वृत्तिरहित हुआ लय होवे है. यथा राजाकी यात्रामें इच्छा हुयेसँ भृत्य ताके सन्मुख आवे हँ तथा इस आत्माको अंतकालमें प्राणसहित सर्व इंद्रियां सन्मुख प्राप्त होवे हँ. यह अर्थ उपगमहेतुसँ अंगीकृत है. तथाहि श्रुति—“आत्मानमन्तकाले सर्वे प्राणे अभिसमायन्ते” इति । आदिपदसँ “तं उत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामन्ति प्राणं अनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति” जा बृहदारण्यकके षष्ठाध्यायगत श्रुतिका ग्रहण है. यह श्रुति जीवका गमन हुये पीछे प्राणोंका गमन कहे हँ; यातें जीवमें प्राणवृत्तिका लय होवे है. इति ॥ ४ ॥

भूतेष्वतच्छ्रुतेः ॥ ५ ॥

भूतेषु । अतच्छ्रुतेः । इति प० ।

अर्थ—यद्यपि “प्राणस्तेजसि” जा श्रुति प्राणका तेजमें लय कहे हँ, जीवमें

नहीं; तथापि 'भूतेषु' नाम सूक्ष्मरूपसँ विद्यमान तेजसहित उत्तरदेहारंभक जे पंचभूतरूप उपाधि तत् उपहितत्वरूपसँ विद्यमान जो जीव तामँ प्राणवृत्तिका लय होवे है, यह 'अतः श्रुतेः' नाम 'प्राणस्तेजसि' जा श्रुतिका तात्पर्य है, यातँ प्राणका तेजमें लय होवे है, जा श्रुतिका विरोध नहीं. इति ॥ ५ ॥

अव०-ननु 'प्राणस्तेजसि' जा श्रुतिमें एक तेज सुना है; यातँ तेजसहित भूतनमें लयकथन संभवे नहीं, जा शंकाका उत्तर कहेहँ—

नैकस्मिन् दर्शयतो हि ॥ ६ ॥

न । एकस्मिन् । दर्शयतः । हि । इति प० ।

अर्थ—'एकस्मिन्' नाम एकतेजमें उत्क्रान्तिसमय जीव स्थित होवे नहीं. उत्तरदेह पंचभूतनका कार्य है, यातँ पंचभूतनमें स्थिति अवश्य माननी चाहिये. 'दर्शयतः' नाम श्रुति स्मृति उभय उक्त अर्थको दिखावें हँ. तथाहि—“स वाऽ-यमात्मा ब्रह्म । विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः पृथिवीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयः अतेजो मयः । काममयः अकाममयः । क्रोधमयः अक्रोधमयः । धर्ममयः अधर्ममयः । सर्वमयः । तत् यत् एतदिदंमयः अदोमयः” इति. श्रुतिका अर्थ—जे आत्माके उपाधिरूप बंधन हँ, जिन्होंकरके युक्त हुआ तद्रूपही होवे है; तिनको इकट्ठा कर इस श्रुतिमें कहा है. सो यह संसारी आत्मा ब्रह्मरूपही है, विज्ञान नाम बुद्धि तत् तादात्म्यसँ विज्ञानमय कहिये हँ, 'अदः' यह परोक्षवाची है, ग्रहणयोग्य कार्यसँ आनन्दमय अंगीकृत है, तत्तत् उपाधिसँ तत्तद्रूपताका अंगीकार है, इति. और “अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्थानां तु याः स्मृताः ॥ ताभिः सार्धमिदं सर्वं सम्भवत्यनुपूर्वशः” ॥ जा स्मृतिभी उक्त अर्थकी साधक है. इति ॥ ६ ॥

समाना चासृत्युपक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य ॥ ७ ॥

समाना । च । आसृत्युपक्रमात् । अमृतत्वम् । च ।

अनुपोष्य । इति प० ।

अर्थ—पूर्व जो उत्क्रान्ति कही है सो केवल अज्ञानीकोही होवे है? वा दहरादि सगुण उपासककोभी होवे है? जा संदेहको भंग करेहँ—'आसृति' नाम गम नानुकूल जो देवयानमार्ग तिससँ 'उपक्रमात्' नाम पूर्व जो उत्क्रान्ति सो

सगुण ब्रह्मवेत्ताकी और अब्रह्मवेत्ताकी 'समाना' नाम तुल्य होवेहै । "अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वाक् मनसि सम्पद्यते" इस श्रुतिमें पुरुषमात्र सुना है यातें सर्वकी उत्क्रान्ति समान होवेहै; यद्यपि सगुणविद्यामें 'अमृत-त्वम्' नाम मोक्ष सुना है यातें समानता संभवे नहीं, तथापि 'अनुपोष्य' नाम रागादिक क्लेशनको नहीं दाह करके जो यह ब्रह्मलोकप्राप्तिरूप अमृत है सो सापेक्ष है मुख्य मोक्षरूप नहीं यातें दोष नहीं, किन्तु उपासककी और अनु-पासककी उत्क्रान्ति समान होवेहै. इति ॥ ७ ॥

तदापीतेः संसारव्यपदेशात् ॥ ८ ॥

तत् । आपीतेः । संसारव्यपदेशात् । इति प० ।

अर्थ:-"तेजः परस्यां देवतायाम्" इस श्रुतिमें तेजपदसँ जीवस-हित, इंद्रियोंसहित, मन प्राणसहित, अपरभूतनसहित सूक्ष्मशरीरका ग्र-हण है सो परमात्तामें लय होवेहै. सो लय अत्यंत होवेहै? वा अनत्यंत हो-वेहै? जा संदेहसँ कहेहैं 'तत्' नाम प्राणादिसहित तेज अर्थात् सूक्ष्मशरीर 'आपीतेः' नाम मोक्षपर्यंत स्थित रहेहै । "योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीर-त्वाय देहिनः ॥ स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्मे यथाश्रुतम्" जा कठश्रुति-में संसार नाम जन्मको "व्यपदेशात्" नाम कथन किया है. मरणमात्रसँ मुक्ति होवे नहीं यातें सुषुप्तिवत् अनत्यंतिक लयका अंगीकार है, आत्यंतिकका नहीं. इति ॥ ८ ॥

अव०-सो शरीर अतिसूक्ष्म है यातें गमनकालमें प्रतीत होवे . नहीं, यह कहेहैं ।

सूक्ष्मं परिमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ ९ ॥

सूक्ष्मम् । परिमाणतः । च । तथा । उपलब्धेः । इति प० ।

अर्थ-पूर्व जो तेज कहा है सो परिमाणसँ और स्वरूपसँ नेत्रवत् सूक्ष्म है, तिसकी श्रुतिसँ तथा सूक्ष्मत्वरूपसँ 'उपलब्धेः' नाम प्रतीति होवेहै, यातें अनु-भूतरूपवान् सूक्ष्म होनेसँ नेत्रसमान प्रत्यक्ष होवे नहीं. इति ॥ ९ ॥

नोपमर्देनातः ॥ १० ॥

न । उपमर्देन । अतः । इति प० ।

अर्थ-'अतः' नाम स्वच्छ सूक्ष्म होनेसँ स्थूल देहके दाहच्छेदादि निमित्तसँ जो उपमर्द तासँ सूक्ष्मशरीरका उपमर्द होवे नहीं. इति ॥ १० ॥

अव०—सूक्ष्मदेहसद्भावमें अनुमान कहेहैं ।

अस्यैव चोपपत्तरेष उष्मा ॥ ११ ॥

अस्य । एव । च । उपपत्तेः । एषः । उष्मा । इति प० ।

अर्थ—स्थूलदेहमें एष नाम यह जो प्रसिद्ध उष्मा नाम उष्णता सो 'अस्य' नाम इस सूक्ष्मदेहका धर्म है। सूक्ष्म देह होवे तौ उष्णता होवेहै, नहीं होवे तौ नहीं होवे है, जा अन्यव्यतिरेकसँ तिसकाही धर्म 'उपपत्तेः' नाम वनेहै; यातँ सूक्ष्मशरीर स्थूलसँ भिन्न है। इति ॥ ११ ॥

प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात् ॥ १२ ॥

प्रतिषेधात् । इति । चेत् । न । शारीरात् । इति प० ।

अर्थ—निर्गुणब्रह्मवेत्ताकी उत्क्रान्ति होवेहै वा नहीं? जा संदेहसँ यह पूर्वपक्ष सिद्धांती करेहै । “अथ अकामयमानो योऽकामो निष्काम आसकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति” जा बृहदारण्यकके षष्ठाध्यायगत श्रुति परब्रह्मवेत्ताके शरीरसँ प्राण उत्क्रमणका 'प्रतिषेधात्' नाम निषेध करेहै, यातँ ब्रह्मवेत्ताका गमन नहीं होवेहै। श्रुतिअर्थ—वाह्य विषयकामनाका अभाव होवे जिसके सो अकाम कहिये, मानसीविषयकामनाशून्यत्वका निष्कामपदसँ ग्रहण है। प्राणस्वरूपानंदसँ तृप्तत्वका आसकामपदसँ ग्रहण है। तहां आत्मकाम यह हेतु है। तिसके प्राण गमन नहीं करेहैं, ब्रह्मरूप हुआही ब्रह्मको प्राप्त होवेहै। इति । 'इति चेत्' नाम उक्त शंका करे तौ संभवे नहीं। तथाहि—'शारीरात्' नाम जीवसँ उक्त श्रुति प्राणगमनका निषेध करेहै देहसँ निषेध नहीं करेहै। “न तस्मात् प्राणा उत्क्रामन्ति” जा माध्यंदिनिशाखागत श्रुति जीवसँ प्राणकी उत्क्रान्तिका निषेध करेहै, यातँ प्राणादिसहित परब्रह्मवेत्ता जीवकी उत्क्रान्ति होवेहै। इति ॥ १२ ॥

सिद्धांतसूत्र—

स्पष्टो ह्येकेषाम् ॥ १३ ॥

स्पष्टः । हि । एकेषाम् । इति प० ।

अर्थ—'एकेषाम्' नाम काण्वशाखामें परब्रह्मवेत्ताकी देहसँ प्राणगमनका निषेध स्पष्टही भान होवेहै। तथाहि—“यत्रायं पुरुषो त्रियते तत् अस्मात्

प्राणा उत्क्रामन्ति आहोस्वित् न" जा आर्तभागके प्रश्न कियेसँ याज्ञ-
वल्क्यने यह उत्तर कहा है । "न तस्मात् प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव सम-
वलीयन्ते" इति ॥ १३ ॥

स्मर्यते च ॥ १४ ॥

स्मर्यते । च । इति प० ।

अर्थ-महाभारतमें भी मार्ग और उत्क्रान्तिका निषेध स्मरण किया है. त-
थाहि-"सर्वभूतात्मभूतस्य सम्यग् भूतानि पश्यतः । देवापि मार्गं मु-
ह्यन्त्यपदस्य पदैपिणः" इति । अर्थ-स्वभिन्न प्राप्यद्रव्य ब्रह्मवित्ताके प्राप्य
देखनेकी इच्छावान् देवताभी ताके मार्गको जाने नहीं. इति । यातें ब्रह्मवेत्ताके
प्राण स्वस्वरूप ब्रह्ममें लय होवेहैं, गमन नहीं करेहैं. इति ॥ १४ ॥

अव०-ननु प्राणोंका पृथिवीआदिकोंमें लय सुना है यातें ब्रह्ममें लयक-
थन असंगत है. जा शंकाका उत्तर कहेहैं ।

तानि परे तथाह्याह ॥ १५ ॥

तानि । परे । तथाहि । आह । इति प० ।

अर्थ-"न तस्य प्राणाः" जा श्रुतिमें प्राणपदसँ लिंगशरीरका अंगीकार है. सो
भूमिआदिकोंमें लय होवेहैं? वा परब्रह्ममें लय होवेहैं? यह तहां संदेह है ।
"गताः कलाः पञ्चदशप्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु ॥ कर्माणि वि-
ज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकी भवन्ति" जा मुंडकश्रुति भूमि-
आदिकोंमें लय कहेहैं यातें ब्रह्ममें लय नहीं होवेहैं यह पूर्वपक्ष है. श्रुतिअर्थ-
दश इंद्रियां, एक मन, पंच प्राण यह षोडशकला अंगीकार हैं. तहां मन प्रा-
णको भूमिका कार्य मानके पंचदशका ग्रहण है. प्रतिष्ठापदमें तिनके उपादा-
नरूप भूतनका ग्रहण है. ते कला 'गताः' नाम स्वउपादानमें लय होवेहैं.
आर नेत्रादिकरणगत जे देवता ते आदित्यादिकोंमें लय होवेहैं. कर्म आर
विज्ञानमय आत्मा यह सर्व पर अव्यय अज अनृत अमय अनंत शिवरूप
ब्रह्ममें एकत्वको प्राप्त होवेहैं. इति । तहां यह सिद्धांत है. 'तानि' नाम उक्त
इंद्रियां सूक्ष्मदेहरूप 'परे' नाम परब्रह्ममें लीन होवेहैं. 'तथाहि' नाम परब्रह्ममें
लयको उत्तरश्रुति 'आह' नाम कहेहैं । "एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षो-
डश कलाः स पथेना नद्यः स्पन्दमानाः समुद्राद्यणाः समुद्रं प्रा-

प्यास्तं गच्छन्ति । भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते । ए-
वमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्याऽस्तं
गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽ-
मृतो भवति” जा प्रश्नश्रुति ब्रह्ममें लयका बोध करेहै, अर्थ—यथा अनेक
नदी समुद्रमें प्राप्त होकर लयभावको प्राप्त होवेहैं, नामरूपसँ रहित होवेहैं,
समुद्र तिनका नाम कहाजाय है, तथा परिपूर्ण प्रत्यग्रूप ब्रह्मवेत्ता जीवकी
यह कला पुरुषको प्राप्त होकर लयभावको प्राप्त होवेहै, नामरूपसँ रहित हो-
वेहै, पुरुष यह तिनकी संज्ञा होवेहै, सो यह कलारहित अमृतरूप है, इति ।
पूर्व मुंडकश्रुतिमें स्वउपादानमें लय कहा है और जा प्रश्नमें ब्रह्मविषे नाश
कहा है, स्वउपादानमें लीनहुई कला स्वउपादानसहित ब्रह्ममें विनाश हो-
वेहैं, यह श्रुति उभयका तात्पर्य है, इति ॥ १५ ॥

अविभागो वचनात् ॥ १६ ॥

अविभागः । वचनात् । इति प० ।

अर्थ—सो ब्रह्मवेत्ताकी कला अनत्यंतिक लय होवेहैं वा आत्यंतिक होवेहैं ?
जा संशयसँ कहेहैं, ब्रह्मवेत्ताकी कला ब्रह्ममें ‘अविभागः’ नाम आत्यंतिक
लय होवेहै, कलालयकथनसँ अनंतर । ‘वचनात्’ नाम “स एषोऽकलोऽमृतो
भवति” जा वचनमें ब्रह्मवेत्ताको कलारहित अमृतरूप कहा है यातें इस
वचनसँ कलावोंकी आत्यंतिक लय होवेहै, यह निश्चित है, इति ॥ १६ ॥

अव०—प्रसंगसँ परविद्याका विचार करके पुनः अपरविद्याका विचार करेंहैं ।

तदोकोऽग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासा-
मर्थ्यात्तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च हार्दा-
नुगृहीतः शताधिकया ॥ १७ ॥

तदोकोऽग्रज्वलनम् । तत्प्रकाशितद्वारः । विद्यासा-
मर्थ्यात् । तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगात् । च । हार्दानुगृहीतः ।
शताधिकया । इति प० ।

अर्थ—पूर्व सगुण ब्रह्मउपासककी और अनुपासककी उत्क्रांति कही है, तहां
उपासककी उत्क्रांतिमें कुछ विशेष कहेहैं, लीनवृत्तिवान् जे यागादिक त-

त्समूहवान् उत्क्रमणका कर्ता जो जीव सो तत्पदसँ मृहीत है. तिसका जो ओक नाम हृदयरूप स्थान सो तदोक कहियेहँ. तदोकका जो अग्र नाम मुख सो तदोकोग्र कहिये तिस अग्रमँ प्रथम ज्वलन होवेहँ. अर्थात् कर्मफल-नका ज्ञान होवेहँ. तत् नाम तिस ज्ञानकरके प्रकाशित होवँ द्वार जिसके सो तत्प्रकाशित द्वार कहिये । तथाहि बृहदारण्यकपष्ठ अध्यायमँ कहा है “ तस्य ह एतस्य हृदयस्याग्रं प्रयोतते तेन प्रयोतेन एष आत्मा निष्क्राम-ति चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः तं उत्क्रामन्तं प्राणोऽनृत्क्रामति ” इत्यादि । इसमँ यह संदेह है. यथा उपासनारहितके ग-मनद्वारका नियम नहीं तथा उपासकके द्वारका अनियम है वा नियम है ? इति । ‘चक्षुष्टो वा’ कहा है यातँ अनियम है जा पूर्व पक्षके हुयेसे यह सूत्रकार-का उत्तर है—दहरादि सगुण ब्रह्मउपासक “ विद्यासामर्थात् ” नाम उ-पासनाकी सामर्थ्यसँ मूर्द्धद्वारा निकले है; जो द्वारका नियम नहीं करेगे तो विद्यासँ उत्तमफलकी प्राप्ति नहीं होवेगी. ननु—द्वारके अनियमसँभी उत्तमफ-लप्राप्ति हो जा शंकाका उत्तर कहेहँ । ‘तच्छेषगल्यनुस्मृतियोगात् च’ यह मूल अक्षर हैं. तत् नाम सगुणविद्याका शेष नाम अंगरूप जो गति अर्थात् मूर्धन्य नाडीद्वारा जो मार्ग तिसका जो अनुस्मृति नाम ध्यान तिस-के योगात् नाम विधान किया है यातँ तिस मार्गसँ उपासकका गमन युक्त है. जो द्वारके अनियमसँ फलप्राप्ति मानेगे तो ध्यानविधि अनर्थक होवेगी, यातँ हार्द नाम हृदयमँ स्थित जो ब्रह्म तिसकरके अनुगृहीत नाम तत्भावको प्राप्त जो उपासक सो शतनाडीसँ अधिक जो मूर्धन्य नाडी तिसद्वारा गमन करेहँ. और अनुपासक तासँ भिन्न नाडियोंद्वारा गमन करेहँ. इति । सो मूर्ध-न्यनाडी सूर्यकी रश्मिसँ मिली है. इति ॥ १७ ॥

अव०—जो उपासक दिनमँ शरीर छोड़े सोई रश्मिअनुसारी गमन करेहँ ? वा रात्रिमँ मृत हुआ भी रश्मिअनुसारी गमन करेहँ ? जा संदेहसँ कहेहँ ।

रश्म्यनुसारी ॥ १८ ॥

रश्म्यनुसारी । इति प० ।

अर्थ—उपासक दिनमँ प्राण त्यागे वा निशामँ त्यागे सो रश्मिअनुसारीही ब्रह्मलोफमँ जावेहँ. इति ॥ १८ ॥

निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वा-
दर्शयति ॥ १९ ॥

निशि । न । इति । चेत् । न । सम्बन्धस्य । यावत् । देह-
भावित्वात् । दर्शयति । इति प० ।

अर्थ—दिनमें सूर्यरश्मिसें नाडीका सम्बन्ध होवे है. याँते दिनमृत उपासक रश्मिअनुसारी गमन करेहै. 'निशि' नाम रात्रिमें प्राण त्यागे तौ 'नेति' नाम रश्मिअनुसार गमन करे नहीं यह शंका करें तौ असंगत है. तथाहि—' सम्बन्ध-स्य ' नाम रश्मिसें जो नाडीसम्बन्ध सो यावत्देहभावी है अर्थात् जहांपर्यंत देह रहे तहांपर्यंत रहेहै याँते दिनमें वा निशामें मृत उपासक रश्मिअनुसारी गमन करेहै. इति ॥ १९ ॥

अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥ २० ॥

अतः । च । अयने । अपि । दक्षिणे । इति प० ।

अर्थ—दक्षिणायन 'पद्मासमें मृत हुयेसें उपासक उपासनाके फलको प्राप्त होवे है वा नहीं ? जा संदेहनिवृत्ति करें हैं—' अतः ' नाम कालके अनियम-सें ' दक्षिणे अयने ' नाम दक्षिणायनपद्मासमें मृत उपासक फलको प्राप्त होवे हैं. यद्यपि भीष्मने उत्तरायणमें शरीरत्याग कियाथा सो फलमें कोई दोष माने बिना संभवे नहीं तथापि भीष्मकी जो उत्तरायणमरणमें इच्छा थी सो, स्वइच्छासें मरणबोधनअर्थ थी फलअर्थ नहीं थी. इति ॥२०॥

अच०—ननु—भगवद्गीतामें कालविशेषका नियम किया है सो अनर्थक होवेगा जा शंकासें कहें हैं ।

योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्ते चैते ॥ २१ ॥

योगिनः । प्रति । च । स्मर्यते । स्मार्ते । च । एते । इति । प० ।

अर्थ—" योगिनः " नाम स्मृतिउक्त उपासनाके उपासकोंप्रति दिना-दिक कालविशेषका नियम ' स्मर्यते ' नाम गीतामें भगवानने कहा है. धृति-उक्त उपासनाके उपासकोंप्रति नहीं अकर्तव्य अनुभवरूप साद्वय और ब्रह्मा-र्पण बुद्धिसें कृत नित्याग्निहोत्रादिक कर्मरूप योग यह " एते " नाम उभे

‘स्मार्तं’ नाम स्मृतिउक्तं ह्यं श्रुतिउक्तं विद्यारूपं नह्यं. यार्तं जिस किस काल-
मेंभी मृत उपासक उपासनाके फलको अवश्य प्राप्त होवेहै. इति ॥ २१ ॥
इति शारीरकसूत्रभावप्रकाशिकाभाषाटीकायां चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादः
समाप्तः ॥

अथ तृतीयपादप्रारम्भः

इस पादके षोडश सूत्र हैं. तिनमें षट् अधिकरण वा दश गुण हैं. तथाहि:-

सङ्ख्या ।	अधिकरण ।	गुण ।	प्रसङ्ग ।
१	अ०	+	ब्रह्मलोकमार्गविचार
२	अ०	+	मार्गवि०
३	अ०	+	मार्गवि०
४	अ०	+	अतिवाहिकविचार
५	+	गु०	अ०
६	+	गु०	अ०
७	अ०	+	कार्यब्रह्मप्राप्ति
८	+	गु०	का०
९	+	गु०	का०
१०	+	गु०	का०
११	+	गु०	का०
१२	+	गु०	परप्राप्तिपूर्ववत्
१३	+	गु०	परप्राप्तव्य
१४	+	गु०	कार्यप्राप्ति
१५	अ०	+	प्रतीकभिन्नको ले जावेहै
१६	+	गु०	ब्रह्मप्राप्ति
	६	१०	

देवयानमार्ग निरूपणके अर्थ इस पादका आरंभ है. तहां ब्रह्मलो-
कप्राप्तिहेतुरूप मार्गमें श्रुतिवचनोंका विवाद है. कहूं नाडीसंबंध रश्मिरूप
मार्ग सुना है, कहूं अग्निआदिक मार्ग सुना है, कहूं विरला सुना है, ते मार्ग
परस्पर भिन्न हैं? वा अनेक विशेषणवान् एक मार्ग है? जा संदेह प्राप्त हुयेंसें
करेंहैं।

अर्चिरादिना तत्प्रथितेः ॥ १ ॥

अर्चिरादिना । तत्प्रथितेः । इति-प० ।

अर्थ—ब्रह्मलोकप्राप्तिकी इच्छायान् सर्व उपासक 'अर्चिरादिना' नाम अग्निआदिक एकही मार्गसँ गमन करँ हैं. 'तत्' नाम अर्चिरादि मार्गही पंचाग्निविद्यामँ सगुणउपासकोंका 'प्रथितेः' नाम प्रसिद्ध सुना है. प्रकरणके भेदसँ मार्गका भेद अंगीकार नहीं. सर्व मार्गद्वारा प्राप्तियोग्य ब्रह्मलोक एक है. यातँ सर्वश्रुतिमँ परस्परविशेषणयुक्त मार्ग एक प्रतीत होवेहै । यातँ ब्रह्मलोक-प्राप्तिका हेतुरूप मार्ग सर्वका एक है. इति ॥ १ ॥

वायुमब्दादविशेषविशेषाभ्याम् ॥ २ ॥

वायुम् । अब्दात् । अविशेषविशेषाभ्याम् । इति प० ।

अर्थ—“स एतं देवयानं पन्थानं आसाद्य अग्निलोकं आगच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकं” यह कौपीतकिमँ मार्ग कहा है. तिस तिस लोकको प्राप्त जो उपासक ताको तत्तत् लोकके स्वामी जे अग्निआदिक देवता ते लेजावे है यह श्रुतिका तात्पर्य है, छांदोग्यमँ यह कहा है—“न अर्चिषं अभिसम्भवन्ति अर्चिषोऽहरऽह आर्ष्यमाणपक्षं आर्ष्यमाणपक्षात् यान् पशुद्व इति मासान् तान् मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरात् आदित्यं इति” श्रुतिकाअर्थ—सो उपासक देवयानमार्गको प्राप्त होकर प्रथम अग्निलोकको प्राप्त होवेहै सो वायुलोकको सो वरुणलोकको सो इंद्रलोकको सो प्रजापतिलोकको सो ब्रह्मलोकको प्राप्त होवेहै. यह कौपीतकिका अर्थ है । ते उपासक 'अर्चिषं' नाम अग्निको प्राप्त होवेहै, तासँ दिनको दिनसँ शुक्लपक्षको तासँ उत्तरायण षट्मासको तासँ वरसको वरससँ आदित्यको प्राप्त होवेहै. यह छांदोग्यश्रुतिका अर्थ है । उक्त उभयश्रुतिनमँ अग्निलोक प्रथम ग्रहण किया है अग्निके पीछे कौपीतकिमँ वायुको सुना है छांदोग्यमँ सुना नहीं यातँ छांदोग्यमँ किसके पीछे वायुको मानना चाहिये यह तहाँ संदेह है ? कौपीतकिमँ अग्निके पीछे सुना है यातँ छांदोग्यमँभी अग्निके पीछे वायु मानना चाहिये यह पूर्वपक्ष है. तहाँ यह सिद्धांत है. 'अब्दात्' नाम वरसके पीछे आदित्यसँ पूर्व 'वायुं' नाम पत्रनको उपासक प्राप्त होवेहै “अविशेषविशेषाभ्याम्” यह तहाँ हेतु है. अविशेष

नाम कौपीतिकर्म वायु किसके पीछे हैं? किसके पूर्व हैं? यह विशेष प्रतीत होवे नहीं और बृहदारण्यकमें विशेषता प्रतीत होवेहै. तथाहि। “यदा वै पुरुषोऽस्मात् लोकात् प्रैति स वायुं आगच्छति तस्यै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊर्ध्वं आक्रामते स आदित्यं आगच्छति” इति। अर्थ—पुरुष नाम उपासक यदा जा देहसँ चले है तदा वायुको सो प्राप्त होवेहै तिस उपासकको ‘तत्र’ नाम स्वआत्माँ वायु ‘विजिहीते’ नाम छिद्र देवेहै; यथा रथचक्रका आकाश छिद्र है ‘तेन’ नाम वायुकरके दियेहुये छिद्रकरके ऊपरको जावे है, ऊपर आदित्यको प्राप्त होवेहै. इति। जा श्रुतिमें ‘तेन’ इस पदसँ आदित्यप्राप्तिका हेतु जो वायु ताको आदित्यसँ पूर्व सुना है. यह पूर्वत्व विशेष प्रतीत होवेहै. यातँ आदित्यप्राप्तिका हेतु जो वायु ताको आदित्यसँ पूर्व होनेकरके अग्निअनंतर वायुके पाठका बाध संभवे है. अत्र यह क्रम सिद्ध हुआ कि नाडीरश्मिप्रवेशअनंतर उपासकअग्निको प्राप्त होवेहै. तासँ दिन तासँ पक्ष तासँ पद्मास तासँ संवत्सरको प्राप्त होवेहै. यह छांदोग्यक्रम है. बृहदारण्यकमें संवत्सरअनंतर देवलोकमें प्रवेश करेहै तासँ वायु तासँ आदित्य तासँ चंद्र तासँ धिजलीलोकमें प्रवेश करेहै. इस क्रमके अनुसार सूत्रमें जो वायुपद है सो देवलोकका उपलक्षक है. बरससँ अनंतर देवलोक सहित वायुको उपासक प्राप्त होवेहै; यह सूत्रका तात्पर्य है. इति ॥ २ ॥

अच०—अग्निके अनंतर सुना जो वायु तिसका बरसके पीछे स्थान कहकर तहां कौपीतिकर्मही वायुसँ अनंतर सुने जे वरुणादिक तिनका अग्निआदिक मार्गमें स्थान करेहै।

तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात् ॥ ३ ॥

तडितः । अधि । वरुणः । सम्बन्धात् । इति प० ।

अर्थ—कौपीतिकर्माव्ययमें सुना जो वरुण तिसका अग्निआदि मार्गमें संबंध है या नहीं? जा संदेहके निषेधार्थ कहेंहै. ‘तडितः’ नाम विजलीके ‘अधि’ नाम ऊर्ध्व वरुणका संबंध है. जलोंका राजा जो वरुण ताका विद्युत्सँ ‘सम्बन्धात्’ नाम सम्बन्ध है. यातँ तडितके ऊर्ध्व वरुणका सम्बन्ध है वरुणसँ अनंतर इंद्रादिकोंका प्रवेश यथा कौपीतिकर्म कहा है तथाहि अंगीकार है ताका कोई बाधक नहीं. सर्गका मिलकरके यह क्रम सिद्ध हुआ—दिन, पक्ष, पद मास, सं-

वत्सर, देवलोक, वायु, आदित्य, चंद्र, तडित्, वरुण, इंद्रलोक, प्रजापतिलोकसँ ब्रह्मलोकको उपासक प्राप्त होवेहै. इति ॥ ३ ॥

अव०—क्रम कहकर स्वरूप कहें—

अतिवाहिकास्तल्लिङ्गात् ॥ ४ ॥

अतिवाहिकाः । तल्लिङ्गात् । इति प० ।

अर्थ—अग्निआदिक मार्गके चिह्न हैं? वा उपासकोंकी भोगभूमि हैं? वा उपासकोंको लेजानेवाले हैं? जा संदेहसँ कहे हैं—ते अग्निआदिक कार्यब्रह्मको प्राप्त करनेवाले अतिवाहिक नामलेजानेवाले हैं । “चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः । स एतान् ब्रह्म गमयति एष देवपथो ब्रह्मपथः” जा छांदोग्यके चतुर्थप्रपाठकगत श्रुतिमें विजलीलोकमें प्राप्त उपासकोंको “तल्लिङ्गात्” नाम अमानवपुरुषको लेजानेवाला सुना है. यथा अमानवपुरुष लेजानेवाला है तथा अग्निआदिकभी लेजानेवालेही माने चाहिये. गमनकालमें उपासकोंके इंद्रिय लीन हुये हैं. इंद्रियोंविना भोग होवे नहीं, यातें अग्निआदिक भोगभूमि विशेष नहीं यातें अग्निअभिमानी जो देवता तिसको प्राप्त होकर तासँ दिनअभिमानी देवताको प्राप्त होवेहै जाविध अंगीकार है. इति ॥ ४ ॥

उभयव्यामोहात्तत्सिद्धेः ॥ ५ ॥

उभयव्यामोहात् । तत्सिद्धेः । इति प० ।

अर्थ—जो अग्निआदिक अचेतनरूप होवें तो उपासकभी देहरहित है, इंद्रियां ताकी लीन हैं, यातें ‘उभय’ नाम उपासक अग्नि उभयको ‘व्यामोहात्’ नाम चेतनताररहित होनेसँ उपासकको कार्यब्रह्मप्राप्ति नहीं होवेगी. लोकमेंभी जो मूर्च्छित होवेहै ताको प्रयत्नवान् चेतनही लेजावें हैं, यातें प्रयत्नहीन चेतनको अपरचेतन प्रयत्नवान् लेजावें हैं जा युक्तिसहित “तत्पुरुषोऽमानवः” जा एकीकरणकरके उक्तलिंगसँ अग्निआदिक देवता ‘तत्सिद्धेः’ नाम अतिवाहिक सिद्ध होवेहैं, यातें ‘अमानववत्’ सर्वजग लेजानेवाले चेतन हैं. इति ॥ ५ ॥

वैद्युतेनैव ततस्तच्छ्रुतेः ॥ ६ ॥

वैद्युतेन । एव । ततः । तच्छ्रुतेः । इति । प० ।

अर्थ—अमानवपुरुष एक ब्रह्मलोकसें विजलीलोकमें आवेहै यातें ताकी संज्ञा वैद्युत है. तिस वैद्युतकरके 'ततः' नाम तिस विजलीलोकसें ऊर्ध्वको उपासक जावेहै. अर्थात् अमानव ब्रह्मलोकमें ले जावेहै. 'तच्छ्रुतेः' नाम उत्तरश्रुतिमें अमानवको लेजानेवाला सुना है. "आदित्यात् वैद्युतं तान् वैद्युतान् पुरुषोऽमानव एव ब्रह्मलोकान् गमयति तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावर्तो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः" जा बृहदारण्यकके अष्टम अध्यायगत श्रुतिमें अमानवको लेजानेवाला कहा है. अग्निसें लेकर विजलीपर्यंत अग्निआदिक लेजानेमें प्रधान हैं वरुणादिक प्रधान नहीं, यातें अग्निआदिक अतिवाहिक हैं. इति सिद्धम् ॥ ६ ॥

अच०—आगे फलको कहें हैं ।

कार्यं वादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ ॥

कार्यम् । वादरिः । अस्य । गत्युपपत्तेः । इति । प० ।

अर्थ—“स एतान् ब्रह्म गमयति” जा वाक्यमें यह संशय है कि अमानव पुरुष उपासकोंको लेजाकर निर्गुण ब्रह्मको प्राप्त करे है ? वा कार्यब्रह्मको प्राप्त करेहै ? इति । इसका परिहार करेहैं—अमानव उपासकोंको 'कार्यम्' नाम सगुण ब्रह्मकी प्राप्ति करेहै यह वादरिआचार्य मानेहैं. 'अस्य' नाम इस कार्यपरिच्छिन्न ब्रह्मकीही गति नाम प्राप्ति "उपपत्तेः" नाम संभवेहै; प्रत्यक्ष व्यापक परब्रह्मकी प्राप्ति संभवे नहीं. इति ॥ ७ ॥

विशेषितत्वाच्च ॥ ८ ॥

विशेषितत्वात् । च । इति । प० ।

अर्थ—“ब्रह्मलोकान् गमयति” जा श्रुतिमें गंतव्य ब्रह्मको 'ब्रह्मलोकान्' जा वचनसें विशेषित नाम विशेषणयुक्त किया है. सावयवको अवयवके भेदसें गंतव्य कहना संभवे है; परको गंतव्य कहना संभवे नहीं. इति ॥ ८ ॥

अच०—ननु नपुंसक ब्रह्मशब्द मुख्यताकरके परका वाचक है. यातें कार्यताको वाचक मानके अमानव ब्रह्मको प्राप्त करेहै यह कथन विरुद्ध है. जा शंकासें कहेंहैं.

सामीप्यात् तु तद्व्यपदेशः ॥ ९ ॥

सामीप्यात् । तु । तद्व्यपदेशः । इति । प० ।

अर्थ—‘तु’ पद पूर्वपक्षका निषेधक है. परही ब्रह्म सत्यकामत्वादि गुणयुक्त हुआ कार्यब्रह्म कहिये हैं, यातें कार्यको ‘सामीप्यात्’ नाम कारण परब्रह्मके नजीक होनेसँ मुख्यताकरके परब्रह्मवाचक ‘तत्’ नाम ब्रह्मपदका कार्य-ब्रह्ममें लक्षणवृत्तिसँ व्यपदेश नाम प्रयोग है यातें शंका संभवे नही, इति ॥९॥

कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात् ॥१०॥

कार्यात्यये । तदध्यक्षेण । सह । अतः । परम् । अभिधानात् ।

इति । प० ।

अर्थ—कार्य नाम ब्रह्मलोकके ‘अत्यये’ नाम विनाश हुयेसँ ‘तद-
ध्यक्षेण’ नाम ब्रह्मलोकस्वामी हिरण्यगर्भके सह नाम युक्त ‘अतः’ नाम
कार्यब्रह्मसँ पर निर्गुण ब्रह्मको उपासक प्राप्त होवेहै. यह अर्थ “अभिधा-
नात्” नाम “एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्त नावर्तते नाव-
र्तते” जा श्रुतिमें कहा है. इति ॥ १० ॥

स्मृतेश्च ॥ ११ ॥

स्मृतेः । च । इति । प० ।

अर्थ—“ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे ॥ परस्यान्ते कृता-
त्मानः प्रविशन्ति परं पदम्” यह स्मृतिभी ब्रह्मलोकमें प्राप्तोंकी क्रम-
मुक्ति दिखावे है, यातेंभी अनावृत्तिबोधक श्रुतिसँ अपुनरावृत्तिके विधानसँ
कार्यब्रह्मको प्राप्तकी पुनरावृत्ति होवेनहीं । स्मृतिकाअर्थ—‘प्रतिसञ्चरे’ नाम
प्रलयकालमें ते नाम उपासक पर हिरण्यगर्भसहित ताके अंतमें पर शुद्धपदको
प्राप्त होवेहै. इति । यातें कार्य ब्रह्मप्राप्तिअर्थ अग्निआदि मार्ग है, प्रत्यग्रूप
परब्रह्मकी प्राप्तिअर्थ नही. इति ॥ ११ ॥

पूर्वपक्ष—

परं जैमिनिमुख्यत्वात् ॥ १२ ॥

परम् । जैमिनिः । मुख्यत्वात् । इति । प० ।

अर्थ—नपुंसक जो ब्रह्मपद सो परब्रह्मकाही मुख्यताकरके वाचक है यातें
अमानवपुरुष उपासकोंको ‘परम्’ नाम निर्गुणब्रह्मकी प्राप्ति करेहै. यह जै-
मिनिआचार्य मानेहैं. इति ॥ १२ ॥

दर्शनाच्च ॥ १३ ॥

दर्शनात् । च । इति । ५० ।

अर्थ—उपासकोंकी पुनरावृत्ति होवे नहीं। “शतं चैका च हृदयस्य नाढ्यः तासां मूर्धानं अभिनिःसृता एका तथा ऊर्ध्वं आयन् अमृतत्वमेति विष्वङ्गुज्ज्या उत्क्रमणे भवन्ति” जा कठश्रुतिमें मुक्तिको ‘दर्शनात्’ नाम गमनपूर्वक देखा है, यातें परही प्राप्ति योग्य है. इति । श्रुतिकार्य—एक अधिक शत हृदयकी नाडी हैं तिनके मध्यमें मूर्धाको फोड़कर एक निकली है तिसकरके ऊपरको गमन करता हुआ अमृतत्वको प्राप्त होवेहै. तिस नाडीसँ भिन्न जेती नाडी हैं ते अनुपासक जीवोंके गमनमें निमित्त हैं. इति ॥ १३ ॥

अच०—ननु मरणकालमें उपासकका कार्यब्रह्मप्राप्तिविषे संकल्प सुना है, यातें पर गंतव्य नहीं, जा शंकासँ कहेहैं—

न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिः ॥ १४ ॥

न । च । कार्ये । प्रतिपत्त्यभिसन्धिः । इति ५० ।

अर्थ—यह जो प्रतिपत्ति नाम प्राप्तिका अभिसंधि नाम संकल्प सो ‘कार्ये’ नाम कार्यब्रह्मविषयक नहीं किंतु परब्रह्मप्राप्तिविषयक है ‘ते यत् अन्तरा तद् ब्रह्म’ जा श्रुतिसें परही प्रसंगमें प्रतीत होवेहै. इति ॥ १४ ॥

उक्त त्रय सूत्र पूर्वपक्षका समाधान पूर्व सूत्रोंसें जानना चाहिये.

अप्रतीकालम्बनान्नयतीति वादरायण उभ-

यथाऽदोपात्तत्क्रतुश्च ॥ १५ ॥

अप्रतीकालम्बनान् । नयति । इति । वादरायणः । उभयथा ।

अदोपात् । तत्क्रतुः । च । इति ५० ।

अर्थ—अमानयपुरष सर्व उपासकोंको ब्रह्मलोकमें प्राप्त करेहै? वा प्रतीक उपासकोंसँ भिन्न उपासकोंको प्राप्त करेहै? जा संदेहकी निवृत्तिके अर्थ कहेहैं—अमानयपुरष ‘अप्रतीकालम्बनात्’ नाम प्रतीक उपासकोंसँ भिन्न उपासकोंको ‘नयति’ नाम ब्रह्मलोकमें ले जावेहै यह वादरायण आचार्य माने है. ब्रह्मलोकमें यद्यपि तृतीयाध्यायमें सर्व उपासकोंका अनियम अंगीकार किया है,

यातें पूर्वउत्तरविरोध है, तथापि 'उभयथा' नाम कोई उपासकोंको ले जावेहै कोई उपासकोंको नहीं लेजावेहै, जाविध दोप्रकार अंगीकार कियेसैं अदोप है. पूर्व जो अनियम किया है सो प्रतीक उपासकोंसैं भिन्न उपासकोंका है. कार्यब्रह्मविषयक जो उपासना सो 'ऋतु'पदसैं अंगीकृत है. सो उपासना होवे जिसके सो 'तत्ऋतु' कहिये हैं. तिसको कार्यब्रह्मकी प्राप्ति होवेहै. प्रतीक उपासनामें ब्रह्म प्रतीकका विशेषण है, यातें प्रतीककी प्राधान्यता होनेसैं तत् उपासकोंको ब्रह्मउपासक कहना संभवे नहीं और पंचाग्नि उपासकभी अब्रह्म-उपासक हैं. तौभी श्रुतिबलसैं तिनको ब्रह्मप्राप्ति होवेहै. इति ॥ १५ ॥

विशेषं च दर्शयति ॥ १६.॥

विशेषम् । च । दर्शयति । इति प०

अर्थ—छांदोग्यमें "नाम ब्रह्म इति उपासीत" यह कहकर आगे प्राणपर्यंत अनेक ब्रह्म कहेहैं—तहां नाम प्रतीक उपासनाके फलसैं उत्तर उत्तर वाक्यादिक उपासनाका 'विशेषम्' नाम अधिक फल श्रुति दिखावे है, यातें ब्रह्मउपासकोंकोही ब्रह्मकी प्राप्ति होवेहै; प्रतीक उपासकोंको नहीं. इति सिद्धम् १६

इति श्रीशारीरकसूत्रभावप्रकाशिकाभाषाटीकायां चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थपादप्रारंभः ॥

सगुणविद्याके फलको कहकर निर्गुणब्रह्मविद्याकरके प्राप्यको कहेहैं । इस पादके दो अधिक बीस सूत्र हैं. तिनमें सात अधिकरण हैं पंचदश गुणरूप हैं. तथाहि—

सङ्ख्या ।	अधिकरण ।	गुण ।	प्रसङ्ग ।
१	अ०	+	मुक्तिविचार
२	+	गु०	मु०
३	+	गु०	ज्योतिर्विचार
४	अ०	+	मुक्तब्रह्मरूप
५	अ०	+	मुक्तमें गुणविधान

६	+	गु०	तत् निषेध
७	+	गु०	उभय अंगीकार
८	अ०	+	संकल्पसै फल
९	+	गु०	सं०
१०	अ०	+	शरीरनिषेध
११	+	गु०	शरीरअंगीकार
१२	+	गु०	उभयविधान
१३	+	गु०	भोगविधान
१४	+	गु०	भो०
१५	अ०	+	अपरदेहप्रवेश
१६	+	गु०	शरीरअंगीकार
१७	अ०	+	ऐश्वर्यअंगीकार
१८	+	गु०	ऐ०
१९	+	गु०	जगद्ररचनानिषेध
२०	+	गु०	निर्गुणसिद्धि
२१	+	गु०	भोगतुल्यता
२२	+	गु०	अनावृत्तिविधानः
	७	१५	

इस पादका यह प्रथम सूत्र है ।

सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात् ॥ १ ॥

सम्पद्य । आंविर्भावः । स्वेन । शब्दात् । इति प० ।

अर्थ—“एष सम्पत्सादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरूप-
सम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते” यह उांदोग्यमै मुना है, श्रुतिका अर्थ
पूर्ण कर दिया है, इति । यथा धर्मकर्ता, पुरुष अपरस्वरूप रूप फलको प्राप्त होवे है,
तथा निर्गुणप्रेक्षाभी, अपर फलको धारण करे है ? वा केवल आत्मस्वरूपसै स्थित,
होवे है ? यह तहां संदेह है, ताकी निवृत्ति करे है, — ‘सम्पद्य’ नाम स्वप्रकाश

आत्माका साक्षात् अनुभव करके 'स्वेन' नाम तिसी आत्मस्वरूपमात्रसँ 'आ-
विर्भावः' नाम मुक्त अवस्थित होवेहै. 'स्वेन शब्दात्' यह तहां हेतु है.
"स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते" जा श्रुतिमें स्वशब्दका विधान किया है;
यातँ उक्त अर्थही अंगीकार है. इति ॥ १ ॥

अव०—स्वशब्दसँ पूर्व उत्तर स्वरूपमें जो विशेष सो कहेहैं ।

मुक्तः प्रतिज्ञानात् ॥ २ ॥

मुक्तः । प्रतिज्ञानात् । इति । प० ।

अर्थ—जो स्वरूपसँ अवस्थित होवेहै सो 'मुक्तः' नाम सर्व अनर्थरहित
स्वप्रकाश परमानंदस्वरूप है. और पूर्व अवस्थान्नयकरके अनर्थभागी था यह
पूर्वसँ विशेष है. 'प्रतिज्ञानात्' नाम सर्वदोपररहित आत्माकी तहां श्रुतिमें व्या-
ख्येयत्वरूपसँ प्रतिज्ञा करी है यातँ सर्व दोपररहित मुक्त स्थित होवेहै. इति ॥२॥

अव०—ननु ज्योतिकार्य विशेष है यातँ ताको जो प्राप्त हुआ है सो मुक्त
होवे नहीं जा शंकासँ कहेहैं—

आत्मप्रकरणात् ॥ ३ ॥

आत्मप्रकरणात् । इति प० ।

अर्थ—"परं ज्योतिरूपसम्पद्य" जा श्रुतिमें ज्योतिसे आत्माका अंगीकार
है. भौतिक ज्योतिका अंगीकार नहीं । "य आत्मा अपहतपाप्मा" जा श्रु-
तिमें तहांही आत्माका प्रकरण है यातँ ज्योति आत्मा है. इति ॥ ३ ॥

अविभागेन दृष्टत्वात् ॥ ४ ॥

अविभागेन । दृष्टत्वात् । इति प० ।

अर्थ—पूर्व जो मुक्त कहा है सो ब्रह्मसँ भिन्न स्थित होवेहै? वा अभिन्न
स्थित होवेहै? जा संशयका परिहार करेंहैं—मुक्त 'अविभागेन' नाम परमानं-
दरूप ब्रह्मस्वरूपसँ स्थित होवेहै. 'ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति । तत्त्वमसि' इ-
त्यादिक श्रुतिनमें अभेद 'दृष्टत्वात्' नाम देखा है. इति ॥ ४ ॥

ब्राह्मेण जैमिनिरूपन्यासादिभ्यः ॥ ५ ॥

ब्राह्मेण । जैमिनिः । उपन्यासादिभ्यः । इति प० ।

अर्थ—मुक्त सर्वाज्ञतादिधर्मसहित स्थित होवेहै? वा तत्पररहित स्थित होवेहै?

वा उभयरूपसँ स्थित होवेहै? जा संदेहसँ पूर्वपक्षमें यह अर्थ है. 'ब्राह्मेण' नाम ब्रह्मसंबंधी जे सर्वज्ञादिधर्म तिनसहित मुक्त पुरुष स्थित होवेहै यह जैमिनिआचार्य माने हँ. 'उपन्यासादिभ्यः' यह तहां हेतु है. आदिपदसँ विधि और व्यपदेशका ग्रहण है, उपन्यासपदसँ उपदेशका अंगीकार है. सो 'अन्वेष्टव्यः य आत्मा अपहतपाप्मा' इत्यादिरूप है। 'तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति' इत्यादि विधिका अंगीकार है. उपदेशविधिसँ विलक्षण व्यपदेशका अंगीकार है. सो । "सर्वज्ञः सर्वेश्वरः" इत्यादिरूप है. "ज्योतिरूपसम्पद्य" यह मुक्तबोधक वचन उपदेशविधि व्यपदेशरूप नहीं यातँ सर्वज्ञतादि प्रपंचसहित मुक्त स्थित होवेहै. इति ॥ ५ ॥

द्वितीय पूर्वपक्ष कहेहँ—

चित्ति तन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडलोमिः ॥ ६ ॥

चित्ति । तन्मात्रेण । तदात्मकत्वात् । इति । औडलोमिः । इति प० ।

अर्थ—जीवात्माको 'तदात्मकत्वात्' नाम चिदेकरस होनेसँ 'तन्मात्रेण' नाम चैतन्यमात्ररूपसँ स्थित जो मुक्त तिस 'चित्ति' नाम ब्रह्मरूप मुक्त-विषे यह सर्वज्ञ है इत्यादिक शब्दोंका अनर्थकही प्रयोग करेहँ. यह औडलोमि आचार्य माने हँ. सर्वज्ञतादिक धर्मनको भिन्न माने वा अभिन्न माने उभयप्रकारसँ मुक्तके धर्म कहिना संभवे नहीं. इति ॥ ६ ॥

उभयपूर्वपक्षका समाधान करेहँ—

एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावादविरोधं वादरायणः ॥ ७ ॥

एवम् । अपि । उपन्यासात् । पूर्वभावात् । अविरोधम् ।

वादरायणः । इति प० ।

अर्थ—'एवं' नाम पारमार्थिक चैतन्यमात्रस्वरूप अंगीकार कियेभी उपन्याससँ पूर्ण निश्चित जो ब्रह्मका व्यवहारक सर्वज्ञतादिवान् स्वरूप सो 'भावात्' विद्यमान है; यातँ मुक्तरूप ब्रह्मके सप्रपंच निष्प्रपंच उभयरूप माननेमेंही विरोधका अभाव है यह वादरायण आचार्य माने हँ. अर्थात् सर्वज्ञतादिक उपाधिके धर्म हँ, यातँ अविद्याकी निवृत्ति हुयेपर विदेहकवलय निष्प्रपंचही है. इति ॥ ७ ॥

अथ०—अपरविद्याका फल कहेहँ—

सङ्कल्पादेव तु तच्छ्रुतेः ॥ ८ ॥

सङ्कल्पात् । एव । तु । तच्छ्रुतेः । इति ५० ।

अर्थ—छांदोग्यके अष्टम प्रपाठकमें यह सुना है। “ स यदि पितृलोक-
कामो भवति सङ्कल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृ-
लोकेन सम्पन्नो महीयते ” इत्यादि विस्तारसँ कहकर खंडके अंतमें यह
कहा है। “ यं यं अन्तं अभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य
सङ्कल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते ” इति। अर्थ—सो उपा-
सक यदि पितृरूप लोककी कामनावान् होवेहै अर्थात् पितरोंसँ संबंधकी
इच्छावान् होवेहै, तदा संकल्पमात्रसँ पितर प्राप्त होवेहैं तिस पितृलोक भो-
गसँ ‘ सम्पन्न ’ नाम इष्टप्राप्तिद्वारा पूज्य होवेहैं। जिस जिस प्रदेशकी इच्छा-
वान् होवेहै सो संकल्पमात्रसँ ताको प्राप्त होवेहै तद्द्वारा पूज्य होवेहै, इति।
तहां यह संदेह है कि ब्रह्मलोकमें उपासकको भोगहेतु पित्रादिक संकल्पमात्रसँ
प्राप्त होवेहैं ? वा अपरप्रयत्नसहित संकल्पसँ प्राप्त होवेहैं ? इति। ताकी नि-
वृत्ति करहैं—‘ सङ्कल्पात् एव ’ नाम संकल्पमात्रसँही उपासकको पित्रादि-
क विभूतिप्राप्त होवेहै, ‘ तच्छ्रुतेः ’ नाम उक्त श्रुतिमें संकल्पमात्रसँ अप-
रसाधन बिना पित्रादिकोंकी प्राप्ति सुनी है यातें अपरसाधनकी अपेक्षा नहीं,
इति ॥ ८ ॥

अतएव चानन्याधिपतिः ॥ ९ ॥

अतः । एव । च । अनन्याधिपतिः । इति । ५० ।

अर्थ—‘ अतः एव ’ नाम सत्यसंकल्पसँही उपासक अनन्याधिपति होवेहै अ-
र्थात् ताका अपर कोई पति नहीं होवेहै, जो ताका अपर कोई पति होवेगा
तौ तत्तु अधीन भोग हुयेसँ संकल्पमात्रसँ भोगकथन असंगत होवेगा, यातें ई-
श्वरस्वरूप उपासकको संकल्पसँही सर्व ऐश्वर्य प्राप्त है, इति ॥ ९ ॥

अभावं वादरिराह ह्येवम् ॥ १० ॥

अभावम् । वादरिः । आह । हि । एवम् । इति । ५० ।

अर्थ—“ सङ्कल्पादेव ” जा श्रुतिसँ उपासकोंका मन है यह निश्चित है
परंतु शरीर इंद्रियां हैं वा नहीं ? जा संदेहसँ कहें हैं, यथा ‘ सङ्कल्पादेव ’

जा श्रुतिसँ अपरसाधनका अभाव निश्चय किया है तथा शरीर इंद्रियोंकाभी अभाव है यह वादरि आचार्य मानेहैं। मनसा एव एतान् कामान् प्रश्यन् रमते य एते ब्रह्मलोके ” जा श्रुति शरीरइंद्रियोंका ‘ एवम् ’ नाम अभाव ‘ आह ’ नाम कहेहैं, जो उपासकके शरीरादिक होवें तौ “ मनसा एव ” यह श्रुति अनर्थक होवेगी. इति ॥ १० ॥

भावं जैमिनिर्विकल्पामननात् ॥ ११ ॥

भावम् । जैमिनिः । विकल्पामननात् । इति ५० ।

अर्थ—यथा उपासकका मन है तथा शरीर इंद्रियका ‘ भावम् ’ नाम सद्भाव है यह जैमिनिआचार्य मानेहैं। “ स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा भवति सप्तधा भवति नवधा चैव पुनश्चैकादश स्मृतः शतं च दश चैकं च सहस्राणि च विंशतिः ” जा श्रुतिमें उपासकके अनेक प्रकाररूपका विकल्प ‘ आमननात् ’ नाम अंगीकार किया है. शरीरके भेदविना उक्त विकल्प संभवे नहीं, यातें शरीरादिक हैं. इति । श्रुतिअर्थ—सो विद्वान् सृष्टिसँ पूर्व एकरूप हुआही त्रिधादिभेदसँ अर्थात् तेज, अप, अक्ष, शब्द, स्पर्शादि अनंत भेदवान् होवेहैं. इति ॥ ११ ॥

द्वादशाहवदुभयविधं वादरायणोऽन्तः ॥ १२ ॥

द्वादशाहवत् । उभयविधम् । वादरायणः । अतः । इति । ५० ।

अर्थ—‘ मनसा एव ’ जा श्रुतिसँ और ‘ एकधा भवति ’ जा विकल्प श्रुतिसँ यदा शरीरादिकोंका संकल्प होवेहैं तदा शरीरादिकोंको उपासक धारण करेहैं. यदा संकल्प नहीं होवेहैं तदा धारण नहीं करेहैं. जा ‘ उभयविधम् ’ नाम दो प्रकारका उपासकका ऐश्वर्य है यह वादरायण आचार्य माने हैं. ‘ द्वादशाहवत् ’ यह तहां दृष्टांत है. द्वादशाहको सत्रत्व और तदभाव पूर्वमीमांसामें प्रसिद्ध है. इति ॥ १२ ॥

अच०—तनु शरीरादिके अभावकालमें भोग कैसे होवेगा? जा शंकासँ कहे हैं—

तन्वभावे सन्ध्यवदुपपद्यते ॥ १३ ॥

तन्वभावे । सन्ध्यवत् । उपपद्यते । इति ५० ।

अर्थ—तनु नाम इंद्रियोंसहित शरीरके ‘ अभावे ’ नाम अभावकालमें ‘ स-

‘ध्यवत्’ नाम यथा स्वप्नमें मानसविषयका भोग जाग्रद्भोगसँ विलक्षण होवेहै तथा उपासकको भोग होवेहै. “मनसा एव” यह श्रुति उक्तविध मानेही ‘उप-पद्यते’ नाम समीचीन होवेहै. इति ॥ १३ ॥

अव०—ननु देहादिकोंविना भोग मानेसँ शरीर मानना अनर्थ होवेगा? जा शंकासँ कहे हैं—

भावे जाग्रद्वत् ॥ १४ ॥

भावे । जाग्रद्वत् । इति प० ।

अर्थ—‘भावे’ नाम देहादिक होवें तौ ‘जाग्रद्वत्’ नाम जाग्रत्कालके स-मान भोग होवेहै, सो स्वप्नभोगसँ विलक्षण है. इति ॥ १४ ॥

अव०—ननु विकल्प श्रुतिके अनुसार अनेक शरीर माने हैं ते आत्मासँ रहित हैं. आत्माविना भोग होवे नहीं यातें शरीरोंका मानना अनर्थ है? जा शंकासँ कहेहैं—

प्रदीपवदावेशस्तथा हि दर्शयति ॥ १५ ॥

प्रदीपवत् । आवेशः । तथा । हि । दर्शयति । इति प० ।

अर्थ—नवीन शरीरोंमें आत्मा है वा नहीं? यह इसमें संदेह है । अनादि अंतःकरणकरके भोक्ता परिच्छेदवान् है, यातें ताका अपर शरीरोंमें प्रवेश संभवे नहीं यातें ते शरीर आत्मासँ रहित हैं. यह पूर्वपक्ष है. तहां यह उत्तर है. न-वीन देहादिकोंमें उपासकका आवेश नाम प्रवेश उपासनाकी सामर्थ्यसँ संभवे है. अनादि जो अंतःकरण है सो उपासकके प्रवेशमें प्रबंध नहीं करसक्ता. यथा एक प्रदीप अनेक वस्तियोंमें प्रवेश करेहै तथा उपासक नवीन अंतःकरणद्वारा सर्व शरीरोंमें प्रवेश करेहै. ‘एकधा’ यह श्रुति ‘तथाहि’ नाम तैसेही प्रवे-शको ‘दर्शयति’ नाम दिखावे है. इति ॥ १५ ॥

अव०—ननु उपासकको शरीरवान् कहिना युक्त नहीं । ‘तत्केन कं प-श्येत्’ इत्यादिक श्रुति विशेष विज्ञानका अभाव बोधन करेहै, जा शंकासँ कहेहैं—

स्वाप्यसम्पत्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि ॥ १६ ॥

स्वाप्यसम्पत्योः । अन्यतरापेक्षम् । आविष्कृतम् । हि । इति प० ।

अर्थ—विशेष विज्ञानका जो तहां प्रसंगमें अभाव मुना है, सो ‘स्वाप्य’

नाम सुपुसिकी और सम्पत्ति नाम मुक्तिकी 'अपेक्षम्' नाम अपेक्षासँ सुना है। यह उक्त अर्थ प्रकरणसँ 'आविष्कृतम्' नाम निश्चित है, यातँ उक्त श्रुति सगुणउपासकके शरीर अंगीकारमें बाधक नहीं। इति ॥ १६ ॥

जगद्व्यापारवर्ज प्रकरणादासन्निहितत्वाच्च ॥ १७ ॥

जगद्व्यापारवर्जम् । प्रकरणात् । आसन्निहितत्वात् ।

च । इति प० ।

अर्थ-पूर्व उपासकका जो ऐश्वर्य कहा है सो ईश्वरवत् निरंकुश है वा सांकुश है! यह तहां संशय है। उपासकका अपर कोई अधिपति नहीं यातँ ताका निरंकुश ऐश्वर्य है। यह पूर्वपक्ष है। इसका ईश्वरानात्व फल है, सिद्धांतमें एक ईश्वर फल है। यह सिद्धांत है। 'जगद्व्यापार' नाम जगत्की उत्पत्तिआदिकसँ 'वर्जम्' नाम बिना उपासकका अणिमादि ऐश्वर्य सांकुश है। जगद्रचनाव्यापार परमेश्वरका है, उपासकका नहीं। जहां जहां उत्पत्तिबोधक वाक्य हैं तहां तहां सर्व जगा 'प्रकरणात्' नाम परमेश्वरकाही प्रकरण है और 'आसन्निहितत्वात्' नाम तहां समीप उपासकका प्रसंग नहीं यातँ नित्य सिद्ध परमेश्वरकाही निरंकुश ऐश्वर्य है। जो ईश्वरकृपासँ प्राप्त हुआ है ताको निरंकुश कहना संभवे नहीं। इति ॥ १७ ॥

प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिमण्डलस्थोक्तेः १८

प्रत्यक्षोपदेशात् । इति । चेत् । न । अधिकारिकमण्डल-

स्थोक्तेः । इति प० ।

अर्थ-ननु 'आप्नोति स्वाराज्यम्' जा प्रत्यक्ष नाम श्रुतिसँ ऐश्वर्यका उपदेश किया है यातँ उपासकका ऐश्वर्य निरंकुश है। 'इति चेत्' नाम उक्त शंका करें तँ असंगत है। तथाहि-स्वस्वव्यापारमें जो सूर्यादिकोंको जोड़ें सो अधिकारिक अंगीकार है। अर्थात् परमात्माका ग्रहण है सो मंडलस्थ नाम सूर्यादिमंडलमें स्थित है तिसका। "आप्नोति मनसः पतिः" जा उत्तरवाक्यमें 'उक्तेः' नाम कथन है, यातँ उपासकका ऐश्वर्य सांकुश है। यह निश्चित है। इति ॥ १८ ॥

विकारावर्ति च तथाहि स्थितिमाह ॥ १९ ॥

विकारावर्ति । च । तथाहि । स्थितिम् । आह । इति प० ।

अर्थ—सगुण ब्रह्मस्वरूपमें विकारावार्ति नाम निर्गुणस्वरूपभी स्थित है. तथाहि “एतावानस्य महिमा” यह श्रुति सगुणको कहकर । “अतो ज्या-यांश्च पुरुषः” यह निर्गुणको कहेहै यातें उक्त श्रुतियां ब्रह्ममें सगुणत्व और निर्गुणत्वकी स्थितिको ‘आह’ नाम कहेहै. तात्पर्य यह है यथा सगुणमें स्थित निर्गुणस्वरूपको उपासक प्राप्त होवे नहीं तथा तद्गत जे जगद्रचना कर्तृत्वा-दिक धर्म तिनकोभी प्राप्त होवे नहीं. तिन धर्मनकी उपासना नहीं करी यातें तिनको प्राप्त होवे नहीं. इति ॥ १९ ॥

अव०—निर्गुणमें अपर प्रमाण कहेहैं—

दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने ॥ २० ॥

दर्शयतः । च । एवम् । प्रत्यक्षानुमाने । इति । प० ।

अर्थ—ब्रह्ममें निर्गुणत्वको प्रत्यक्ष नाम श्रुति अनुमान नाम स्मृति दिखावे हैं । ‘न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं’ यह श्रुति और ‘न तद्भास-यते सूर्यः’ यह स्मृति यह दोनों निर्गुणत्वबोधक हैं. ॥ २० ॥

भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च ॥ २१ ॥

भोगमात्रसाम्यलिङ्गात् । च । इति । प० ।

अर्थ—‘तमाहायो वै खलु मे लोको यं ते लोकोऽसौ’ इति । जा श्रुतिमें उपासकका भोगमात्र उपास्यके साम्य नाम तुल्य सुना है, जगत्च्या-पारमें तुल्यता नहीं सुनी यातें ‘लिङ्गात्’ नाम उक्त साम्यतारूप लिगसैं उपासकका ऐश्वर्य सातिशय प्रतीत होवेहै । ब्रह्मलोकमें ब्रह्मपर्यकगत उपा-सकको ब्रह्मा कहेहै यह जल प्रधान पंचीकृत पंचमहाभूत कार्यसहित हमारे हैं यातें जलमय अनेक कोटि योजन विस्तारवान् सर्व सुख भूमि यह प्रत्यक्ष सर्वद्रष्टा मम हिरण्यगर्भका निवासस्थान तुम्हाराभी हो. यह श्रुतिका तात्पर्य है. इति ॥ २१ ॥

अव०—ननु उपासकके ऐश्वर्य सांकुश मानसैं सो लौकिक ‘ऐश्वर्यवत्’ अनित्य सिद्ध होवेगा यातें उपासककी पुनरावृत्ति होवेगी. भगवान् सूत्र-कार कृपालु वादरायण जा शंकाका समाधान करेंहैं ।

अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् ॥ २२ ॥

अनावृत्तिः । शब्दात् । अनावृत्तिः । शब्दात् । इति । प० ।

अर्थ—जे अग्निआदिक मार्गसँ ब्रह्मलोकमें प्राप्तहुये हैं तिनकी अनावृत्ति नाम पुनरावृत्ति होवे नहीं; 'शब्दात्' नाम 'न च पुनरावृत्तिर्न च पुनरावृत्तिः' इत्यादिक शब्द तिनकी पुनरावृत्तिका निषेध करेंहैं यातें सो फिरकर आवे नहीं और जे निर्गुणब्रह्मके वेत्ता हैं तिनकी पुनरावृत्तिकी संकाही नहीं सगुणवेत्ताकी जो निर्गुणको आश्रय करकेही अनावृत्ति है तौ निर्गुणवेत्ताकी पुनरावृत्ति कैसे होवेगी, यातें ब्रह्मवेत्ता पुरुष अनर्थसँ रहित हुये परमानंद परिपूर्ण ब्रह्मस्वरूपसँ स्थित होवेहैं. सूत्रमें द्वितीय 'शब्दादनावृत्तिः' यह पद शास्त्रकी समाप्तिके अर्थ है. इति ॥ २२ ॥

इति श्रीशारीरकसूत्रभावप्रकाशिकाभाषाटीकायां चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥ श्रीरामाय नमो नमः ॥

पादसङ्ख्या ।	अधिकरण	• गुण	पादसूत्रसङ्ख्या.
१	११	२०	३१
२	७	२५	३२
३	१३	३०	४३
४	८	२०	२८
५	१३	२४	३७
६	८	३७	४५
७	१७	३६	५३
८	९	१३	२२
९	६	२१	२७
१०	८	३३	४१
११	३६	३०	६६
१२	१७	३५	५२
१३	१४	५	१९
१४	११	१०	२१
१५	६	१०	१६
१६	७	१५	२२

अध्यायसङ्ख्या ।	अ०	गु०	अध्यायसूत्रसङ्ख्या ।
१	३९	९४	१३३
२	४७	११०	१५७
३	६७	११९	१८६
४	३८	४०	७८
सर्वअधिकरण ।			सर्व सूत्रसङ्ख्या.
१९१			३६३
			५५४

दोहा-चारं खण्ड करि सूत्रकृत, कीन निरूपण जासु ॥
सूत्रकार तिस वंदना, वंदन पुनि पुनि तासु ॥ १ ॥
इति भिक्षुकता सूत्रभावार्थप्रकाशिका भाषाटीका समाप्ता ॥
श्रीरामचन्द्राय नमो नमः ॥

शुद्धिपत्र.

पत्र.	पंक्ति.	अशुद्ध.	शुद्ध.	पत्र.	पंक्ति.	अशुद्ध.	शुद्ध.
३	२	जन	जनं	६९	३०	सूचन	सूचन किया है
३	२९	मैत्रेय	मैत्रेयी	६६	१	+	तत् नाम शोकके
४	२४		जे				आद्रवणात् नाम
१०	८	न	त	६६	१	प्रवृत्ति	योगवृत्ति
१०	१५	मैत्रेय	मैत्रेयी	६६	२	योग	+
१२	५	नहीं	नहीं यह	७१	१५	विज्ञान	अविज्ञान
१४	७	तस्य	इति	७१	२७	प्रगट	प्रग्रह
१४	१४	नामे	नाम	८०	८	बालाकिने	बालाकिके
१५	२	वसता	भो	८०	१२	किससेँ है	किससेँ ऊँ है
१५	३	नभी	असुनाभी	८४	२०	प्रयत्नवान्	प्रयत्नका विषय
१८	१९	मेरेसे	मंत्रसे	९१	३	मृत्तिकादिको	मृत्तिकादि-
१९	१४	सो	जो				कोंको
२२	१	मतमें	मतमें जो	९२	२०	भोक्ताका	भोक्ताको
२९	२७	वृत्तिके	वृत्तिको	९७	६	निरवय	निरवयव
३१	२७	तासे	तामें	९९	२३	रसका	इसका
३२	१५	तिन	ते	१०१	१९	परत	परमत
४०	१०	बला	जला	११४	३	असंभव	अनुभव
४०	१९	अन्तर्यामीहै	परमात्मा अशरीर होनेके कारण अ- न्तर्यामी	११६	२	मी	है भी
				१२६	२	कृत्स्नं	कृष्णं
				१२६	३	कृत्स्न	कृष्ण
४१	२१	अर्थवा	अथर्वा	१३९	१	चापि दाश	चापिदास दाश
४२	१८	उत्तर	अक्षर	१३९	३	दाश	दासदाश
४४	२	नाच्च	नात्रे	१४२	२३	यज्ञ	पक्ष
४९	५	ओ	ओत	१४५	२१	प्रमाण	प्राण
४९	२४	मिथ्यापदसै	०	१४६	४	ग्रहण	ग्रह
६५	३०	तत् शोकके	शुद्ध	१४६	९	सतमें	सत
		आद्रवणात् नाम	शुद्ध	१५०	८	वृतं । वृतं	त्रिवृतं त्रिवृतं

पत्र.	पंक्ति.	अशुद्ध.	शुद्ध.	पत्र.	पंक्ति.	अशुद्ध.	शुद्ध
१६१	१	प्रपतरे	प्रयततरं	२००	१३	‘नहीं	ही
१६३	१४	तिसका	तिसने	२००	१९	लोकनक	लोकनको
१६८	२०	बोध	बाध	२००	२६	श्रुतिमें विद्या	श्रुतिमें जो विद्या
१६९	४	यामै तो	०	२००	२७	पूर्व	सोई पूर्व
१७०	१५	लोकमै	कालमें	२०१	२२	कर	करे
१७२	९	अर्थात्	अथातः	२०१	२४	वर्षसंन	वर्षसेन
१७२	२३	एकार्थ	एकमी	२२२	१४	कृत	कुरु
१७४	१३	रूप	रूपसै	२२४	१	तिरस्कारभाव	तिरस्काराभाव
१८१	९	शिव	शिर	२२७	२	उपासनाके	उपासनाका
१८३	७	अ०	पू०	२२७	२	यजनको	यजमानको
१८३	८	अ०	पू०	२२९	१०	बंध	प्रतिबंध
१८४	११	वतो	व्रतो	२२९	२६	मने	मन
१८५	६	सैं है	सैं संबन्ध है	२२९	२७	वहि	यहि
१८८	२४	या	याते	२३५	५	ज्ञान	ज्ञानसे
१९२	२५	वेद्याद्यर्थमेद्रात्	वेधाद्यर्थमेद्रात्	२३६	६	असंबन्धसे	असंबन्ध
१९२	२६	वेद्याद्यर्थमेद्रात्	वेधाद्यर्थमेद्रात्	२४८	२९	विरला	विरज
१९३	६	वेद्यादि	वेधादि	२४९	२५	पीछे सुना है	पीछे वायु सुना है
१९३	७	वेद्यादिक	वेधादिक	२५०	२८	दिन	अग्नि, दिन
१९७	१३	तदन्तरं	तदक्षरं				

वेदान्तग्रंथाः

योगवासिष्ठ संस्कृत सटीक	३०-०	२-८
आत्मबोध भाषाटीका	०-३	०-१
तत्त्वबोध भाषाटीका....	०-२	०-॥
रामगीता सान्त्वय भाषाटीका	०-८	०-२
रामगीता मूल	०-१	०-॥
शिवगीता सटीक	१-०	०-३
वेदान्तस्तोत्र भाग १ ला	०-२	०-॥
” भाग २ रा	०-२	०-॥
ज्ञानशुभ्रप्रकाश योगविद्याका अच्छा साधन....	०-१॥	०-॥
चर्पटपंजरीमूल	०-॥	०-॥
” भाषाटीका....	०-१	०-॥
न्यायप्रकाशभाषा (वेदान्त) स्वामीचिद्धनानन्दकृत	७-०	१-०
आत्मपुराण भाषा (वेदान्त) स्वामीचिद्धनानन्दकृत....	१२-०	१-१२
योगवासिष्ठ भाषा (वेदान्त) प्रकरण ६ योटे अक्षरका	१२-०	१-१२
बालबोध भाषा (वेदान्त) पं० पीताम्बरजीकृत	१-४	०-३
दशोपनिषदसार स्वामी अच्युतानन्दगिरिकृत भाषा	२-०	०-४
योगवासिष्ठ वैराग्य और मुमुक्षुप्रकरण बड़े अक्षरका	१-८	०-६
योगवासिष्ठ मध्यम अक्षर	०-१२	०-३
वृत्तिप्रभाकर (वेदान्त) स्वामी निश्चलदासकृतभाषा....	३-०	०-६
विचारसागर स्वामीनिश्चलदासकृत भाषा	१-८	०-४
वेदान्तसंग्रह	०-१॥	०-॥
वेदान्तसूत्र....	०-२	०-॥
सुन्दरविलास मूल टिप्पणीसहित	०-८	०-२
सुन्दरविलास विपर्यय अंगकी टीकासहित और ज्ञानस- मुद्र तथा सुन्दर काव्य साधु श्रीसुन्दरदासकृत	१-१२	०-४
एकादशस्कन्ध श्रीचतुरदासजीकृत भाषा	१-०	०-४
विचारचन्द्रोदय (वेदान्त) भाषा पं० पीताम्बरजीकृत	१-०	०-२
मणिरत्नमाला भाषाटीका	०-१	०-॥
तत्त्वानुसन्धान भाषा स्वामीचिद्धनानन्दकृत	२-०	०-६

विवेकचूडामणि श्रीशङ्कराचार्यकृत	०-४	०-१
शंकरदिग्विजय सटीक	४-०	०-८
श्रीशंकराचार्यकृत विज्ञाननौका भापाटीकोपेता	१-०	०-२
हरिमीडस्तोत्र सटीक	०-१०	०-२
श्रोटक सटीक	०-६	०-१
अपरोक्षानुभूति सटीक	०-६	०-१
वेदस्तुति सटीक (सान्ख्यभापाटीका)	०-८	०-१
पंचदशीमूल	१-०	०-२
द्वादशमहावाक्यविवरण	०-४	०-१
पंचदशी सटीक	२-०	०-४
शिवगीतामूल रेशमी गुटका	०-८	०-१
न्यायदर्शन भापाभाष्य	२-०	०-६
गणेशगीता गुटका रेशमी	०-६	०-२
गीता चिद्धनानंदस्वामीकृत गूढार्थदीपिका मूल अन्वय				
पदच्छेदसहित भापाटीका	७-०	१-०
शंकरानंदी गीता सटीक	६-०	०-६
अनुभूतिमकाश सटिप्पण	२-४	०-४
वैराग्यशतकभाषा हरदयालकृत	०-१०	०-२
श्रीबृहदारण्यकोपनिषत् शंकरभाष्यानुसार वेदान्तदी- पिकानामक भापाटीकासहित	१०-०	१-०
ईशाद्यष्टोपनिषद् भापाटीका	४-०	०-६
छांदोग्योपनिषद् भापाटीका	६-०	०-८
गीता श्रीधरीटीकासह	१-०	०-३
गीता मधुसूदनीटीकासह	४-०	०-६
श्रीमद्भगवद्गीतावाच्यार्थबोधिनीभापाटीका	१-४	०-४
गीता वडेअक्षरकी १६ पेजी मूळगुटका	१-०	०-२
” सुली १२ पेजी	०-१२	०-२
गीता गुटका छोटी	०-८	०-१

हरिप्रसाद भगीरथजी,
कालकादेवी रोड-रामवाड़ी, मुंबई.